

प्रकाशक—

श्रीमन्त सेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र,  
जैन-साहित्योद्धारक-फंड कार्यालय  
अमरावती ( बरार )



मुद्रक—

टी. एम्. पाटील  
मैनेजर  
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती.

THE  
**ṢAṬKHAṆḌĀGAMA**

OF

PUṢPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALĀ OF VĪRASENA

---

VOL. VI

**CHŪLIKĀ**

*Edited*

*with introduction, translation, indexes and notes*

*BY*

HIRALAL JAIN, M A, LL B.,

C P. Educational Service, King Edward College, Amraoti.

---

*ASSISTED BY*

Pandit Baichandra Siddhānta Shāstrī.

*With the cooperation of*

Pandit Devakinandan  
Siddhānta Shāstrī

\*

Dr A N Upadhye,  
M. A., D Litt.

*Published by*

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,

Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya.

AMRAOTI ( Berar ).


---

1943

Price rupees ten only.

---

*Published by—*  
**Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra,**  
Jaina Sāhitya Uddhāraka Fund Kāryālaya,  
**AMRAOTI (Berar).**



*Printed by—*  
**T M Patil, Manager,**  
Saraswati Printing Press,  
**AMRAOTI (Berar).**

# विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
प्राक् कथन	१	२	
१		मूल, अनुवाद और टिप्पण	
प्रस्तावना		१ प्रकृतिसमुत्कीर्तन चूलिका ....	१
Introduction	i-iii	२ स्थानसमुत्कीर्तन " ....	७९
१ शंका-समाधान .... . .	१	३ प्रथम महादण्डक ....	१३३
२ विषय-परिचय .... .	११	४ द्वितीय " . ....	१४०
३ विषय-सूची .... . .	३३	५ तृतीय " .. . ....	१४२
४ शुद्धि पत्र .... ....	४१	६ उत्कृष्टस्थिति चूलिका ... ..	१४५
		७ जघन्यस्थिति " ....	१८०
		८ सम्यक्त्वोत्पत्ति " .. . .	२०३
		९ गत्यागति " ....	४१८

३

## परिशिष्ट

१ सूत्रपाठ .... . . . .	१-३४	२ अवतरणगाथा-सूची ... ..	३४
प्रकृतिसमुत्कीर्तन सूत्रपाठ .... . . . .	१	३ न्यायोक्तिया .... . . . .	३५
स्थानसमुत्कीर्तन " .... . . . .	४	४ ग्रंथोल्लेख .... . . . .	३५
तीन महादण्डक " ... .. . . . .	१३	५ पारिभाषिक शब्दसूची .... . . . .	३६
उत्कृष्टस्थिति " .... . . . .	१५	६ विशेष टिप्पण .... . . . .	४६
जघन्यस्थिति " .... . . . .	१७		
सम्यक्त्वोत्पत्ति " .... . . . .	१९		
गत्यागति " .... . . . .	२०		





## पाठक कथन

पदखंडागमके पांचवे भागके प्रकाशित होनेके कोई डेढ़ वर्ष पश्चात् यह छठवां भाग पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है। एक तो चूलिका खंड ही अन्य सब भागोसे विस्तृत है; दूसरे इसकी सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिकाका विषय बहुत ही सूक्ष्म और कहीं कहीं तो दुरूह ही है जिसके संशोधन व अनुवादादि में विशेष परिश्रम, अवधान और समयकी आवश्यकता पड़ी; और तीसरे इस बीच अनेक असाधारण विघ्न-त्राधाएं उपस्थित हुईं जिनके कारण इस भागके प्रकाशित होनेमें पूर्व भागोंकी अपेक्षा कुछ अधिक समय लगा। फिर भी हम इसे पाठकोंके हाथों पहुंचानेमें समर्थ हुए, इसका हमें संतोष है।

जीवस्थान खंडका यह भाग चूलिकारूप है। फिर भी इसका विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें कर्मसिद्धान्तका परिपूर्ण निरूपण बड़ी उत्तमता और व्यवस्थाके साथ किया गया है जिसको संक्षेपमे समझनेके लिये प्रस्तावनाके अन्तर्गत विषय-परिचय व तत्सम्बन्धी तालिकाओंको एवं विषयसूचीको देखिये। हो सके तो फिर परिशिष्टमें दिये गये सूत्रपाठका पारायण कर जाइये। पारिभाषिक शब्दसूचीको भी देखिये जहा संभवतः आपको अनेक ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिनका आप अर्थ समझनेके लिये उत्सुक होकर अमुक पृष्ठको उलट कर देखेंगे। इसके पश्चात् यथावकाश क्रमशः आप ग्रंथका स्वाध्याय करके उसके रसका आस्वादन तो करेंगे ही।

इस भागके भीतर नौ चूलिकार्ये हैं—प्रकृतिसमुत्कीर्तन, स्थानसमुत्कीर्तन, तीन महा-दण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति। इनमें क्रमशः ४६, ११७, २, २, २, ४४, ४३, १६ और २४३ सूत्र पाये जाते हैं। इनकी टीकामें क्रमशः शंका-समाधान आये हैं। ध्वलाकारने अपनी टीका द्वारा सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिकाको विशेष रूपसे परिपुष्ट किया है। इस भागमे यथास्थान कुल ५१५ सूत्र, २६५ शंका-समाधान, ५५ विशेषार्थ और लगभग ८५० टिप्पण पाये जावेंगे। हर्षका विषय है कि इस भागके साथ छह खंडोंमेंसे प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति हो गई।

इस भागके प्रथम २८ फार्मोंका संशोधन, अनुवाद व मुद्रण पं. हीरालालजी शास्त्री की सहायतासे हुआ था। उसके पश्चात् गत जनवरी मासके अन्तमें अकस्मात् उनका इस व्यवस्थासे सम्बन्ध-विच्छेद होगया। अतएव शेष ग्रंथका सम्पादन पं. बालचन्द्रजी शास्त्री की सहायतासे हुआ है। शेष सब सहयोग व व्यवस्था पूर्ववत् चालू रही।

( २ )

प्राक् कथन

जिस वर्षसे इस ग्रंथका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है उसी वर्षसे महायुद्धके कारण मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है । फिर भी न जाने किस शक्तिके प्रभावसे यह कार्य गतिशील ही बना रहा है, और इस भागके साथ प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति कर अपनी दीर्घ यात्राकी एक बड़ी मंजिल पूरी कर चुका है । अब दूसरे खंड खुदाबन्धका कार्य चालू हो गया है । इस खंडको आगामी एक ही जिल्दमें समाप्त कर देनेका विचार है । उसके लिये कागज आदिका प्रबन्ध भी प्रायः हो चुका है । प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है, उसकी सफलता विधिविधानके आधीन है ।

किंग एडवर्ड कालेज,

अमरावती

११-१२-४३

}

हीरालाल जैन

प्रस्तावना





# INTRODUCTION

The present Volume contains the *Cūlika* of the first Khanda Jivatthāna. *Cūlika* means a supplement which contains matter that is connected with the main topics of the book, but which, for one reason or the other, was not or could not be included within the main sections of the book. There are nine such topics which are associated with the soul-positions, but which were not dealt with within the eight *prarūpanas*. They are as follows —

## 1 Prakriti samutkirtana

This Cūlikā enumerates the eight Karmas and their subdivisions which amount to 148. The Karmas are energies that are forged by the contact of the soul with matter under specified conditions, and their nature is to hinder or obstruct the manifestation of the soul's natural qualities. Soul, in its nature, is endowed with perfect knowledge which is obscured in varying degrees by the five different kinds of *Jnanavarṇiya karma*. Similarly the soul's natural insight into things is hindered by nine different varieties of the *Darsanavarṇiya Karma*. Soul by itself would be free from the feelings of pleasure or pain if there were not the two kinds of *Vedaniya karma* operating upon it. Delusion and defective conduct are the results of the three kinds of *Darsana Mohaniya* and the twenty five varieties of the *Caritra-Mohaniya* respectively. One is kept bound as a man or a beast, a hellish being or a god, by the four kinds of *Ayu karma* in whose absence the soul would be absolved of the migratory process. All the physical conditions in which one finds himself placed in the world, right from his personal make up down to his external environments, are the result of the working of no less than ninety three varieties of the *Nama karma*. One is placed high or low in society on account of the operation of the two kinds of *Gotra karma*, and one is hindered in the exercise of dispensation or acquisition as well as utility or enjoyment or expression of power by the force of the five kinds of *Antaraya*. These are the  $5 + 9 + 2 + 28 + 4 + 93 + 2 + 5 = 148$  Varieties of Karmas explained in the *Prakriti samutkirtana Cūlika*.

## 2 Sthana Samutkirtana Cūlika

Having understood the nature of the Karmas, it becomes necessary to know, out of the many varieties of each main Karma, how many would be contracted simultaneously and under what conditions. This is the topic of the second *Cūlika*. All the five *Jñānāvarṇiyas* may be forged by any body right up to the 10th spiritual stage when bondage stops. In the case of the *Darśanāvarṇiya*, all the nine may be forged during the first two spiritual stages and six or four as one progresses up. Both the *Vedaniyas* are contracted up to the 13th stage. Of the *Mohaniya*, one

binds 22, 21, 17, 13, 9, 5, 4, 3, 2 or 1 at different stages of spiritual advancement. Of the four Āyu karmas, only one may be bound at a time, while of the Nama Karma 31, 30, 29, 28, 26, 25, 23 or 1 are contracted simultaneously. The Low Gotra karma is forged during the first two spiritual stages, while the High one from the first up to the 10th stage. During the same stages all the five Antarāyas may also be forged.

### 3-5 The three Mahā-dāndakas

In the first Mahā dāndaka the Karmas are classified according as they are contracted or not contracted by a soul when it is about to attain Right Faith. The commentator has here explained in detail the stages by which bondage becomes less and less as one advances in purity towards the Right Faith.

The second Mahā-dāndaka enumerates those varieties of Karmas which a godly or hellish being, except the one in the seventh hell, may contract when about to acquire Right Faith

The Third Mahā-dāndaka enumerates the Karmas that a being in the seventh hell might bind on the point of acquiring *Samyaktva*

### 6 Utkristha Sthiti Culika

This *Culika* lays down the maximum period of time for which each karma once bound may subsist. It also deals with the corresponding period of time which must elapse after each bondage, before the same begins to bear its fruit. The maximum duration is to be found in the case of the Darśana Mohaniya which may last for 70 *kodā kodī sāgaropamas*. The maximum period of the Cāritra-mohaniya is 40, of Jñānāvariṇya, Darśanāvariṇya, Asātā Vedaniya and Antarāya 30, of Nica Gotra and a number of Nāma Karmas 20, and of the rest varying below twenty, till you come to a less than 1 *Kodākodī sāgaropama* in the case of Āhāra Sarira and Tirthakara, 33 *Sāgaropamas* in the case of hellish and heavenly existence and only 3 *Palyopamas* in the case of a man's or a beast's life. The period which must elapse before a Karma ripens up for fruition is calculated at the rate of one hundred years for each *Kodākodī sāgaropama*, except in the case of Āyu karma where it is determined by the period of life which remains unexhausted at the time when the duration of the next life is determined. ( For the measure of different periods of time, see Vol. 3, intro.p 33 )

### 7. Jaghanya Sthiti Culika

As the foregone Cūlikā deals with the maximum duration of the different Karmas, so the present Cūlikā deals with the minimum periods which vary from slightly less than one *Sagaropama* in the case of the *Darśana Mohaniya* to a few *Āvalikas* ( *Ksudra-bhava-grahaṇa* ) in the case of the shortest lived man or lower animal.

## 8 Samyaktvotpatti Culika

This *Culika* is so called because it describes how and by what steps Right Faith or the correct attitude of the mind is created. It is only when the burden of the Karmas is considerably lightened, firstly, by a gradual process of self-purification which may be almost unconscious, and lastly by a deliberate effort to improve the mind, that the whole layer of ignorance is transformed into three parts which may be called ignorance, semi-ignorance and enlightenment, and they are all laid at rest for a while and the true self reveals itself. When this happens for the first time, the purity is only temporary and the soul soon falls back into one of the three specified states. When a similar course of purification is attempted for a second time, it may be accompanied by right conduct with which the soul climbs considerably higher on the ladder of spiritual progress. And if the soul makes this start not merely with a process of allaying the Karmas (*aupaśamika samyaktva*), but of destroying them (*Ksāyika Samyaktva*) then there is no falling back at all, and one continues to advance in purity within this life and the life beyond, till perfection is reached and the shackles of worldly existence are cast aside once for all. These processes are described in the commentary with extraordinary details and mathematical precision.

## 9. Gati-agati Culika

The ninth *Cūlikā* is called *Gati-agati* because it deals chiefly with the migratory processes of the soul. As these are affected to a large extent by the presence or absence of the right attitude of the mind (*Samyaktva*), the work first deals with the sources through which right attitude is generated in the beings in hell or heaven, animal or man. These sources are four, namely, sight of the Jina image, listening to a righteous discourse, memory of the experiences of the past life and the present sufferings. These become available differently under different conditions of existence.

The next topic that is treated in this *Culika* is with what spiritual grades one may enter any particular state of existence or exit out of it. The one noteworthy feature of this topic is that a being with the right attitude of the mind will never enter any hell, lower than the first one, nor become a lower animal. The last topic in this *Cūlikā* is, being what one is in his present life, what virtues or status can he acquire in the next birth.

With this volume the first *Khaṇḍa Jivaṭṭhāna* (Soul-positions) comes to an end. The next Volume will present to us the Second *Khaṇḍa* called *Khudda Bandha* (Bondage in brief).

---



## शंका-समाधान

पुस्तक १, पृ. ७०

१. शंका—यहां षष्ठभक्त उपवासका अर्थ जो दो दिनका उपवास किया है वह किस प्रकार संभव है ? ( नानकचंदजी, खतौली )

समाधान—नियमानुसार दिनमें दो बार भोजनका विधान है । किन्तु उपवास धारण करनेके दिन दूसरी बारका भोजन त्याग दिया जाता है और आगे दो दिनके चार भोजन भी त्याग दिये जाते हैं । इस प्रकार चूंकि दो उपवासोंमें पांच भोजनवेलाओंको छोड़कर छठी वेलापर भोजन ग्रहण किया जाता है, अतएव षष्ठभक्तका अर्थ दो उपवास करना उचित ही है । उदाहरणार्थ, यदि अष्टमी व नवमीका उपवास करना है तो सप्तमीकी एक, अष्टमीकी दो और नवमीकी दो, इस प्रकार पांच भोजनवेलाओंको छोड़कर दशमीके दोपहरको छठी वेलापर पारणा की जायगी ।

पुस्तक १, पृ. १९२

२. शंका—यहां उद्धृत गाथा २५ के अनुवादमें योग पदका अर्थ तीनों योग किया है । परन्तु गोम्मटसार गाथा ६४ में उक्त पदका अर्थ केवल काययोग ही किया है । क्या केवलीके तीनों योग हो सकते हैं ? ( नानकचंदजी, खतौली )

समाधान—केवलीके तीनों योग होते हैं, इसीलिये उनका अन्तमें निरोध भी किया जाता है । गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६४ की जी. प्र. टीकामें योग पदसे सामान्यतया योग और मं. प्र, टीकामें मन, वचन व काय योगोंमें अन्यतम योग लिया गया है ।

पुस्तक १, पृ. १९६

३. शंका—यहां सम्पूर्ण भावकर्म और द्रव्यकर्मोंसे रहित होकर सर्वज्ञताको प्राप्त हुए जीवको आगमका व्याख्याता कहा है । क्या तेरहवें गुणस्थानमें सम्पूर्ण द्रव्यकर्म दूर हो जाते हैं ? ( नानकचंदजी, खतौली )

समाधान—सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित होनेका अभिप्राय चार घातिया कर्मोंसे रहित होनेका है, अघातियोंसे नहीं, क्योंकि, ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्म ही क्रमशः अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व सहित अविरति, और अदानशीलत्वादि दोषोंको उत्पन्न करते हैं जो कि आगमव्याख्याता होनेमें बाधक हैं । ( देखो आप्तमीमांसा १, ४-६ व विद्यानन्दिकी टीका अष्टसहस्री )

( २ )

पट्टखंडागमकी प्रस्तावना

पुस्तक १, पृ. ४०६

४. शंका—जब सौधर्म कल्पसे लेकर सर्गार्थसिद्धिपर्यन्त असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि तीनों ही पाये जाते हैं तब सूत्र १७० व १७१ के पृथक् रचनेका क्या कारण है ? ( नानकचढजी, खतौली )

समाधान—अनुदिश एवं अनुत्तरादि उपरिम विमानोंमें सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते है, मिथ्यादृष्टि नहीं, इस विशेषताके ज्ञापनार्थ ही दोनों सूत्रोंकी पृथक् रचना की गई प्रतीत होती है ।

पुस्तक २, पृ. ४८२

५. शंका—तिर्यच सयतासयतोमें क्षायिक सम्यक्त्वके न होनेका कारण यह बतलाया गया है कि “ वहापर जिन अर्थात् केवली या श्रुतकेवलीका अभाव है ” । किन्तु कर्मभूमिमें जहां संयतासंयत तिर्यच होते हैं वहां केवली व श्रुतकेवलीका अभाव कैसे माना जा सकता है, वहां तो जिन व केवली होते ही हैं ? ( नानकचढजी, खतौली )

समाधान—शंकाकारकी आपत्ति बहुत उचित है । विचार करनेसे अनुमान होता है कि धवलाके ‘ जिणाणमभावादो ’ पाठमें कुछ त्रुटि है । हमने अमरावतीकी हस्तलिखित प्रति पुनः देखी, किन्तु उसमें यही पाठ है । पर अनुमान होता है कि ‘ जिणाणमभावादो ’ के स्थानपर संभवतः ‘ जिणाणाभावादो ’ पाठ रहा है, जिसके अनुसार अर्थ यह होगा कि संयता-संयत तिर्यच दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण नहीं करते है, क्योंकि तिर्यचगतिमें दर्शनमोहके क्षपण होनेका जिन भगवान्का उपदेश नहीं पाया जाता । ( देखो गत्यागति चूलिका सूत्र १६४, पृ. ४७४-४७५ )

पुस्तक २, पृ. ५७६

६. शंका—यंत्र १९२ में योगके खानेमें जो अनु. संकेत लिखा गया है उससे क्या अभिप्राय है ? ( नानकचढजी, खतौली )

समाधान—अनु. से अभिप्राय अनुभयका है जिसका प्रकृतमें असत्यमृपा वचन योगसे तात्पर्य है ।

पुस्तक २, पृ. ६२९

७. शंका—पंक्ति १७ में जो सञ्ज्ञिक तथा असंज्ञिक इन दोनों विकल्पोंसे रहित स्थान बतलाया है, वह कौनसे गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है ? ( नानकचढजी, खतौली )

**समाधान** — वहां उक्त दोनों विकल्पोंसे रहित स्थानसे अभिप्राय सयोगी गुणस्थानसे है ।

**पुस्तक २, पृ. ७२३**

८ शंका—आभिनिबोधिक और श्रुतज्ञानियोंके आलापोंमें ज्ञान दो और दर्शन तीन कहे हैं, सो दो ज्ञानोंके साथ तीन दर्शनोंकी संगति कैसे बैठती है ? ( नानकचदजी खतौली )

**समाधान**—चूंकि छद्मस्थोंके ही मति-श्रुत ज्ञान होते हैं और ज्ञान होनेसे पूर्व दर्शन होता है, अतएव जिन मति-श्रुतज्ञानियोंके अवधिदर्शन उत्पन्न हो गया है किन्तु अवधिज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया, उनकी अपेक्षा उक्त दो ज्ञानोंके साथ तीन दर्शनोंकी संगति बैठ जाती है ।

**पुस्तक ४, पृ. १२६**

९. शंका—पुस्तक २, पृ. ५००, व ५३१ पर लब्ध्यपर्याप्तक तिर्यंच व मनुष्योंमें चक्षु और अचक्षु इन दोनों दर्शनोंका सद्भाव बतलाया है, किन्तु पुस्तक ४, पृष्ठ १२६, १२७ व ४५४ पर लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके चक्षुदर्शनका अभाव कहा है । इस विरोधका कारण क्या है ।

( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

**समाधान**—पुस्तक २ में लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सामान्य अलाप कहे गये हैं, अतएव वहा क्षयोपशम मात्रके सद्भावकी अपेक्षा दोनों दर्शनोंका कथन किया गया है । किन्तु पुस्तक ४ में दर्शनमार्गणाकी अपेक्षा क्षेत्र व कालकी प्ररूपणा करते हुए उक्त विषय आया है, अतएव वहां उपयोगकी खास विवक्षा है । लब्धि-अपर्याप्तकोंमें चक्षुदर्शन लब्धिरूपसे वर्तमान होते हुए भी उसका उपयोग न है और न होना संभव है, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होनेसे पूर्व ही उस जीवका मरण होना अवश्यंभावी है । यही बात स्वयं धवलकारने पुस्तक ४ के उक्त दोनों स्थलों पर स्पष्ट कर दी है कि लब्ध्यपर्याप्तक अवस्थामें क्षयोपशम लब्धि उपयोगकी अविनाभावी न होनेसे उसका वहा निषेध किया गया है ।

**पुस्तक ४, पृ. १५५-१५८ आदि**

१०. शंका—पुस्तक ३, पृ. ३३-३६ तथा पुस्तक ४, पृ. १५५-१५८ पर कथन है कि स्वयंभूरमण समुद्रके अन्तमे तिर्यंग्लोककी समाप्ति नहीं होती किन्तु असंख्यात द्वीप-समुद्रोंसे रुद्ध योजनोंसे संख्यात गुणे योजन आगे जाकर होती है । परन्तु पुस्तक ४, पृष्ठ १६८ पर कहा गया है कि स्वयंभूरमण समुद्रका विष्कंभ एक राजुके अर्ध प्रमाणसे कुछ अधिक है, तथा पृ. १९९ पर स्वयंभूरमणका क्षेत्रफल जगप्रतरका ८२वा भाग बताया गया है, जिससे विदित होता है कि राजुका अन्त स्वयंभूरमण समुद्रपर ही हुआ है । इस विरोधका समाधान क्या है ? ( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )



समाधान—भाग ३ पृ. ३६ पर धवलाकारने स्वयं उक्त दोनो मतोंपर विचार किया है जिससे यही प्रकट होता है कि उक्त विषयपर प्राचीन आचार्योंमें मतभेद रहा है जिसके कारण कितनी ही मान्यताएं एक मतपर और कितनी ही दूसरे मतपर अवलम्बित हुई पायी जाती हैं। धवलाकारने अपनी समन्वयबुद्धि द्वारा जहां जिस मतके अनुसार विषयकी संगति बैठती है वहां उसी मतका अवलम्बन लेकर विचार किया है। धवलाकारके अनुसार एक मत तिलोपपणत्तिसूत्रके आधारपर और दूसरा परिकर्मसूत्रपर अवलम्बित है। धवलाकारने परिकर्मसूत्रके शब्दोंकी तो प्रथम मतके साथ किसी प्रकार संगति बैठा दी है, पर उनका जो अर्थ दूसरे आचार्योंने किया है उसको उन्होंने केवल प्रकृतमें व्याख्यानाभास कह कर टाल दिया है।

### पुस्तक ५, पृ. ८

११. शंका—पल्योपमका असंख्यातवा भाग कितना समय है, वह मुहूर्त या अन्त-मुहूर्तसे कितना गुणा या अधिक है, एव उपशमसम्यग्दृष्टी जीव सासादनसे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर पुनः ठीक कितने कालमें फिर उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर सकता है ?

( हुक्मचद जैन,सलावा मेरठ )

समाधान—पल्योपमसे प्रकृतमें अद्वापल्यका ही अभिप्राय है जिसका प्रमाण भाग ३ द्रव्यप्रमाणकी प्रस्तावना पृ. ३५ पर बतलाया जा चुका है। तदनुसार पल्योपमका असंख्यातवा भाग मुहूर्त या अन्तमुहूर्तसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है। इससे अधिक स्पष्ट या निश्चित रूपसे उक्त प्रमाण न कहीं बतलाया गया और न छद्मस्थों द्वारा बतलाया ही जा सकता है। उपशमसम्यक्त्वसे सासादन होकर पुनः उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति संख्यातवर्षकी आयुमें संभव नहीं बतलाई। किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुमें संभव बतलायी गई है। ( देखो गत्यागति चूलिका सूत्र ६६-७३ की टीका व विशेषार्थ पृ. ४४४-४४५ )। इसपरसे इतना ही कहा जा सकता है कि पल्योपमका असंख्यातवा भाग भी असंख्यात वर्षप्रमाण होता है।

### पुस्तक ५, पृ. २८

१२ शंका—यहां सातों पृथिवियोंके जीवोंके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर बतलाते हुए जो उन्हें अन्तिम बार उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कराया है और सासादनमें लेजाकर एक और अन्तमुहूर्त कम कराया है सो क्यों ? यदि उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त न कराकर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कराया जाता तो वह सासादन कालका अन्तमुहूर्त कम करनेकी आवश्यकता न पड़ती जिससे उत्कृष्ट अन्तर अधिक पाया जा सकता था ? ( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान—उक्त प्रकरणमें क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त न कराकर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेके दो कारण दिखाई देते हैं। एक तो वहां सातों पृथिवियोंका एक साथ कथन

किया गया है, और सातवीं पृथिवीसे सम्यक्त्व सहित निर्गमन होना संभव ही नहीं है। दूसरे क्षयोपशम सम्यक्त्व तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सम्यक्त्व प्रकृतिका सर्वथा उद्वेगन नहीं हो पाया, और उसकी सत्ता शेष है। अतएव क्षयोपशम सम्यक्त्वके स्वीकार करनेमें उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमका असंख्यातवा भागमात्र काल ही प्राप्त हो सकता है। किन्तु उपशम सम्यक्त्व तभी प्राप्त हो सकता है जब सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्वेगना पूरी हो चुकती है। अतएव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेसे ही उक्त कुछ अन्तर्मुहूर्तोंको छोड़ शेष आयुकालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो सकता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेसे नहीं हो सकता।

### पुस्तक ५, पृ. ३८

१३. शंका—सूत्र न. ४० की टीकामें तीन पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य अन्तर बतलाते हुए उन्हें केवल एक असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही क्यों प्राप्त कराया ? सूत्र नं. ३६ की टीकाके समान यहा भी 'अन्य गुणस्थानमे लेजाकर' ऐसा सामान्य निर्देश वर तृतीय, चतुर्थ व पंचम गुणस्थानको प्राप्त क्यों नहीं कराया ? (नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर)

समाधान—सूत्र नं. ३६ और ४० की टीकामें केवल कथनशैलीका ही भेद ज्ञात होता है, अर्थका नहीं। यहा सम्यक्त्वसे संभवतः केवल चतुर्थ गुणस्थानका ही अभिप्राय नहीं, किन्तु मिथ्यात्वको छोड़ उन सब गुणस्थानोंसे है जो प्रकृतन जीवोंके संभव हैं। यह बात कालानुगमके सूत्र ५८ की टीका (पुस्तक ४ पृ. ३६३) को देखनेसे और भी स्पष्ट हो जाती है जहा उक्त तीनों तिर्यंचोंके मिथ्यात्वसे सम्यग्मिथ्यात्व, असंयतसम्यक्त्व व संयतासंयत गुणस्थानमें जाने-आनेका स्पष्ट विधान है।

### पुस्तक ५, पृ. ४०

१४. शंका—सूत्र ४५ में तीन पंचेन्द्रिय तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर बतलाते हुए अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण कराकर सम्यग्मिथ्यात्वको क्यों प्राप्त कराया, सीधे मिथ्यात्वसे ही सम्यग्मिथ्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त कराया ? क्या उनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्वेगना हो जाती है ? (नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर)

समाधान—हां, वहा उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्वेगना हो जाती है। वह उद्वेगना पल्योपमके असंख्यातत्रे भागमात्र कालमें ही हो जाती है, और यहां तीन पल्योपम कालका अन्तर बतलाया जा रहा है।

## पुस्तक ५, पृ. ४०

१५ शंका—सूत्र ४५ की टीकामें पंचेन्द्रिय तिर्यच सासादनोका ही उत्कृष्ट अन्तर क्यो कहा, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती तिर्यच सासादनोका क्यो नहीं कहा ?

( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान—पृष्ठ ४० के अन्तमें व ४१ के आदिमें टीकाकारने पंचेन्द्रिय पर्याप्त व योनिमतियोंका भी निर्देश किया है एवं उपर्युक्त कथनसे जो विशेषता है वह बतलाई है ।

## पुस्तक ५, पृ. ५१-५५

१६. शंका—यहां मनुष्यनियोंमें संयतासंयतादि उपशान्तकपायान्त गुणस्थानोंका जो अन्तर कहा गया है वह द्रव्य स्त्रीकी अपेक्षासे कहा गया है या भाव स्त्रीकी ?

( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान—इसका कुछ समाधान पुस्तक ३, पृ. २८-३० ( प्रस्तावना ) में किया गया है । पर यह समस्त विषय विचारणीय है । इसकी शास्त्रीय चर्चा जैन पत्रोंमें चलाई है ।

( देखो जैन सदेश, ता. ११-११-४३ आदि )

## पुस्तक ५, पृ. ६२

१७. शंका—सूत्र ९४ की टीकामें भवनवासी आदि देव सासादनोके अन्तरको ओघके समान कहकर उनके उत्कृष्ट अन्तरमें दो समय और छह अन्तर्मुहूर्तोंसे कम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अन्तरकी ओघसे समानता बतलाई है । परन्तु ओघ-निरूपणमें वनिस्वत दोके तीन समयोंको कम किया गया है । इस विरोधकी संगति किस प्रकार बैठायी जाय ?

( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान—सूत्र नं. ९० की टीकामें यद्यपि प्रतियोंमें ' तिहि समएहि ' पाठ है, पर विचार करनेसे जान पड़ता है कि वहा ' वेहि समएहि ' पाठ होना चाहिये, क्योंकि ऊपर जो व्यवस्था बतलाई है उसमें दो ही समय कम किये जानेका विधान ज्ञात होता है । अतएव सूत्र ९४ की टीकामें जो दो समय कम करनेका आदेश है वही ठीक जान पड़ता है ।

## पुस्तक ५, पृ. ७३

१८. शंका—यहां अन्तरानुगममें सूत्र १२१, १८६, २०० और २८८ की टीकामें क्रमशः तीन पक्ष तीन दिन व अन्तर्मुहूर्त, दो मास व दिवसपृथक्त्व, दो मास व दिवसपृथक्त्व, तथा तीन पक्ष तीन दिन व अन्तर्मुहूर्तसे गर्भज जीवको संयतासंयत गुणस्थानमें प्राप्त कराया है । क्या गर्भके दिन घट बढ़ भी सकते हैं ? ( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

**समाधान**—यह भेद उत्तर और दक्षिण प्रतिपत्तियोंके भेदोंपरसे उत्पन्न हुआ है जिसके लिये देखिये पुस्तक ५ अंतरानुगम सूत्र ३७ की टीका पृ. ३२.

पुस्तक ५, पृ. ९१

**१९. शंका**—यहां सूत्र १६९ व उसकी टीकामें वैक्रियिक काययोगियोंमें आदिके चार गुणस्थानोंके अन्तरको मनोयोगियोंके समान कहकर दोनोंमें नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तराभावकी समानता बतलाई है । परन्तु सूत्र १५४-१५५ में मनोयोगी सासादन व सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तर बतलाया ह । ओघकी अपेक्षा भी (सूत्र ५-६) उक्त दोनों गुणस्थानोंमें वही अन्तर बतलाया गया है । फिर यहां चारों गुणस्थानोंमें जो अन्तरका अभाव कहा गया है वह कैसे घटित होगा ? ( नेमीचद रतलचदजी, सहारनपुर )

**समाधान**—यहा सूत्र १६९ की टीकामें 'अन्तराभावेण' से यदि 'अन्तर और उसके अभावका अर्थ लिया जाय तो सामञ्जस्य ठीक बैठ जाता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर तथा उन्हीं गुणस्थानोंके एक जीवकी अपेक्षा एवं मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके नाना व एक जीवकी अपेक्षा अन्तराभावसे वैक्रियिक काययोगियोंकी मनोयोगियोंसे समानता है ।

पुस्तक ५, पृ. ९९

**२०. शंका**—यहां सूत्र १८९ की टीकामें स्त्रीवेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका अन्तर बतलाते हुए जो कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक होना कहा है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, उपशामश्रेणीका आरोहण क्षायिकसम्यग्दृष्टि या द्वितीयोपशामसम्यग्दृष्टि ही करते हैं, वेदकसम्यग्दृष्टि नहीं ? ( नेमीचद रतनचदजी, सहारनपुर )

**समाधान**—यहा 'कृतकृत्यवेदक होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ' इसका अभिप्राय कृतकृत्यवेदककालको पूर्णकर क्षायिक सम्यक्त्वके साथ अपूर्वकरण उपशामक होनेका है, न कि कृतकृत्यवेदक होनेके अनन्तर समयमें ही अपूर्वकरण उपशामक होनेका । यह बात पुरुषवेदी अपूर्वकरण उपशामकके उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रियासे भी सिद्ध होती है, जिसके लिये देखिये सूत्र नं. २०३ की टीका ।

पुस्तक ५, पृ. १०२

**२१. शंका**—सूत्र १९७ मे पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अन्तरनिरूपणमें

(-८)

### पट्खंडागमकी प्रस्तावना

पुरुषवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण कर अन्तमे जो देवोंमें उत्पन्न होना कहा है वह कैसे सम्भव है ? पुरुषवेदकी स्थिति पूर्ण हो जानेपर तो देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये था न कि देवोंमें ?

( नेमीचद रतनचदजी, महारनपुर )

समाधान—यहां ' देवोंमें उत्पन्न हुआ ' इसका अभिप्राय देवगतिमें उत्पन्न हुआ समझना चाहिये ।

### पुस्तक ५, पृ. ११५

२२. शंका—सूत्र २३४ की टीकामें अवधिज्ञानी असंयतसम्यग्दृष्टिकी अन्तर-प्ररूपणामें संज्ञी सम्मूर्च्छिम पर्याप्तकके अवधिज्ञानका सद्भाव कहा है । परन्तु इसके आगे सूत्र २३७ की टीकामें मति-श्रुतज्ञानी संयतासंयतोंके उत्कृष्ट अन्तरसम्बन्धी शंकाके समाधानमें उक्त जीवोंमें उसीका अभाव भी बतलाया है । इस विरोधका परिहार क्या है ?

( नेमीचद रतनचदजी, महारनपुर )

समाधान—संज्ञी सम्मूर्च्छिम पर्याप्त तिर्यचोंमें वेदक सम्यक्त्व, सयमासयम व अवधिज्ञान उत्पन्न होना तो निश्चित है, क्योंकि कालप्ररूपणके सूत्र १८ की टीकामें सयतासंयतका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल एव सूत्र २६६ की टीकामें आभिनिवोविक, श्रुत और अवधिज्ञानियोंका काल उक्त जीवोंमें ही घटित करके बतलाया गया है । उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र २३४ की टीकामें भी वही बात स्वीकृत की गई है । परन्तु सूत्र नं. २३७ की टीकामें जो उन जीवोंमें उक्त गुणोंका निषेध किया गया है वह उपगम सम्यक्त्वकी अपेक्षासे है, क्योंकि उन जीवोंमें उपगम सम्यक्त्वकी प्राप्तिका अभाव है । यही बात आगे सूत्र २८८ में चक्षुदर्शनी सयतासयतोंका अन्तर बतलाते समय टीकाकारने स्पष्ट की है । किन्तु सूत्र २३७ की टीकाके शंका-समाधानमें उपशम सम्यक्त्वकी अपेक्षा क्यों उत्पन्न हुई यह बात विचारणीय रह जाती है ।

### पुस्तक ५, पृ. १४७

२३. शंका—यहां सूत्र ३०४ में तेजोलेइयावाले मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टिका तथा सूत्र ३०६ में इसी लेइयावाले सासादन व सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर जो दो सागरोपमप्रमाण ही बतलाया गया है वह कम है, क्योंकि सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पोंकी अपेक्षा उक्त अन्तर सात सागरोपमप्रमाण भी हो सकता था । फिर उसकी यहां अपेक्षा क्यों की गई है ? यही शंका उपर्युक्त लेइयावाले जीवोंके कालप्ररूपण ( पु. ४ पृ. ४६३ ) में भी उठायी जा सकती-है ? ( नेमीचद रतनचदजी, महारनपुर )

समाधान—उक्त विधानसे यही प्रतीत होता है कि तेजोलेख्यावाला मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि जीव सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पमें उत्पन्न नहीं होता या उसके अधस्तन विमानमें ही उत्पन्न होता है जहा दो सागरोपम स्थितिकी संभावना है । धवलाकारने उक्त कल्पके अधस्तन विमानमें ही तेजोलेख्याके संभवका उपदेश बतलाया है ( देखो पुस्तक ४, पृ. २९६ ) । फिर भी राजवार्तिक ४-२२ में तथा गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५२१ में तेजोलेख्यासहित सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पके अन्तिम पटलमें जानेका विधान पाया जाता है । यह कोई मतभेद ही मादूम होता है ।

### पुस्तक ५, पृ. २१८

२४. शंका—कोई तिर्यंच जीव मनुष्यायुका बंध करके पश्चात् क्षयोपशम सम्यक्त्व साहत मरण कर मनुष्यगतिको प्राप्त हो सकता है या नहीं ? गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ५३०-५३१ में इसको स्पष्ट माना है, किन्तु पट्टखडागम जीवद्व्याणकी भावप्ररूपणाके सूत्र ३४ और उसका टीकासे उसमें कुछ सन्देह होता है ? ( हुक्मचदर्जा जैन, सलावा, मेरठ )

समाधान—कृतकृत्यवेदकको छोड़ अन्य क्षयोपशमसम्यक्त्वी तिर्यंच मरण करके एक मात्र देवगतिको ही प्राप्त होता है ( देखो गत्यागति चूलिका सूत्र १३१, पृ. ४६४ ) । यदि उस तिर्यंचने उक्त सम्यक्त्व प्राप्त करनेसे पूर्व देवायुको छोड़ अन्य किसी आयुका बन्ध कर लिया है तो मरणसे पूर्व उसका वह सम्यक्त्व छूट जायगा ( देखो गत्यागति चूलिका, सूत्र १६४ टीका, पृ. ४७५ ) । जीवकाण्डकी गाथा ५३१ में केवल मनुष्य व तिर्यंचोके भोगभूमिमें अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व होनेका सामान्यसे उल्लेखमात्र है । सस्कृत टीकाकारने वहां क्षायिक व वेदक सम्यक्त्वका विधान किया है जिससे क्षायिक व कृतकृत्यवेदकका अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये, अन्य क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका नहीं ( देखो भाग २, पृ. ४८१ ) ।

### पुस्तक ५, पृ. २१८

२५. शंका—यहा सूत्र ३४ की टीकामें जहा देव, नारकी व मनुष्य सम्यग्दृष्टियोकी उत्पत्ति तिर्यंच व मनुष्योंमें बतलायी है वहा तिर्यंच सम्यग्दृष्टि जीवोंकी भी उत्पत्ति उक्त दोनों प्रकारके जीवोंमें क्यों नहीं बतलायी ? क्या मनुष्यके समान वद्वायुष्क क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि तिर्यंच मरकर तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं हो सकता या मरते समय उसका वह सम्यग्दर्शन छूट जाता है ? ( नेमीचद रतनचदर्जा, सहारनपुर )

समाधान—इस शंकाका समाधान ऊपरकी शंकाके समाधानमें हो चुका है ।

पुस्तक ५, पृ. २२२

२६. शंका—यहां अपगतवेदविषयक शंका और उसके समाधानसे विदित होता है कि द्रव्य स्त्रीके भी अनिवृत्तिकरणादि गुणस्थान हो सकते हैं । क्या यह ठीक है ?

( नेमीचट रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान— देखो ऊपर नं. १६ का शंका-समाधान ।

पुस्तक ५, पृ. ३०३

२७. शंका—यहां सूत्र १५९ में स्त्रीवेदियों तथा सूत्र १८८ में नपुंसकवेदियोंमें अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा जो क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंको कम बतलाया है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, सूत्र १६०-१६१ व १८९-१९० में उपशमकोंकी अपेक्षा क्षपकोंका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है । और उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले औपशमिक एवं क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोनों हैं जब कि क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही हैं । अतएव औपशमिक सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण अधिक होना चाहिये था ?

( नेमीचट रतनचदजी, सहारनपुर )

समाधान—स्त्रीवेदी व नपुंसकवेदी अपूर्वकरण एवं अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीवोंमें क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंकी कमीका कारण उनका अप्रशस्त वेद है । अप्रशस्त वेदके उदय सहित जीवोंमें दर्शनमोहका क्षय करनेवालोंकी अपेक्षा उसका उपशम करनेवाले ही अधिक होते हैं । ( देखो अल्पबहुत्वानुगम सूत्र ७५-७६ ) । एवं उपशमकोंके सचयकालकी अपेक्षा क्षपकोंका काल अधिक होता है ।

## हस्तलिखित प्रतियोंमें चूलिका-सूत्रोंकी व्यवस्था

प्रस्तुत संस्करणमें भिन्न भिन्न नौ चूलिकाओंके सूत्रोंकी संख्याका क्रम एक दूसरी चूलिकासे सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है । यह व्यवस्था हस्तलिखित प्रतियोंमें पाई जानेवाली व्यवस्थासे कुछ भिन्न है । उदाहरणार्थ अमरावतीकी प्रतिमें प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामक प्रथम चूलिकामें सूत्रसंख्या १ से ४२ तक पाई जाती है । दूसरी स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकामें सूत्रसंख्या १ से ११६ तक दी गई है । इसके आगेकी चूलिकाओंमें सूत्रोंपर चाट्ट संख्याक्रम दिया गया है जिसके अनुसार प्रथम दंडकपर ११७, द्वितीय दंडकपर ११८, तृतीय दंडकपर ११९, उत्कृष्टस्थिति चूलिकामें १२० से १६२ तक, जघन्यस्थितिमें १६३ से २०३ तक,

सम्यक्त्वोत्पत्तिमें २०४ से २२० तक, एवं गत्यागतिमें २२० से ३६८ तक सूत्रसंख्या पाई जाती है। ऐसी अवस्थामें हमारे सन्मुख दो प्रकार उपस्थित हुए कि या तो प्रथमसे लेकर नौवीं तक सभी चूलिकाओंमें सूत्रक्रमसंख्या एकसी चाल रखी जावे, या फिर सबकी अलग अलग। यह तो बहुत विसंगत बात होती कि प्रतियोंके अनुसार प्रथम दो चूलिकाओंका सूत्रक्रम पृथक् पृथक् रखकर शेषका एक ही रखा जाय, क्योंकि ऐसा करनेका कोई कारण हमारी समझमें नहीं आया। प्रत्येक चूलिकाका विषय अलग अलग है और अपनी अपनी एक विशेषता रखता है। सूत्रकारने और तदनुसार टीकाकारने भी प्रत्येक चूलिकाकी उत्थानिका अलग अलग ब्राधी है। अतएव हमें यही उचित जचा कि प्रत्येक चूलिकाका सूत्रक्रम अपना अपना स्वतंत्र रखा जाय। हस्तलिखित प्रतियो और प्रस्तुत संस्करणमें सूत्रसंख्याओंमें जो वैषम्य है वह हस्त प्रतियोंमें संख्याएं देनेमें त्रुटियोंके कारण उत्पन्न हुआ है। वहा कुछ सूत्रोंपर कोई संख्या ही नहीं है, पर विषयकी संगति और टीकाको देखते हुए वे स्पष्टतः सूत्र सिद्ध होते हैं। कहीं कहीं एक ही संख्या दो बार लिखी गई है। इन सब त्रुटियोंके निराकरणके पश्चात् जो व्यवस्था उत्पन्न हुई वही प्रस्तुत संस्करणमें पाठकाको दृष्टिगोचर होगी। यदि इसमें कोई दोष या अनधिकार चेष्टा दिखाई दे तो पाठक कृपया हमें सूचित करें।

## विषय-परिचय

प्रस्तुत ग्रंथ पट्टखंडागमके प्रथम खंड जीवस्थानका अन्तिम भाग है जिसे धवलाकारने चूलिका कहा है। पूर्वमें कहे हुए अनुयोगोंके कुछ विषय स्थलोंका जहा विशेष विवरण किया जाय उसे चूलिका कहते हैं। यहा चूलिकाके नौ अवान्तर विभाग किये गये हैं जिनका परिचय इस प्रकार है—

### १ प्रकृतिसमुत्कीर्तन चूलिका

क्षेत्र, काल और अन्तर प्ररूपणाओंमें जो जीवके क्षेत्र व कालसम्बन्धी नाना परिवर्तन बतलाये गये हैं वे विशेष कर्मबन्धके द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। वे कर्मबन्ध कौनसे हैं, उन्हींका व्यवस्थित और पूर्ण निर्देश इस चूलिकामें किया गया है। यहा ज्ञानावरण, दर्शनावरण,

१ सम्मत्तेसु अट्टसु अणियोगदारेसु चूलियां किमट्टमागदा ? पुच्चुत्ताणमट्टण्णमणियोगदाराणं विसमपएस-विवरणट्टमागदा । पु ६, पृ २. चूलिया नाम किं ? एकारसअणियोगदारेसु सुहदत्थस्स विसेसियूण परूवणा चूलिया । खुदान्ध, अन्तिम महाट्टक. उत्ताउत्तदुरुत्ताचिन्तन चूलिका । गो. क ३९८ टीका.



वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इस क्रमसे आठ प्रधान कर्मोंका स्वरूप बतलाया गया है और फिर उनकी क्रमशः पाच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, ब्यालीस, दो और पाच प्रकृतियां बतलाई गयी है। नामकी ब्यालीस प्रकृतियोंके भीतर चौदह प्रकृतिया ऐसी है जिनकी पुनः क्रमशः चार, पाच, पाच, पाच, पाच, छह, तीन, छह, पाच, दो, पांच, आठ, चार, और दो, इस प्रकार पैसठ उत्तरप्रकृतिया हो गई हैं; अतएव नामकर्मके कुल भेद  $६५ + २८ = ९३$  हुए, जिससे आठों कर्मोंकी समस्त उत्तरप्रकृतिया एकसौ अडतालीस ( १४८ ) हुई हैं। इसमें ४६ सूत्र है जिनका विषय आप्रायणीय पूर्वकी चयनलब्धिके अन्तर्गत महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके सातवें अधिकार ब्रधनके ब्रन्धविवान नामक विभागान्तर्गत समुत्कीर्तना अधिकारसे लिया गया है।

## २ स्थानसमुत्कीर्तन चूलिका

प्रकृतियोंकी संख्या व स्वरूप जान लेनेके पश्चात् यह जानना आवश्यक होता है कि उनमेंसे प्रत्येक मूलकर्मकी कितनी उत्तरप्रकृतिया एक साथ बाधी जा सकती हैं और उनका बंध कौन कौनसे गुणस्थानोंमें संभव है। यह विषय स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकामे समझाया गया है। यहा सूत्रोंमें गुणस्थाननिर्देश चौदह विभागोंमें न करके केवल संक्षेपके लिये छह विभागोंमें किया गया है—मिथ्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, सयता-संयत और सयत। इनमेंके प्रथम पाच तो गुणस्थान क्रमसे ही हैं, किन्तु अन्तिम विभाग सयतमें छठवें गुणस्थानसे लेकर ऊपरके यथासंभव सभी गुणस्थानोंका अन्तरभाव है जिनका उपपत्ति सहित विशेष स्पष्टीकरण धवलाकारने किया है। ज्ञानावरणकी पाचो प्रकृतियोंका एक ही स्थान है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयत तक सभी उन पाचो ही का बंध करते हैं। दर्शनावरणके तीन स्थान हैं। पहले स्थानमें मिथ्यादृष्टि और सासादन जीव हैं जो समस्त नौ ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं। दूसरेमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि सयत तकके जीव हैं जो निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थान-गृद्धि, इन तीनको छोड़ शेष छह प्रकृतियोंको बाधते हैं। तीसरे स्थानमें वे सयत जीव हैं जो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इन चार दर्शनावरणोंका ही बंध करते हैं। वेदनीयका एक ही बंधस्थान है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयत तक सभी जीव साता और असाता इन दोनों वेदनीयोंका बंध करते हैं। मोहनीय कर्मके दस ब्रन्धस्थान हैं। पहले स्थानमें मिथ्यादृष्टि जीव हैं जो एक साथ बंध योग्य बाईस ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं। यहा इस बातका ध्यान रखना

१ देखो आगे दी हुई तालिका।

२ देखो पुस्तक १, पृ. १२७, व प्रस्तावना पृ ७३.

चाहिये कि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो प्रकृतियोंका तो बंध होता ही नहीं है, वे तो सम्यक्त्व उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जानेसे सत्त्वमें आ जाती हैं। तथा तीन वेदों और हास्य-रति व अरति-शोक इन दो युगलोमेंसे एक साथ एक ही का बंध सम्भव होता है। मोहनीयके दूसरे बधस्थानमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव हैं जो उपर्युक्त वाईसमेंसे एक नपुंसकवेदको छोड़ शेष इक्कीस प्रकृतियोंका बंध करते हैं। तीसरे स्थानमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि जीव हैं जो उक्त इक्कीसमेंसे चार अनन्तानुबंधी कषायों व स्त्रीवेदको छोड़ शेष स्त्तरहका बंध करते हैं। चौथे स्थानमें संयतासंयत जीव है जो चार अप्रत्याख्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, केवल शेष तेरहका करते हैं। पाचवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चार प्रत्याख्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, पर शेष नौका करते हैं। छठवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो मोहनीयकी अन्य प्रकृतियोंको छोड़ केवल चार संज्वलन और पुरुषवेद, इन पाचका ही बंध करते हैं। सातवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो पुरुषवेदको भी छोड़ केवल संज्वलन-चतुष्कको बाधते हैं। आठवें स्थानमें वे संयत हैं जो क्रोध संज्वलनको छोड़ शेष तीनका ही बंध करते हैं। नौवें स्थानवाले वे संयत हैं जो मान संज्वलनका भी बंध करना छोड़ देते हैं व केवल शेष दो का बंध करते हैं। दशवें स्थानमें केवल लोभ संज्वलनका बंध करनेवाले संयत हैं।

आयुर्कर्मकी चारों प्रकृतियोंके अलग अलग चार बधस्थान हैं— एक नरकायुको बाधनेवाले मिथ्यादृष्टिका; दूसरा तिर्यचायुको बाधनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिका; तीसरा मनुष्यायुको बाधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन व असंयतसम्यग्दृष्टिका, और चौथा देवायुको बाधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत व संयतका। यहा यह बात ध्यान देने योग्य है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव किसी भी आयुको नहीं बाधता।

नामकर्मके बंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्याके अनुसार आठ बंधस्थान हैं जिनमें क्रमशः ३१, ३०, २९, २८, २६, २५, २३ और १ प्रकृतियोंका बंध किया जाता है। इन स्थानोंका चार गतियोंके अनुसार इस प्रकार निरूपण किया गया है— नरकगति और पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव २८ प्रकृतियोंको बांधता है ( सूत्र ६२ )। तिर्यचगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव अथवा सासादन जीव एवं तिर्यचगति सहित विकलेन्द्रिय पर्याप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे ३० प्रकृतियोंको बाधता है ( सूत्र ६४, ६६, ६८ )। तिर्यचगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि एव तिर्यचगति सहित विकलेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको बाधता है ( सूत्र ७०, ७२, ७४ )। तिर्यचगति सहित एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त और आताप

या उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि २६ प्रकृतियोंको बांधता है ( सूत्र ७६ ) । तिर्यचगति सहित एकेन्द्रिय पर्याप्त और वादर या सूक्ष्मका बंध करता हुआ, अथवा त्रस एवं अपर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि भिन्न प्रकारसे २५ प्रकृतियोंको बांधता है ( सूत्र ७८, ८० ) । तिर्यचगति सहित एकेन्द्रिय अपर्याप्त और वादर या सूक्ष्मका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि २३ प्रकृतियां बांधता है ( सूत्र ८२ ) । मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय और तीर्थंकर प्रकृतियोंको बांधता हुआ असंयत सम्यग्दृष्टि जीव ३० प्रकृतियोंका बंध करता है । मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तको बांधता हुआ सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, सासादन व मिथ्यादृष्टि भिन्न प्रकारसे २९ प्रकृतियोंको बांधता है ( सू. ८७, ८९, ९१ ) । मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय अपर्याप्तको बांधता हुआ मिथ्यादृष्टि २५ प्रकृतियोंका बंध करता है ( सू. ९३ ) । देवगति सहित पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, आहारक और तीर्थंकर प्रकृतियोंका बंध करता हुआ अप्रमत्तसंयत या अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव ३१ प्रकृतियोंको बांधता है ( सू. ९६ ) । वही जीव तीर्थंकर प्रकृतियोंको छोड़कर ३० का एवं आहारकको भी छोड़कर २९ का बंध करता है ( सू. ९८, १०० ) । देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्त तीर्थंकरको बांधता हुआ असंयतसम्यग्दृष्टि या सयतासंयत जीव भी २९ प्रकृतियोंको बांधता है ( सू. १०२ ) । देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अथवा मिथ्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, सयतासंयत व संयत जीव २८ प्रकृतियोंका बंध करता है ( सू. १०४, १०६ ) । जब संयत जीव यशःकीर्तिका बंध करता है तब केवल इस एक नामप्रकृतिका ही बंध होता है ( सू. १०८ ) । इस प्रकार यद्यपि एक साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंकी सख्याकी अपेक्षा नामकर्मके आठ बंधस्थान हैं तथापि संस्थान, संहनन एवं विहायोगति आदि सात युगलोके विकल्पोंसे बंधस्थानोंके भेद कई हजारोंपर पहुंच गये हैं ( देखो सू. ८९, ९१ ) ।

गोत्रकर्मके केवल दो ही बंधस्थान हैं । मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नीच-गोत्रका और शेष उच्चगोत्रका बंध करते हैं ।

अन्तरायकर्मका केवल एक ही बंधस्थान है क्योंकि मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयत तक सभी जीव पांचों ही अन्तरायोंका बंध करते हैं ।

इस चूलिकाका विषय भी प्रथम चूलिकाके समान महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके बंधविधानके समुत्कीर्तनाधिकारसे लिया गया है । इसकी सूत्रसख्या ११७ है ।

### ३. प्रथम महादंडक चूलिका

इस चूलिकामें केवल दो सूत्र हैं जिनमेंसे एकमें ऐसी प्रकृतियां बतलानेकी प्रतिज्ञा की

गई है जिन्हें प्रथमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाला जीव बाधता है, और दूसरे सूत्रमें वे प्रकृतियां गिनाई गई हैं तथा यह भी प्रकट कर दिया गया है कि उनका स्वामी मनुष्य या तिर्यंच होता है। इन प्रकृतियोंकी संख्या ७३ है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त जीव आयुर्कर्मका बंध नहीं करता, एवं आसाता व स्त्री-नपुंसकवेदादि अशुभ प्रकृतियोंको भी नहीं बाधता। ध्वन्नाकारने यहा अपनी व्याख्यामें सम्यक्त्वोन्मुख जीवके किस परिणामोंमें किस प्रकार विशुद्धता बढ़ती है और उससे किस प्रकार अशुभतम, अशुभतर व अशुभ प्रकृतियोंका क्रमशः बंधव्युच्छेद होता है इसका विशद निरूपण किया है ( देखो पृ. १३५-१३९ ), और अन्तमें क्षयोपशम आदि पांच लब्धियोंके निर्देश करनेवाली गाथाको उद्धृत करके चूलिका समाप्त की है।

### ४. द्वितीय महादंडक चूलिका

जिस प्रकार प्रथम दंडकमें तिर्यंच और मनुष्य प्रथमसम्यक्त्वोन्मुख जीवोंके बंध योग्य प्रकृतियां बतलाई हैं, उसी प्रकार इस दूसरे महादंडकमें प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख, देव और प्रथमादि छह पृथिवियोंके नारकी जीवोंके बंध योग्य प्रकृतियां गिनाई गई हैं। यहा भी सूत्रोंकी संख्या केवल दो ही है।

### ५. तृतीय महादंडक चूलिका

इस चूलिकामें सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है।

उपर्युक्त तीनों दंडकोंका विषय भी उपर्युक्त महाकर्मप्रकृतिप्राभृतके समुत्कीर्तना अधिकारसे लिया गया है।

### ६. उत्कृष्टस्थिति चूलिका

कर्मोंका स्वरूप व उनके बंध योग्य स्थानोंका ज्ञान हो जाने पर स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि एक बार बाधे हुए कर्म कितने काल तक जीवके साथ रह सकते हैं, सब कर्मोंका स्थितिकाल बराबर ही है या कम बढ़, व सब जीव सब समय एक ही समान कर्मस्थिति बाधने हैं या भिन्न भिन्न, एवं बंध होते ही कर्म अपना फल दिखाने लगते हैं या कुछ काल पश्चात् ? इन्हीं प्रश्नोंके उत्तर आगेकी दो अर्थात् उत्कृष्टस्थिति और जघन्यस्थिति चूलिकामें दिये गये हैं। उत्कृष्टस्थिति चूलिकामे यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न कर्मोंका अधिकसे अधिक बंधकाल कितना हो सकता है और कितने कालकी उनमें आबाधा हुआ

करती है अर्थात् वध होनेके कितने समय पश्चात् उनका विपाक प्रकट होता है । इस काल-निर्देशके लिये आगे दी हुई तालिका देखिये । आत्राधाका सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक कोडाकोडी सागरके वधपर एक सौ वर्षोंकी आत्राधा होती है । जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, असातावेदनीय व अन्तराय कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवंध तीस कोडाकोडी सागरोपमोंका है तो इसी परसे जाना जा सकता है, कि उक्त कर्म वध होनेसे तीन हजार वर्षोंके पश्चात् उदयमें आवेंगे । पर यह नियम आयुकर्मके लिये लागू नहीं होता क्योंकि वहा अधिकसे अधिक आत्राधा अधिकसे अधिक भुज्यमान आयुके तृतीय भागप्रमाण ही हो सकती है ( देखो सू. २९ टीका ) । जिन कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी है उनकी आत्राधाका प्रमाण एक अन्तर्मुहूर्त माना गया है ( देखो सू. ३३-३४ ) । इस प्रकार आत्राधाकाटको छोड़कर शेष समस्त कर्मस्थितिकालमें उन कर्मोंका निपेक अर्थात् उदयमें आकर गलन होता है जिसकी प्रक्रिया ध्वलाकारने गणितके नियमानुसार विस्तारसे समझाई है । इसमें आत्राधाकाण्डक और नानागुणहानि आदि प्रक्रियायें ध्यान देने योग्य हैं ( देखो सू. ६ टीका ) । इस चूलिकाकी सूत्रसंख्या ४४ है जिनके विषयका संग्रह महाकर्मप्रकृतिके वधविधानान्तर्गत स्थिति अधिकार अर्धच्छेद प्रकरणसे किया गया है ।

### ७. जघन्यस्थिति चूलिका

जिस प्रकार उपर्युक्त उत्कृष्टस्थिति चूलिकामें कर्मोंकी अधिकसे अधिक स्थिति व आत्राधा आदिका विवरण दिया गया है, उसी प्रकार जघन्यस्थिति चूलिकामें कर्मोंकी कमसे कम संभव स्थिति व आत्राधा आदिका ज्ञान कराया गया है । यहा ध्वलाकारने आदिमें ही उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियोंके कर्मबंधोंका कारण इस प्रकार बतलाया है कि परिणामोंकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे जो कर्मबंध होता है उसमें स्थिति जघन्य पड़ती है और जितनी मात्रामें परिणामोंमें संक्लेशकी वृद्धि होती है उतनी ही कर्मस्थितिकी वृद्धि होती है । असाता बंधके योग्य परिणामको संक्लेश कहते हैं और साताबंधके योग्य परिणामको विशुद्धि । दूसरे आचार्योंने जो उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे नीचेकी स्थितियोंको बांधनेवाले जीवके परिणामको विशुद्धि और जघन्यस्थितिसे ऊपर ऊपरकी स्थितियोंको बांधनेवाले जीवके परिणामको संक्लेश कहा है, उसे ध्वलाकार ठीक नहीं समझते, क्योंकि वैसा माननेपर तो जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवंधयोग्य परिणामोंको छोड़ कर शेष मध्यम स्थितियों सम्बन्धी समस्त परिणाम संक्लेश और विशुद्धि दोनों कहे जा सकते हैं, और लक्षणभेदके विना एक ही परिणामको दो भिन्न रूप माननेमें विरोध

आता है। उन्होंने कषायवृद्धिको भी सञ्ज्ञेयका लक्षण मानना उचित नहीं समझा, क्योंकि विशुद्धिकालमें भी तो कषायवृद्धि होना संभव है और उसीसे सातावेदनीय आदि कर्मोंका भुजाकार बंध होता है। ध्यान देने योग्य बात एक और यह है कि छठवें गुणस्थान तक जिस असातावेदनीय कर्मका बंध होता है उसकी जघन्य स्थिति एक सागरोपमके लगभग  $\frac{3}{4}$  भागप्रमाण होती है और जो सातावेदनीय कर्म सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें बांधा जाता है उसका भी जघन्य स्थितिबंध १२ मुहूर्तसे कम नहीं होता। यद्यपि दर्शनावरणीयका बंध तीस कोड़ाकोड़ी सागरसे घटकर अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्य स्थिति पर आ जाता है, पर शुभ बंध होनेके कारण सातावेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा भी उतनी अपवर्तना नहीं हो पाती। (देखो सू. ९ टीका)

सूत्रोंमें प्रकृति और स्थिति बंधका विचार तो खूब हुआ, पर प्रदेश और अनुभाग बंधका कहीं परिचय नहीं कराया गया? इसका समाधान ध्वलाकारने जघन्यस्थिति चूलिकाके अन्तमें किया है कि उक्त प्रकृति और स्थिति बंधकी व्यवस्थासे ही प्रदेश व अनुभाग बंधकी व्यवस्था निकल आती है जिसे उन्होंने वहां समझा भी दिया है। उसी प्रकार उन्होंने सत्व, उदय और उदीरणाका स्वरूप भी व्यवप्ररूपणाके आधारसे समझा दिया है।

इस चूलिकामें ४३ सूत्र हैं और यह विषय उत्कृष्टस्थिति चूलिकाके समान अर्धच्छेद प्रकरणसे लिया गया है।

## ८. सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका

इस चूलिकाको इस समस्त ग्रंथका प्राण कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। यहां सूत्र केवल १६ ही हैं पर उनमें सक्षेपरूपसे यह महत्त्वपूर्ण समस्त विषय बड़ी ही सावधानीसे सूचित कर दिया गया है। यह विषय चार अधिकारोंमें विभाजित है। पहले सात सूत्रोंमें यह बतलाया गया है कि कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव अपने परिणामोंकी विशुद्धता बढ़ाते हुए क्रमशः समस्त कर्मोंकी स्थितिको घटाते घटाते जब अन्तःकोडाकोड़ी प्रमाणसे भी कम कर लेता है तब फिर वह एक अन्तर्मुहूर्त तक मिथ्यात्वका अवघट्टन करता है, अर्थात् उसकी अनुभागशक्तिको घटा कर उसका अन्तरकरण करता है, जिससे मिथ्यात्वके तीन भाग हो जाते हैं सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व। बस, यहीं उस जीवको प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है।

आगेके तीन सूत्रोंमें (८-१०) समस्त दर्शनमोहनीयकर्मके उपशमनके अधिकारी जीवका निर्देश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह क्रिया चारों गतियोंका कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोत्पन्न पर्याप्तक जीव कर सकता है।

फिर आगे सूत्र ११ में दर्शनमोहके क्षपणका प्रारंभ करने योग्य स्थान और परिस्थितिको बतलाया है कि अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंकी केवल उन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें दर्शनमोहका क्षपण प्रारंभ किया जा सकता है जहां जिन भगवान् केवली व तीर्थंकर विद्यमान हों । और १२ वें सूत्रमें यह कह दिया है कि एक बार उक्त परिस्थितिमें क्षपणका स्थापना करके उसकी निष्ठापना अर्थात् पूर्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें की जा सकती है । ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले जीवकी योग्यता सूत्र १३-१४ में बतलाई है कि जब वह क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके उन्मुख होता है तब वह आयुर्कर्मको छोड़ शेष सात कर्मोंकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण कर लेता है । यदि सम्यक्त्वके साथ साथ चारित्र अर्थात् देशचारित्र भी ग्रहण करता है तो भी वह जीव सातों कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण करता है । यह अन्तःकोड़ाकोड़ी ध्वलाकारके स्पष्टीकरणानुसार पूर्वसे बहुत हीन होती है ।

आगेके सूत्र १५ और १६ में सकलचारित्र ग्रहणकी योग्यता बतलाई गयी है कि उस समय जीव चारों घातिया कर्मोंकी स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त कर लेता है, किन्तु वेदनायकी वारह मुहूर्त, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त एवं शेषकी स्थिति भिन्न मुहूर्त करता है ।

सूत्रकारके इस संक्षेप निर्देशको ध्वलाकारने इतना विस्तार दिया है और विषयको इतनी सूक्ष्मता, गम्भीरता और विशालताके साथ समझाया है जितना यह विषय और कहीं प्रकाशित साहित्यमें अब तक हमारे देखनेमें नहीं आया । लब्धिसारका विवेचन भी इसके सन्मुख बहुत स्थूल दिखने लगता है ।

ध्वलाकारने पहले तो पांचों लब्धियोंका स्वरूप समझाया है ( पृ. २७४ ) और फिर सम्यक्त्वके अभिमुख जीव के कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, उनमें कितना कैसा अनुभाग रहता है, किन प्रकृतियोंका उदय रहता है व चारों गतियोंमें इनमें कितना क्या भेद पड़ता है, इसका खूब खुलासा किया है ( पृ. २०७-२१४ ) । इसके पश्चात् अव्यकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंकी विशेषता समझाई है ( पृ. २१५-२२२ ) । सूत्र ५ के आश्रयसे उन्होंने यह बात विस्तारसे बतलाई है कि उक्त परिणामोंमें विशुद्धि बढ़नेके साथ साथ कर्मोंका स्थिति व अनुभाग घात किस प्रकार व किस क्रमसे होता है ( पृ. २२२-२३० ) । फिर मिथ्यात्वके अवघटन या अन्तरकरणकी क्रिया समझाई है व उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होने तक गुणश्रेणी व गुणसंक्रमणादि कार्य बतलाये हैं, तथा पूर्वोक्त समस्त क्रियाओंके कालका अल्पबहुत्व पच्चीस पदोंके दंडक द्वारा बतलाया है ( पृ. २३१-२३७ ) ।

क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके योग्य क्षेत्र व जीवका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह बतलाया है कि जिन जीवोंका पन्द्रह कर्मभूमियोंमें ही जन्म होता है, अन्यत्र नहीं, वे ही

क्षपणाके योग्य होते हैं, और चूंकि तिर्यच उक्त कर्मभूमियोंके अतिरिक्त स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें भी उत्पन्न होते हैं, इससे तिर्यचमात्र क्षपणाके योग्य नहीं ठहरते ( पृ. २४४-२४५ )। यद्यपि जिस कालमें जिन, केवली व तीर्थंकर हों वही काल क्षपणाकी प्रस्थापनाके योग्य होता है ऐसा कहनेसे केवल दुषमासुषमा काल ही इसके योग्य ठहरता है, पर कृष्णादिकके तीसरी पृथ्वीसे निकलकर तीर्थंकरत्व प्राप्त करनेकी जो मान्यता है उसके अनुसार सुषमादुषमा कालमें भी दर्शन-मोहका क्षपण किया जा सकता है ( पृ. २४६-२४७ )। आगे दर्शनमोहके क्षपण करनेके आदिमें अनन्तानुबंधीके विसंयोजनसे लगाकर जो स्थितिबंधापसरण, अनुभागबंधापसरण, स्थितिकांडकषात, अनुभागकांडकषात व गुणश्रेणी संक्रमण आदि कार्य होते हैं वे खूब विस्तारसे समझाये हैं ( पृ. २४८-२६६ )। और फिर वे ही कार्य देशचारित्र सहित सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवालेके किस विशेषताको लेकर होते हैं यह बतलाया है ( पृ. २६८-२८० )। वे ही कार्य सकलचारित्रकी प्राप्तिमें किस विशेषतासे होते हैं यह फिर आगे बतलाया है ( पृ. २८१-३१७ )। इससे आगे उपशांतकषायसे पतन होनेका क्रमवार विवरण दिया गया है ( पृ. ३१७-३३१ ) और फिर पूर्वोक्त जो पुरुषवेद और क्रोधकषाय सहित श्रेणी चढ़नेका विधान कहा है उसमें अन्य कषायों व अन्य वेदोंसे चढ़नेपर क्या विशेषता उत्पन्न होती है यह बतलाया है ( पृ. ३३२-३३५ )। तत्पश्चात् श्रेणी चढ़नेसे उतरने तककी समस्त क्रियाओंके कालका अल्पबहुत्व कहा गया है ( पृ. ३३५-३४२ )।

अब चारित्रमोहकी क्षपणाका विधान आता है जिसमें अपूर्वकरण गुणस्थानसे लेकर समय समयकी क्रियाओंका विशद और सूक्ष्म निरूपण किया गया है और क्रमशः आठ कषाय व निद्रानिद्रादिकका संक्रमण, मनःपर्ययज्ञानावरणादिकका बन्धसे देशघातिकरण, चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका अन्तरकरण तथा नपुंसक व स्त्रीवेद तथा सात नोकषायोंका संक्रमण बतलाया गया है ( पृ. ३४४-३६४ )। इसके आगे अश्वकर्णकरणकालका निरूपण है जिसमें चारों कषायोंके स्पर्द्धकों और फिर उनके अपूर्वस्पर्द्धकों तथा उनकी वर्गणाओंमें अविभागप्रतिच्छेदोंका वर्णन किया गया है ( पृ. ३६४-३६८ )। इसके पश्चात् अश्वकर्णकरण कालके प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयके कार्योंका अल्पबहुत्व, अनुभागसत्वकर्मका अल्पबहुत्व व अपूर्वस्पर्द्धकोंका अल्पबहुत्व देकर अश्वकर्ण-करणके अन्तर्मुहूर्तकालका विधान समाप्त किया गया है ( ३६९-३७३ )। यहां अश्वकर्णकरण-कालके अन्तमें कर्मोंके स्थितिबन्धका प्रमाण बतलाकर कृष्टिकरणकालका विधान समझाया गया है जिसमें प्रथमसमयवर्ती कृष्टियोंकी तीव्र-मंदताका अल्पबहुत्व, कृष्टियोंके अन्तरोका अल्पबहुत्व, कृष्टियोंके प्रदेशाप्रकी श्रेणीप्ररूपणा और कृष्टिकरणकालके अन्त समयमें संज्वलनादि कर्मोंके स्थितिबन्धका निरूपण खूब विशद हुआ है ( पृ. ३७४-३८१ )। कृष्टिकरणकालमें पूर्व और अपूर्व स्पर्द्धकोंका वेदन होता है, कृष्टियोंका नहीं। जब कृष्टिकरणकाल समाप्त होजाता है, तब



उनके वेदनका काल प्रारम्भ होता है, जिसमें कृष्टियोंके बन्ध, उदय, अपूर्वकृष्टिनिर्माण, प्रदेशाप्र-संक्रमण, एवं सूक्ष्मसाम्प्रायकृष्टियोंका निर्माण किया जाता है ( पृ. ३८२-४०६ ) ।

यह जो विधान बतलाया गया है वह क्रोध कषाय व पुरुषवेदसे उपस्थित होनेवाले जीवका है । अब आगे क्रमसे मान, माया व लोभ तथा स्त्रीवेद व नपुंसवेदसे उपस्थित हुए क्षपककी विशेषताएं बतलाई गई है ( पृ. ४०७-४१० ) । यह सब सूक्ष्मसाम्प्राय तकका कार्य हुआ जिसके अन्तमें कर्मोंके स्थितिवधका प्रमाण बतलाकर आगे क्षीणकषाय गुणस्थानमें होनेवाले घातिया कर्मोंकी उदीरणां, निद्रा-प्रचलाके उदय और सत्वका व्युच्छेद तथा अन्तमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके सत्व व उदयके व्युच्छेदका निर्देश करके सयोग-केवली गुणस्थान प्राप्त कराया गया है ( पृ. ४१०-४१२ ) ।

सयोगी जिन सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हुए एवं असख्यातगुणश्रेणी द्वारा प्रदेशाप्र-निर्जरा करते हुए विहार करते हैं व आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर वे केवलिसमुद्धात करते हैं जिसकी दड, कपाट, मंथ एव लोकपूरण क्रियाओंमें होनेवाले कार्य बतलाये गये हैं ( पृ. ४१२-४१४ ) । इसके पश्चात् मन, वचन और काय योगोंके निरोधका विधान है । सूक्ष्मकायका निरोध करते समय अन्तर्मुहूर्त तक अपूर्वस्पर्द्धककरण और फिर अन्तर्मुहूर्त तक कृष्टि-करण क्रियायें भी होती हैं जिनके अन्तमें योगका पूर्णतः निरोध हो जाता है और सर्व कर्मोंकी स्थिति शेष आयुके बराबर हो जाती है । बस, यहीं जीव अयोगी हो जाता है जहां सर्व कर्माश्रवका निरोध, शैलेशी वृत्ति एवं समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति शुक्लध्यान होता है । इस अन्तर्मुहूर्तके द्विचरम समयमें ७३ और अन्तिम समयमें शेष १२ प्रकृतियोंकी सत्ताका विनाश हो जानेसे जीव सर्व कर्मसे वियुक्त होकर सिद्ध हो जाता है ।

सूत्रकारने यह विषय दृष्टिवादके पाच अंगोंमेंसे द्वितीय अंग सूत्रपरसे संग्रह किया है ( पुस्तक १, पृ. १३०, व प्रस्तावना पृ. ७४ ) । बबलाकारने उसका जो विस्तार किया है उसके आधारका यद्यपि उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया, पर मिलानसे निश्चयतः ज्ञात होता है कि उन्होंने वह कषायप्राभृतके चूर्णिसूत्रोंसे लिया है । यथार्थतः बहुतायतसे उन्होंने उक्त चूर्ण-सूत्रोंको ही जैसाका तैसा उद्धृत किया है जैसा कि प्रस्तुत चूलिकामे जगह जगह दी हुई टिप्पणियोंपरसे ज्ञात हो सकेगा ।

## ९ गत्यागति चूलिका

इस चूलिकाके चार विभाग किये जा सकते हैं । पहले ४३ सूत्रोंमें भिन्न भिन्न नारकी तिर्यंच, मनुष्य व देव जिनविम्बदर्शन, वर्मश्रवण, जातिस्मरण व वेदना इन चारमेंसे किन किन

कारणों द्वारा व कत्र सम्यक्त्वकी प्राप्ति करते हैं इसका प्ररूपण किया गया है । आगे सूत्र ४४ से ७५ तक उक्त चारों गतियोंमें प्रवेश करने और वहासे निकलनेके समय जीवके कौन कौन गुणस्थान होना संभव हैं इसका निर्देश किया गया है । सूत्र ७६ से २०२ तक यह बतलाया गया है कि उक्त गतियोंसे भिन्न भिन्न गुणस्थानों सहित निकलकर जीव कौन कौनसी गतियोंमें जा सकता है । फिर सूत्र २०३ से अन्तिम सूत्र २४३ तक यह बतलाया गया है कि उक्त चार गतियोंके जीव उस उस गतिसे निकलकर जिस अन्य गतिमें जावेंगे वहां वे कौन कौनसे गुण प्राप्त कर सकते हैं । ये चारों विषय आगे चार पृथक् तालिकाओंमें स्पष्ट कर दिये गये हैं अतएव उनके विषयमें यहां विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यह गत्यागतिका विषय सूत्रकारने दृष्टिवादके पाच अंगोंमें प्रथम अंग परिकर्मके चन्द्र-प्रज्ञप्ति आदि पाच भेदोंमेंके अन्तिम भेद वियाहपण्णति ( व्याख्याप्रज्ञप्ति ) से ग्रहण किया है ।  
( पुस्तक १ पृ. १३० )

---

१. प्रकृतिसमुत्कीर्तन, स्थानसमुत्कीर्तन, तीनों दंडक व उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियोंकी तालिका

	प्रकृतिसमुत्कीर्तन		बन्धस्थान	प्रथमसम्यक्त्व अभिमुखके बन्धयोग्य है या नहीं	उत्कृष्ट		जघन्य	
	मूलप्रकृति	उ प्रकृति			स्थिति	आवाधा	स्थिति	आवाधा
१	ज्ञानावरणीय	मतिज्ञाना- वरणादि ५	मिथ्यादृष्टिसे लेकर सू सा. सयत तक	हैं	३०कोडा- कोडी सागरोपम	३ वर्ष- सहस्र	अन्तर्घृहृत्	अन्तर्घृ.
२	दर्शनावरणीय	१ नि. नि २ प्र प्र. ३ स्थान.	मिथ्यादृष्टि व सासादन	"	"	"	३ सा X	"
		४ निद्रा ५ प्रचला	मिथ्यात्वसे अपूर्वकरणके प्र सप्तम भाग तक	"	"	"	"	"
		६ चक्षुद ७ अचक्षु ८ अवधि ९ केवल	मिथ्यात्वसे सूक्ष्मसाम्प- राय तक	"	"	"	अन्तर्घृहृत्	"
३	वेदनीय	१ साता. २ असाता	मिथ्यात्वसे सयोगी तक मिथ्यात्वमे प्रमत्त तक	" नहीं	१५ को. ३० "	१३ व स ३ "	१२ घृह ३ सा. X	" "
४	मोहनीय (अ) दर्शनमोह (आ) चारित्रमो (१) कषाय- वेदनीय	१ सम्यक्त्व २ मिथ्यात्व ३ सम्यग्मि. अनन्तानु बन्धी क्रोधादि ४	X मिथ्यात्व X मिथ्यादृष्टि व सासादन	X हैं X "	७० " ४० "	७ " ४ "	३ सा X ६ सा. X	" "
		अप्रत्याख्याना क्रोधादि ४	मिथ्यादृष्टिसे असयत सम्यग्दृष्टि तक	"	"	"	"	"
		प्रत्याख्याना- वरण क्रोधादि ४	मिथ्यादृष्टिसे सैयतासैयत तक	"	"	"	"	"

X इसे पर्योपमके असंख्यातैर्न भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये ।

प्रकृतिसमुत्कीर्तन		बन्धस्थान	प्रथमसम्यक्त्व अभिमुखके बन्धयोग्य है या नहीं	उत्कृष्ट		अवन्य	
मूलप्रकृति	उ प्रकृति			स्थिति	आवाधा	स्थिति	आवाधा
(२) नोकपाय वेदनीय	सञ्चलन क्रोध	मिथ्यादृष्टिसे अनि क तक	है	४० को	४ व स	२ मास	अन्तर्मु
	” मान	”	”	”	”	१ मास	”
	” माया	”	”	”	”	१ पक्ष	”
	” लोभ	सूक्ष्मसाम्पराय तक	”	”	”	अन्तर्मुहूर्त	”
	१ स्त्रीवेद	मिथ्यादृष्टि और सासादन	नहीं	१५ को	१३ व स.	३ सा ×	”
	२ पुरुषवेद	अनिवृत्ति- करण तक	है	१० ”	१ ”	८ वर्ष	”
	३ नपुंसकवेद	मिथ्यादृष्टि अपूर्वक तक	नहीं	२० ”	२ ”	३ सा ×	”
	४ हास्य	”	है	१० ”	१ ”	”	”
	५ रति	”	”	”	”	”	”
	६ अरति	”	नहीं	२० को	२ व स.	”	”
७ शोक	”	”	”	”	”	”	
८ मय	”	है	”	”	”	”	
९ ज्युप्सा	”	”	”	”	”	”	
५ आयु	१ नारकायु	मिथ्यादृष्टि	”	३३ सा	३ पू को	१० व स	”
	२ तिर्यचायु	मिथ्यादृष्टि और सासादन	”	३ पल्योपम	”	क्षुद्रमव	”
	३ मनुष्यायु	मिश्रको छोड असयत तक	”	”	”	”	”
	४ देवायु	अप्रमत्त तक	”	३३ सा	”	१० व स	”
६ नाम (पिंडप्रकृतियां) १ गति	१ नरक	मिथ्यादृष्टि	नहीं	२०को सा	२ व स.	३ सा ×	”
	२ तिर्यच	मिथ्या सासा	सातवीं पृथि- वीके नारकी बांधते हैं	”	”	”	”
	३ मनुष्य	असयत सम्य तक	देव नारकी बांधते हैं	१५को सा	१३ व स	”	”
	४ देव	अप्रमत्त तक	तिर्यच मनुष्य बांधते हैं	१० ”	१ व स.	”	”

× इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये ।

प्रकृतिसमुत्कीर्तन		बन्धस्थान	प्रथमसम्यक्त्व अभिसुखके बन्धयोग्य है या नहीं	उत्कृष्ट		जघन्य	
मूलप्रकृति	उ प्रकृति			स्थिति	आवाधा	स्थिति	आवाधा
(२) जाति	१ एकेन्द्रिय-	मिथ्यादृष्टि	नहीं	२० को.	२ व स	३ सा ×	अन्तर्घु
	२ द्वीन्द्रिय	"	"	१८ "	१६ "	"	"
	३ त्रीन्द्रिय	"	"	"	"	"	"
	४ चतुरिन्द्रिय	"	"	"	"	"	"
	५ पचेन्द्रिय	अपूर्वकरण तक	है	२० "	२ "	"	"
(३) शरीर ५	१ औदारिक	अस सम्य तक	देव नारकी बाधते हैं	"	"	"	"
	(४) शरीर- बधन ५	२ वैक्रियिक	अपूर्व तक	"	"	३ सा. ×	"
(५) शरीर- सघात ५	३ आहारक	अप्रमत्त और अपूर्वकरण	नहीं	अन्त - कोडाकोडी	अन्तर्घुहर्त	अन्त - कोडाकोडी	"
	४ तैजस	अपूर्वक तक	है	२० को	२ व.म	३ सा ×	"
(६) शरीर- सस्थान	५ कर्मण	"	"	"	"	"	"
	१ समचतुरस	अपूर्वक तक	है	१० "	१ "	३ सा ×	"
		२ न्यग्रोध- परिमडल	मिथ्या सासा.	नहीं	१२ "	१८ "	"
	३ स्वाति	"	"	१४ "	१६ "	"	"
	४ कुब्जक	"	"	१६ "	१८ "	"	"
	५ वामन	"	"	१८ "	१६ "	"	"
	६ हुड	मिथ्यादृष्टि	"	२० "	२ "	"	"
(७) शरीरां- गोपांग	१ औदारिक	असयत सम्य तक	देव नारकी बाधते हैं	"	"	"	"
	२ वैक्रियिक	अपूर्व तक	तिर्य मनुष्य बाधते हैं	"	"	"	"
	३ आहारक	अप्रमत्त अपूर्वकरण	नहीं	अन्त - कोडाकोडी	अन्तर्घुहर्त	अन्त - कोडाकोडी	"
(८) शरीर- सहनन	१ वज्रवृषम- नाराच	असयत सम्य तक	देव नारकी बाधते हैं	१० को	१ व स.	३ सा ×	"
	२ वज्रनाराच	मिथ्या सासा	"	१२ "	१६ "	"	"
	३ नाराच	"	"	१४ "	१६ "	"	"
	४ अर्धनाराच	"	"	१६ "	१८ "	"	"
	५ कीलिक	"	"	१८ "	१६ "	"	"
	६ असप्राप्त सेवर्त	मिथ्यादृष्टि	"	२० "	२ "	"	"

× इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये ।

प्रकृतिसमुत्कीर्तन		बन्धस्थान	प्रथमसम्यक्त्व अभिमुखके बन्धयोग्य है या नहीं	उत्कृष्ट		जघन्य	
मूलप्रकृति	उ प्रकृति			स्थिति	आवाधा	स्थिति	आवाधा
(९) वर्ण	५ कृष्णादि	अपूर्व तक	है	२० को	२ व स	३ सा ×	अन्तर्ध
(१०) गंध	१ सुरमि २ दुरमि }	"	"	"	"	"	"
(११) रस	५ तिक्तादिक	"	"	"	"	"	"
(१२) स्पर्श	८ कर्कशादि	"	"	"	"	"	"
(१३) आनु- पूर्वा	१ नरकगति	मिथ्यादृष्टि	"	"	"	"	"
	२ तिर्यचगति	मिथ्या सासा	७ वें नरकके जीव वाधते हैं	"	"	"	"
	३ मनुष्यगति.	असयत- सम्य तक	देव नारकी वाधते हैं	१५ को	१३ व स	"	"
	४ देवगति	अपूर्व तक	तिर्यच मनुष्य वाधते हैं	१० "	१ "	"	"
(१४) त्रिहायो- गति	१ प्रगस्त	"	है	"	"	"	"
	२ अप्रगस्त	मिथ्या सासा	नहीं	२० "	२ "	"	"
( अर्पिंड प्रकृतिया )	१ अगुरुलघु	अपूर्व तक	है	"	"	"	"
	२ उपघात	"	"	"	"	"	"
	३ परघात	"	"	"	"	"	"
	४ उच्छ्राम	"	"	"	"	"	"
	५ जाताप	मिथ्यादृष्टि	नहीं	"	"	"	"
	६ उद्योत	मिथ्या सासा	७ वे नरकके जीव विकल्पसे वाधते हैं	"	"	"	"
	७ त्रम	अपूर्व तक	है	"	"	"	"
	८ स्यावर	मिथ्यादृष्टि	नहीं	"	"	"	"
	९ बाढर	अपूर्व तक	है	"	"	"	"
	१० सूक्ष्म	मिथ्यादृष्टि	नहीं	१८ "	१६ "	"	"

× इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये ।

	प्रकृतिसमुंस्कीर्तन		घन्धस्थान	प्रथमसम्यक्त्व अभिमुखके बन्धयोग्य है या नहीं	उत्कृष्ट		जघन्य	
	मूलप्रकृति	उ प्रकृति			स्थिति	आवाधा	स्थिति	आवाधा
		११ पर्याप्त	अपूर्वक. तक	है	२० को.	२ व स	३ सा. ×	अन्तर्मु.
		१२ अपर्याप्त	मिथ्यादृष्टि	नहीं	१८ "	१६ "	"	"
		१३ प्रत्येक- शरीर	अपूर्वक तक	है	२० "	२ "	"	"
		१४ साधारण शरीर	मिथ्यादृष्टि	नहीं	१८ "	१६ "	"	"
		१५ स्थिर	अपूर्वक तक	है	१० "	१ "	"	"
		१६ अस्थिर	प्रमत्तस "	नहीं	२० "	२ "	"	"
		१७ शुभ	अपूर्वक "	है	१० "	१ "	"	"
		१८ अशुभ	प्रमत्तस "	नहीं	२० "	२ "	"	"
		१९ सुमग	अपूर्वक "	है	१० "	१ "	"	"
		२० दुर्मग	मिथ्या सासा	नहीं	२० "	२ "	"	"
		२१ सुस्वर	अपूर्वक तक	है	१० "	१ "	"	"
		२२ दु.स्वर	मिथ्या सासा	नहीं	२० "	२ "	"	"
		२३ आदेय	अपूर्वक तक	है	१० "	१ "	"	"
		२४ अनादेय	मिथ्या सासा	नहीं	२० "	२ "	"	"
		२५ यश कीर्ति	सूक्ष्मसा तक	है	१० "	१ "	८ मुहूर्त	"
		२६ अयश - कीर्ति	प्रमत्तस "	नहीं	२० "	२ "	३ सा. ×	"
		२७ निर्माण	अपूर्वक "	है	"	"	"	"
		२८ तीर्थकर	असयत सम्य- गृष्टिसे अपूर्वकरण तक	नहीं	अन्त - कोडाकोडी	अन्तर्मुहूर्त	अन्त - कोडाकोडी	"
७ गोत्र		१ उच्च	सूक्ष्मसा तक	है	१० को	१ व स	८ मुहूर्त	"
		२ नीच	मिथ्या सासा	७ वें नरकके जीव बाधते है	२० "	२ "	३ सा. ×	"
८ अतराय		५ दानान्तरा- यादि	सूक्ष्मसा तक	है	३० "	३ "	अन्तर्मुहूर्त	"

× इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये ।

## २. स्थानसमुत्कीर्तनचूलिकानुसार स्थानक्रमसे प्रकृतियोंका बन्ध

### १. मिथ्यादृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; ९ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय; मिथ्यात्व, १६ कषाय, अन्यतम वेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये २२ मोहनीय; ४ आयु; नरकगति आदि २८ नामकर्म ( सूत्र ६१ ) अथवा तिर्यचगति आदि ३०, २९, २६, २५, या २३ नामकर्म ( सूत्र ६६-८३ ) अथवा मनुष्यगति आदि २९ या २५ नामकर्म ( सूत्र ९१-९४ ) अथवा देवगति आदि २८ नामकर्म ( सूत्र १०६ ); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय ।

### २. सासादन जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; ९ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय; १६ कषाय, स्त्री व पुरुष वेदमेंसे अन्यतर वेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये २१ मोहनीय; नारकायुको छोड़ शेष ३ आयु; मनुष्यगति आदि २९ नामकर्म ( सूत्र ८९ ) अथवा देवगति आदि २८ नामकर्म ( सूत्र १०६ ), नीच या उच्च गोत्र, और ५ अन्तराय।

### ३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय, निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय, अप्रत्याख्यानादि १२ कषाय, पुरुषवेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये १७ मोहनीय; यहा आयुबन्ध होता नहीं, मनुष्यगति आदि २९ नामकर्म ( सूत्र ८७ ); उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय ।

### ४. असंयतसम्यग्दृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादिको छोड़ शेष ६ दर्शनावरणीय, २ वेदनीय; मिश्रके अनुसार १७ मोहनीय, मनुष्य और देव आयु; मनुष्यगति आदि ३० नामकर्म ( सूत्र ८५-८६ ) अथवा २९ नामकर्म ( सूत्र ८७ ) अथवा देवगति आदि २९ नामकर्म ( सूत्र १०२ ), उच्च गोत्र और ५ अन्तराय ।

### ५. संयतासंयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दर्शनावरणीय; २ वेदनीय; प्रत्या-



ह्यानावरणादि ८ कपाय एवं मिश्रके अनुसार शेष ५, ये १३ मोहनीय, देवायु, देवगति आदि २९ नामकर्म ( सूत्र १०२ ); उच्च गोत्र, और ५ अन्तराय ।

### ६. संयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां

५ ज्ञानावरणीय सूक्ष्मसाम्प्राय तक । निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दर्शनावरणीय अपूर्वकरणके प्रथम सप्तम भाग तक, तथा निद्रानिद्रादि ५ को छोड़ शेष ४ अपूर्वकरणके द्वितीय भागसे लेकर सूक्ष्मसाम्प्राय तक । असातावेदनीय प्रमत्तसयत तक, तथा सातावेदनीय सयोगी तक । ४ संज्वलन कपाय एव मिश्रके अनुसार पुरुषवेदादि ५ ये ९ मोहनीय प्रमत्तसे लेकर अपूर्वकरण तक, एव ४ संज्वलन और पुरुषवेद ये पाच मोहनीय अनिवृत्तिकरण तक, तथा इसी गुणस्थानमें क्रमशः पुरुषवेदरहित ४ संज्वलन, क्रोध संज्वलनको छोड़ केवल ३ संज्वलन, एव क्रोध मानको छोड़ केवल २ संज्वलन, सूक्ष्मसाम्प्रायमें केवल एक लोमसंज्वलन मोहनीय । देवायु अप्रमत्त गुणस्थान तक । देवगति आदि ३१, ३०, २९, या २८ नामकर्म अप्रमत्त व अपूर्वकरण संयतके ( सूत्र ९६-१०४ ), यशःकीर्ति नामकर्म अपूर्वकरणके ७ वें भागसे सूक्ष्मसाम्प्राय संयत तक । उच्च गोत्र सूक्ष्मसाम्प्राय तक । ५ अन्तराय सूक्ष्मसाम्प्राय तक ।

३. भिन्न भिन्न गतियोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारण  
( गत्यागति चूलिका सूत्र १-४३ )

गति	जिनद्विवर्द्धन	धर्मश्रवण	जातिस्मरण	वेदना	काल
<b>नरक</b>					
प्रथम पृथ्वी	×	”	”	”	पर्याप्त होनेसे अन्तर्मुहूर्त पश्चात्
द्वितीय ”	×	”	”	”	”
तृतीय ”	×	”	”	”	”
चतुर्थ ”	×	×	”	”	”
पचम ”	×	×	”	”	”
षष्ठ ”	×	×	”	”	”
सप्तम ”	×	×	”	”	”
<b>तिर्य्यच</b> ( प स ग प )	”	”	”	×	दिवसपृथक्त्वके पश्चात्
<b>मनुष्य</b> ( ग प )	”	”	”	×	आठ वर्षसे ऊपर
<b>प. देव</b> मवनवामीमे शतार सहस्रार	जिनमहिमदर्शन	”	”	देवद्विदर्शन	अन्तर्मुहूर्तसे ”
आनत-अच्युत	”	”	”	×	”
भव अंधेयक अंधेय ऋसे ऊपरके देव नियमसे सम्यक्त्वी ही होते हैं।	×	”	”	×	”

४. गतियोंमें प्रवेश और निर्गमनसम्बन्धी गुणस्थान  
( गत्यागति चूलिका सूत्र ४४-७५ )

गति	प्रवेशकालीन गुणस्थान	निर्गमनकालीन गुणस्थान		
<b>नरक</b>				
प्रथम पृथ्वीके नारकी	मिथ्यात्व सम्यक्त्व	मिथ्यात्व सम्यक्त्व	सासादन ×	सम्यक्त्व ×
द्वितीयसे छठवीं पृथ्वी तकके नारकी	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व	सासादन	सम्यक्त्व
सातवीं पृथ्वीके नारकी	”	”	×	×
तिर्य्यच-मनुष्य-देव - पचेन्द्रिय तिर्य्यच	”	”	सासादन	सम्यक्त्व
पर्याप्त व	सासादन	”	”	”
अपर्याप्त	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व	×	×
पचेन्द्रिय तिर्य्यच योनिमती मनुष्यिनी				
भवनवासी देव-देविया	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व	सासादन	सम्यक्त्व
व्यतर ”	सासादन	”	×	”
व्योतिषी ”				
सौधर्म-ईशानवासी देविया				
मनुष्य पर्याप्त व अपर्याप्त तथा सौधर्मसे नौ त्रैवेयक तकके देव	मिथ्यात्व सासादन सम्यक्त्व	” ” ”	सासादन ” ”	” ” ”
अष्टदिशोंसे सर्वार्थसिद्धि तकके देव	”	”	×	×

५. जीव किस गतिसे किस गतिमें जाता है  
( गत्यागति चूलिका सूत्र ७६-२०२ )

निर्गमन करनेवाला जीवभेद	प्राप्त करने योग्य गतियां					
	नरक	तिर्यंच	मनुष्य	देव	विशेष	
<b>नारकी</b>						
मिथ्यादृष्टि	×	प स ग.प सख्या	ग.प सख्या	×	निर्गमन नहीं होता	
सासादन	×	”	”	×		
सम्यग्मिथ्यादृष्टि	×	×	×	×		
सम्यग्दृष्टि	×	×	ग प सख्या	×		
सप्तम पृथिवीस्थ मिथ्यादृष्टि	×	प स ग प सख्या	×	×		
<b>तिर्यंच</b>						
सं प प सख्या मिथ्यादृष्टि	सर्व	सर्व	सर्व	मवनवासीसे शतार-सहस्रार तक	सप्तम पृथिवीमें केवल मिथ्यात्वसे ही निर्गमन होता है।	
असङ्गी प प	प्रथम पृथिवी	”	”	मवन व्यतर		
१ प स अप	}	×	सर्व सख्या	सर्व सख्या		×
२ प अस अप.						
३ पृथिवी वा सू प अ						
४ जल ”						
५ वन निगोद ”						
६ वन. वा प्र प अप						
७ द्वी प अ.						
८ त्री ”						
९ चतु ”						
तैज वा सू प अप वायु ” ”	×	”	×	×		
सासादन सख्या	×	एकद्व (पृथि.जल वन प्र वा सू), प स ग प सख्या	ग प सख्या असख्या	मवन से शतार- सहस्रार तक		
सम्यग्मिथ्या सख्या असख्या	×	×	×	×	निर्गमन नहीं होता	

निर्गमन करनेवाला जीवभेद	प्राप्त करने योग्य गतिय <sup>m</sup>				
	नरक	तिर्यंच	मनुष्य	देव	विशेष
सम्यग्दृष्टि सख्या	×	×	×	सौ ई से आरण- अच्युत तक	
मिथ्यादृष्टि असख्या	×	×	×	भवन, व्यतर, ज्योतिषी	
सासादन ”	×	×	×	”	
सम्यग्दृष्टि ”	×	×	×	सौधर्म ईशान	
<b>मनुष्य</b>					
मनुष्य मिथ्या सख्या	सर्व	सर्व	सर्व	भवन से नौ त्रैवे तक	
” प ”	”	”	”	”	
” अप	×	”	”	”	
सासादन ”	×	एकेन्द्रिय (वा पृथि, जल, वन प्र पर्याप्त) पचेन्द्रिय स ग प सख्या असख्या	ग प सख्या. असख्या	भवन से नौ त्रैवे तक	
सम्यग्मिथ्यादृष्टि सख्या असख्या	×	×	×	×	
सम्यग्दृष्टि सख्या	×	×	×	सौ ई से सर्वार्थ- सिद्धि तक	बद्धायुष्कोकी विवक्षा नहीं की गई
मिथ्या असख्या. सासादन ”	×	×	×	भवन, व्यतर, ज्योतिषी	
सम्यग्दृष्टि ”	×	×	×	” सौधर्म-ईशान	
<b>देव</b>					
भवनत्रिक व सौधर्म ईशान कल्पवासी मिथ्यादृष्टि }	×	एके (वा पृ, ज, वन) स ग प प	ग प सख्या	×	
सासादन	×	”	”	×	
सम्यग्मिथ्या	×	×	×	×	
सम्यग्दृष्टि	×	×	ग. प सख्या	×	
सनल्लु से शतार सहस्रार मिथ्या सासादन }	×	प स ग प सख्या	”	×	प्रथम पृथिवीके समान
सम्यग्मिथ्या	×	×	×	×	
सम्यग्दृष्टि	×	×	ग प सख्या	×	
आनतसे नौ त्रैवेयक मिथ्या सासादन असयतस }	×	×	”	×	
सम्यग्मिथ्या	×	×	×	×	
अनुदिशसे सर्वार्थ सम्यग्दृष्टि	×	×	ग प सख्या	×	

# विषय-सूची

## प्रकृतिसमुत्कीर्तनचूलिका

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
१	धवलाकारका मंगलाचरण और प्रतिष्ठा।	१	१४	मति-श्रुतज्ञानोंसे अवधि-ज्ञानकी भिन्नता बतला कर उसकी प्रत्यक्षताका निरूपण।	२६
२	शंका-समाधानपूर्वक चूलिकाका अवतार व उसके भेदोंका निरूपण।	२	१५	मनःपर्ययज्ञान व उसके भेद तथा अवधि और मनःपर्यय ज्ञानोंका वैशिष्ट्य।	२८
३	प्रकृतिसमुत्कीर्तनकी प्रतिष्ठा।	५	१६	केवलज्ञान और केवलज्ञानाचरणीयका स्वरूप एवं केवलीके मतिज्ञानादि चार ज्ञानोंके अभावका निरूपण।	२९
४	प्रकृतिसमुत्कीर्तनके भेदोंका निर्देश तथा मूलप्रकृति व उत्तरप्रकृतिका लक्षण।	५	१७	दर्शनाचरणीयके नौ भेदोंका एवं दर्शन व उसके भेदोंका निरूपण।	३१
५	ज्ञानाचरणीयका निर्देश तथा आविश्यमाण और आचारकका निरूपण।	६	१८	दर्शनके स्वरूपमें भिन्न मतोंका दिग्दर्शन और उनका खण्डन।	३३
६	दर्शन व दर्शनाचरणीयका लक्षण व दर्शनका ज्ञानसे पृथक्त्वप्ररूपण।	९	१९	सातावेदनीय व असातावेदनीयका लक्षण, उन दोनोंके अभावमें सुख-दुःखाभावरूप आशंकाका समाधान और सातावेदनीयका जीव-पुद्गल-विपाकित्वनिरूपण।	३५
७	वेदनीयका निरूपण।	१०	२०	मोहनीय कर्मके अट्टाईस भेदोंका निरूपण, दर्शनमोहनीयका स्वरूप और बन्ध व सत्वकी अपेक्षा उसका वैशिष्ट्य।	३७
८	मोहनीयका निरूपण।	११	२१	सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका निरूपण।	३९
९	आयु, नाम, गोत्र व अन्तराय कर्मोंका निरूपण।	१२	२२	चारित्रमोहनीयके भेद-प्रभेद व उनके भिन्न भिन्न लक्षण।	४७
१०	ज्ञानाचरणीयके पांच भेदोंका निर्देश।	१५			
११	आभिनिवोधिक ज्ञानका स्वरूप व उसके अवग्रहादि भेद-प्रभेदोंका निरूपण।	१६			
१२	श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानाचरणीयका लक्षण व श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका निरूपण।	२१			
१३	अवधिज्ञान और अवधिज्ञानाचरणका लक्षण तथा अवधि-ज्ञानके तीन भेदोंका निर्देश।	२५			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
२३	आयुर्कर्मके भेद व उनका लक्षण ।	४८	६	मोहनीय कर्मके दश स्थानोंका निरूपण ।	८८
२४	नामकर्मकी ब्यालीस पिण्ड-प्रकृतियोंका पृथक् पृथक् लक्षणनिरूपण ।	४९	७	आयुर्कर्मके बन्धस्थान ।	९९
२५	गति व जाति नामकर्मोंके भेदोंका निरूपण ।	६७	८	नामकर्मके अट्ठाईस प्रकृति-सम्बन्धी स्थान ।	१०२
२६	शरीर नामकर्मके भेदोंका निरूपण ।	६८	९	तिर्यग्गति नामकर्मके पांच स्थान ।	१०४
२७	बन्धनके भेद ।	७०	१०	मनुष्यगति नामकर्मके तीन स्थान ।	११७
२८	संघातके भेद ।	"	११	देवगति नामकर्मके पांच स्थान ।	१२२
२९	संस्थान नामकर्मके भेद व उनके लक्षण ।	७१	१२	गोत्र कर्मके बन्धस्थान ।	१३१
३०	अंगोपांग नामकर्मके भेद व उनके लक्षण ।	७२	१३	अन्तरायकी पांच प्रकृति-योंका एक बन्धस्थान ।	१३२
३१	संहनन नामकर्मके भेद व उनके लक्षण ।	७३	<b>प्रथममहादण्डकचूलिका</b>		
३२	वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श नामकर्मके भेदोंका निरूपण ।	७४	१	प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके बध्यमान प्रकृति-योंके कीर्तनकी प्रतिज्ञा ।	१३३
३३	आनुपूर्वी आदि नामकर्मके भेदोंका निरूपण ।	७६	२	प्रथमसम्यक्त्वोंके द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश ।	१३३
३४	गोत्र और अन्तराय कर्मके भेदोंका निरूपण ।	७७	३	सम्यक्त्वाभिमुख हुए मिथ्या-दृष्टि जीवके प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छित्तिक्रमका निरूपण ।	१३५
<b>स्थानसमुत्कीर्तनचूलिका</b>			<b>द्वितीयमहादण्डकचूलिका</b>		
१	स्थानसमुत्कीर्तनकी प्रतिज्ञा ।	७९	१	प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख देव और नारकीके बध्यमान प्रकृ-तियोंका निरूपण ।	१४०
२	बन्धकस्थानोंके भेद ।	८०	<b>तृतीयमहादण्डकचूलिका</b>		
३	ज्ञानावरणीयकी पांच प्रकृति-योंका निर्देश व उनके एक बन्धस्थानका निरूपण ।	"	१	प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख सप्तम पृथिवीके नारकी द्वारा बध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश ।	१४२
४	दर्शनावरणीय कर्मके तीन बन्धस्थानोंका निरूपण ।	८२			
५	वेदनीयके एक बन्धस्थानका निरूपण ।	८७			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
	<b>उत्कृष्टस्थितिचूलिका</b>	
१	उत्कृष्टस्थितिके कथनकी प्रतिज्ञा ।	१४५
२	पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, असातावेदनीय और पांच अन्तरायोंकी उत्कृष्ट स्थितिका निरूपण ।	१४६
३	उपर्युक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आवाधा तथा आवाधाकाण्डकोंका निरूपण ।	१४८
४	आवाधासे हीन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेकका निरूपण ।	१५०
५	उत्कृष्ट स्थितिमें प्रदेशरचनाक्रमको बतलाते हुए गुणहानि आदिका निरूपण ।	१५२
६	सातावेदनीय, स्रविद, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वीकी उत्कृष्ट स्थिति ।	१५८
७	उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आवाधा ।	१५९
८	मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति व आवाधाका प्रमाण ।	”
९	सोलह कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी आवाधा ।	१६१
१०	पुरुषवेदादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी आवाधा ।	१६२
११	नपुंसकवेदादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी अवाधा ।	१६३
१२	नारकायु व देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी आवाधा ।	१६६

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
१३	तिर्थगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उसकी आवाधा ।	१६९
१४	द्वीन्द्रियादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व उनके आवाधाप्रमाणको बतलाते हुए इच्छित निषेकोंके भागहारके निकालनेका विधान ।	१७२
१५	आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोपांग और तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका निरूपण ।	१७४
१६	उक्त तीनों प्रकृतियोंके आवाधाकालका प्रमाण ।	१७७
१७	न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान और वज्रनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व आवाधा ।	”
१८	स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१७८
१९	कुञ्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१७९
	<b>जघन्यस्थितिचूलिका</b>	
१	जघन्यस्थितिके कहनेकी प्रतिज्ञा तथा संक्लेश व विशुद्धिपर विचार ।	१८०
२	पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, संज्वलनलोभ एवं पांच अन्तरायोंका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८२
३	पांच दर्शनावरण और असातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८४



क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
४	सातवेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८५		सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका	
५	मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८६	१	सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य कर्म-स्थिति आदिका निर्देश तथा क्षयोपशमादि चार लब्धियोंका निरूपण ।	२०३
६	अनन्तानुबन्धी आदि बारह कर्पायोंका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८७	२	सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य जीवका निरूपण ।	२०६
७	संज्वलन क्रोध, मान और मायाका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८८	३	सर्वविशुद्धका लक्षण तथा अधःप्रवृत्त करणविशुद्धियोंका निरूपण ।	२१४
८	पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१८९	४	अपूर्वकरणका निरूपण ।	२२०
९	स्त्रीवेदादिप्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१९०	५	अनिवृत्तिकरणका निरूपण ।	२२१
१०	नारकायु व देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१९३	६	अधःप्रवृत्तकरणादि विशुद्धियों द्वारा होनेवाले स्थितिवन्धापसरणादि कार्य ।	२२२
११	तिर्यगायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	"	७	प्रथमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके द्वारा किये जानेवाले अन्तरकरणका निरूपण ।	२३०
१२	नरकगति आदि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१९४	८	मिथ्यात्वके तीन भागोंका निरूपण ।	२३४
१३	आहारकशरीर आहारक-शरीरांगोपांग और तीर्थकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध व आवाधा ।	१९७	९	पच्चीस पदवाला अल्पबहुत्व	२३६
१४	यशःकीर्ति और उच्च गोत्रके जघन्य स्थितिवन्ध और आवाधाप्रमाणका निरूपण तथा जघन्य व उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध एवं अनुभागवन्धके न कहने रूप शंकाका समाधान ।	१९८	१०	दर्शनमोहनीय कर्मके उपशमके योग्य गत्यादिकोंका निरूपण ।	२३८
१५	सत्त्व, उदय और उदीरणाके न कहनेरूप शंकाका समाधान ।	२०१	११	दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके प्रारम्भ योग्य सामग्री ।	२४३
			१२	दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके निष्ठापन योग्य गतियोंका निर्देश एवं दर्शनमोहक्षपककी विशेष प्ररूपणा	२४७
			१३	प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणसे लेकर प्रथमसमयवर्ती कृतकृत्य वेदक होने तक अनुभागकाण्डकोत्कीरणकालादि पदोंका अल्पबहुत्व ।	२६३

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
१४	सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि सात कर्मोंकी स्थिति ।	२६६	२७	बारह कपाय और नौ नोक-पायोंके अन्तरकरणका विधान ।	३००
१५	चारित्रको प्राप्त करनेवाले जीवके ज्ञानावरणादि तीन कर्मोंकी स्थिति ।	२६७	२८	अन्तरकरणके प्रथम समयमें होनेवाले सात करणोंका निरूपण ।	३०२
१६	संयमासंयम प्राप्तिका विधान ।	२७०	२९	नपुंसकवेदके उपशमका निरूपण ।	३०३
१७	अपूर्वकरणसे लेकर एकान्ता-नुवृद्धिके अन्तिम समय तक स्थितिवन्धादि पदोंका अल्प-वहुत्व ।	२७४	३०	स्त्रीवेदके उपशमका निरूपण ।	३०५
१८	संयमासंयमलब्धिके स्वामी व अल्पवहुत्व ।	२७५	३१	सात नोकपायोंके उपशमका विधान ।	३०६
१९	संयमासंयमलब्धिके स्थानोंका निरूपण ।	२७६	३२	तीन प्रकारके क्रोधके उप-शमका निरूपण ।	३०८
२०	संयमासंयमलब्धिस्थानोंका अल्पवहुत्व ।	२७८	३३	तीन प्रकारके मानके उप-शमका निरूपण ।	३०९
२१	सकलचारित्रके तीन भेदोंका निर्देश करते हुए क्षायोपशामिक चारित्रकी प्राप्तिका विधान ।	२८१	३४	तीन प्रकारकी मायाके उप-शमका विधान ।	३१०
२२	संयमलब्धिस्थानोंके तीन भेद व उनका स्वरूप तथा अल्पवहुत्व ।	२८३	३५	तीन प्रकारके लोभके उपशम-विधानमें कृष्टियोंका निरूपण ।	३१२
२३	औपशामिक चारित्रकी प्राप्तिके विधानमें अनन्तानु-बन्धीकी विसंयोजना और दर्शनमोहनीयके उपशमका निरूपण ।	२८८	३६	उपशान्तकपायका निरूपण ।	३१६
२४	कपायोपशामनाके विधानमें स्थितिकाण्डकादिकोंका निर्देश व प्रमाण ।	२९२	३७	उपशान्तकपायके प्रतिपातका क्रम ।	३१७
२५	स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व	२९७	३८	क्रोधादिके उदयसे उपस्थित पुरुषवेदी आदि उपशाम-कोंकी विशेषता ।	३३२
२६	मनःपर्ययज्ञानावरणादिकोंका बन्धसे देशघातित्वनिरूपण ।	२९९	३९	प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरण उपशामकसे लेकर प्रतिपा-तावस्थामें अन्तिम समयवर्ती अपूर्वकरण होने तक इसका-लमें कालसंयुक्त पदोंका अल्पवहुत्व ।	३३५
			४०	क्षायिक चारित्रकी प्राप्तिके विधानमें स्थितिकाण्डकादि-कोंका निरूपण ।	३४२
			४१	ज्ञानावरणीयादिकोंकी स्थितिका स्थापन ।	"

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
४२	चारित्र्यमोहनीयकी क्षपणामें अधःप्रवृत्तकरणकालादिकी आवश्यकता ।	३४३	५६	क्रोधादिके उदयसे उपस्थित पुरुषवेदी आदि क्षपकोंकी विशेषता ।	४०७
४३	प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणका निरूपण ।	३४४	५७	क्षीणकपाय क्षपकका निरूपण ।	४११
४४	अपूर्वकरणके द्वितीयादि समयोंमें किये जानेवाले कार्य ।	३४५	५८	सयोगकेवलीके निरूपणमें दण्ड कपाटादि समुद्घातोंका स्वरूप ।	४१२
४५	प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणके आवास ।	३४८	५९	योगनिरोधकरणमें अपूर्वस्पर्द्धक और कृष्टियोंके करनेका विधान ।	४१४
४६	अनिवृत्तिकरणके द्वितीयादि समयोंमें किये जानेवाले कार्य एवं ज्ञानावरणादिकोंके स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व ।	३४९	६०	उपान्त्य समयमें व्युच्छिन्न होनेवाली तिहत्तर प्रकृतियां ।	४१७
४७	स्थितिसत्वका निरूपण ।	३५३	६१	अन्त्य समयमें व्युच्छिन्न होनेवाली वारह प्रकृतियां ।	४१७
४८	आठ कपाय व निद्रानिद्रादिकोंका संक्रमण और मनःपर्ययज्ञानावरणादिकोंका बन्धसे देशघातिकरणविधान ।	३५५	गति-आगतिचूलिका		
४९	चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके अन्तरकरणका विधान ।	३५७	१	नरकगतिमें प्रथमसम्यक्त्वोत्पादनकी सामग्री ।	४१८
५०	नपुंसकवेदके संक्रमणका विधान ।	३५८	२	तिर्यग्गतिमें प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिके योग्य सामग्री ।	४२४
५१	स्त्रीवेदके संक्रमणका विधान ।	३६०	३	मनुष्यगतिमें प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिके योग्य सामग्री ।	४२८
५२	सात नोकषायोंके संक्रमणका निरूपण ।	३६१	४	देवगतिमें प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिके योग्य सामग्री ।	४३१
५३	अश्वकरणकालमें अपूर्वस्पर्द्धकोंका निरूपण ।	३६४	५	नरकगतिमें प्रवेश और निर्गमनके गुणस्थानोंका निरूपण ।	४३७
५४	कृष्टिकरणकालमें क्रोधादि-कृष्टियोंका निर्माण, अल्पबहुत्व और उनमें दीयमान प्रदेशाग्रका निरूपण ।	३७४	६	तिर्यग्गतिमें प्रवेश और निर्गमनके गुणस्थान ।	४४०
५५	कृष्टिवेदककालमें कृष्टियोंका बंध, उदय, अपूर्वकृष्टियोंका निर्माण, प्रदेशाग्रका संक्रमण और सूक्ष्मकृष्टियोंके निर्माणादिका निरूपण ।	३८२	७	पंचेन्द्रिय तिर्यंच धोनिमती, मनुष्यिनी, और भवनवासी आदि देवोंके प्रवेश व निर्गमनके गुणस्थान ।	४४२
			८	मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और सौधर्मादि नवत्रैवेयक विमा-	

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
	नवासी देवोंके प्रवेश व निर्गमनके गुणस्थान ।	४४३	२३	तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि भोगभूमि-जोंकी गति ।	४६७
९	अनुदिशादि सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवोंके प्रवेश व निर्गमनके गुणस्थान ।	४४६	२४	मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टि कर्मभूमिजोंकी गति ।	४६८
१०	मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि नारकियोंकी आग-तिका निरूपण ।	४४७	२५	अपर्याप्त मनुष्योंकी गति ।	४६९
११	सम्यग्मिथ्यादृष्टिनारकियोंकी आगति ।	४५०	२६	मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टि-योंकी गति ।	४७०
१२	सम्यग्दृष्टि नारकियोंकी आगति ।	४५१	२७	मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि कर्मभूमिजोंकी गति ।	४७३
१३	सप्तम पृथिवीके मिथ्यादृष्टि नारकियोंकी आगति ।	४५२	२८	मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भोग-भूमिजोंकी गति ।	४७६
१४	सप्तम पृथिवीके सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि नार-कियोंकी आगति ।	४५४	२९	मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि भोग-भूमिजोंकी गति ।	४७७
१५	तिर्यंच संघी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त कर्मभूमिजोंकी गति ।	४५४	३०	देव मिथ्यादृष्टि और सासा-दनसम्यग्दृष्टियोंकी आगति ।	४७७
१६	पंचेन्द्रिय तिर्यंच असंघी पर्याप्तोंकी गति ।	४५५	३१	देव सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टियोंकी आगति ।	४८०
१७	पंचेन्द्रिय तिर्यंच संघी व असंघी आदिकोंकी गति ।	४५७	३२	भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंकी आगति ।	४८१
१८	तेजस्कायिक व वायुकायिक जीवोंकी गति ।	४५८	३३	सनत्कुमारप्रभृति शतारसह-स्रार कल्पवासी देवोंकी आगति ।	"
१९	तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टि कर्मभूमिजोंकी गति ।	४५८	३४	आनतादि नवग्रैवेयकविमान-वासी मिथ्यादृष्टि, सासा-दनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्य-ग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंकी आगति ।	४८२
२०	तिर्यंच सम्यग्मिथ्यादृष्टि-योंकी गति ।	४६३	३५	अनुदिशादि सर्वार्थसिद्धि-विमानवासी असंयतसम्य-ग्दृष्टि देवोंकी आगति ।	४८३
२१	तिर्यंच असंयतसम्यग्दृष्टि-योंकी गति ।	४६४	३६	सप्तम पृथिवीके नारकियोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४८४
२२	तिर्यंच मिथ्यादृष्टि व सासा-दनसम्यग्दृष्टि भोगभूमि-जोंकी गति ।	४६६			

क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.	क्रम नं.	विषय	पृष्ठ नं.
३७	छठी पृथिवीके नारकियोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४८५		तथा सौधर्म-ईशानकल्पवासिनी देवियोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४९५
३८	पंचम पृथिवीके नारकियोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४८७	४४	बौद्धों द्वारा माना हुआ मोक्षस्वरूप एवं उसका निरसन ।	४९७
३९	चतुर्थ पृथिवीके नारकियोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति एवं मोक्षका स्वरूप दिखलाते हुए कपिल, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक और तार्किकोंके मतोंका निराकरण ।	४८८	४५	सौधर्मादि सहस्रारकल्पवासी देवोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	"
४०	तीन उपरिम पृथिवीके नारकियोंकी आगति और गुणप्राप्ति ।	४९१	४६	आनतादि नवत्रैवेयकविमानवासी देवोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४९८
४१	तिर्यंच और मनुष्योंकी गति एवं गुणोंकी प्राप्ति ।	४९२	४७	अनुदिशादि अपराजित विमानवासी देवोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	"
४२	देवोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति ।	४९४	४८	सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवोंकी आगति और गुणोंकी प्राप्ति तथा सिद्धोंमें बुद्धिके अभावादिको माननेवाले मतोंका निरसन ।	५००
४३	भवनवासी, घानव्यन्तर और ज्योतिषी देव-देवियों				

# शुद्धिपत्र

## ( पुस्तक १ )

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३५	१२	( तीन मोड़से उत्पन्न होनेके तृतीय समयवर्ती )	( ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके तृतीयसमयवर्ती )
४०५	२-३	अत्थि सम्माइट्टी	अत्थि खइयसम्माइट्टी

## ( पुस्तक २ )

४४९	१३	कापोत गेइया	कापोत लेइया
५१३	३०	सब्ध्यपर्याप्तक	लब्ध्यपर्याप्तक
६७४	१३	संज्ञी-अपर्याप्त	असंज्ञी-पर्याप्त
६८४	२०	"	"

## ( आलापोंका )

पृष्ठ	यंत्र नं.	खाना नाम	अशुद्ध	शुद्ध
४४०	२३	कषाय	अक.	उप. क.
४४९	२८	योग	९	११
४७९	६९	जीवसमास	१ सं प.	२ सं. प., स. अ.
५०४	१०२	संज्ञा	क्षीणस.	अतीतसं.
५१६	११७	योग	औ. १	औ. २
५२२	१२६	वेद	३	१
६३४	२४९	"	अयोग	अपगत
७०५	३३८	पर्याप्त	५ अ.	६ अ.
७२४	३६६	गुणस्थान	म.	प्र.
८०५	४७४	योग	×	अयोग
८०८	४७७	"	×	"

( ४२ )

## षट्खंडागमकी प्रस्तावना

पृष्ठ	यंत्र नं.	खाना नाम	अशुद्ध	शुद्ध
८४२	५२५	लेइया	भा. ३	भा. ६
८४७	५३४	जीवसमास	सं. अ.	सं. प.

## ( पुस्तक ४ )

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२२	२०	असंख्यात	असंख्यात
४९	१२	$\frac{१०८ + ५००}{९६}$	$\frac{१०८ \times ५००}{९६}$
"	२८	संख्यातगुणे	असंख्यातगुणे
५५	१६	$\frac{३०३}{२} \div \frac{७}{२}$	$\frac{३०३}{२} \div \frac{४९}{२}$
५८	४	(प्र. ३) २ हस्त	३ हस्त
६१	५	" अंगुल १३६	अंगुल १३६
९०	२८	४३	४३
१०६	२३-२४	पाया पाया जाता	पाया जाता
१०८	२६	वैक्रियिकमिश्रकाय-	वैक्रियिककाय-
११७	१६	स्तम्भा-	स्तम्भा-
१२१	२२	वताया नहीं गया है	वताया गया है
१४७	२८	$७ \times ७ \times = ९८$	$७ \times ७ \times २ = ९८$
१४९	२१-२२	वन वन नहीं	वन नहीं
१९६	१०	८१७८	८१२८
२२२	१५	$\frac{३५७९}{२००००}$	$\frac{३५७९}{२००००}$
२३१	२४	भवनवासी	व्यन्तर
२७२	२३	अमम्य	अगम्य
३५४	१८	उपशामकोके एक समयकी प्ररूपणा	उपशामकोके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा
३६२	१६	सम्यग्दृष्टि	सम्यग्मिथ्यादृष्टि
३८३	१८	उद्धर्तनाघातसे	अपवर्तनाघातसे
३८५	२४	X	इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि, पहले बहुत बार प्ररूपित किया जा चुका है।

पृष्ठ नं.	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४०४	२३	( १००० )	( १०००० )
४१३	२०	अपेक्षा एक समय	अपेक्षा जघन्यसे एक समय

( पुस्तक ५ )

२३	२८	निकला ।	निकला ( ६ ) ।
२६	१४	सम्यग्मिध्यादृष्टिका	उक्त दोनों गुणस्थानोंका
५५	२७	चारों क्षपकोंका	चारों क्षपक और अयोगिकेवलियोंका
१०२	२८	जीवोंका जघन्य अन्तर	जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर
२६६	१४	संख्यातगुणित	असख्यातगुणित

( पुस्तक ६ )

१	४	लम्भदि	लम्भदि
१८	४	एयत्त	एयत्तं
१९	७	होज्ज ?	होज्ज ।
”	२२	हो सके !	हो सके ।
२०	९	अंती	अंतो
२२	२१	एक अक्षरकी उत्पत्तिकी, उपचारसे	एक अक्षरसे उत्पन्न श्रुतज्ञानकी उपचारसे
५२	३	-रुक्खसंठाणाहोज्ज	-रुक्खसंठाणा होज्ज
६२	२	होज्ज ण	होज्ज । ण
६९	१	जीवेणोगाह	जीवेणोगाह
७२	३	पुव्वत्त	पुव्वुत्त
”	२६-२७	अगोपाग	अगोपाग
८२	७	चत्तारि पयडिसंबंधि	चत्तारिपयडिसंबंधि
८६	२६	सूक्ष्मसाम्परायिक	सूक्ष्मसाम्परायिक
१०१	१९-२०	( यहा .....है )	×
”	२३	सुगम है ।	सुगम है । ( यहा संयतसे अभिप्राय अप्रमत्त गुणस्थान तकके संयतोंसे है ) ।
१४१	५	बंधवाच्छेदो	बंधवोच्छेदो
१५३	६	गोपुच्छाविशेषोंका	गोपुच्छविशेषोंका
१६६	१	पक्खेवसंखेव-	पक्खेवसंखेव-



पृष्ठ नं.	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७०	४	भवदिट्टीय	भवद्विदीय
१७६	२७	प्रकृतिमें	प्रकृतमें
२०६	१०	पढमसम्मत्तं	पढमसम्मत्तं
२१३	१२	तेसि	तेसि
२१६	२४	२७०	१७०
२३५	६	पढमसम्मत्तं पडिवण्ण-	पढमसम्मत्तप्पडिवण्ण-
२३६	१०	सम्मामिच्छत्ताणं	सम्मामिच्छत्ताणं
२४१	३	दंसणमोहस्स वंधगो	दंसणमोहस्सबंधगो
२४२	१३	हैं	हैं
२४५	९	दंसणमोहक्खणं	दंसणमोहक्खवणं
२५५	१०	दूरावकिट्टीणाम	दूरावकिट्टी णाम
२६७	८	वेदणीयं णामं	वेदणीयं मोहणीयं णामं
२९७	७	जादो, मोहणीयवज्जाणं	जादो, सेसाणं पुण
		पुण	
३०५	१४	हआ था	हुआ था
३१८	२७	वाहिरगो	वाहिरगे
३३१	१२	द्वितीयोपशमसम्यक्त्वको	द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालको
३५६	२८	तीहंदियचउरिंदिय	तीहंदियचउरिंदिय
३६९		उक्कट्टिदं हु	उक्कट्टिदं तु
४१४	१८	निच्छ्वासका	निःश्वासका
४३६	६	ण-	ण,
४४९	३	अत्थि ?	अत्थि ।
५०१	६	मिच्छत्त-	मिच्छंत-
”	२१	अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी	अभावको माननेवालोंके



सिरि-भगवंत-पुष्पदंत-भूदबलि-पणीदो

## छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समणिणदो

तस्स

पढमखंडे जीवहाणे

### चूलिया

तिहुवणसिरसेहरए भवभयगवभादु णिग्गदे पणउं ।

सिद्धे जीवहाणस्समलिणगुणचूलियं वोच्छं ॥

कदि काओ पयडीओ बंधदिं, केवडि कालट्टिदिएहि कम्मोहि  
सम्मत्तं लम्भदि वा ण लब्भदि वा, केवचिरेण कालेण वा कदि भाए  
वा करोदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खवणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स  
व मूले केवडियं वा दंसणमोहणीयं कम्मं खवेतस्स चारित्तं वा संपुण्णं  
पडिवज्जंतस्स ॥ १ ॥

त्रिभुवनरूप लोकके शिर पर स्थित शेखरस्वरूप और भव-भयके गर्भसे विनि-  
र्गत ऐसे सिद्धोंको प्रणाम करके जीवस्थान नामक प्रथम खंडकी निर्मल गुणवाली  
चूलिकाको कहता हूं ॥

सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियोंको  
बांधता है, कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा  
नहीं प्राप्त करता है, कितने कालके द्वारा मिथ्यात्व कर्मको कितने भागरूप करता है,  
और किन किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीय कर्मको क्षपण करने-  
वाले जीवके और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीय कर्मकी उपशामना  
तथा क्षपणा होती है ॥ १ ॥

सम्भत्सेसु अद्भुसु अणियोगद्वारेसु चूलिया किमद्भुमागदा ? पुत्रवृत्ताणमद्भुणमणि-  
ओगद्वाराणं विसमपएसविवरणद्भुमागदा । एत्थ चोदओ भणदि- अद्भुहि अणियोगद्वारेहि  
परुविदमेव अद्भुं किं चूलिया परुवेदि, अण्णं वा ? जदि तं चैव परुवेदि, तो पुणरुत्तदोसो ।  
विदीए चोद्दसजीवसमासपडिवद्भुं वा परुवेदि, अप्पडिवद्भुं वा ? पढमवियप्पे ' चोद्दसण्हं  
जीवसमासाणं परुवणद्भुदाए तत्थ इमाणि अद्भु चैव अणियोगद्वाराणि णादच्चाणि भवंति' ।  
सि एदस्स सुत्तस्स अवहारणपदस्स विहलत्तं पसज्जेदे । कुदो ? चूलियासण्णिदस्स चोद्दस-  
जीवसमासपडिवद्भुदुपरुवयस्स णवमस्स अणियोगद्वारस्सुवलंभा । विदीए चूलिया जीव-  
द्वानादो पुधभूदा होज्ज, चोद्दसजीवसमासपडिवद्भुद्वे अभणंतस्स जीवद्वानववएसविरोहा ?

एत्थ परिहारो उच्चदे- ण ताव पुणरुत्तदोसो, अद्भुणियोगद्वारेहि अपरुविदस्स  
तत्थ उत्तत्थणिच्छयजणणस्स अद्भुस्स तदो कथांचि पुधभूदस्स तेहि चैव सच्चिदस्स पर-  
वणादो । ण च एवकारपदस्स विहलत्तं, चूलियाए अद्भुणियोगद्वारेसु अंतच्चावादो ।

शंका—जीवस्थाननामक प्रथम खंडसम्बन्धी आठों अनुयोगद्वारोंके समाप्त हो  
जाने पर यह चूलिका नामक अधिकार किसलिए आया है ?

समाधान—पूर्वोक्त आठों अनुयोगद्वारोंके विपम-स्थलोंके विवरणके लिये  
यह चूलिका नामक अधिकार आया है ।

शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि— चूलिकानामक अधिकार आठों अनु-  
योगद्वारोंसे प्ररूपित ही अर्थको प्ररूपण करता है, अथवा अन्य अर्थको ? यदि उसी ही  
अर्थको प्ररूपित करता है तो पुनरुक्तदोष आता है । द्वितीय पक्षमें वह चतुर्दश-जीव-  
समास-प्रतिवद्ध अर्थका प्ररूपण करता है, अथवा चतुर्दश-जीवसमास-अप्रतिवद्ध अर्थका ?  
प्रथम विकल्पके मानने पर—' चौदह जीवसमासोंके प्ररूपण करनेके लिये उस विषयमें  
ये आठ ही अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं ' इस प्रकारके इस सूत्रके अवधारणरूप एवकार-  
पदके विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चतुर्दश-जीवसमासमें प्रतिवद्ध अर्थका प्ररूपण  
करनेवाला चूलिकासंज्ञित नवमां अनुयोगद्वार पाया जाता है । द्वितीय पक्षके मानने पर  
चूलिकानामक अधिकार जीवस्थानसे पृथग्भूत हो जायगा, क्योंकि, चतुर्दश जीवसमास-  
प्रतिवद्ध अर्थोंको नहीं कहनेवाले अधिकारके ' जीवस्थान ' इस संज्ञाका विरोध है ?

समाधान—यहां पर उक्त शंकाका परिहार किया जाता है—न तो प्रथम  
पक्षमें दिया गया पुनरुक्त दोष आता है, क्योंकि, आठों ही अनुयोगद्वारोंसे नहीं  
प्ररूपण किये गये, तथा वहां पर कहे गये अर्थ के निश्चय उत्पन्न करनेवाले और जीव-  
स्थानसे कथंचित् पृथग्भूत तथा उन आठों अनुयोगद्वारोंसे ही सूचित अर्थका इस  
चूलिकानामक अधिकारमें प्ररूपण किया गया है । द्वितीय पक्षके अन्तर्गत प्रथम पक्षमें  
वतलाई गई एवकार पदकी विफलता भी नहीं आती है, क्योंकि चूलिकाका आठों  
अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव हो जाता है ।

कधमंतवभावो ? अट्टाणिओगहारसूइदड्डपरूवणादो । तं जहा-खेत्त-कालंतरअणिओग-  
 दारेहि गदिरागदी सूचिदा । सा वि गदिरागदी पयडिसमुक्कित्तणं ट्ठाणसमुक्कित्तणं च  
 सूचेदि, वंधेण विणा सत्तविहपरियट्टेसु परियट्टणाणुववत्तीदो । पयडि-ट्ठाणसमुक्कित्तणेहि  
 जहण्णुक्कस्सट्टिदीओ सूचिदाओ, सकसायजीवस्स ट्टिदिवंधेण विणा पयडिबंधाणुववत्तीदो ।  
 अट्टपोग्गलपरियट्टं देसूणमिदि' वयणेण पढमसम्मत्तग्गहणं सूचिदं, अण्णहा देसूण-  
 पोग्गलपरियट्टमेत्तमिच्छत्तट्टिदीए संभवाभावा । तेण वि पढमसम्मत्तग्गहणेण तिण्णि  
 महादंडया पढमसम्मत्तग्गहणजोग्गखेत्तिय-तिविहकरण-पज्जत्त-ट्टिदि-अणुभागखंडयादओ  
 सूचिदा होंति । एदेणेव मोक्खो वि सूचिदो । कुदो ? अट्टपोग्गलपरियट्टादो उवरि  
 आलद्धसम्मत्ताणं संसाराभावा । तेण वि मोक्खेण दंसण-चारित्तमोहणीयखवणविहाणं  
 तज्जोग्गखेत्त-गइ-करण-ट्टिदीओ च सूचिदा भवंति । ण च तेसिं तत्थ णिण्णओ कदो,  
 तत्थ णिण्णये कीरमाणे सिस्साणं मइवाउलत्तप्पसंगा । ण विदियवियप्पो, अण्णभुवगमादो ।

शंका—चूलिकाका आठों अनुयोगद्वारोंमें अन्तर्भाव कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, चूलिकानामक अधिकार आठों अनुयोगद्वारोंसे सूचित  
 अर्थका प्ररूपण करता है । उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—क्षेत्रप्ररूपणा, कालप्ररूपणा  
 और अन्तरप्ररूपणा, इन तीन अनुयोगद्वारोंसे गति-आगति नामकी चूलिका सूचित  
 की गई है । वह गति-आगति चूलिका भी प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन,  
 इन दो अधिकारोंको सूचित करती है, क्योंकि, कर्म-बंधके विना सात प्रकारके परि-  
 वर्तनोंमें परिवर्तन अन्यथा हो नहीं सकता है । प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन-  
 के द्वारा ( कर्मोंकी ) जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति नामकी दो चूलिकाएं सूचित  
 की गई हैं, क्योंकि, सकषाय जीवके स्थितिवंधके विना प्रकृतिबंध नहीं हो सकता है ।  
 कालप्ररूपणामें कहे गये 'देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन' इस वचनसे प्रथमसम्यक्त्वका  
 ग्रहण सूचित किया गया है । यदि ऐसा न माना जाय, तो देशोन अर्धपुद्गलपरिवर्तन-  
 मात्र मिथ्यात्वकी स्थितिका होना संभव नहीं है । उस प्रथमसम्यक्त्व-ग्रहणके द्वारा  
 भी तीन महादंडक, प्रथमसम्यक्त्व-ग्रहण करनेके योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, त्रिविधकरणकी  
 प्राप्ति, पर्याप्तकपना, स्थितिखंड और अनुभागखंड आदिक सूचित किये गये हैं । इस  
 ही अधिकारके द्वारा मोक्ष भी सूचित किया गया है, क्योंकि, अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालसे  
 ऊपर आलद्धसम्यक्त्व अर्थात् प्राप्त किया है सम्यक्त्वको जिन्होंने, ऐसे जीवोंके संसार  
 का अभाव होता है । उस मोक्षके द्वारा भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मके  
 क्षपणका विधान, उसके योग्य क्षेत्र, गति, करण और स्थितियां सूचित की गई हैं ।  
 इन सब बातोंका उन आठ अनुयोगद्वारोंमें निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि, वहां उन  
 सबका निर्णय करने पर शिष्योंके बुद्धि-व्याकुलताका प्रसंग प्राप्त होता । द्वितीय विकल्प  
 भी ठीक नहीं है, क्योंकि, चूलिकाको जीवस्थानसे पृथग्भूत नहीं माना गया है ।

सा वि चूलिया एयविहा होदि सामण्णविक्खाए, पज्जवट्टियणयादो णवविहा । तं जहा— ' कदि पगडीओ वंधदि ' ति पदे पगडि-ट्टाणसमुक्किक्कणसण्णिदाओ' दोण्णि चूलियाओ होंति । ' काओ पयडीओ वंधदि ' ति पदमिह पढम-विदिय-तदियदंडय-सण्णिदाओ तिण्णि चूलियाओ ट्टिदाओ । ' केवडिकालट्टिदिएहि' कम्महि सम्मत्तं लब्भदि वा ण लब्भदि वा ' ति पदमिह जहण्णुक्कस्सट्टिदिसण्णिदाओ दोण्णि चूलियाओ अव-ट्टिदाओ । ' केवचिरेण कालेण कदि भाए वा करेदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खवणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले, केवडियं वा दंसणमोहणीयं कम्मं खवेत्तस्स चारित्तं वा संपुण्णं पडिवज्जंतस्स ' एदेसु पदेसु अट्टमी चूलिया । ' वा संपुण्णं ' ति ' वा ' सदाभिह गदिरागदी णाम णवमी चूलिया । एवं णव चूलिया होंति । अवांतरभेएण अणय-विहाओ वा । एदासिं णवण्हं चूलियाणमट्टपरूवणट्टमुवरिमसुत्तं भणदि—

कदि काओ पगडीओ वंधदि ति जं पदं तस्स विहासा ॥ २ ॥

' जहा उदेसो तथा णिदेसो ' ति णायादो पढममुट्टिडस्स पढमं चेव णिदेसो

वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, और पर्यायार्थिक नयसे नौ प्रकारकी है । वह इस प्रकार है—' कितनी प्रकृतियां बांधता है ' इस पदमें प्रकृति-समुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं । ' किन प्रकृति-योंको बांधता है ' इस पदमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दंडक नामवाली तीन चूलिकाएं अवस्थित हैं । ' कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा नहीं प्राप्त करता है ', इस पदमें जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थिति नामकी दो चूलिकाएं अवस्थित हैं । ' कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है, और किन क्षेत्रोंमें तथा किसके पासमें कितने दर्शनमोहनीयकर्मको क्षपण करनेवाले और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीयकर्मकी उपशमना तथा क्षपणा होती है ' इन पदोंमें आठवीं चूलिका अन्तर्निहित है । ' वा संपुण्णं ' इस वाक्यमें आये हुए ' वा ' शब्दमें गति-आगति नामकी नवमीं चूलिका अन्तर्भूत है । इस प्रकार उप-र्युक्त सर्व चूलिकाएं नौ होती हैं । अथवा, अवांतर भेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनेक प्रकारकी हैं ।

अब इन नवों चूलिकाओंके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

' कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है ' यह जो पूर्वसूत्र-पठित पद है, उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २ ॥

शंका—' जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ' इस न्यायके अनुसार पहले उद्देश किये गये पदार्थका पहले ही निर्देश होता है, यह

१ प्रतिष्ठा ' समण्णिदाओ ' इति पाठ ।

२ प्रतिष्ठा ' केवलि—' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा ' संपुण्ण वा ' इति पाठः ।

होदि त्ति णच्चदे । तदो णाठवेद्वमिदं सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदम्हि पदे इमाओ चूलियाओ अवड्ढिदाओ, इमाओ त्ति ण ड्ढिदाओ त्ति जाणावणड्ढं, 'जहा उद्देशो तथा णिद्देशो' त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणड्ढं च तदारंभादो । विविहा भासा विहासा, परूवणा णिरूवणा वक्खाणमिदि एयट्ठो ।

## इदारिणं पगडिसमुक्कित्तणं कस्सामो ॥ ३ ॥

पगडीणं समुक्कित्तणं पगडिसमुक्कित्तणं, पयडिसरूवणिरूवणमिदि जं उच्चं होदि । इदारिणं संपहि, कस्सामो भणिस्सामो त्ति एयट्ठो । पढमं पयडिसमुक्कित्तणं चैव किमट्ठं उच्चदे ? ण, पयडीए अणवगदाए ट्ठाणसमुक्कित्तणादीणमवगमोत्रायाभावा । ण च अवयव-त्रिणि अणवगदे अवयवा अवगंतुं सकिज्जंते, अण्णत्थ तहाणुवलंभा । तम्हा पयडिसमुक्कित्तणमेव पुव्वं परूविज्जदे । तं पि पयडिसमुक्कित्तणं मूलत्तरपयडिसमुक्कित्तणभेएण दुविहं होइ । संगहियासेसवियप्पा दव्वट्ठियणयणिवंधणा मूलपयडी णाम । पुध पुधा-

वात जानी जाती है । अतएव यह सूत्र आरम्भ नहीं करना चाहिए ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें ये चूलिकापं अवस्थित हैं, और ये चूलिकापं अवस्थित नहीं हैं, इस वातके ज्ञान करानेके लिए, तथा 'जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है' इस न्यायके अस्तित्व-प्ररूपणके लिए इस सूत्रका आरम्भ किया गया है ।

विविध प्रकारके भाषण अर्थात् कथन करनेको विभाषा कहते हैं । विभाषा, प्ररूपणा, निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थ-वाचक नाम हैं ।

अत्र प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥

प्रकृतियोंके समुत्कीर्तनको प्रकृतिसमुत्कीर्तन कहते हैं, जिसका कि अर्थ प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करना होता है । इस समय अर्थात् आठों प्ररूपणाओंके पश्चात् अव, करेंगे अर्थात् प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकार्थक हैं ।

शंका—पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके अज्ञात होने पर स्थानसमुत्कीर्तन आदिके ज्ञानका कोई उपाय नहीं है । दूसरी वात यह है कि अवयवोंके अज्ञात रहने-पर अवयव नहीं जाने जा सकते हैं, क्योंकि, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता । इसलिए प्रकृतिसमुत्कीर्तनको ही पहले कहते हैं ।

वह प्रकृतिसमुत्कीर्तन भी मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन और उत्तरप्रकृतिसमुत्कीर्तनके भेदसे दो प्रकारका होता है । अपने अन्तर्गत समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाली और द्रव्यार्थिकनय-निबन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है । पृथक् पृथक् अवयववाली

वयवा' पञ्जवट्टियणयणिवंधणा उत्तरपयडी णाम । तत्थ मूलपयडिसमुक्कित्तणं पढमं किमट्टं कीरदे ? ण एस दोसो, मूलपयडीए संगहिदासेसुत्तरपयडीए परुविदाए उत्तरपयडिपरुवणुवत्तीदो ।

तं जहा ॥ ४ ॥

पुच्छासुत्तमेदं किमट्टं वुच्चदे ? सुत्तकत्तारस्स पमाणत्तपरुवणादो सुत्तस्स पमाणत्तपरुवणट्टं ।

णाणावरणीयं ॥ ५ ॥

णाणमववोहो अवगमो परिच्छेदो इदि एयट्टो । तमावारेदि त्ति णाणावरणीयं कम्मं । णाणविणासयमिदि किण्ण उच्चदे ? ण, जीवलक्खणाणं णाण-दंसणाणं विणासाभावा । विणासे वा जीवस्स वि विणासो होज्ज, लक्खणरहिय-लक्खाणुवलंभा । णाणस्स विणासाभावे सच्चजीवाणं णाणत्थित्तं पसज्जदे चे, होदु णाम विरोहाभावा;

तथा पर्यायार्थिकनय-निमित्तक प्रकृतिको उत्तरप्रकृति कहते हैं ।

शंका—इन दोनों भेदोंमेंसे मूलप्रकृतिसमुत्कीर्तन पहले किसलिए करते हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, समस्त उत्तरप्रकृतियोंका संग्रह करनेवाली मूलप्रकृतिके प्ररूपण किये जाने पर ही उत्तरप्रकृतियोंकी प्ररूपणा बन सकती है ।

वह प्रकृतिसमुत्कीर्तन किस प्रकार है ? ॥ ४ ॥

शंका—यह पृच्छा-सूत्र किसलिए कहते हैं ?

समाधान—सूत्र-कर्ताकी प्रमाणताके प्ररूपणद्वारा सूत्रकी प्रमाणता निरूपण करनेके लिए यह पृच्छा-सूत्र कहा है ।

ज्ञानावरणीय कर्म है ॥ ५ ॥

ज्ञान, अवबोध, अवगम और परिच्छेद, ये सब एकार्थ-वाचक नाम हैं । उस ज्ञानको जो आवरण करता है, वह ज्ञानावरणीय कर्म है ।

शंका—'ज्ञानावरण' नामके स्थानपर 'ज्ञान-विनाशक' ऐसा नाम क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनका विनाश नहीं होता है । यदि ज्ञान और दर्शनका विनाश माना जाय, तो जीवका भी विनाश हो जायगा, क्योंकि, लक्षणसे रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता है ।

शंका—ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर सभी जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व प्राप्त होता है ?

१ म प्रती 'पुषपिदावयवा' इत्यपि पाठः ।

२ प्रतिपु 'लक्खणाणुवलमा' इति पाठः ।

३ स. सि. ८, ४. त. रा. वा. ८, ४.

‘अक्षरस्स अणंतभाओ णिच्चुग्घाडियओ’ इदि सुत्ताणुकूलत्तादो वा । ण सव्वाव-  
यवेहि णाणस्सुवलंभो होदु त्ति वोत्तुं जुत्तं, आवरिदणाणभागाणमुवलंभविरोहा ।  
आवरिदणाणभागा सावरणे जीवे किमत्थि आहो णत्थि त्ति । जदि अत्थि,  
ण ते आवरिदा, सव्वप्पणा संताणमावरिदत्तविरोहा<sup>१</sup> । अह णत्थि, तो वि  
णावरणं, आवरिज्जमाणाणमभावे आवरणस्सत्थित्तविरोहा इदि ? एत्थ परिहारो  
उच्चदे- दव्वट्टियणए अवलंविज्जमाणे आवरिदणाणभागा सावरणे वि जीवे अत्थि,  
जीवदव्वादो पुधभूदणाणाभावा, विज्जमाणाणभागादो आवरिदणाणभागाणमभेदादो  
वा । आवरिदाणावरिदाणं कधमेगत्तमिदि चे ण, राहु-मेहेहि आवरिदाणावरिदिसु-

समाधान—ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर यदि सर्व जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व  
प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है । अथवा ‘अक्षरका अनन्तवां भाग  
नित्य-उद्धाटित अर्थात् आवरणरहित रहता है’ इस सूत्रके अनुकूल होनेसे सर्व जीवोंके  
ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है ।

शंका—यदि सर्व जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर सर्व अवयवोंके  
साथ ज्ञानका उपलम्भ होना चाहिए ? अर्थात् ज्ञानके सभी भागोंका या पूर्ण ज्ञानका  
सद्भाव पाया जाना चाहिए ?

समाधान—यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि, आवरण किये गये ज्ञानके  
भागोंका उपलम्भ माननेमें विरोध आता है ।

शंका—आवरणयुक्त जीवमें आवरण किये गये ज्ञानके भाग क्या हैं, अथवा  
नहीं हैं ? यदि हैं, तो वे आवरित नहीं कहे जा सकते, क्योंकि, सम्पूर्णरूपसे विद्यमान  
भागोंके आवरण माननेमें विरोध आता है । यदि नहीं हैं, तो उनका आवरण नहीं माना  
जा सकता, क्योंकि, आव्रियमाण अर्थात् आवरण किये जाने योग्य पदार्थोंके अभावमें  
आवरणके अस्तित्वका विरोध है ?

समाधान—यहां उक्त आशंकाका परिहार करते हैं—द्रव्यार्थिकनयके अव-  
लम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके अंश सावरण जीवमें भी होते हैं, क्योंकि,  
जीवद्रव्यसे पृथग्भूत ज्ञानका अभाव है, अथवा विद्यमान ज्ञानके अंशसे आवरण किये  
गये ज्ञानके अंशोंका कोई भेद नहीं है ।

शंका—ज्ञानके आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अंशोंके एकता  
कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, राहु और मेघोंके द्वारा सूर्यमंडल और चन्द्रमंडलके

१ ह्वदि हु सव्वजहण्ण णिच्चुग्घाड णिरावरण । गो जी. ३२०.

२ प्रतिपु ‘सत्ताणमुवरिदत्तविरोहा’ इति पाठ ।



जिज्जिदुमंडलभागाणमेगत्तुवलंभा । एवं संते आवरिज्जावारयभावो जुज्जदे, अण्णहा तस्सा-  
णुवलंभप्पसंगादो । पज्जवट्टियणए अवलंविज्जमाणे आवरिज्जमाणणाणभागा णत्थि,  
तेसिं तदुवलंभाभावा । ण च एदं सुत्तं पज्जवट्टियणयमवलंविज्जिदं, तदावरिज्जमाणा-  
वारयववहाराभावा । किंतु दव्वट्टियणयमवलंविज्जि सुत्तमिदमवट्टिदं, तेणेत्थ आवरिज्जमाणा-  
वारयभावो ण विरुज्जदे । किमट्ठ णाणमावरिज्जमाणमिदि ? उच्चदे—अप्पणो विरोहि-  
दव्वसण्णिहाणे संते वि जं णिम्मूलदो ण विणस्सदि, तमावरिज्जमाणं, इदं चारयं ।  
ण च णाणस्स विरोहिकम्मदव्वसण्णिहाणे संते णिम्मूलविणासो अत्थि, जीवविणासप्पसंगा ।  
तदो णाणमावरिज्जमाणं, कम्मदव्वं चारयमिदि उत्तं । कधं पोग्गलेण जीवादो पुध-  
भूदेण जीवलक्खणं णाणं विणासिज्जदि ? ण एस दोसो, जीवादो पुधभूदाणं घड-पड-  
त्थंभंधयारादीणं जीवलक्खणणाणविणासयाणमुवलंभा । णाणावारओ पोग्गलक्खंधो पवाह-  
आवरित और अनावरित भागोंके एकता पाई जाती है ।

इस प्रकार उक्त व्यवस्थाके होनेपर आत्रियमाण और आवारकभाव वन जाता है, अर्थात् ज्ञान तो आवरण करने योग्य और कर्म-पुद्गल आवरण करनेवाले सिद्ध हो जाते हैं । यदि उक्त व्यवस्था न मानी जायगी तो उसके अनुपलम्भका प्रसंग प्राप्त होगा । किन्तु पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करने पर आत्रियमाण ज्ञान भाग सावरण जीवमें नहीं होते हैं, क्योंकि, वे ज्ञान-भाग उक्त जीवमें नहीं पाये जाते ।

दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायार्थिकनयका अवलम्बन करके स्थित नहीं है, क्योंकि, उसमें आत्रियमाण और आवारक, इन दोनोंके व्यवहारका अभाव है । किन्तु यह सूत्र द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करके अवस्थित है, इसलिए यहाँपर आत्रियमाण और आवारकभाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है ।

शंका—ज्ञानको आत्रियमाण किस लिए कहा है ?

समाधान—अपने विरोधी द्रव्यके सन्निधान अर्थात् सामीप्य होनेपर भी जो निर्मूलतः नहीं विनष्ट होता है, उसे आत्रियमाण कहते हैं, और दूसरे अर्थात् आवरण करनेवाले विरोधी द्रव्यको आवारक कहते हैं । विरोधी कर्मद्रव्यके सन्निधान होनेपर ज्ञानका निर्मूल विनाश नहीं होता है, क्योंकि, वैसा माननेपर जीवके विनाशका प्रसंग आता है । इसलिए ज्ञान तो आत्रियमाण है और कर्मद्रव्य आवारक है, ऐसा कहा गया है ।

शंका—जीवद्रव्यसे पृथग्भूत पुद्गलद्रव्यके द्वारा जीवका लक्षणभूत ज्ञान कैसे विनष्ट किया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जीवद्रव्यसे पृथग्भूत घट, पट, स्तम्भ और अंधकार आदिक पदार्थ जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञानके विनाशक पाये जाते हैं ।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानका आवरण करनेवाला और प्रवाहस्वरूपसे

सरूवेण अणाइबंधणवद्धो णाणावरणीयमिदि भण्णदे ।

दंसणावरणीयं ॥ ६ ॥

अप्पविसओ उवजोगो दंसणं । ण णाणमेदं, तस्स वज्झट्टविसयत्तादो । ण च वज्झंतरंगविसयाणमेयत्तं, विरोहा । ण च णाणमेव दुसत्तिसहियं, पज्जयस्स पज्जयाभावा । णाण-दंसणलक्खणो जीवो त्ति तदो इच्छिद्वो । एदं च दंसणमावरिज्जं, विरोहिद्व्व-सण्णिहाणे संते वि एदस्स णिम्मूलदो विणासाभावा । भावे वा जीवस्स वि विणासो पसज्जेदे, लक्खणविणासे लक्खस्सावट्टाणविरोहा । ण च णाण-दंसणाणं जीवलक्खण-त्तमसिद्धं, दोण्हमभावे जीवद्व्वस्सेव अभावप्पसंगो । होदु चे ण, पमाणाभावे पमेयाणं सेसदव्वाणं पि अभावावत्तीदो । उत्तं च-

एक्को मे सस्सदो अप्पा णाण-दंसणलक्खणो ।

सेसा तु वहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा<sup>१</sup> ॥ १ ॥

अनादि-बंधन-वद्ध पुट्टल-स्कन्ध 'ज्ञानावरणीय कर्म' कहलाता है ।

दर्शनावरणीय कर्म है ॥ ६ ॥

आत्म-विषयक उपयोगको दर्शन कहते हैं । यह दर्शन, ज्ञानरूप नहीं है, क्योंकि, ज्ञान वाद्य अर्थको विषय करता है । तथा वाह्य और अन्नरंग विषयवाले ज्ञान और दर्शनके एकता नहीं है, क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है । और न ज्ञानको ही दो शक्तियोंसे युक्त माना जा सकता है, क्योंकि, पर्यायके अन्य पर्यायका अभाव माना गया है । इसलिए ज्ञान-दर्शनलक्षणात्मक जीव मानना चाहिए । यह दर्शन आवरण करनेके योग्य है, क्योंकि, विरोधी द्रव्यके सन्निधान होने पर भी इसका निर्मूलसे विनाश नहीं होता है । यदि दर्शनगुणका निर्मूल विनाश होने लगे, तो जीवके भी विनाशका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि, लक्षणके विनाश होने पर लक्ष्यके अवस्थानका विरोध है । दूसरी बात यह है कि ज्ञान और दर्शनके जीवका लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, दोनोंके अर्थात् ज्ञान और दर्शनके अभाव माननेपर जीवद्रव्यका ही अभाव प्राप्त होता है ।

शंका—यदि ज्ञान और दर्शनके अभाव होनेपर जीवद्रव्यका ही अभाव प्राप्त होता है, तो होने दो ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, (स्व परव्यवसायात्मक) प्रमाणके अभावमें प्रमेय-स्वरूप शेष द्रव्योंके भी अभावकी आपत्ति आती है । कहा भी है—

ज्ञान-दर्शनलक्षणात्मक मेरा आत्मा एक शाश्वत (नित्य) है । शेष सर्व संयोगलक्षणात्मक भाव वाहरी हैं ॥ १ ॥

असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणे य णाणे य ।

सायारमणायारं लक्खणमेयं तु सिद्धाण ॥ २ ॥

एदं दंसणमावरोदि त्ति दंसणावरणीयं' । जो पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तासंजम-  
कसाय-जोगेहि कम्मसरूवेण परिणदो जीवसमवेदो दंसणगुणपडिबंधओ सो दंसणा-  
वरणीयमिदि घेत्तव्वो ।

### वेदणीयं ॥ ७ ॥

वेद्यत इति वेदनीयम्' । एदीए उप्पत्तीए सब्बकम्माणं वेदणीयत्तं पसज्जदे ? ण  
एस दोसो, रूढिवसेण कुसलसदो व्व अप्पिदपोग्गलपुंजे चव वेदणीयसदप्पउत्तीदो ।  
अथवा वेदयतीति वेदनीयम् । जीवस्स सुह-दुक्खाणुहवणणिवंधणो पोग्गलक्खंधो  
मिच्छत्तादिपच्चयवसेण कम्मपज्जयपरिणदो जीवसमवेदो वेदणीयमिदि भण्णदे ।

जो अशरीर हैं, जीवघनात्मक है अर्थात् शुद्ध जीवप्रदेशात्मक हैं, ज्ञान और  
दर्शनमें उपयुक्त हैं, वे सिद्ध हैं । इस प्रकार साकार और अनाकार, यह सिद्धोंका  
लक्षण है ॥ २ ॥

इस प्रकारके दर्शनगुणको जो आवरण करता है, वह दर्शनावरणीय कर्म है ।  
अर्थात् जो पुद्गल-स्कन्ध मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगोंके द्वारा कर्मस्वरूपसे परि-  
णत होकर जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रतिबन्ध करने-  
वाला है, वह दर्शनावरणीय कर्म है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

वेदनीय कर्म है ॥ ७ ॥

जो वेदन अर्थात् अनुभवन किया जाय, वह वेदनीय कर्म है ।

शंका—इस प्रकारकी व्युत्पत्तिके द्वारा तो सभी कर्मोंके वेदनीयपनेका प्रसंग  
प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, रूढिके वशसे कुशलशब्दके समान  
विवक्षित पुद्गल-पुंजमें ही 'वेदनीय' इस शब्दकी प्रवृत्ति पाई जाती है । अर्थात् जिस  
प्रकार कुशलशब्दका व्युत्पत्त्यर्थ कुशको लानेवाला होने पर भी उसका रूढार्थ 'चतुर'  
लिया जाता है, उसी प्रकार सभी कर्मोंमें वेदनीयता होनेपर भी वेदनीयसंज्ञा एक कर्म-  
विशेषके लिए रूढ है ।

अथवा, जो वेदन कराता है, वह वेदनीय कर्म है । जीवके सुख और दुःखके  
अनुभवनका कारण, मिथ्यात्व आदि प्रत्ययोंके वशसे कर्मरूप पर्यायसे परिणत और  
जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त पुद्गल-स्कन्ध 'वेदनीय' इस नामसे कहा जाता है ।

१ स. सि. ८, ४., त. रा वा ८, ४.

२ प्रतिष्ठु 'वेदणीय' इति पाठ । वेदयति वेद्यत इति वा वेदनीयम् । स. सि. ८, ४., त. रा. वा. ८, ४.

अक्खणं अणुमवण वेयणिय सुहसरूवय साद । दुक्खसरूवमसाद त वेदयदीदि वेदणिय ॥ गो. क. १४.

तस्सत्थित्तं कुदोवगम्मदे ? सुख-दुखखकज्जणहाणुववत्तीदो । ण कज्जं कारणणिरवेक्ख-  
मुप्पज्जदे, अणत्थ तहाणुवलंभा । ण जीवो दुक्खसहावो, जीवलक्खणणाण-दंसणविरोहि-  
दुक्खस्स जीवसहावत्तविरोहा ।

## मोहणीयं ॥ ८ ॥

मुह्यत इति मोहनीयम् । एवं संते जीवस्स मोहणीयत्तं पसज्जदि त्ति णासंक-  
णिज्जं, जीवादो अभिण्णम्हि पोग्गलदब्बे कम्मसण्णिदे उचयारेण कत्तारत्तमारोघिय तथा  
उत्तीदो । अथवा मोहयतीति मोहनीयम् । एवं संते धत्तूर-सुरा-कलत्तादीणं पि मोहणीयत्तं  
पसज्जदीदि चे ण, कम्मदब्बमोहणीये एत्थ अहियारादो । ण कम्माहियारे धत्तूर-  
सुरा-कलत्तादीणं संभवो अत्थि । किं कम्मं ? पोग्गलदब्बं । ज्जिदि एवं, तो सव्वपोग्गलाणं

शंका—उस वेदनीयकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान—सुख और दुःखरूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथा-  
नुपपत्तिसे वेदनीयकर्मका अस्तित्व जाना जाता है । कारणसे निरपेक्ष कार्य उत्पन्न नहीं  
होता है, क्योंकि, अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता है ।

जीव दुःखस्वभावी नहीं है, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप ज्ञान और दर्शनके  
विरोधी दुःखको जीवका स्वभाव माननेमें विरोध आता है ।

मोहनीय कर्म है ॥ ८ ॥

जिसके द्वारा मोहित हो, वह मोहनीय कर्म है ।

शंका—इस प्रकारकी व्युत्पत्ति करनेपर जीवके मोहनीयत्व प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, जीवसे अभिन्न और  
'कर्म' ऐसी संज्ञावाले पुद्गलद्रव्यमें उपचारसे कर्तृत्वका आरोपण करके उस प्रकारकी  
व्युत्पत्ति की गई है ।

अथवा, जो मोहित करता है, वह मोहनीय कर्म है ।

शंका—ऐसी व्युत्पत्ति करनेपर धत्तूरा, मदिरा और भार्या आदिके भी मोह-  
नीयता प्रसक्त हान्ती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर मोहनीयनामक द्रव्यकर्मका अधिकार है,  
अतएव कर्मके अधिकारमें धत्तूरा, मदिरा और स्त्री आदिकी संभावना नहीं है ।

शंका—कर्म क्या वस्तु है ?

समाधान—कर्म पुद्गल द्रव्य है ।

कम्मत्तं पसज्जेदे ? ण, मिच्छत्तादिपच्चएहि' जीवे संबद्धाणं जाइ जरा-मरणादिकज्जकरणे समत्थाणं पोग्गलाणं कम्मत्तब्भुवगमादो । उत्तं च—

जीवपरिणामहेदू कम्मत्त पोग्गला परिणमंति ।

ण य णाणपरिणदो पुण जीवो कम्मं समादिपदि ॥ ३ ॥

जारिसओ परिणामो तारिसओ चैव कम्मत्रंथो वि ।

वत्थूसु विसम-समसण्णिदेसु अज्जप्पजोण्ण ॥ ४ ॥

मिच्छत्तादिपच्चएहि कोह-माण-माया-लोहादिकज्जकारित्तेण परिणदा पोग्गला जीवेण सह संबद्धा मोहणीयसण्णिदा होंति त्ति जं उत्तं होदि ।

**आउअं ॥ १ ॥**

एति भवधारणं प्रति इत्यायुः । जे पोग्गला मिच्छत्तादिकारणेहि णिरयादिभव-धारणसत्तिपरिणदा जीवणिविद्धा ते आउअसण्णिदा होंति । तस्स आउअस्स अत्थित्तं

शंका— यदि ऐसा है तो सभी पुद्गलोंके कर्मपना प्रसक्त होता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्व आदि बन्ध-कारणोंके द्वारा जीवमें सम्बन्धको प्राप्त, तथा जन्म, जरा और मरण आदि कार्योंके करनेमें समर्थ पुद्गलोंके कर्मपना माना गया है । कहा भी है—

जीवके रागादि परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं । किन्तु ज्ञान परिणत जीव कर्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

विषम और सम संज्ञावाली अर्थात् अनिष्ट और इष्ट वस्तुओंमें आत्मसम्बन्धी योगके द्वारा जिस प्रकारका परिणाम होता है, उस प्रकारका ही कर्म-बन्ध भी होता है ॥ ४ ॥

मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कार्य करनेकी शक्तिसे परिणत हुए पुद्गल जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त होकर ' मोहनीय ' संज्ञावाले हो जाते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है ।

**आयु कर्म है ॥ ९ ॥**

जो भव-धारणके प्रति जाता है, वह आयुर्कर्म है । जो पुद्गल मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा नरक आदि भव-धारण करनेकी शक्तिसे परिणत होकर जीवमें निविष्ट होते हैं, वे ' आयु ' इस संज्ञावाले होते हैं ।

शंका— उस आयुर्कर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

१ प्रतिपु '-सच्चएहि' इति पाठ ।

२ एत्यनेन नारकादिभवमित्थायु । स सि ८, ४, त रा वा ८, ४. कम्मकयमोहवड्डियससारहि य अणादिउत्तमिहि । जीवस्स अवट्टाण करेदि आऊ हलि व्व णर ॥ गो क. १२.

कुदोवगम्मदे ? देहट्टिदिअण्णहाणुववत्तीदो ।

णामं ॥ १० ॥

नाना मिनोति निर्वर्त्तयतीति नाम' । जे पोग्गला सरीर-संठाण-संघडण-वण्ण-गंधादिकज्जकारया जीवणिविद्धा ते णामसण्णिदा होंति त्ति उच्चं होदि । तस्स णाम-कम्मस्स अत्थित्तं कुदोवगम्मदे ? सरीर-संठाण-वण्णादिकज्जभेदण्णहाणुववत्तीदो ।

गोदं ॥ ११ ॥

गमयत्युच्च-नीचकुलमिति गोत्रम्' । उच्च-णीचकुलेसु उप्पादओ पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवसंवद्धो गोदमिदि उच्चदे ।

अंतरायं चेदि ॥ १२ ॥

अन्तरमेति गच्छति द्वयोः इत्यन्तरायः' । दाण-लाह-भोगोवभोगादिसु विग्घ-

समाधान—देहकी स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे आयुर्कर्मका अस्तित्व जाना जाता है ।

नाम कर्म है ॥ १० ॥

जो नाना प्रकारकी रचना निर्वृत्त करता है, वह नामकर्म है । शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गंध आदि कार्योंके करनेवाले जो पुद्गल जीवमं निविष्ट हैं, वे 'नाम' इस संघावाले होते हैं, ऐसा अर्थ कहा गया है ।

शंका—उस नामकर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान—शरीर, संस्थान, वर्ण आदि कार्योंके भेद अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथानुपपत्तिसे नामकर्मका अस्तित्व जाना जाता है ।

गोत्र कर्म है ॥ ११ ॥

जो उच्च और नीच कुलको ले जाता है वह गोत्रकर्म है । मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा जीवके साथ सम्बन्धको प्राप्त, एवं उच्च और नीच कुलोंमें उत्पन्न कराने-वाला पुद्गल स्कन्ध 'गोत्र' इस नामसे कहा जाता है ।

अन्तराय कर्म है ॥ १२ ॥

जो दो पदार्थोंके अन्तर अर्थात् मध्यमें आता है, वह अन्तराय कर्म है । दान, लाभ, भोग और उपभोग-आदिकोंमें विघ्न करनेमें समर्थ तथा स्व-कारणोंके द्वारा जीवके

१ नमयत्यात्मान नम्यतेऽनेनेति वा नाम । स सि. ८, ४, त. रा वा ८, ४ गदि आदिजीवमेद देहादी पोग्गलाणमेद च । गादेयतरपरिणमणं ऋदि णाम अण्यविह ॥ गो क १२

२ उच्चैर्नाच्चैश्च गूयते शक्यत इति वा गोत्रम् । स सि. ८, ४, त. रा वा ८, ४., सताणकमेणागयजीवो-यरणस्स गोदमिदि सण्णा । उच्च णीच चरण उच्च णीच हवे गोद ॥ गो. क. १३.

३ दातृदेयादीनामन्तर मध्यमेतीत्यन्तराय. । स. सि. ८, ४ ; त. रा वा. ८, ४.

करणकखमो पोग्गलकखंधो सकारणेहि जीवसमवेदो अंतरायमिदि भणणेदे । एत्तियाओ  
चेव मूलपयडीओ होंति त्ति जाणावणड्ढमिदि सद्दो पउत्तो । एत्थ उववुजंतओ सिलोगो-  
हेतावेवम्प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्यये ।

प्रादुर्भावे समाप्तौ च इतिशब्द विदुर्वुवाः<sup>१</sup> ॥ ५ ॥

तदो अट्टेव मूलपयडीओ । तं कुदो णव्वदे ? अट्ट-कम्मजणिदकज्जेहिंतो पुधभूद-  
कज्जस्स अणुवलंभादो । एदाहि अट्टहि पयडीहि अणंतानंतपरमाणुसमुदयसमागमेणु-  
प्पण्णाहि एगेगजीवपदेसम्मि संवद्धानंतपरमाणूहि अणादिसरूवेण संवद्दो अमुत्तो वि  
मुत्तत्तमुवगओ आइद्वकुलालचक्कं व सत्तसु संसारसु जीवो संसरदि त्ति घेत्तव्वं ।

मेहाविजाणाणुगहट्टं संगहणयमवलंविप पयडिसमुत्तिकत्तणं काऊण संपहि मंद-  
बुद्धिजाणाणुगहट्टं<sup>२</sup> व्यवहारणयपज्जयपरिणदो आइरिओ उवरिससुत्तं भणदि—

**णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ ॥ १३ ॥**

साथ सम्बन्धको प्राप्त पुद्गल-स्कन्ध ' अन्तराय ' इस नामसे कहा जाता है । मूलप्रकृतियां  
इतनी अर्थात् आठ ही होती हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें ' इति ' यह शब्द  
प्रयुक्त किया गया है । इस विषयमें यह उपयुक्त श्लोक है—

हेतु, एवं, प्रकार-आदि, व्यवच्छेद, विपर्यय, प्रादुर्भाव और समाप्तिके अर्थमें  
' इति ' शब्दको विद्वानोंने कहा है ॥ ५ ॥

इसलिए मूलप्रकृतियां आठ ही हैं ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है कि मूलप्रकृतियां आठ ही हैं ?

समाधान—आठ कर्मोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाले कार्योंसे पृथग्भूत कार्य पाषा  
नहीं जाता, इससे जाना जाता है कि मूलप्रकृतियां आठ ही हैं ।

अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायके समागमसे उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियोंके  
द्वारा एक एक जीव-प्रदेशपर सम्बद्ध अनन्त परमाणुओंके द्वारा अनादिस्वरूपसे  
सम्बन्धको प्राप्त अमूर्त भी यह जीव मूर्तस्वको प्राप्त होता हुआ आविद्ध-कुलाल-चक्रके  
समान, अर्थात् प्रयोग-प्रेरित कुम्भकारके चक्रके तुल्य, द्रव्यपरिवर्तनादि सात प्रकारके  
संसारोंमें संसरण या भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

मेधावी जीवोंके अनुग्रहार्थ संग्रहनयका अवलंबन ले प्रकृतिसमुत्कीर्त्तन करके  
अव मन्द-बुद्धि जनोंका अनुग्रह करनेके लिए व्यवहारनयरूप पर्यायसे परिणत आचार्य  
उत्तर सूत्र कहते हैं—

**ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच उत्तर प्रकृतियां हैं ॥ १३ ॥**

१ धन अनेकार्थनाममाला ३९.

२ प्रतिपु ' मन्दबुद्धिजाणाणुगहट्ट ' इति पाठः ।

आभिणिवोहियणाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओहिणाणा-  
वरणीयं मणपज्जवणाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ १४ ॥

गाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति एदं ण वत्तव्वं, पंचण्हं पयडीणं पुध णामणिदेसेणेव गाणावरणीयस्स पयडिपंचयत्तव्वभुवगमादो ? ण एस दोसो, दव्व-  
ड्डियसिस्साणुग्गहट्ठं गाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति पदुप्पायणादो । एवं दोसो होज्ज, जदि दोणिण वि सुत्ताणि' एयणयणिवंधणाणि । किंतु पुच्चिल्लं दव्वड्डिय-  
सिस्साणुग्गहकारि, पच्चिल्लं पि पज्जवड्डियणयसिस्साणुग्गहकारि । तदो दो वि सुत्ताणि  
सहलाणि त्ति ।

अहिमुह-णियमियअत्थाववोहो आभिणिवोहो' । थूल-वड्डमाण-अणंतरिदअत्था  
अहिमुहा । चर्किखदिए रूवं णियमिदं, सोदिंदिए सहो, घाणिंदिए गंधो, जिब्भिदिए  
रसो, फासिंदिए फासो, णोइंदिए दिट्ठ-सुदाणुभूदत्था णियमिदा । अहिमुह णियमिदट्ठेसु

वे पांच प्रकृतियां इस प्रकार हैं—आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञाना-  
वरणीय, अत्राधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ॥ १४ ॥

शंका—' ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां होती है ' इस प्रकारका सूत्र नहीं  
कहना चाहिए, क्योंकि, पांचों प्रकृतियोंके पृथक् नाम-निर्देशके द्वारा ही इस बातका  
ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानावरणीयकर्मकी प्रकृतियां पांच ही हैं ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, द्रव्यार्थिकनयावलम्बी शिष्योंके अनु-  
ग्रहके लिए ' ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियां होती है ' इस प्रकारका सूत्र निर्माण  
किया गया है । यदि ये दोनों ही सूत्र एक नयके आश्रित होते, तो उक्त प्रकारका यह  
दोष होता । किन्तु, पहला सूत्र द्रव्यार्थिकनयी शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला है, और  
पिछला सूत्र पर्यायार्थिकनयी शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला है । इसलिए ये दोनों ही  
सूत्र सफल अर्थात् सार्थक हैं ।

अभिमुख और नियमित अर्थके अवबोधको अभिनिवोध कहते हैं । स्थूल, वर्त-  
मान और अनन्तरित अर्थात् व्यवधान-रहित अर्थोंको अभिमुख कहते हैं । चक्षुरिन्द्रियमें  
रूप नियमित है, श्रोत्रेन्द्रियमें शब्द, घ्राणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्वेन्द्रियमें रस, स्पर्शनेन्द्रियमें  
स्पर्श और नेहन्द्रिय अर्थात् मनमें दृष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थ नियमित हैं । इस

१ प्रतिपु ' सुद्धत्ताणि ' इति पाठः

२ अहिमुहणियमियवोहणमाभिणिवोहियमणिदिहदियज । अवगहईहावाया धारणगा होंति पत्तेग ॥



जो बोधो सो अहिणिवोधो । अहिणिवोध एव आहिणिवोधियणाणं' । एत्थ णाणं विसे-  
सिज्जमाणं, तस्स सामण्णरूत्तादो । आहिणिवोहियं विसेसणं, अण्णेहिंतो ववच्छेद-  
कारित्तादो । तेण ण पुणरुत्तदोसो दुक्कदे ।

तं च आहिणिवोहियणाणं चउच्चिहं, अवग्गहो ईहा अवाओ धारणा चेदि' ।  
विषय-विषयिसंपातानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः' । विसओ वाहिरो अट्ठो, विसई इंदियाणि' ।  
तेसिं दोण्हं पि संपादो णाम णाणजणणजोग्गावत्था, तदणंतरमुप्पणं णाणमवग्गहो ।  
सो वि अवग्गहो दुविहो, अत्थावग्गहो वंजणावग्गहो चेदि' । तत्थ अप्पत्तत्थग्गहण-  
मत्थावग्गहो, जधा चक्खिदिण्ण । पत्तत्थग्गहणं वंजणावग्गहो, जधा फस्सिदिण्ण ।

प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थोंमें जो बोध होता है, वह अभिनिबोध है ।  
अभिनिबोध ही आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है । यहांपर 'ज्ञान' यह विशेष्य पद है,  
क्योंकि, वह सामान्यरूप है । 'आभिनिबोधिक' यह विशेषण पद है, क्योंकि, वह  
अन्य ज्ञानोंसे व्यवच्छेद करता है । इसलिए दोनों पदोंके देनेपर भी पुनरुक्त दोष नहीं  
आता है ।

वह आभिनिबोधिक ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाके भेदसे चार  
प्रकारका है । विषय और विषयीके योग्य देशमें प्राप्त होनेके अनन्तर आद्य ग्रहणको  
अवग्रह कहते हैं । वाहरी पदार्थ विषय है, और इन्द्रियां विषयी कहलाती हैं । इन दोनोंकी  
ज्ञान उत्पन्न करनेके योग्य अवस्थाका नाम संपात है । विषय और विषयीके  
संपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है । वह अवग्रह भी दो  
प्रकारका है—अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह । उनमें अप्राप्त अर्थात् शस्पृष्ट अर्थके ग्रहण  
करनेको अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे चक्षुरिन्द्रियके द्वारा रूपको ग्रहण करना । प्राप्त अर्थात्  
स्पृष्ट अर्थके ग्रहणको व्यंजनावग्रह कहते हैं, जैसे स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा स्पर्शको ग्रहण

१ अत्यामिमुहो निअओ वोहो जो सो मओ अभिणिवोहो । सो चेवाऽऽभिणिवोहिअमहव जहाजोग्गमा-  
उज्ज ॥ त तेण तओ तम्मि व सो वाऽभिणिवुज्जए तओ वा त । त्रि आ. मा ८०-८१. /

२ अक्षार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधी. । अवग्रहो विशेषाकाक्षेहाऽवायो विनिश्चय. ॥ धारणा  
स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम् । लघीय का. ५-६.

३ स सि १, १५, त रा वा १, १५, लघीय स्वो त्रि, पृ. २ प. २१. अक्षार्थयोगजाद्वस्तु-  
मानग्रहणलक्षणात् । जात यद्वस्तुमेदस्य ग्रहण तदवग्रहः ॥ त श्लो वा १, १५, २०.

४ विषयस्तावत् द्रव्यपर्यायाऽर्थः विषयिणो द्रव्यमात्रेन्द्रियस्य । लघीय स्वो त्रि, पृ २, पं २१-२२.

५ वंजणअत्थअवग्गहमेदा हु हवति पत्तपत्तये । क्रमसो ते वावरिदा पदम ण हि चक्खुमणसाण ॥  
गो. जी. ३०६.

अवगृहीतस्यार्थस्य विशेषाकांक्षणीहा । जो अवगृहेण गहिदो अत्थो, तस्स विसेसा-  
कंखणीहा । जधा कं पि दडूण किमेसो भव्वो अभव्वो त्ति विसेसपरिक्खा<sup>१</sup> सा ईहा<sup>२</sup> ।  
णेहा संदेहरूवा, विचारबुद्धीदो संदेहविणासुवलंभा । संदेहादो उवरिमा, अवायादो  
ओरिमा, विच्चाले पयत्ता<sup>३</sup> विचारबुद्धी ईहा णाम । वितर्कः श्रुतमिति<sup>४</sup> वचनादीहा  
वियक्करुवत्तादो सुदणाणमिदि चे ण एस दोसो, ओग्गहेण पडिग्गहिदत्थालंघणो वियक्को  
ईहा, भिण्णत्थालंघणो वियक्को सुदणाणमिदि अब्भुवगमादो ।

ईहितस्यार्थस्य संदेहापोहनमवायः<sup>५</sup> । पुव्वं किं भव्वो, किमेसो अभव्वो त्ति जो  
संदेहबुद्धीए विसईकओ जीवो सो एसो अभव्वो ण होदि, भव्वो चैय; भव्वत्ता-  
विणाभाविसम्मण्णाण सम्मदंसण-चरणाणमुवलंभादो, इदि उप्पणपच्चओ अवाओ णाम ।

करना । अवग्रहसे ग्रहण किये गये अर्थके विशेष जाननेकी आकांक्षा ईहा है । अर्थात्  
अवग्रहके द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है, उसकी विशेष जिज्ञासाको ईहा कहते  
हैं । जैसे—किसी पुरुषको देखकर क्या यह भव्य है, अथवा क्या यह अभव्य है, इस  
प्रकारकी विशेष परीक्षा करनेको ईहाज्ञान कहते हैं । ईहाज्ञान संदेहरूप नहीं है, क्योंकि,  
ईहात्मक विचार-बुद्धिसे संदेहका विनाश पाया जाता है । संदेहसे उपरितन, अवाय-  
ज्ञानसे अधस्तन, तथा अन्तरालमें प्रवृत्त होनेवाली विचार-बुद्धिका नाम ईहा है ।

शंका — ' विशेषरूपसे तर्क करना श्रुतज्ञान है ' इस शास्त्र-वचनके अनुसार  
ईहा वितर्करूप होनेसे श्रुतज्ञान है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अवग्रहसे प्रतिगृहीत अर्थके आलम्बन  
करनेवाले वितर्कको ईहा कहते हैं और भिन्न अर्थका आलम्बन करनेवाला वितर्क  
श्रुतज्ञान है, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है ।

ईहाज्ञानसे जाने गये पदार्थ-विषयक संदेहका दूर हो जाना अवाय है । पहले  
ईहाज्ञानसे ' क्या यह भव्य है, अथवा अभव्य है ' इस प्रकार जो संदेहरूप बुद्धिके द्वारा  
विषय किया गया जीव है, सो यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्वके  
अविनाभावी सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र गुण पाये जाते हैं, इस प्रकारसे  
उत्पन्न हुए विश्वस्त ज्ञानका नाम अवाय है ।

१ स. सि. १, १५, त. रा वा. १, १५, तद्गृहीतार्थसामान्ये यद्विशेषस्य काक्षणम् । निश्चया-  
मिमुख सेहा सशीतेभिन्नलक्षणा ॥ त. श्लो वा. १, १५, ३ २ प्रतिषु ' एसेसपरिक्खा ' इति पाठः ।

३ विसयाण विसईण सजोगाणंतर हवे णियमा । अवगहणाण गहिदे विसेसक्खा हवे ईहा ॥ गो. जी. ३०७

४ प्रतिषु ' पमत्ता ' इति पाठ । ५ त. सू. ९, ४३,

६ विशेषनिर्हानाद्याथात्म्यावगमनमवाय । स. सि. १, १५., त रा वा. १५, ३.; तस्यैव  
निर्णयोऽत्रायः । त श्लो० वा० १, १५, ४.

लिंगजत्तादो अवायो सुदणाणमिदि णासंकणिज्जं, अवग्गहिदत्थादो पुधभूदत्थालंबणाए लिंगजणिदबुद्धीए णिण्णयरूवाए सुदणाणत्तब्भुवगमादो । अवाओ पुण अवग्गहिदत्थ-विसओ ईहापच्छायदो, तेण सुदणाणं ण होदि । अवग्गहावायाणं णिण्णयत्तं पडि भेदा-भावा एयत्तं किण्ण होदि इदि चे, होदु तेण एयत्तं, किंतु अवग्गहो णाम विसय-विसइसण्णिवायाणंतरभावी पढमो बोधविसेसो, अवाओ पुण ईहाणंतरकालभावी उप्पण्ण-संदेहाभावरूवो, तेण ण दोण्हमेयत्तं ।

निर्णीतस्यार्थस्य कालान्तरे अविस्मृतिर्धारणा<sup>१</sup> । जत्तो णाणादो कालंतरे वि अविस्सरणहेदुभूदो जीवे संसकारो उप्पज्जदि, तण्णाणं धारणा णाम । ण च ओग्गहादि-चउण्हं पि णाणाणं सच्चत्थ क्रमेण उप्पत्ती, तहाणुवलंभा । तदो कहिं पि ओग्गहो चैय, कहिं पि ओग्गहो ईहा य दो च्चैय<sup>२</sup>, कहिं पि ओग्गहो ईहा अवाओ तिण्णि वि होति,

शंका—लिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अवाय श्रुतज्ञान है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थसे पृथग्भूत अर्थका आलम्बन करनेवाली, निर्णयरूप लिंग-जनित बुद्धिको श्रुतज्ञानपना माना गया है । किन्तु अवायज्ञान अवग्रहसे गृहीत पदार्थको ही विषय करता है और ईहाज्ञानके पश्चात् उत्पन्न होता है, इसलिए वह श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है ।

शंका—अवग्रह और अवाय, इन दोनों ज्ञानोंके निर्णयत्वके सम्बन्धमें कोई भेद न होनेसे एकता क्यों नहीं है ?

समाधान—निर्णयत्वके सम्बन्धमें कोई भेद न होनेसे एकता भले ही रही आवे, किन्तु विषय और विषयीके सन्निपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला प्रथम ज्ञानविशेष अवग्रह है, और ईहाके अनन्तर-कालमें उत्पन्न होनेवाले संदेहके अभावरूप अवायज्ञान होता है, इसलिए अवग्रह और अवाय, इन दोनों ज्ञानोंमें एकता नहीं है ।

अवायज्ञानसे निर्णय किये गये पदार्थका कालान्तरमें विस्मरण न होना धारणा है । जिस ज्ञानसे कालान्तर अर्थात् आगामी कालमें भी अविस्मरणका कारणभूत संस्कार जीवमें उत्पन्न होता है उस ज्ञानका नाम धारणा है । अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानोंकी सर्वत्र क्रमसे उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था पाई नहीं जाती है । इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, कहीं अवग्रह और ईहा, ये दो ही ज्ञान होते हैं, कहीं पर अवग्रह, ईहा और अवाय, ये तीनों भी ज्ञान होते हैं,

१ अवेतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारण धारणा । स. सि. १, १५. निर्णीतार्थाऽविस्मृतिर्धारणा । त. रा. वा. १, १५, ४ स्मृतिहेतुः सा धारणा । त. श्लो. वा. १, १५, ४

२ मप्रती 'तदो कहिं पि ओग्गहो चैय । धारणा य दो च्चैय कहिं पि ओग्गहो ईहा य' इति पाठः । अन्यप्रतिष्ठु 'तदो कम्मं पि ओग्गहो धारणा य दो च्चैय । कहिं पि ओग्गहो ईहा य' इति पाठः ।

कहिं पि ओग्गहो ईहा अवाओ धारणा चेदि चत्तारि वि हँति ।

तत्र बहु-बहुविध-क्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवसेतरभेदेनैकैको द्वादशविधः<sup>१</sup> । तत्थ बहूणमेगवारेण ग्गहणं बहुअवग्गहो । ण च एसो अप्पसिद्धो, अक्कमेण जोग्गदेसद्धिद-पंचण्हमंगुलीणमुवलंभा । एकक्कस्सेव वत्थुवलंभो<sup>२</sup> एयावग्गहो । अणेयंतवत्थुवलंभा एयावग्गहो णत्थि । अह अत्थि, एयंतसिद्धी पसज्जदे एयंतग्गाहयपमाणस्सुवलंभा इदि चे, ण एस दोसो, एयवत्थुग्गाहओ अववोहो एयावग्गहो उच्चदि । ण च विहि-पडिसेह-धम्माणं<sup>३</sup> वत्थुत्तमत्थि जेण तत्थ अणेयावग्गहो होज्ज ? किंतु विहि-पडिसेहारद्धमेयं वत्थु, तस्स उवलंभो एयावग्गहो । अणेयवत्थुविसओ अववोहो अणेयावग्गहो । पडिहासो पुण सव्वो अणेयंतविसओ चेय, विहि-पडिसेहाणमण्णदरस्सेव अणुवलंभा । बहुपयाराणं

और कहीं पर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों ही ज्ञान होते हैं ।

उनमें एक एक, अर्थात् अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—बहु, बहुविध, क्षिप्र अनिःसृत, अनुक्त, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी अर्थात् एक, एकविध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव, इनके भेदसे वारह प्रकारका है । उनमें बहुत वस्तुओंका एक साथ ग्रहण करना बहु-अवग्रह है । इस प्रकारका यह बहु-अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, योग्य देशमें स्थित पांचों अंगुलियोंका एक साथ उपलम्भ पाया जाता है । एक ही वस्तुके उपलम्भको एक-अवग्रह कहते हैं ।

शंका—अनेक धर्मात्मक वस्तुओंके पाये जानेसे एक-अवग्रह नहीं होता है । यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तुकी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि, एक धर्मात्मक वस्तुका ग्रहण करनेवाला प्रमाण पाया जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, एक वस्तुका ग्रहण करनेवाला ज्ञान एक-अवग्रह कहलाता है । तथा विधि और प्रतिषेध धर्मोंके वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक-अवग्रह हो सके ? किन्तु विधि और प्रतिषेध धर्मोंके समुदायात्मक एक वस्तु होती है, उस प्रकारकी वस्तुके उपलम्भको एक-अवग्रह कहते हैं । अनेक वस्तु-विषयक ज्ञानको अनेक-अवग्रह कहते हैं । किन्तु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मोंका विषय करनेवाला होता है, क्योंकि, विधि और प्रतिषेध, इन दोनोंमेंसे किसी एक ही धर्मका अनुपलम्भ है, अर्थात् इन दोनोंमेंसे एकको छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता, दोनों ही प्रधान-अप्रधानरूपसे साथ साथ पाये जाते हैं ।

१ बहुबहुविधक्षिप्रानि सृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ॥ त. सू. १, १६.

२ अ-प्रती 'एकक्कस्सेव बहुवलमो'; आ-प्रती 'एक्कस्से बहुवलमो', क-प्रती 'एक्कस्से बहुवलमो'

इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'विहि-पडिसेह धम्माण' इति पाठः ।

हय-हत्थि-गो-महिसादीणं ग्रहणं बहुविहावग्गहो<sup>१</sup> । एयपयारग्गहणमेयविहावग्गहो । एय-एयविहाणं को विसेसो ? उच्चदे— एगस्स ग्रहणं एयावग्गहो, एगजाईए ड्ढिद-एयस्स वट्टुणं वा ग्रहणमेयविहावग्गहो । आसुग्गहणं खिप्पावग्गहो, सणिग्गहणमखिप्पा-वग्गहो । अहिमुहअत्थग्गहणं णिसियावग्गहो, अणहिमुहअत्थग्गहणं अणिसियावग्गहो । अहवा उवमाणोवमेयभावेण ग्रहणं णिसियावग्गहो, जहा कमलदलणयणां ति । तेण विणा ग्रहणं अणिसियावग्गहो । णियमियगुणविसिद्धअत्थग्गहणं उच्चावग्गहो । जघ्ना चक्खिदिएण धवलत्थग्गहणं, घाणिदिएण सुअंधदव्वग्गहणमिच्चादि । अणियमियगुण-विसिद्धदव्वग्गहणमउच्चावग्गहो, जहा चक्खिदिएण गुडादीणं रसस्स ग्रहणं, घाणिदिएण द्रहियादीणं रसग्गहणमिच्चादि । गायमणिसिदस्स अंती पदादि, एयवत्थुग्गहणकाले चेय तदो पुधभूदवत्थुस्स, ओवरिमभागग्गहणकाले चेय परभागस्स य, अंगुलिगहणकाले

वहुत प्रकारके अश्व, हस्ती, गौ और महिष आदि पदार्थोंका ग्रहण करना बहुविध-अवग्रह है । एक प्रकारके पदार्थका ग्रहण करना एकविध-अवग्रह है ।

शंका—एक और एकविधमें क्या भेद है ?

समाधान—एक व्यक्तिरूप पदार्थका ग्रहण करना एक-अवग्रह है और एक जातिमें स्थित एक पदार्थका, अथवा बहुत पदार्थोंका, ग्रहण करना एकविध-अवग्रह है ।

आशु अर्थात् शीघ्रतापूर्वक वस्तुको ग्रहण करना क्षिप्र-अवग्रह है, और शनैः शनैः ग्रहण करना अक्षिप्र-अवग्रह है । अभिमुख अर्थका ग्रहण करना निःसृत-अवग्रह है और अनभिमुख अर्थका ग्रहण करना अनिःसृत-अवग्रह है । अथवा, उपमान-उपमेय भावके द्वारा ग्रहण करना निःसृत-अवग्रह है, जैसे—कमलदल-नयना अर्थात् इस स्त्रीके नयन कमलपत्रके समान हैं । उपमान-उपमेय भावके विना ग्रहण करना अनिःसृत-अवग्रह है । नियमित गुण-विशिष्ट अर्थका ग्रहण करना उक्त-अवग्रह है । जैसे—चक्षुरिन्द्रियके द्वारा धवल पदार्थका ग्रहण करना और घ्राणेन्द्रियके द्वारा सुगन्ध द्रव्यका ग्रहण करना, इत्यादि । अनियमित गुण-विशिष्ट द्रव्यका ग्रहण करना अनुक्त-अवग्रह है । जैसे चक्षुरिन्द्रियके द्वारा गुड़ आदिके रसका ग्रहण करना, और घ्राणेन्द्रियके द्वारा दही आदिके रसका ग्रहण करना । यह अनुक्त-अवग्रह अनिःसृत-अवग्रहके अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि, एक वस्तुके ग्रहण-कालमें ही, उससे पृथग्भूत वस्तुका, उपरिम-भागके ग्रहण-कालमें ही परभागका और अंगुलिके ग्रहण-कालमें ही देवदत्तका ग्रहण करना अनिःसृत-अवग्रह

<sup>१</sup> बहु-बहुविधयो क प्रतिविशेष. ? यावता बहुषु बहुविधेष्वपि बहुत्वमस्ति । एप्रकार-नानाप्रकारकृती विशेषः । स. सि. २, १६.

<sup>२</sup> प्रतिषु 'कमलदले णयणा' इति पाठः ।

चेय देवदत्तस्स य ग्रहणस्स अणिसिदववदेसादो । णिच्चत्ताए ग्रहणं धुवावग्गहो, तच्चि-  
वरीयग्रहणमद्भुवावग्गहो । एवमीहादीणं पि चारस भेदा परूवेदच्चा । चक्खिदिय-  
णोइंदियाणं अट्टेतालीस आभिणिबोधियणाणवियप्पा होंति, एदेसिं वंजणावग्गहाभावा ।  
सेसिंदियाणं सट्ठी मदिणाणवियप्पा, तत्थ अत्थ-वंजणोग्गहाणं दोण्हं पि संभवार्दा ।  
एवंविधस्स णाणस्स जमावरणं तमाभिणिबोहियणाणावरणीयं ।

सुदणाणस्स आवरणीयं सुदणाणावरणीयं । तत्थ सुदणाणं णाम इंदिएहि गहि-  
दत्थादो तदो पुधभूदत्थग्गहणं, जहा सदादो घडादीणमुवलंभो, धूमादो अग्गिस्सुवलंभो  
वा । तं च सुदणाणं वीसदिविधं । तं जधा — पज्जाओ पज्जायसमासो अक्खरं  
अक्खरसमासो पदं पदसमासो संघाओ संघायसमासो पडिवत्ती पडिवत्तिसमासो अणि-  
योगो अणियोगसमासो पाहुडपाहुडो पाहुडपाहुडसमासो पाहुडो पाहुडसमासो वत्थु  
वत्थुसमासो पुव्वं पुव्वसमासो चेदि । खरणाभावा अक्खरं केवलणाणं । तस्स अणंतिम-

माना गया है । नित्यतासे अर्थात् निरन्तर रूपसे ग्रहण करना ध्रुव-अवग्रह है और  
उससे विपरीत ग्रहण करना अध्रुव-अवग्रह है ।

इस प्रकार ईहा आदि शेष तीन ज्ञानोंके भी चारह चारह भेद निरूपण करना  
चाहिये । चक्षुरिन्द्रिय और नो-इन्द्रिय अर्थात् मनके अइतालीस आभिनिबोधिक ज्ञान-  
सम्बन्धी विकल्प होते हैं, क्योंकि, चक्षु और मन, इन दोनोंके व्यंजनावग्रहका अभाव  
है । शेष चारों इन्द्रियोंके साठ मतिज्ञान-सम्बन्धी भेद होते हैं, क्योंकि, उनमें अर्थावग्रह  
और व्यंजनावग्रह, इन दोनोंका भी होना संभव है ।

इस प्रकारके ज्ञानका जो आवरण करता है उसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय  
कर्म कहते हैं ।

श्रुतज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मको श्रुतज्ञानावरणीय कहते हैं । उनमें इन्द्रि-  
योंसे ग्रहण किये गये पदार्थसे उससे पृथग्भूत पदार्थका ग्रहण करना श्रुतज्ञान है ।  
जैसे—शब्दसे घट आदि पदार्थोंका जानना, अथवा धूमसे अग्निका ग्रहण करना । वह  
श्रुतज्ञान वीस प्रकारका है । जैसे—पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद,  
पद-समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति-समास, अनुयोग, अनुयोग-  
समास, प्राभृतप्राभृत, प्राभृतप्राभृत-समास, प्राभृत, प्राभृत-समास, वस्तु, वस्तु-समास,  
पूर्व और पूर्व-समास ।

क्षरण अर्थात् विनाशके अभाव होनेसे केवलज्ञान अक्षर कहलाता है । उसका

१ अत्यादो अत्थतरपुत्रलम त भणति सुदणाण । आभिणिबोहियपुव्व णियमेणिह सद्धज पग्गहं ॥ गो जी ३१४.

२ पज्जायक्खरपदसघादं पडिवत्तियाणिजोग च । इगवारपाहुड च य पाहुडय वत्थु पुव्व च ॥ तेसिं च  
समासेहि य वीसविह वा हु होदि सुदणाण । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता ह्वति ति ॥ गो. जी. ३१६-३१७.

भागो पज्जाओ णाम मदिणाणं । तं च केवलणाणं व णिरावरणमक्खरं च । एदम्हादो सुहुमणिगोदलद्धिअक्खरादो जमुप्पज्जइ सुदणाणं<sup>१</sup> तं पि पज्जाओ उच्चदि, कज्जे कारणो-वयारादो । तदो अणंतभागव्हियं सुदणाणं पज्जयसमासो उच्चइ । अणंतभागवट्ठी असंखेज्जभागवट्ठी संखेज्जभागवट्ठी संखेज्जगुणवट्ठी असंखेज्जगुणवट्ठी अणंतगुणवट्ठी ति एसा एका छवट्ठी । एरिसाओ असंखेज्जलोगमेत्तीओ छवट्ठीओ गंतूण पज्जायसमास-सुदणाणस्स अपच्छिमो वियप्पो होदि । तमणंतेहि रूवेहि गुणिदे अक्खरं णाम सुदणाणं होदि<sup>२</sup> । कधमेदस्स अक्खरववएसो ? ण, दव्वसुदपडिवद्वेयक्खरुप्पणस्स उवयारेण अक्खरववएसो । एदस्सुवरि अक्खरवट्ठी चव होदि, अवराओ वट्ठीओ णत्थि ति आइरियपरंपरागदुवदेसादो । केइं पुण आइरिया अक्खरसुदणाणं पि छव्विहाए वट्ठीए वट्ठुदि ति भणंति, णेदं घडदे, सयल-सुदणाणस्स संखेज्जदिभागादो अक्खरणाणादो

अनन्तवां भाग पर्याय नामका मतिज्ञान है । वह पर्याय नामका मतिज्ञान केवलज्ञानके समान निरावरण और अविनाशी है । इस सूक्ष्म-निगोद-लब्धि-अक्षरसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह भी कार्यमें कारणके उपचारसे पर्याय कहलाता है । इस पर्याय श्रुतज्ञानसे जो अनन्तवै भागसे अधिक श्रुतज्ञान होता है वह पर्याय-समास कहलाता है । अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छहों वृद्धियोंके समुदायात्मक यह एक पद-वृद्धि होती है । इस प्रकारकी असंख्यात लोकप्रमाण पदवृद्धियां ऊपर जाकर पर्याय-समासनामक श्रुतज्ञानका अन्तिम विकल्प होता है । उस अन्तिम विकल्पको अनन्त रूपोंसे गुणित करने पर अक्षर-नामक श्रुतज्ञान होता है ।

शंका—उक्त प्रकारके इस श्रुतज्ञानकी 'अक्षर' ऐसी संज्ञा कैसे हुई ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, द्रव्यश्रुत-प्रतिबद्ध एक अक्षरकी उत्पत्तिकी उपचारसे 'अक्षर' ऐसी संज्ञा है ।

इस अक्षर-श्रुतज्ञानके ऊपर एक एक अक्षरकी ही वृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां नहीं होती हैं, इस प्रकार आचार्य-परम्परागत उपदेश पाया जाता है । कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि अक्षर-श्रुतज्ञान भी छह प्रकारकी वृद्धिसे बढ़ता है । किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, समस्त श्रुतज्ञानके संख्यातवै भागरूप अक्षर-ज्ञानसे

१ सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पढमसमयम्हि । ह्वदि हु सव्वजहण्ण णिच्चुग्घाड णिरावरण ॥ ३१९ ॥  
XXX फासिंदियमदिपुव्व सुदणाण लद्धिअक्खरय ॥ ३२१ ॥ गो जी.

२ अवस्वरिम्भि अणतमसख सख च भागवट्ठीए । सखमसंखमणतं गुणवट्ठी होति हु कमेण ॥ ३२२ ॥  
एवं असखलोगा अणक्खरप्ये ह्वति छट्ठाणा । ते पज्जायसमासा अक्खरग उवरि वोच्छामि ॥ ३३१ ॥ चरिमुव्वं-  
केणवहिदअत्यक्खरगुणिदचरिममुव्वक । अत्यक्खर तु णाण होदि ति जिणेहि णिद्धिई ॥ ३३२ ॥ गो. जी.

उवरि छवड्डीणं संभवाभावा । अक्खरसुदणाणादो उवरिमाणं पदसुदणाणादो हेड्डिमाणं संखेज्जाणं सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासो त्ति सण्णा । तदो एगक्खरणाणे वड्डिदे पदं णाम सुदणाणं होदि<sup>१</sup> । कुदो एदस्स पदसण्णा ? सोलहसयचोत्तीसकोडीओ तेसीदिलक्खा अट्टहत्तरिसदअट्टासीदिअक्खरे च घेत्तूण एगं दच्चसुदपदं<sup>२</sup> होदि । एदेहितो उप्पण्णभावसुदं पि उवयारेण पदं ति उच्चदि । एदस्स पदस्स सुदणाणस्सुवरि एगक्खरसुदणाणे वड्डिदे पदसमासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेगक्खरादिकमेण पदसमाससुदणाणं वड्डिमाणं गच्छदि जाव संघाओ त्ति । संखेज्जेहि पदेहि संघाओ णाम सुदणाणं होदि<sup>३</sup> । चउहि गईहि मग्गणा होदि । तत्थ णिरयगईए जत्तिएहि पदेहि एगपुढवी परूविज्जदि, तत्ति-याणं पदाणं तेहितो उप्पण्णसुदणाणस्स य संघायसण्णा त्ति उत्तं होदि । एवं सच्चगईओ सच्चमग्गणाओ च अस्सिदूण वत्तच्चं । एदस्सुवरि अक्खरसुदणाणे वड्डिदे संघायसमासो णाम सुदणाणं होदि । एवं संघायसमासो वड्डिमाणो गच्छदि जाव एयअक्खरसुदणाणे-

ऊपर छह प्रकारकी वृद्धियोंका होना संभव नहीं है ।

अक्षर-श्रुतज्ञानसे उपरिम और पद-श्रुतज्ञानसे अधस्तन श्रुतज्ञानके संख्यात विकल्पोंकी 'अक्षरसमास' यह संज्ञा है । इस अक्षरसमास श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-ज्ञानके बढ़नेपर पदनामका श्रुतज्ञान होता है ।

शंका—उक्त प्रकारके इस श्रुतज्ञानकी 'पद' यह संज्ञा कैसे है ?

समाधान—सोलह सौ चौतीस करोड़, तेरासी लाख, अठत्तहर सौ अठासी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंको लेकर द्रव्यश्रुतका एक पद होता है । इन अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ भावश्रुत भी उपचारसे 'पद' ऐसा कहा जाता है । इस पद नामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित श्रुतज्ञानके बढ़नेपर पद-समास नामक श्रुतज्ञान होता है । इस प्रकार एक एक अक्षर आदिके क्रमसे पद-समास नामका श्रुतज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि संघात नामका श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार संख्यात पदोंके द्वारा संघात नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । चारों गतियोंके द्वारा मार्गणा होती है । उनमें जितने पदोंके द्वारा नरकगतिकी एक पृथ्वी निरूपित की जाती है उतने पदोंकी और उनसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानकी 'संघात' ऐसी संज्ञा होती है । इसी प्रकार सर्व गतियोंका और सर्व मार्गणाओंका आश्रय करके कहना चाहिए । इस संघात श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित, श्रुतज्ञानके बढ़नेपर संघात-समास नामक श्रुतज्ञान होता है । इस प्रकार संघात-समास नामक श्रुतज्ञान तब तक

१ एयक्खराद्द उवरिं एगेगेणक्खरेण वड्डतो । सखेज्जे खल्ल उट्ठे पदणाम होदि सुदणाण ॥ गो जी. ३३४

२ सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खय चैव । सत्तसहस्साट्टसया अट्टासीदी य पदवण्णा ॥

गो. जी. ३३५.

३ एयपदादो उवरिं एगेगेणक्खरेण वड्डतो । सखेज्जसहस्सपदे उट्ठे सघादणाम सुद ॥ गो. जी. ३३६.



गूणपडिवत्तिसुदणाणेत्ति । जत्तिएहि पदेहि एयगइ-इंदिय-काय-जोगादओ पस्विज्जंति, तेसिं पडिवत्तीसण्णा' । पडिवत्तीए उवरि एगक्खरसुदणाणे वड्ढिदे पडिवत्तिममासो णाम सुदणाणं होदि । एवं पडिवत्तिसमासो चेत्र होदूण गच्छदि जाव एगक्खरेणूणअणियोग-दारसुदणाणेत्ति । जत्तिएहि पदेहि चोदसमग्गणाणं पडिवद्वेहि जो अत्थो जाणिज्जदि तेसिं पदाणं तत्थुप्पण्णणाणस्स य अणिओगो त्ति सण्णा' । तस्सुवरि एगक्खरसुदणाणे वड्ढिदे अणियोगसमासो होदि । एवमणियोगममाससुदणाणं एगेगक्खरुत्तरवट्टीए वड्ढमाणं गच्छदि जाव एगक्खरेणूणपाहुडपाहुडेत्ति । तस्सुवरि एगक्खरसुदणाणे वड्ढिदे पाहुड-पाहुडं होदि । संखेज्जेहि अणियोगसुदणाणेहि एगं पाहुडपाहुडं णाम सुदणाणं होदि । तस्सुवरि एगक्खरवड्ढिदे पाहुडपाहुडसमासो होदि । एदस्सुवरि एगक्खरादिवड्ढिकमेण

वदता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरश्रुतज्ञानसे कम प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । जितने पदोंके द्वारा एक गति, इन्द्रिय, काय और योग आदि मार्गणा प्ररूपित की जाती है, उतने पदोंकी 'प्रतिपत्ति' यह संज्ञा है । प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर प्रतिपत्ति-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रतिपत्ति-समास श्रुतज्ञान ही बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम अनुयोगद्वार नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । चौदह मार्गणाओंसे प्रतिबद्ध जितने पदोंके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है, उतने पदोंकी और उनसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानकी 'अनुयोग' यह संज्ञा है । उस अनुयोग श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरप्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर अनुयोग-समास नामक श्रुतज्ञान होता है । इस प्रकार अनुयोगसमास नामक श्रुतज्ञान एक एक अक्षरकी उत्तर-वृद्धिसे बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राभृतप्राभृत नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । उसके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर प्राभृत-प्राभृत नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । संख्यात अनुयोगद्वाररूप श्रुतज्ञानोंके द्वारा एक प्राभृतप्राभृत नामक श्रुतज्ञान होता है । उस प्राभृतप्राभृत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर प्राभृतप्राभृत-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है ।

१ एकक्खरगणिपित्तवयसषादम्भाद् उवरि पुच्च वा । वण्णे संखेज्जे सघादे उट्टम्मि पडिवत्ती ॥  
गो. जी. ३३७

२ चउगइसस्सत्तवयपडिवत्तीलो इ उवरि पुच्च वा । वण्णे नखेज्जे पडिवत्तीवट्टम्मि अणियोगं ॥  
गो जी. ३३८.

३ चोदसमग्गणमज्जदअणियोगादुवरि वड्ढिदे वण्णे । चउरादी अणियोगे इगवार पाहुड होदि ॥  
अहियारो पाहुडय एयट्ठो पाहुडत्त अहियारो । पाहुडपाहुडणाम होदि नि जिणेहि णिदिद्धि ॥ गो जी. ३३९-३४०

पाहुडपाहुडसमासो गच्छदि जावेगक्खरेणूणपाहुडेत्ति । तस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे पाहुडो होदि<sup>१</sup> । एदस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे पाहुडसमासो होदि । एवमेगेगक्खरवड्ढिकमेण पाहुडसमासो गच्छदि जाव एगक्खरेणूणवीसदियपाहुडो त्ति । एदस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे वत्थुसुदणाणं होदि<sup>२</sup> । तस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे वत्थुसमासो होदि । एवं वत्थुसमासो गच्छदि जाव एगक्खरेणूणअंतिमवत्थु त्ति । एदस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे पुच्चं गाम सुदणाणं होदि । तस्सुवरि एगक्खरे वड्ढिदे पुच्चसमासो होदि । एवं पुच्चसमासो गच्छदि जाव लोगविंदुसारचरिमक्खरं ति । एदस्स सुदणाणस्स आवरणं सुदणाणावरणीयं ।

अवाग्धानादवधिः, अवधिश्च स ज्ञानं च तत् अवधिज्ञानम् । अथवा अवधिर्मर्यादा, अवधेर्ज्ञानमवधिज्ञानम्<sup>३</sup> । तं च ओहिणाणं तिविहं, देसोही परमोही सव्वोही चेदि ।

इसके ऊपर एक अक्षर आदिकी वृद्धिके क्रमसे प्राभृतप्राभृत-समास तब तक बढ़ता हुआ जाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राभृत नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । उस प्राभृत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्राभृत-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे प्राभृतसमास नामक श्रुतज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम वीसवां प्राभृत प्राप्त होता है । इस वीसवें प्राभृतके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर वस्तु नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । उस वस्तु श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर वस्तु-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुतज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम अन्तिम वस्तु नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । इस अन्तिम वस्तु श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्वनामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है । उस पूर्वनामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्वसमास नामक श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार पूर्व-समास श्रुतज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है, जब तक कि लोकविन्दुसार नामक चौदहवें पूर्वका अन्तिम अक्षर उत्पन्न होता है । इस प्रकारके श्रुतज्ञानका आवरण करने वाला कर्म श्रुतज्ञानावरणीय कहलाता है ।

जो नीचेकी ओर प्रवृत्त हो, उसे अवधि कहते हैं । अवधिरूप जो ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान कहलाता है । अथवा अवधि नाम मर्यादाका है, इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा विषय-सम्बन्धी मर्यादाके ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं ।

१ दुगवारपाहुडादो उवरिं वण्णे कमेण चउवीसे । दुगवारपाहुडे सउड्डे खलु होदि पाहुडय ॥

गो जी. ३४१

२ वीस वीस पाहुड अहियारे एक्कवत्थुअहियारो । एक्केक्कवणउड्ढी कमेण सव्वत्थ पायव्वा ॥ गो. जी ३४२.

३ अवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्वा अवधि । स सि. १, ९ अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमाद्युभयहेतु-सन्निधाने सत्यवधीयतेऽवाग्धात्यवाग्धानमात्र वावधि । अवधिशब्दोऽथ पर्यायवचनः, यथाधः क्षेपणमवक्षेपण, इत्यधोगतभूयोद्रव्यविषयो ह्यवधिः । अथवावधिर्मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्ध ज्ञानमवधिज्ञानम् । त. रा. वा १, ९.; अवध्यावृत्तिविशेषादवधीयते । येन स्वार्थोऽवधान वा सोऽवधिर्नियता स्थिति ॥ त. श्लो. वा. १, ९, ५.;

एदेसिं सरूवपरूवणमुवरि कस्सामो । मदि-सुदणाणेहिंतो एदस्स सावहियत्तेण भेदाभावा पुधपरूवणं णिरत्थयमिदि चे, ण एस दोसो, मदि-सुदणाणाणि परोक्खाणि, ओहिणाणं पुण पच्चक्खं; तेण तेहिंतो तस्स भेदुवलंभा । मदिणाणं पि पच्चक्खं दिस्सदीदि चे ण, मदिणाणेण पच्चक्खं वत्थुस्स अणुवलंभा । जो पच्चक्खमुवलब्भइ, सो वत्थुस्स एग- देसो त्ति वत्थू ण होदि । जो वि वत्थू, सो वि ण पच्चक्खेण उवलब्भदि, तस्स पच्च- क्खापच्चक्खपरोक्खमइणाणविसयत्तादो' । तदो मदिणाणं पच्चक्खेण ण वत्थुपरिच्छेदयं ।

वह अवधिज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधिके भेदसे तीन प्रकारका है । इन तीनों भेदोंके स्वरूपका निरूपण आगे करेंगे ।

शंका—अवधि अर्थात् मर्यादा-सहित होनेकी अपेक्षा अवधिज्ञानका मतिज्ञान और श्रुतज्ञान, इन दोनोंसे कोई भेद नहीं है । इसलिये इसका पृथक् निरूपण करना निरर्थक है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं । किन्तु अवधिज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है । इसलिये उक्त दोनों ज्ञानोंसे अवधिज्ञानके भेद पाया जाता है ।

शंका—मतिज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मतिज्ञानसे वस्तुका प्रत्यक्ष उपलम्भ नहीं होता है । मतिज्ञानसे जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वह वस्तुका एकदेश है; और वस्तुका एकदेश सम्पूर्ण वस्तुरूप नहीं हो सकता है । जो भी वस्तु है वह मतिज्ञानके द्वारा प्रत्यक्षरूपसे नहीं जानी जाती है, क्योंकि, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप परोक्ष मति-ज्ञानका विषय है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मतिज्ञान प्रत्यक्षरूपसे वस्तुका जानने-वाला नहीं है ।

अवहीयदि ति ओही सीमाणणेत्ति वणिणयं समये । गो. जी. ३६९. अवायन्ति व्रजन्तीत्यवायाः पुद्गलाः, ताव दधाति जानातीत्यवधि । अवधानात्पुद्गलपरिब्रानादित्यर्थः । द्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नियतत्वेनावधीयते नियम्यते प्रमायते परिच्छद्यत इत्यर्थः । अवधान अवधि । कोऽर्थ ? अधस्ताद्दुर्गतरत्रिपयग्रहणादवधिरुच्यते । देवाः खलु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति । त्वरि स्तोत्रं पश्यन्ति निजविमानध्वजदंडपर्यन्तमित्यर्थः । स सि टि पृ ६१. तेणावहीयए ताम्भि वाञ्छहाण तजोऽवही सो य । मञ्जाया जं तीए दव्वाइ परोप्पर मुणइ ॥ वि. आ. भा ८२.

१ प्रत्यक्ष विशद ज्ञानं त्रिधा × × × इन्द्रियप्रत्यक्षम् अनिन्द्रियप्रत्यक्षम् अतीन्द्रियप्रत्यक्षम् । प्रमाणस. पृ ९७. प्रत्यक्षलक्षणं ग्राह. स्पष्ट साकारमञ्जसा । द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम् ॥ ३ ॥ हिताहितापि-निर्मुक्तिसममिन्द्रियनिर्मितम् । यद्देशतोऽर्थज्ञानं तदिन्द्रियाग्रक्षमुच्यते ॥ ४ ॥ सत्त्वज्ञानसत्त्वादविमवादविवेकत । सन्निकल्पाविनाभावा समक्षेतरसम्भ्र ॥ ५ ॥ लक्षणं सममेतावान् विशेषोऽश्लेषगोचरम् ॥ १६८ ॥ अक्रमं करणा-तीतमवलङ्क महोयसाम् ॥ १६८ ॥ ( क्रयं तर्हि मतिज्ञानस्यैव अवग्रहादिभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुक्त आत्ममात्रापेक्षत्वा-दिति चेदत्राह— ) केवल लोकबुद्धयैव मतेर्लक्षणसंग्रह ॥ ४७४ ॥ न्यायविनिश्चय. पृ. ९३. इन्द्रियार्थज्ञान

जदि एवं, तो ओहिणाणस्स वि पच्चक्ख-परोक्खत्तं पसज्जदे, तिकालगोयराणंतपज्जाएहि उवचियं वत्थु, ओहिणाणस्स पच्चक्खेण तारिसवत्थुपरिच्छेदणसत्तीए अभावादो इदि चे ण, ओहिणाणम्मि पच्चक्खेण वट्टमाणासेसपज्जायविसिद्धवत्थुपरिच्छितीए उवलंभा, तीदाणागद-असंखेज्जपज्जायविसिद्धवत्थुदंसणादो च । एवं पि तदो वत्थुपरिच्छेदो णत्थि त्ति ओहिणाणस्स पच्चक्ख-परोक्खत्तं पसज्जदे? ण, उभयणयसमूहवत्थुम्मि ववहारजोगम्मि ओहिणाणस्स पच्चक्खत्तुवलंभा । ण चाणंतवंजणपज्जाए ण धेप्पदि त्ति ओहिणाणं वत्थुस्स एगदेसपरिच्छेदयं, ववहारणयवंजणपज्जाएहि एत्थ वत्थुत्तब्भुवगमादो । ण मदि-

विशेषार्थ—यहांपर जो मतिज्ञानको प्रत्यक्षाप्रत्यक्षात्मक परोक्ष कहा है उसका अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोके द्वारा वस्तुका जितना अंश स्पष्टरूपसे जाना जाता है उतने अंशमें वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और अवशिष्ट जितना अंश नहीं जाना जाता है उसकी अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है । यहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दोंका प्रयोग लोकव्यवहार की अपेक्षासे किया गया है । किन्तु आगममें मतिज्ञानको परोक्ष ही माना है । इन्हीं दोनों अपेक्षाओंसे यहांपर मतिज्ञानको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप परोक्ष कहा गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अवधिज्ञानके भी प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि, वस्तु त्रिकाल-भोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित है, किन्तु अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष द्वारा उस प्रकारकी वस्तुके जाननेकी शक्तिका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानमें प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान समस्त पर्याय-विशिष्ट वस्तुका ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत और भावी असंख्यात पर्याय-विशिष्ट वस्तुका ज्ञान देखा जाता है ।

शंका—इस प्रकार माननेपर भी अवधिज्ञानसे पूर्ण वस्तुका ज्ञान नहीं होता है, इसलिये अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, व्यवहारके योग्य, एवं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयोंके समूहरूप वस्तुमें अवधिज्ञानके प्रत्यक्षता पाई जाती है ।

अवधिज्ञान अनन्त व्यंजनपर्यायोंको नहीं ग्रहण करता है, इसलिये वह वस्तुके एकदेशका जाननेवाला है, ऐसा भी नहीं जानना चाहिये, क्योंकि, व्यवहारनयके योग्य व्यंजनपर्यायोंकी अपेक्षा यहां पर वस्तुत्व माना गया है । यदि कहा जाय कि

स्पष्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रत्यक्षम्, अवग्रहेहावायुधारणात्मकम् । अनिन्द्रियप्रत्यक्षम् स्मृतिसङ्गा-  
विन्तामिनिवोधात्मकम् । अतीन्द्रियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मक स्फुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधान लोकोत्तरमात्मार्थविषयम् ।  
लघीय त्वो. वि का ६१, पृ. २१. प्रत्यक्ष विशद ज्ञान त्रिधेति बुवाणेनापि ( अरुलकेन ) मुख्यमतीन्द्रिय पूर्ण  
केवलमपूर्णमवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञानं चेति निवेदितमेव, तस्याक्षमात्मानमाश्रित्य वर्तमानत्वात् । व्यवहारत पुनरिन्द्रिय-  
प्रत्यक्षमनिन्द्रियप्रत्यक्षमिति वैशद्यंशसद्भावात् ॥ त श्लो. वा १, ११. पृ १८२.

१ मप्रतो ' उपरिय ' इति पाठ. ।

णाणस्स वि एसो क्रमो, तस्स वट्टमाणासेसपज्जायविसिद्ध-वत्थुपरिच्छेयणसत्तीए अभा-  
वादो, तस्स पच्चक्खग्गहणणियमाभावादो च । अत्रोपयोगी श्लोकः—

नयोपनयैकान्ताना त्रिकालाना समुच्चयः ।

अविभ्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा' ॥ ६ ॥

एवंविहस्स ओहिणाणस्स जमावारयं तमोहिणाणावरणीयं ।

परकीयमनोगतोऽर्थो मनः, तस्य पर्यायाः विशेषाः मनःपर्यायाः, तान् जानातीति  
मनःपर्ययज्ञानम् । तं च मणपज्जवणाणं दुविहं उज्जुमइ-विउलमइभेएण । तत्थ उज्जुमई  
चिंतियमेव जाणदि, णांचितियं । चिंतियं पि जाणमाणं उज्जुवेण चिंतियं चेव जाणदि,  
ण वक्कं चिंतियं । विउलमई पुण चिंतियमचिंतियं पि वक्कचिंतियमवक्कचिंतियं पि जाणदि ।

मतिज्ञानका भी यही क्रम मान लेंगे, सो नहीं माना जा सकता, क्योंकि, मतिज्ञानके  
वर्तमान अशेष पर्याय-विशिष्ट वस्तुके जाननेकी शक्तिका अभाव है, तथा मतिज्ञानके  
प्रत्यक्षरूपसे अर्थ-ग्रहण करनेके नियमका अभाव है। इस विषयमें यह उपयोगी  
श्लोक है—

जो नैगम आदि नय और उनके भेद-प्रभेदरूप उपनयोंके विषयभूत त्रिकाल-  
वर्ती पर्यायोंका अभिन्न सम्बन्धरूप समुदाय है, उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथंचित्  
एकरूप और कथंचित् अनेकरूप है ॥ ६ ॥

इस प्रकारके अवधिज्ञानका आवरण करनेवाला जो कर्म है, उसे अवधिज्ञाना-  
वरणीय कहते हैं ।

दूसरे व्यक्तिके मनमें स्थित पदार्थ मन कहलाता है। उसकी पर्यायों अर्थात्  
विशेषोंको मनःपर्यय कहते हैं। उनको जो ज्ञान जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता  
है। वह मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमतिके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें ऋजुमति  
मनःपर्ययज्ञान मनमें चिन्तवन किये गये पदार्थको ही जानता है, अचिन्तित पदार्थको  
नहीं। चिन्तित भी पदार्थको जानता हुआ सरलरूपसे चिन्तित पदार्थको ही जानता है,  
वक्ररूपसे चिन्तित पदार्थको नहीं। किन्तु, विपुलमति मनःपर्ययज्ञान चिन्तित, अचि-  
न्तित पदार्थको भी, तथा वक्र-चिन्तित और अवक्र-चिन्तित पदार्थको भी जानता है।

१ आ भी १०७.

२ परकीयमनोगतोऽर्थो मन इत्युच्यते, साहचर्यात्तस्य पर्ययण परिगमन मनःपर्ययः । स मि १, ९.,  
मनः प्रतीत्य प्रतिबंधाय वा ज्ञान मनःपर्ययः । त. रा वा. १, ९, XXX मन पर्येति योऽपि वा । स मनःपर्ययो  
ज्ञेयो मनोन्नार्था मनोगताः । परेषां स्वमनो वापि तदालम्बनमात्रकम् ॥ त श्लो. वा १, ९, ७. पज्जवण  
पज्जयण पज्जाओ वा मणम्मि मणसो वा । तस्स व पज्जायादिज्जाणं मणपज्जव नाण ॥ वि आ. मा. ८३.

ओहि-मणपज्जवणाणां को विसेसो ? उच्चदे— मणपज्जवणाणं विसिद्धसंजमपच्चयं, ओहिणाणं पुण भवपच्चयं गुणपच्चयं च । मणपज्जवणाणं मदिपुवं चैव, ओहिणाणं पुण ओहिदंसणपुवं । एसो तेसिं विसेसो' । मणपज्जवणाणस्स आवरणं मणपज्जवणाणा-वरणीयं ।

केवलमसहायमिन्दियालोयणिरवेक्खं तिकालगोयराणंतपज्जायसमवेदानंतवत्थुपरि-च्छेदयमसंकुडियमसवत्तं केवलणाणं' । णट्ठाणुप्पणअत्थाणं कथं तदो परिच्छेदो ? ण, केवलत्तादो वज्झत्थावेक्खाए' विणा तदुप्पत्तीए विरोहाभावा । ण तस्स विपज्जयणाणत्तं

शंका—अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान, इन दोनों ज्ञानोंमें क्या भेद है ?

समाधान—मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट संयमके निमित्तसे उत्पन्न होता है, किन्तु अवधिज्ञान भवके निमित्तसे और गुण अर्थात् क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न होता है । मनःपर्ययज्ञान तो मतिज्ञानपूर्वक ही होता है, किन्तु अवधिज्ञान अवधिदर्शनपूर्वक होता है । यह उन दोनों ज्ञानोंमें भेद है ।

इस प्रकारके मनःपर्ययज्ञानका आवरण करनेवाला कर्म मनःपर्ययज्ञानावरणीय कहलाता है ।

केवल असहायको कहते हैं । जो ज्ञान असहाय अर्थात् इन्द्रिय और आलोककी अपेक्षा रहित है, त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे समवायसम्बन्धको प्राप्त अनन्त वस्तुओंका जाननेवाला है, असंकुटित अर्थात् सर्वव्यापक है, और असपन्न अर्थात् प्रति-पक्षी रहित है उसे केवलज्ञान कहते हैं ।

शंका—जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, ओर जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवलज्ञानसे कैसे ज्ञान हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, केवलज्ञानके सहाय-निरपेक्ष होनेसे वाह्य पदा-र्थोंकी अपेक्षाके विना उनके, अर्थात् नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके, ज्ञानकी उत्पत्तिमें कोई विरोध नहीं है । और केवलज्ञानके विपर्ययज्ञानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्योंकि,

१ अथानयोरवधिमनःपर्यययो कुतो विशेष इत्यत आह—स. सि १, २५ विशुद्धिसेत्रस्वामि-त्रिपयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः । त. सू. १, २५.

२ वाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थमर्थिनो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्केवल । असहायमिति वा । स. सि. १, ९. वाह्याभ्यन्तरक्रियाविशेषात् यदर्थं केवन्ते तत्केवलम् । अव्युत्पन्नो वाऽसहायार्थं केवलशब्द । त रा वा १, ९. क्षायोपशमिवज्जानासहाय केवल मतम् । यदर्थमर्थिनो मार्गं केवन्ते वा तदिष्यते ॥ त. श्लो. वा. १, ९, ८. सपुण्ण तु समग्ग केवलमसवत्ता सच्चभावगय । लोयालोयवितिमिर केवलणाण मुणेदव्व ॥ गो जी. ४५९. केवल-भेग सुद्ध सगलमसाहारण अणत्त च । त्रि. आ भा ८४.

३ प्रतिपु ' वज्झट्ठाए वखाए ' इति पाठ ।

पसज्जदे, जहासरूवेण परिच्छितीदो । ण गद्दहसिंणेण विउचारो, तस्स अच्चंताभावरूव-  
त्तादो । एदस्स आवरणं केवलणाणावरणीयं । केवलिम्हि<sup>१</sup> किमेक्कं<sup>२</sup> चैव णाणं, आहो  
पंच वि अत्थि त्ति । ण पढमपक्खो, आवरणिज्जाभावादो चदुण्हमावरणाणमभावप्प-  
संगादो । ण विइज्जओ पक्खो<sup>३</sup> वि, पच्चक्खापच्चक्ख-परिमियापरिमिय-केवलाकेवल-  
कमाकमणाणाणमेयत्थ<sup>४</sup> अक्कमेण संभवविरोहा<sup>५</sup> इदि ? एत्थ परिहारो उच्चदे— ण विइज्ज-  
पक्खउत्तदोससंभवो, अणव्भुवगमादो । ण पढमपक्खउत्तदोससंभवो वि, आवरण-  
वसेण समुप्पण्णमदिणाणादिचदुण्हमावरणिज्जाणमुत्तलंभादो । ण खीणावरणिज्जे तेसिं

वह यथार्थस्वरूपसे पदार्थोंको जानता है । और न गधेके सींगके साथ व्यभिचार दोष  
आता है, क्योंकि, वह अत्यन्त अभावरूप है ।

विशेषार्थ— यहां उक्त शंका-समाधानमें केवलज्ञानके नष्ट और अनुत्पन्न वस्तु-  
ओंके जाननेकी शक्तिके सम्बन्धमें तीन बातोंका स्पष्टीकरण किया गया है— चूंकि, केवल  
ज्ञान सहाय-निरपेक्ष है, अतः वह वस्तुकी वर्तमान पर्यायके समान अतीत और अनागत  
पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं रखता । वह स्वभावतः यथार्थ ज्ञायक है, इसलिए उसमें विप-  
र्ययत्व आनेकी संभावना नहीं है । तथा, नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंका यद्यपि वर्तमानमें  
सद्भाव नहीं है, तथापि उनका अत्यन्ताभाव नहीं है और इसीलिए अत्यन्ताभाववाले  
गधेके सींगके साथ उसका व्यभिचार नहीं आता है ।

इस केवलज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मको केवलज्ञानावरणीय कहते हैं ।

शंका—केवलीभगवान्में क्या एक ही ज्ञान होता है, अथवा पांचों ही ज्ञान  
होते हैं । प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि आवरणीय अर्थात् आवरण करने  
योग्य ज्ञानोंके अभाव होनेसे मतिज्ञानावरणादि चारों आवरण कर्मोंके अभावका प्रसंग  
आता है । न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, परिमित-  
अपरिमित, असहाय-सहाय और क्रम-अक्रमरूप पांचों ज्ञानोंका एक आत्मामें एक साथ  
रहनेका विरोध है ?

समाधान—यहां पर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं— दूसरे पक्षमें कहा गया  
दोष तो संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा, अर्थात् पांचों ज्ञानोंका एक साथ रहना, माना नहीं  
गया है । और न प्रथम पक्षमें कहा गया दोष भी संभव है, क्योंकि, आवरणके वशसे  
उत्पन्न होनेवाले मतिज्ञानादि चारों आवरणीय ज्ञान पाये जाते हैं । क्षीणावरणीय केवली

१ प्रतिपु ' केवलिम्हि ' इति पाठ ।

२ अ-आप्रत्योः ' किमेक्क ' कप्रती ' किमेक्क ' मप्रती ' किमिक्क ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' ण विइज्जओ पक्खो ' इति स्थाने ' विइज्जओ ' इति पाठ । मप्रती ' ण विइज्जदि  
पक्खो ' इति पाठः ।

४ प्रतिपु ' मेयत्त ' इति पाठः ।

५ केवलस्यासहायत्वादितरेषां च क्षयोपशमनिमित्तत्वाद्यौगपद्याभावः । त. रा. धा. १, ३०, ७.

संभवो, आवरणणिवंधणाणं तदभावे संभवविरोहादो' ।

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीओ ॥ १५ ॥

एदं दब्बद्वियणयमास्सिदूण ड्ढिदं सुत्तं संगहिदासेसविसेसत्तादो । कथं संगहादो विसेसो णव्वदे ? ण, वीजवुद्धीणं तदो तदवगमे विरोहाभावा ।

पज्जवद्वियणयाणुग्गहद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

णिद्दाणिद्दा पयलापयला थीणगिद्धी णिद्दा पयला य, चक्खु-  
दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवल-  
दंसणावरणीयं चेदि' ॥ १६ ॥

तत्थ णिद्दाणिद्दाए तिव्वोदएण रुक्खग्गे विसमभूमिए जत्थ वा तत्थ वा देसे घोरंतो अधोरंतो वा णिव्भरं सुवदि' । पयलापयलाए तिव्वोदएण वइडुओ वा उव्ववो भगवान्मं उनका होना संभव नहीं है, क्योंकि, आवरणके निमित्तसे होने वाले ज्ञानोंका आवरणोंके अभाव होनेपर होना विरुद्ध है ।

दर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियां हैं ॥ १५ ॥

यह सूत्र द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर स्थित है, क्योंकि, उसमें समस्त विशेषोंका संग्रह किया गया है ।

शंका—संग्रहनयसे विशेष कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वीज-बुद्धिवाले शिष्योंके संग्रहनयसे विशेषका ज्ञान होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

अब पर्यायाधिक नयवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, ये नौ दर्शनावरणीय कर्मकी उत्तर-प्रकृतियां हैं ॥ १६ ॥

उनमें निद्रानिद्रा प्रकृतिके तीव्र उदयसे जीव वृक्षके शिखरपर, विपम भूमिपर, अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहीं घुरघुराता हुआ निर्भर अर्थात् गाढ़ निद्रामें सोता है । प्रचलाप्रचला प्रकृतिके तीव्र उदयसे बैठा या खड़ा हुआ मुंहसे

१ × × × ( केवलज्ञानस्य ) क्षायिकत्वात् सक्षीणसकलज्ञानावरणे भगवत्त्वर्हति कथं क्षायोपशमिकानां ज्ञानानां संभवः । न हि परिप्राप्तसर्वशुद्धौ प्रदेशाशुद्धिरस्ति । त. रा. वा. १, ३०, ८.

२ चक्षुरचक्षुराधिदेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥ त सू. ८, ७.

३ मदखेदकृमविनोदार्थं स्वापो निद्रा । तस्या उपर्युपरि वृत्तिर्निद्रानिद्रा । स सि ८, ७, त रा. वा. ८, ७., त. श्लो. वा. ८, ७. णिद्दाणिद्दयेण य ण दिट्ठिमृघादिदु सफो । गो. क. २३ णिद्दाणिद्दा य दुक्ख-पट्ठिवोद्दा । क म. १, ११.



वा मुहेण गलमाणलालो पुणो पुणो कंप्माणसरीर-सिरो णिव्भरं सुवदि<sup>१</sup> । थीणगिद्धीए तिव्वोदएण उट्ठाविदो वि पुणो सोवदि, सुत्तो वि कम्मं कुणादि, सुत्तो वि झंक्खइ, दंते कडकडावेइ<sup>२</sup> । णिद्दाए तिव्वोदएण अप्पकालं सुवइ, उट्ठाविज्जंतो लहुं उट्ठेदि, अप्पसहेण वि चेअइ<sup>३</sup> । पयलाए तिव्वोदएण वालुवाए भरियाइं व लोयणाइं होंति, गरुवभारोड्ढुवं व सीसं होदि, पुणो पुणो लोयणाइं उम्मिच्छ-णिमिच्छणं कुणंति<sup>४</sup>, णिद्दाभरेण पडंतो लहु अप्पाणं साहारेदि, मणा मणा कंपदि, सचेयणो सुवदि । कध-मेदेसिं पंचण्हं दंसणावरणववएसो ? ण, चेयणमवहरंतस्स सब्बदंसणविरोहिणो दंसणा-वरणत्तं पडि विरोहाभावा । किं दर्शनम् ? ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदो दर्शनं

गिरती हुई लार सहित तथा चार-चार कंपते हुए शरीर और शिर-युक्त होता हुआ जीव निर्भर सोता है । स्थानगृद्धिके तीव्र उदयसे उठायी गया भी जीव पुनः सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है, तथा सोते हुए भी बढ़वड़ाता है और दांतोंको कड़कड़ाता है । निद्रा प्रकृतिके तीव्र उदयसे जीव अल्प काल सोता है, उठाये जानेपर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है । प्रचलाप्रकृतिके तीव्र उदयसे लोचन वालुकासे भरे हुएके समान हो जाते हैं, शिर गुरु-भारको उठाये हुएके समान भारी हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं-निमीलन करने लगते हैं । निद्रा प्रकृतिके उदयसे गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आपको सम्हाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कंपता रहता है और सावधान सोता है ।

शंका—इन पांचों निद्राओंके दर्शनावरण संज्ञा कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आत्माके चेतन गुणको अपहरण करनेवाले और सर्व-दर्शनके विरोधी कर्मके दर्शनावरणत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है ।

शंका—दर्शन किसे कहते हैं ?

समाधान—ज्ञानका उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्व-संवेदनं, अर्थात्

१ या क्रियाऽत्मान प्रचलयति सा प्रचला शोकश्रममदादिप्रभवा आसनिस्यापि नेत्रगात्रविक्रियासूचिका । सैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचलाप्रचला । स सि, त रा वा., त. श्लो. वा ८, ७. पयलापयलुदयेण य वहेदि लाला चलंति अगाइ । गो. क. २४. पयलापयला उ चक्खमओ ॥ क अ १, ११.

२ स्वप्नेऽपि यया वीर्यविशेषाविर्भाव सा स्थानगृद्धिः । स. सि, त. रा वा, त श्लो. वा ८, ७. थीणुदयेणुट्ठविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य ॥ गो क. २३ दिणचित्तिअत्थकरणी थीणद्धी अद्धचक्खिअद्धवला । क. अ १, १२.

३ णिद्दुदये गच्छतो ठाइ पुणो वइसइ पडेइ ॥ गो क २४. सुहपडिवोहा निद्दा । क अ १, ११.

४ पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तो वि । ईस ईस जाणदि मुहु मुहु सोवदे मंद ॥ गो. क. २५. पयला ठिओवविट्ठस्स । क. अ १, ११.

आत्मविषयोपयोग इत्यर्थः । नात्र ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य तंत्रता, प्रयत्नरहितक्षीणा-  
वरणान्तरंगोपयोगस्स अदर्शनत्वप्रसंगात् । तत्र चक्षुर्ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसंवेदने  
रूपदर्शनक्षमोऽहमिति संभावनाहेतुश्चक्षुर्दर्शनम् । एतदावृणोतीति चक्षुर्दर्शनावरणीयम् ।  
शेषेन्द्रिय-मनसां दर्शनमचक्षुर्दर्शनम् । तदावृणोतीत्यचक्षुर्दर्शनावरणीयम् । अवधेर्दर्शनं  
अवधिदर्शनम् । तदावृणोतीत्यवधिदर्शनावरणीयम् । केवलमसपत्नं, केवलं च तद्दर्शनं  
च केवलदर्शनम् । तस्स आवरणं केवलदर्शनावरणीयम् । बाह्यार्थसामान्यग्रहणं दर्शन-  
मिति केचिदाचक्षते, तन्न, सामान्यग्रहणास्तित्वं प्रत्यविशेषतः श्रुत-मनःपर्ययोरपि  
दर्शनस्यास्तित्वप्रसंगात्, सामान्यग्रहणमन्तरेण विशेषग्रहणाभावतस्संसारावस्थायां ज्ञान-  
दर्शनयोरक्रमेण प्रवृत्तिप्रसंगात् । न क्रमप्रवृत्तिरपि, सामान्यनिर्लुठितविशेषाभावतः  
तत्रावस्तुनि ज्ञानस्य प्रवृत्तिविरोधात् । न च ज्ञानस्य प्रामाण्यं वस्त्वपरिच्छेदकत्वात् ।

आत्मविषयक उपयोगको दर्शन कहते हैं । इस दर्शनमें ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नकी परा-  
धीनता नहीं है । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न-रहित, क्षीणावरण और अन्तरंग  
उपयोगवाले केवलके अदर्शनत्वका प्रसंग आता है ।

उनमें चक्षुरिन्द्रिय-सम्बन्धी ज्ञानके उत्पन्न करनेवाले प्रयत्नसे संयुक्त स्वसंवे-  
दनके होनेपर ' मैं रूप देखनेमें समर्थ हूं, ' इस प्रकारकी संभावनाके हेतुको चक्षुर्दर्शन  
कहते हैं । इस चक्षुर्दर्शनके आवरण करनेवाले कर्मको चक्षुर्दर्शनावरणीय कहते हैं ।  
चक्षुरिन्द्रियके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियोंके और मनके दर्शनको अचक्षुर्दर्शन कहते  
हैं । इस अचक्षुर्दर्शनको जो आवरण करता है वह अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्म है । अव-  
धिके दर्शनको अवधिदर्शन कहते हैं । उस अवधिदर्शनको जो आवरण करता है वह  
अवधिदर्शनावरणीय कर्म है । केवल यह नाम प्रतिपक्ष-रहितका है । प्रतिपक्ष-रहित जो  
दर्शन होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं । उस केवलदर्शनके आवरण करनेवाले कर्मको  
केवलदर्शनावरणीय कहते हैं ।

बाह्य पदार्थको सामान्यरूपसे ग्रहण करना दर्शन है, ऐसा कितने ही आचार्य  
कहते हैं । किन्तु वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि, सामान्य-ग्रहणके अस्तित्वके प्रति  
कोई विशेषता न होनेसे श्रुतज्ञान और मनःपर्यय-ज्ञान, इन दोनोंको भी दर्शनके अस्तित्व-  
त्वका प्रसंग आता है । अतएव सामान्य-ग्रहणके विना विशेषके ग्रहणका अभाव होनेसे  
संसार अवस्थामें ज्ञान और दर्शनकी अक्रम अर्थात् युगपत् प्रवृत्तिका प्रसंग आता है ।  
तथा दर्शनकी उपर्युक्त परिभाषा माननेपर ज्ञान और दर्शनकी संसारावस्थामें क्रमशः  
प्रवृत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि सामान्यसे रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है और  
अवस्तुमें ज्ञानकी प्रवृत्ति होनेका विरोध है । यदि अवस्तुमें ज्ञानकी प्रवृत्ति मानी जायगी  
तो ज्ञानके प्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तुका अपरिच्छेदक है ।

न च विशेषमात्रं वस्तु, तस्यार्थक्रियाकर्तृत्वाभावात् । ततः सामान्यमात्मा, सकलार्थ-  
साधारणत्वात्तद्विषय उपयोगो दर्शनमिति प्रत्येतव्यम् । केवलज्ञानमेव आत्मार्थव-  
भासकमिति केचित्केवलदर्शनस्याभावमाचक्षते । तन्न, पर्यायस्य केवलज्ञानस्य पर्याया-  
भावतः सामर्थ्यद्वयाभावात् । भावे वा अनवस्था न कैश्चिन्निवार्यते । तस्मादात्मा स्व-  
परावभासक इति निश्चेतव्यम् । तत्र स्वावभासः केवलदर्शनम्, परावभासः केवलज्ञानम् ।  
तथा सति कथं केवलज्ञान-दर्शनयोः साम्यमिति चेन्न, ज्ञेयप्रमाणज्ञानात्मकात्मानुभवस्य  
ज्ञानप्रमाणत्वाविरोधात् । इति शब्दः एतावदर्थे, दर्शनावरणीयस्य कर्मणः एतावत्य एव  
प्रकृतयो नाधिका इत्यर्थः ।

**वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ ॥ १७ ॥**

एदं संगहणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । किमड्ढमिदं उच्चदे ? मेहाविज-

केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि, उसके अर्थक्रियाकी कर्तृताका अभाव है ।  
इसलिये सामान्य नाम आत्माका है, क्योंकि, वह सकल पदार्थोंमें साधारण रूपसे  
व्याप्त है । इस प्रकारके सामान्यरूप आत्माको विषय करनेवाला उपयोग दर्शन है, ऐसा  
निश्चय करना चाहिये ।

केवलज्ञान ही अपने आपका और अन्य पदार्थोंका जाननेवाला है, इस प्रकार  
मानकर कितने ही लोग केवलदर्शनके अभावको कहते हैं । किन्तु उनका यह कथन  
युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञान स्वयं पर्याय है । पर्यायके दूसरी पर्याय  
होती नहीं है, इसलिये केवलज्ञानके स्व और परकी जाननेवाली दो प्रकारकी शक्ति-  
योंका अभाव है । यदि एक पर्यायके दूसरी पर्यायका सद्भाव माना जायगा तो  
आनेवाला अनवस्था दोष किसीके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता है । इसलिये आत्मा  
ही स्व और परका जाननेवाला है, ऐसा निश्चय करना चाहिये । उनमें स्व-प्रतिभासको  
केवलदर्शन कहते हैं, और पर-प्रतिभासको केवलज्ञान कहते हैं ।

शंका—उक्त प्रकारकी व्यवस्था माननेपर केवलज्ञान और केवलदर्शनमें समा-  
नता कैसे रह सकेगी ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ज्ञेयप्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभवके ज्ञानके प्रमाण  
होने में कोई विरोध नहीं है ।

सूत्रके अंतमें दिया गया 'इति' यह शब्द 'एतावत्' अर्थका वाचक है, अर्थात्  
दर्शनावरणीय कर्मकी इतनी ही प्रकृतियां होती हैं, अधिक नहीं ।

वेदनीय कर्मकी दो प्रकृतियां हैं ॥ १७ ॥

यह सूत्र संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, समस्त भेदोंको अपनेमें संग्रह करने-  
वाला है ।

शंका—यह संग्रहनयाश्रित सूत्र किसलिये कहा जा रहा है ?

णाणुग्गहट्टं । संपहि मंदचुद्धिजणाणुग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

**सादावेदणीयं चैव असादावेदणीयं चैव' ॥ १८ ॥**

सादं सुहं, तं वेदावेदि भुंजावेदि त्ति सादावेदणीयं । असादं दुक्खं, तं वेदावेदि भुंजावेदि त्ति असादावेदणीयं । एत्थ चोदओ भणदि— जदि सुह-दुक्खाइं कम्मोर्हितो होति, तो कम्मेषु विणट्ठेषु सुह-दुक्खवज्जएण जीवेण होदच्चं, सुह-दुक्खणिबंधणकम्माभावा । सुह-दुक्खविपज्जिओ चैव होदि त्ति चै ण, जीवदच्चस्स णिस्सहावत्तादो अभावप्पसंगा । अह जइ दुक्खमेव कम्मजणियं, तो सादावेदणीयकम्माभावो होज्ज, तस्स फलाभावादो त्ति ? एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा— जं किं पि दुक्खं णाम तं असादावेदणीयादो होदि, तस्स जीवसरुवत्ताभावा । भावे वा खीणकम्माणं पि दुक्खेण होदच्चं, णाण-दंसणाणमिव कम्मविणासे विणासाभावा । सुहं पुण ण कम्मादो

समाधान—बुद्धिमान् शिष्योंके अनुग्रहके लिये यह सूत्र कहा गया है ।

अब मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

सातावेदनीय और असातावेदनीय, ये दो ही वेदनीय कर्मकी प्रकृतियां हैं ॥ १८ ॥

साता यह नाम सुखका है, उस सुखको जो वेदन कराता है, अर्थात् भोग कराता है, वह सातावेदनीय कर्म है । असाता नाम दुखका है, उसे जो वेदन या अनुभवन कराता है उसे असातावेदनीय कर्म कहते हैं ।

शंका—यहांपर शंकाकार कहता है कि यदि सुख और दुख कर्मोंसे होते हैं तो कर्मोंके विनष्ट हो जाने पर जीवको सुख और दुखसे रहित हो जाना चाहिये, क्योंकि उसके सुख और दुखके कारणभूत कर्मोंका अभाव हो गया है । यदि कहा जाय कि कर्मोंके नष्ट हो जाने पर जीव सुखसे और दुखसे रहित ही हो जाता है, सो कह नहीं सकते, क्योंकि, जीवद्रव्यके निःस्वभाव हो जानेसे अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । अथवा, यदि दुखको ही कर्म-जनित माना जाय तो सातावेदनीय कर्मका अभाव प्राप्त होगा, क्योंकि, फिर उसका कोई फल नहीं रहता है ?

समाधान—यहां पर उपर्युक्त आशंका का परिहार कहते हैं । वह इस प्रकार है—दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु है वह असातावेदनीय कर्मके उदयसे होती है, क्योंकि, वह जीवका स्वरूप नहीं है । यदि जीवका स्वरूप माना जाय तो क्षीणकर्मा अर्थात् कर्मरहित जीवोंके भी दुःख होना चाहिये, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनके समान कर्मके विनाश होनेपर दुखका विनाश नहीं होगा । किन्तु सुख कर्मसे उत्पन्न नहीं होता

१ सदसद्वेद्ये ॥ त. सू. ८, ८. यदुदयाद्देवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्पद्वेद्यं प्रशस्त वेद्य सद्वेद्यमिति । यत्फलं दुःखमनेकविध तदसद्वेद्यमप्रशस्त वेद्यमसद्वेद्यमिति । स. सि ; त. रा. वा., त. श्लो. वा ८, ८. मङ्गलित्त्वखगघाराकिल्हणं व दुहाउ वेअणिअ । ओसज्ज सुमण्णु सायमसायं तु तिरिय-निरयेसु ॥ क. अ. १२-१३.

उप्पज्जदि, तस्स जीवसहावत्तादो फलाभावा । ण सादावेदणीयाभावो वि, दुक्खुवसम-  
हेउसुदच्चसंपादणे<sup>१</sup> तस्स<sup>२</sup> वावारादो । एवं संते सादावेदणीयस्स पोग्गलविवाइत्तं  
होइ त्ति णासंकणिज्जं, दुक्खुवसमेणुप्पण्णसुवत्थियकणस्स दुक्खाविणाभाविस्स उवया-  
रेणेव लद्धसुहसण्णस्स जीवादो अपुधभूदस्स हेदुत्तणेण सुत्ते तस्स जीवविवाइत्तसुह-  
हेदुत्ताणमुवदेसादो । तो वि जीव-पोग्गलविवाइत्तं सादावेदणीयस्स पावेदि त्ति चे ण,  
इदुत्तादो । तहोवएसो णत्थि त्ति चे ण, जीवस्स अत्थित्तण्णहाणुववत्तीदो तहोवदेस-  
त्थित्तसिद्धीए । ण च सुह-दुक्खहेउदच्चसंपादयमण्णं कम्ममत्थि त्ति अणुवलंभादो ।

जस्सोदएण जीवो सुहं व दुक्खं व दुविहमणुभवइ ।

तस्सोदयक्खएण दु सुह-दुक्खविवज्जिओ होइ ॥ ७ ॥

ण च एदीए गाहाए सह विरोहो, सादावेदणीयादो उप्पण्णसुहाभावं पेक्खिउण

है, क्योंकि, वह जीवका स्वभाव है, और इसीलिये वह कर्मका फल नहीं है । सुखको जीवका स्वभाव माननेपर सातावेदनीय कर्मका अभाव भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि, दुःख-उपशमनके कारणभूत सुद्रव्योंके सम्पादनमें सातावेदनीय कर्मका व्यापार होता है । इस व्यवस्थाके माननेपर सातावेदनीय प्रकृतिके पुद्गलविपाकित्व प्राप्त होगा, ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुए, दुःखके अविनाभावी उपचारसे ही सुख संज्ञाको प्राप्त और जीवसे अपृथग्भूत ऐसे स्वास्थ्यके कणका हेतु होनेसे सूत्रमें सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकित्वका और सुख-हेतुत्वका उपदेश दिया गया है । यदि कहा जाय कि उपर्युक्त व्यवस्थानुसार तो सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकीपना और पुद्गलविपाकीपना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह बात हमें इष्ट है । यदि कहा जावे कि उक्त प्रकारका उपदेश प्राप्त नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि, जीवका अस्तित्व अन्यथा वन नहीं सकता है, इसलिये उस प्रकारके उपदेशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है । सुख और दुखके कारणभूत द्रव्योंका सम्पादन करनेवाला दूसरा कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कर्म पाया नहीं जाता ।

जिसके उदयसे जीव सुख और दुख, इन दोनोंका अनुभव करता है, उसके उदयका क्षय होनेसे वह सुख और दुखसे रहित हो जाता है ॥ ७ ॥

पूर्वोक्त व्यवस्था माननेपर इस गाथाके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सातावेदनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होने वाले सुखके अभावकी अपेक्षा उपर्युक्त गाथामें

१ आप्रतौ 'हेउच्चसपादणे' कप्रतौ 'हेउदच्चसपादणे' इति पाठ ।

२ प्रतिपु 'तस्स वावारादो एव सते सादावेदणीयस्स पोग्गलविवाइत्तं होइ त्ति णासकणिज्ज' इति पाठः । मप्रतौ तु स्वीकृतपाठः ।

तत्थ सुह-दुक्खाभावोवदेसादो । दोसु पदेसु एवकारो किमडुं कीरदे ? उत्तरोत्तरुत्तर-पयडीणमभावपदुप्पायणडुं ।

**मोहणीयस्स कम्मस्स अट्टावीसं पयडीओं ॥ १९ ॥**

एदं संगहणयसुत्तं संगहिदासेसविसेसत्तादो मेहाविजणाणुग्गहकारी । संपहि मज्झिमवुद्धिजणाणुग्गहट्टमुत्तरं सुत्तं भणदि—

**जं तं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं, दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं चैव ॥ २० ॥**

कथमेदम्हादो मोहणीयस्स कम्मस्स सव्वभेदा अवगम्मंति ? आइरिओवदेसादो । जेत्तिओ एदस्स सुत्तस्स अत्थो तं सव्वमाइरिया परूवेति । तं परूविज्जमाणं मेहाविणो अवहारयंति । तदो एत्तियमेत्तसुत्तेण कज्जसिद्धीदो वित्थारपरूवणं तेसिमणत्थयमिदि<sup>१</sup>।  
मंदवुद्धिजणाणुग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

सुख और दुखके अभाव का उपदेश दिया गया है ।

शंका—सूत्रमें दोनों पदों पर एवकार किसलिये किया है ?

समाधान—वेदनीय कर्मकी उत्तरोत्तर उत्तर-प्रकृतियोंका अभाव बतलानेके लिये दो वार एवकार पद दिया है ।

मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियां हैं ॥ १९ ॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र समस्त विशेषों का संग्रह करनेसे मेधावीजनोंका अनुग्रह करनेवाला है ।

अब मध्यम-वुद्धि जनोंके अनुग्रहके लिये उत्तरसूत्र कहते हैं—

वह उपर्युक्त मोहनीय कर्म दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीय ॥ २० ॥

शंका— इस सूत्रसे मोहनीयकर्मके सर्व भेद कैसे जाने जाते हैं ?

समाधान—आचार्योंके उपदेशसे । इस सूत्रका जितना अर्थ है वह सब आचार्य प्ररूपण करते हैं । उस निरूपण किये गये अर्थको बुद्धिमान् शिष्य अवधारण कर लेते हैं । इसलिये इतने मात्र सूत्र द्वारा कार्यकी सिद्धि होनेसे बुद्धिमान् शिष्योंके लिये विस्तारसे निरूपण करना अनर्थक है ।

अब मन्दबुद्धिजनोंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ त सू. ८, ५.

२ त सू. ८, ९.

३ अ-आप्रत्यो. ' तेसिमणत्थयमिदि ' इति पाठः ।

जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधादो एयविहं, तस्स संतकम्मं  
पुण तिविहं सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं चेदि' ॥ २१ ॥

दंसणं अत्तागम-पदत्थेसु रुई पच्चओ सद्दा फोसणमिदि एयडो । तं मोहेदि विव-  
रीयं कुणदि त्ति दंसणमोहणीयं । जस्स कम्मस्स उदएण अणत्ते अत्तवुद्धी, अणागमे  
आगमवुद्धी, अपयत्थे पयत्थवुद्धी, अत्तागमपयत्थेसु सद्दाए अत्थिरत्तं, दोसु वि सद्दा  
वा होदि तं दंसणमोहणीयमिदि उत्तं होदि । तं वंधादो एयविहं, मिच्छत्तादिपच्चएहि  
दुक्कमाणाणं दंसणमोहणीयकम्मक्खंधाणमेगसहावाणमुवलंभा । वंधेण एयविहं दंसण-  
मोहणीयं कधं संतादो तिविहत्तं पडिवज्जदे ? ण एस दोसो, जंतएण दलिज्जमाण-  
कोद्वेसु कोद्व-तंदुलद्धतंदुलाणं व दंसणमोहणीयस्स अपुच्चादिकरणेहि दलियस्स

जो दर्शनमोहनीय कर्म है वह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है, किन्तु उसका  
सत्कर्म तीन प्रकारका है—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ २१ ॥

दर्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा, और स्पर्शन, ये सब एकार्थ-वाचक नाम हैं।  
आप्त या आत्मामें, आगम और पदार्थोंमें रुचि या श्रद्धाको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनको  
जो मोहित करता है, अर्थात् विपरीत कर देता है, उसे दर्शनमोहनीय कर्म कहते हैं।  
जिस कर्मके उदयसे अनाप्तमें आप्त-बुद्धि, और अपदार्थमें पदार्थ-बुद्धि होती है; अथवा  
आप्त, आगम और पदार्थोंमें श्रद्धानकी अस्थिरता होती है, अथवा दोनोंमें भी अर्थात्  
आप्त-अनाप्तमें, आगम-अनागममें और पदार्थ-अपदार्थमें श्रद्धा होती है, वह दर्शनमोहनीय  
कर्म है, यह अर्थ कहा गया है। वह दर्शनमोहनीय बंधकी अपेक्षा एक प्रकारका है,  
क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोंके द्वारा आने वाले दर्शनमोहनीय कर्मके स्कन्धोंका  
एक स्वभाव पाया जाता है।

शंका—बंधसे एक प्रकारका दर्शनमोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका  
कैसे हो जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जातेसे ( चक्कीसे ) दले गये कोदोंमें  
कोदों, तन्दुल और अर्ध-तन्दुल, इन तीन विभागोंके समान अपूर्वकरण आदि परिणामोंके  
द्वारा दले गये दर्शनमोहनीयके त्रिविधता पाई जाती है।

१ त. सु. ८, ९. तत्र दर्शनमोहनीय त्रिमेद सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं तदुभयमिति । तद्वन्ध प्रत्येक भूत्वा  
सत्कर्मापेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । स. सि., त. रा. वा, त. श्लो. वा. ८, ९. दंसणमोह तिविह सम्मं मीसं तह्व  
मिच्छत्तं । सुद्ध अद्धविस्सुद्ध अविस्सुद्ध त हवइ कमसो ॥ क प्र. १, १४.

२ जतेण कोद्व वा पदमुवसमसम्मभावजतेण । मिच्छ दव्व च तिधा असंखगुणहीणदव्वकमा ॥ गो. क. २६.

तिविहत्तुवलंभा । तत्थ अत्तागम-पदत्थसद्दाए जस्सोदएण सिथिलत्तं होदि, तं सम्मत्तं<sup>१</sup> । कथं तस्स सम्मत्तववएसो ? सम्मत्तसहचरिदोदयत्तादो उवयारेण सम्मत्तमिदि उच्चदे । जस्सोदएण अत्तागम-पयत्थेसु असद्दा होदि, तं मिच्छत्तं<sup>२</sup> । जस्सोदएण अत्तागम-पयत्थेसु तप्पडिवक्खेसु य अक्कमेण सद्दा उप्पज्जदि तं सम्मामिच्छत्तं<sup>३</sup> । संदेहो कुदो जायदे ? सम्मत्तोदयादो; सच्चसंदेहो मूढत्तं च मिच्छत्तोदयादो । दंसणमोहणीयं संतदो तिविहमिदि कुदो णव्वदे ? आगमदो लिंगदो य<sup>४</sup> । विवरीदो अहिणिवेसो मूढत्तं संदेहो

उनमें जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंकी श्रद्धामें शिथिलता होती है वह सम्यक्त्वप्रकृति है ।

शंका— उस प्रकृतिका 'सम्यक्त्व' ऐसा नाम कैसे हुआ ?

समाधान— सम्यग्दर्शनके सहचरित उदय होनेके कारण उपचारसे 'सम्यक्त्व' ऐसा नाम कहा जाता है ।

जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंमें अश्रद्धा होती है, वह मिथ्यात्व प्रकृति है । जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंमें, तथा उनके प्रतिपक्षियोंमें अर्थात् कुदेव, कुशास्त्र और कुतत्त्वोंमें, युगपत् श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति है ।

शंका—आप्त, आगम और पदार्थोंमें संदेह किस कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है ?

समाधान— सम्यग्दर्शनका घात नहीं करनेवाला संदेह सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होता है । किन्तु सर्व संदेह, अर्थात् सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण रूपसे घात करनेवाला संदेह, और मूढत्व मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न होता है ।

शंका— दर्शनमोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—आगमसे और लिंग अर्थात् अनुमानसे जाना जाता है कि दर्शन-मोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है । विपरीत अभिनिवेश, मूढता और

१ तदेव सम्यक्त्व शुभपरिणामनिरुद्धस्वरस यदौदासीन्येनावस्थितमात्मन श्रद्धान न निरुणद्धि, तद्वेदय-मानः पुरुषः सम्यग्दृष्टिरित्यभिधीयते । स. सि., त रा. वा. ८, ९.

२ यस्योदयात्सर्वज्ञप्रणीतमार्गपराङ्मुखस्तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुको हिताहितविचारासमर्थो मिथ्यादृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वम् । स. सि.; त रा. वा. ८, ९.

३ तदेव मिथ्यात्व प्रक्षालनविशेषात् क्षीणाक्षीणमदक्षक्तिक्रोद्रववत्सामिद्धस्वरस तद्गमयमित्याख्यायते सम्य-ग्मिथ्यात्वमिति यावत् । स. सि., त रा. वा. ८, ९.

४ प्रतिष्ठा 'लिंगयदो' इति पाठः ।



वि मिच्छत्तस्स लिंगां । आगमणागमेसु समभावो सम्मामिच्छत्तलिंगं । अत्तागम-  
पयत्थसद्दाए सिथिलत्तं सद्दाहाणी वि सम्मत्तलिंगं ।

जं तं चारित्तमोहणीयं कम्मं तं दुविहं, कसायवेदणीयं चैव  
णोकसायवेदणीयं चैव' ॥ २२ ॥

पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्रम् । घादिकम्माणि पावं । तेसिं किरिया मिच्छत्तासंजम-  
कसाया । तेसिमभावो चारित्तं । तं मोहेइ आवारेदि त्ति चारित्तमोहणीयं । तं च दुविहं  
कसाय-णोकसायभेदेण । कुदो दुविहत्तसिद्धी ? कसाय-णोकसाएहितो पुधभूदतइज्ज-  
कज्जाणुवलंभादो । एदं संगहणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । पज्जवट्टियसत्ताणु-  
ग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि —

जं तं कसायवेदणीयं कम्मं तं सोलसविहं, अणंताणुबंधिकोह-  
माण-माया-लोहं, अपच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, पच्च-

संदेह, ये मिथ्यात्वके चिन्ह हैं । आगम और अनागमोंमें सम-भाव होना सम्यग्मिथ्या-  
त्वका चिन्ह है । आप्त, आगम और पदार्थोंकी श्रद्धामें शिथिलता और श्रद्धाकी हीनता  
होना सम्यक्त्वप्रकृतिका चिन्ह है ।

जो चारित्रमोहनीय कर्म है वह दो प्रकारका है— कषायवेदनीय और नो-  
कषायवेदनीय ॥ २२ ॥

पापरूप क्रियाओंकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं । घातिया कर्मोंको पाप कहते  
हैं । मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, ये पापकी क्रियाएं हैं । इन पाप-क्रियायोंके अभावको  
चारित्र कहते हैं । उस चारित्रको जो मोहित करता है, अर्थात् आच्छादित करता है,  
उसे चारित्रमोहनीय कहते हैं । वह चारित्रमोहनीय कर्म कषायवेदनीय और नोकषाय-  
वेदनीयके भेदसे दो प्रकारका है ।

शंका—चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका ही है, यह कैसे सिद्ध होता है ?

समाधान—चूंकि, कषाय और नोकषायोंसे पृथग्भूत तीसरे प्रकारका कोई  
कार्य नहीं पाया जाता, इससे जाना जाता है कि चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है ।

यह सूत्र संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, अपने समस्त विशेषोंका संग्रह करने-  
वाला है ।

अथ पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

जो कषायवेदनीय कर्म है वह सोलह प्रकारका है— अनन्तानुबन्धी क्रोध,  
मान, माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; प्रत्याख्याना-

कषाणावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, कोहसंजलणं, माणसंजलणं, माया-संजलणं लोहसंजलणं चेदि' ॥ २३ ॥

दुःखशस्यं कर्मक्षेत्रं कृपंति फलवत्कुर्वन्तीति कषायाः क्रोध-मान-माया-लोभाः । क्रोधो रोषः संरम्भ इत्यनर्थान्तरम् । मानो गर्वः स्तब्धत्वमित्येकोऽर्थः । माया निकृति-वंचना अनृजुत्वमिति पर्यायशब्दाः । लोभो गृद्धिरित्येकोऽर्थः । अनन्तान् भवाननुबद्धुं शीलं येषां ते अनन्तानुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिनश्च ते क्रोध-मान-माया-लोभाश्च अनन्तानुबन्धिक्रोध-मान-माया-लोभाः । जेहि कोह माण-माया-लोहेहि अविणडुसरूवेहि सह जीवो अणंते भवे हिंडदि तेसिं कोह-माण-माया-लोहाणं अणंताणुबंधी सण्णा त्ति उत्तं होदि' । एदेसिमुदयकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो चेय, द्विदी चालीससागरोवमकोडा-कोडिमेत्ता चेय । तदो एदेसिमणंतभवाणुबंधित्तं ण जुज्जदि त्ति ? ण एस दोसो, एदेहि जीवमिह जणिदसंसकारस्स अणंतेसु भवेसु अवट्टाणब्भुवगमादो । अधवा अणंतो अणुबंधो

वरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन ॥ २३ ॥

जो दुखरूप धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी खेतको कर्षण करते हैं, अर्थात् फलवाले करते हैं, वे क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय हैं । क्रोध, रोष और संरम्भ, इनके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है । मान, गर्व और स्तब्धत्व, ये एकार्थ-वाचक नाम हैं । माया, निकृति, वंचना और अनृजुता, ये पर्याय-वाची शब्द हैं । लोभ और गृद्धि, ये दोनों एकार्थक नाम हैं । अनन्त भवोंको बांधना ही जिनका स्वभाव है वे अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं । अनन्तानुबन्धी जो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कहलाते हैं । जिन अविनष्ट स्वरूपवाले, अर्थात् अनादि-परस्परगत क्रोध, मान, माया और लोभके साथ जीव अनन्त भवमें परिभ्रमण करता है, उन क्रोध, मान, माया और लोभ कषायोंकी 'अनन्तानुबन्धी' संज्ञा है, यह अर्थ कहा गया है ।

शंका—उन अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषायोंका उदयकाल अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है, और स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण है । अतएव इन कषायोंके अनन्त-भवानुबन्धिता घटित नहीं होती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इन कषायोंके द्वारा जीवमें उत्पन्न हुए संस्कारका अनन्त भवोंमें अवस्थान माना गया है । अथवा, जिन क्रोध, मान, माया,

१ त. सू. ८, ९, २ अ आप्तयो ' भवाननुबध ' कप्रतौ ' भवाननुबधु ' इति पाठ ।

३ अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्त तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिन क्रोधमानमायालोभाः । स. सि ।

जेसिं कोह-माण-माया-लोहाणं ते अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोहा । एदेहिंते वड्ढिद-संसारो अणंतेसु भवेसु अणुवंधं ण छ्हेदि त्ति अणंताणुवंधो संसारो । सो जेसिं ते अणंताणुवंधिणो कोह-माण माया-लोहा । एदे चत्तारि वि सम्मत्त-चारित्ताणं विरोहिणो, दुविहसत्तिसंजुत्तादो । तं कुदो णव्वदे ? गुरूव्वदेसादो जुत्तीदो य । का एत्थ जुत्ती ? उच्चदे- ण ताव एदे दंसणमोहणिज्जा, सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेहि चैव आवरियस्स सम्मत्तस्स आवरणे फलाभावादो । ण चारित्तमोहणिज्जा वि, अपच्चक्खाणावरणादीहि आवरिदचारित्तस्स आवरणे फलाभावा । तदो एदेसिमभावो चैय । ण च अभावो, सुत्तमिह एदेसिमत्थित्तपदुप्पायणादो । तम्हा एदेसिमुदएण सासणगुणुप्पत्तीए

लोभोंका अनुबन्ध ( विपाक या सम्यन्ध ) अनन्त होता है वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाते हैं । इनके द्वारा वृद्धिगत संसार अनन्त भवोंमें अनुबन्धको नहीं छोड़ता है, इसलिये 'अनन्तानुबन्ध' यह नाम संसारका है । वह संसारात्मक अनन्तानुबन्ध जिनके होता है वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ हैं । ये चारों ही कपाय सम्यक्त्व और चारित्रके विरोधक है, क्योंकि, वे सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनोंको घातनेवाली दो प्रकारकी शक्तिसे संयुक्त होते हैं ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—गुरुके उपदेशसे और युक्तिसे जाना जाता है कि अनन्तानुबन्धी कपायोंकी शक्ति दो प्रकारकी होती है ।

शंका—अनन्तानुबन्धी कपायोंकी शक्ति दो प्रकारकी है, इस विषयमें क्या युक्ति है ?

समाधान—उपर्युक्त शंकाका उत्तर कहते हैं—सम्यक्त्व और चारित्र, इन दोनोंको घात करनेवाले ये अनन्तानुबन्धी क्रोधादिक न तो दर्शनमोहनीयस्वरूप माने जा सकते हैं, क्योंकि, सम्यक्त्वप्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके द्वारा ही आवरण किये जानेवाले सम्यग्दर्शनके आवरण करनेमें फलका अभाव है । और न उन्हें चारित्र-मोहनीयस्वरूप भी माना जा सकता है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरण आदि कपायोंके द्वारा आवरण किये गये चारित्रके आवरण करनेमें फलका अभाव है । इसलिये उपर्युक्त प्रकारसे इन अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कपायोंका अभाव ही सिद्ध होता है । किन्तु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि, सूत्रमें इनका अस्तित्व पाया जाता है । इसलिये इन अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कपायोंके उदयसे सासादन भावकी उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है,

अण्णहाणुववत्तीदो सिद्धं दंसणमोहणीयत्तं चरित्तमोहणीयत्तं च । ण चाणंताणुबंधिचउक्क-  
वावारो चारित्ते णिप्फलो, अपच्चक्खाणादिअणंतोदयपवाहकारणस्स णिप्फलत्तविरोहा ।  
प्रत्याख्यानं संयमः, न प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यानमिति देशसंयमः । पच्चक्खाणस्स  
अभावो असंजमो संजमासंजमो वि; तत्थ असंजमं मोत्तूण अपच्चक्खाणसदो संजमासंजमे  
चेव वट्टदि त्ति क्कधं णव्वदे ? आवरणसदपओगादो । ण च कम्महि असंजमो आवरि-  
ज्जदि, चारित्तावरणस्स कम्मस्स अचारित्तावरणत्तप्पसंगादो । पारिसेसादो अपच्चक्खाण-  
सददो संजमासंजमो चेय । अथवा नवीयमीपदर्थे वर्त्तते । तथा च न प्रत्याख्यान-  
मित्यप्रत्याख्यानं संयमासंयम इति सिद्धम् । न च नजः ईषदर्थे वृत्तिरसिद्धा, न रक्ता  
न श्वेता युवतिनखाः ताम्राः कुरवका इत्यत्रान्यथा स्ववचनविरोधप्रसंगाद्, अनुदरी  
कुमारीत्यत्र उदराभावतः कुमार्याः मरणप्रसंगाच्च । अत्रोपयोगी श्लोकः—

इस अन्यथानुपपत्तिसे उनके दर्शनमोहनीयता और चारित्र-मोहनीयता, अर्थात् सम्यक्त्व  
और चारित्रको घात करनेकी शक्तिका होना, सिद्ध होता है । तथा, चारित्रमें अनन्तानु-  
बन्धि-चतुष्कका व्यापार निष्फल भी नहीं है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानादिके अनन्त उदय-  
रूप प्रवाहके कारणभूत अनन्तानुबन्धी कपायके निष्फलत्वका विरोध है ।

प्रत्याख्यान संयमको कहते हैं । जो प्रत्याख्यानरूप नहीं है, वह अप्रत्याख्यान है ।  
इस प्रकार 'अप्रत्याख्यान' यह शब्द देशसंयमका वाचक है ।

शंका—प्रत्याख्यानका अभाव असंयम है और संयमासंयम (देशसंयम) भी है ।  
उनमें असंयमको छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयमके अर्थमें ही रहता है,  
यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—आवरण शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द  
केवल संयमासंयमके अर्थमें रहता है । कर्मोंके द्वारा असंयमका आवरण तो किया  
नहीं जाता है, अन्यथा चारित्रावरण कर्मके अचारित्रावरणत्वका प्रसंग आजायगा ।  
अतः पारिशेषन्यायसे अप्रत्याख्यान शब्दका अर्थ संयमासंयम ही है । अथवा नञ्जन्य  
पद ईषत् (अल्प) अर्थमें वर्तमान है । इसलिये जो प्रत्याख्यान नहीं वह अप्रत्याख्यान  
अर्थात् संयमासंयम है, यह बात सिद्ध हुई । नञ् पदकी ईषत् अर्थमें वृत्ति असिद्ध भी  
नहीं है, क्योंकि, 'इस युवतिके नख न लाल हैं और न सफेद हैं, किन्तु, ताम्र-वर्णवाले  
कुरवकके समान हैं' इस प्रयोगमें अन्यथा स्ववचन-विरोधका प्रसंग प्राप्त होगा, तथा  
'अनुदरी कुमारी' यहाँ पर उदरके अभावसे कुमारीके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा । इस  
विषयमें यह उपयोगी श्लोक है—

१ प्रतिषु 'वृत्तेरसिद्धा' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'युवतिनखा ताम्राह्वरकाः' मप्रतौ 'युवतिनखताम्राकुरवका.' इति पाठः ।

प्रतिषेधयति समस्तं प्रसक्तमर्थं तु जगति नोशब्दः ।

स पुनस्तदवयवे वा तस्मादर्थान्तरे वा स्यात् ॥ ८ ॥

अप्रत्याख्यानं संयमासंयमः । तमावृणोतीति अप्रत्याख्यानावरणीयम् । तं चउच्चिहं क्रोध-माण-माया-लोहभेदेण । पच्चक्खाणं संजमो महव्वयाइं ति एयड्ढो । पच्चक्खाणमावरंति ति पच्चक्खाणावरणीया क्रोध-माण माया-लोहा । सम्यक् ज्वलतीति संज्वलनम् । किमत्र सम्यक्त्वम् ? चारित्रेण सह ज्वलनम् । चारित्तमविणासेता उदयं कुणंति ति जं उच्चं होदिं । चारित्तमविणासेताणं संजुलणाणं कथं चारित्तावरणत्तं जुज्जदे ? ण, संजमग्धि मलमुव्वाइय जहाक्खादचारित्तुप्पत्तिपडिबंधयाणं चारित्तावरणत्ता-विरोहा । ते वि चत्तारि क्रोध-माण-माया-लोहभेदेण । क्रोहाइसु पादेक्कं संजुलणसद्दुच्चा-

जगत्में 'न' यह शब्द प्रसक्त समस्त अर्थका तो प्रतिषेध करता है । किन्तु वह प्रसक्त अर्थके अवयव अर्थात् एक देशमें, अथवा उससे भिन्न अर्थमें रहता है, अर्थात् उसका बोध कराता है ॥ ८ ॥

अप्रत्याख्यान संयमासंयमका नाम है । उस अप्रत्याख्यानको जो आवरण करता है उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कहते हैं । वह क्रोध, मान, माया और लोभके भेदसे चार प्रकारका है । प्रत्याख्यान, संयम और महाव्रत, ये तीनों एक अर्थवाले नाम हैं । प्रत्याख्यानको जो आवरण करते हैं वे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ-कपाय कहलाते हैं । जो सम्यक् प्रकार जलता है, उसे संज्वलन कपाय कहते हैं ।

शंका—इस संज्वलन कपायमें सम्यक्पना क्या है ?

समाधान—चारित्रके साथ जलना ही इसका सम्यक्पना है । अर्थात्, चारित्रको नहीं विनाश करते हुए ये कपाय उदयको प्राप्त होते हैं, यह अर्थ कहा गया है ।

शंका—चारित्रको नहीं विनाश करनेवाले संज्वलन कपायोंके चारित्रावरणता कैसे बन सकती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ये संज्वलन कपाय संयममें मलको उत्पन्न करके यथाख्यात चारित्रकी उत्पत्तिके प्रतिबंधक होते हैं, इसलिये इनके चारित्रावरणता मानमेमें कोई विरोध नहीं है ।

ये संज्वलन कपाय भी क्रोध, मान, माया और लोभके भेदसे चार प्रकारके हैं ।

१ यदुदयादेश्वरिति सयमासयमाख्यामल्पामपि कर्तुं न शक्नोति, ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणा क्रोधमानमायालोमा । स सि., त. रा. वा. ८, ९.

२ यदुदयाद्विरिति कृत्वा सयमाख्या न शक्नोति कर्तुं ते कृत्वा प्रत्याख्यानमावृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोमा । स सि., त. रा. वा. ८, ९.

३ समेकीमावे वर्तते । सयमेन सहावस्थानादेकीभूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलयेयु सत्त्वपीति संज्वलनाः क्रोधमानमायालोमा । स सि.; त. रा. वा. ८, ९.

रणं किमडुं ? पच्चक्खाणापच्चक्खाणावरणं व संजलणाणं वंधोदयाभावं पडि पच्चासत्ती णत्थि त्ति जाणावणडुं ।

जं तं णोकसायवेदणीयं कम्मं तं णवविहं, इत्थिवेदं पुरिसवेदं णवुंसयवेदं हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा चेदि' ॥ २४ ॥

एत्थ णोसदो देसपडिसेहओ वेत्तव्वो, अण्णहा एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो ।

शंका—क्रोधादिकोंमें प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चारण किसलिये किया गया है ?

समाधान—प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके समान संज्वलन कषायोंके वंध और उदयके अभावके प्रति प्रत्यासत्ति नहीं है, इस बातके वतलानेके लिये सूत्रमें क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका उच्चारण किया गया है ।

विशेषार्थ—सूत्रमें क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दके उच्चारणका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चतुर्थ गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही वंध-व्युच्छित्ति और एक साथ ही उदय-व्युच्छित्ति होती है, तथा जिस प्रकार पंचम गुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही वंध-व्युच्छित्ति और एक साथ ही उदय-व्युच्छित्ति होती है, उस प्रकारसे नवमें गुणस्थानमें क्रोधादि चारों संज्वलन कषायोंकी एक साथ न तो वंध व्युच्छित्ति ही होती है और न उदय-व्युच्छित्ति ही । किन्तु पहले वहांपर क्रोधसंज्वलनकी वंधसे व्युच्छित्ति होती है, पुनः मानसंज्वलनकी, पुनः माया-संज्वलनकी, और सबसे अन्तमें लोभसंज्वलनकी, वंध-व्युच्छित्ति होती है । यही क्रम इनकी उदय-व्युच्छित्तिका भी है । विशेषता केवल यह है कि सूक्ष्म-लोभसंज्वलन कषायकी उदय-व्युच्छित्ति दशवें गुणस्थानके अन्तमें होती है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके समान संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभकषायकी, वंध-व्युच्छित्ति और उदय-व्युच्छित्तिकी अपेक्षा, प्रत्यासत्ति या समानता नहीं है । इसी विभिन्नताके स्पष्टीकरणके लिए सूत्रकारने सूत्रमें क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका प्रयोग किया है ।

जो नोकषायवेदनीय कर्म है वह नौ प्रकारका है—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ॥ २४ ॥

यहां पर, अर्थात् नोकषाय शब्दमें प्रयुक्त नौ शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करने-वाला ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा इन स्त्रीवेदादि नवों कषायोंके अकषायताका प्रसंग प्राप्त होगा ।

होदु चे ण, अकसायाणं चारित्तावरणत्तविरोहा । ईपत्कपायो नोकपाय इति सिद्धम् ।  
अत्रोपयोगी श्लोकः—

भावस्तत्परिणामो द्विप्रतिपेधस्तदैक्यगमनार्थः ।

नो तदेशविशेषप्रतिपेधोऽन्यः स्व-परयोगात् ॥ ९ ॥

कसाएहितो णोकसायाणं कथं थोवत्तं ? द्विदीहितो अणुभागदो उदयदो य ।  
उदयकालो णोकसायाणं कसाएहितो बहुओ उवलब्भदि त्ति णोकसाएहितो कसायाणं  
थोवत्तं किण्णेच्छिज्जदे ? ण, उदयकालमहल्लत्तणेण चारित्तविणासिकसाएहितो' तम्मल-  
फलकम्माणं महल्लत्ताणुववत्तीदो । स्तृणाति आच्छादयति दोपैरात्मानं परं चेति स्त्री' ।  
पुरुक्कर्मणि शेते प्रमादयतीति पुरुषः । न पुमान् स्त्री नपुंसकः । एदस्स अहिप्पाओ—

शंका—होने दो, क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अकपायोंके चारित्रको आवरण करनेका विरोध है ।

इस प्रकार ईषत् कपायको नोकपाय कहते हैं, यह सिद्ध हुआ । इस विषयमें  
यह उपयोगी श्लोक है—

भाव वस्तुके परिणामको कहते हैं । दो बार प्रतिपेध उली वस्तुकी एकताका  
ज्ञान कराता है । 'नो' यह शब्द स्व और परके योगसे विवक्षित वस्तुके एकदेशका  
प्रतिपेधक और विधायक होता है ॥ ९ ॥

शंका—कपायोंसे नोकपायोंके अल्पपना कैसे है ?

समाधान—स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कपायोंसे नोकपायोंके  
अल्पता पाई जाती है ।

शंका—नोकपायोंका उदय-काल कपायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इस-  
लिये नोकपायोंकी अपेक्षा कपायोंके अल्पपना क्यों नहीं मान लेते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उदय-काल की अधिकता होनेसे चारित्र-विनाशक  
कपायोंकी अपेक्षा चारित्रमें मलको उत्पन्न करनेरूप फलवाले कर्मोंके महत्ता नहीं बन  
सकती है ।

जो दोषोंके द्वारा अपने आपको और परको आच्छादित करती है उसे स्त्री  
कहते हैं । जो महान् कर्मोंमें शयन करता है, या प्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते हैं । जो  
न पुरुषरूप हो, और न स्त्रीरूप हो उसे नपुंसक कहते हैं । इस उपर्युक्त कथनका

१ कप्रतौ ' कसाएहितो बहुओ ' इति पाठः ।

२ यदुदयात्स्त्रैणान् भावान् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । स. सि. ८, ९. यत्स्यादियात् स्त्रैणान् भावान् मार्दवा-  
स्फुटत्वञ्छैव्यमदनावेशनेत्रविभ्रमास्फालनस्रुखपुंस्क्रामादीन् प्रतिपद्यते स स्त्रीवेदः । त. रा. वां. ८, ९ आदयदि सयं  
दोसेण यदो आददि पर वि दोसेण । आदणसीला जम्हा सा वृष्णिणा इत्थी ।। गो. जी. २७३.

जेसिं कम्मकखंधाणमुदएण पुरुसम्मि आकंखा उप्पज्जइ तेसिमिथिवेदो त्ति सण्णा । जेसिमुदएण महेलियाए उवरि आकंखा उप्पज्जइ तेसिं पुरिसवेदो त्ति सण्णा । जेसि-मुदएण इट्ठावागगिसारिच्छेण दोसु वि आकंखा उप्पज्जइ तेसिं णउंसगवेदो त्ति सण्णा । हसनं हासः । जस्स कम्मकखंधस्स उदएण हस्सणिमित्तो जीवस्स रागो उप्पज्जइ, तस्स कम्मकखंधस्स हस्सो त्ति सण्णा, कारणे कज्जुवयारादो । रमणं रतिः, रम्यते अनया इति वा रतिः । जेसिं कम्मकखंधाणमुदएण दव्व-खेत्त-काल-भावेसु रदी समु-प्पज्जइ, तेसिं रदि त्ति सण्णा । दव्व-खेत्त-काल-भावेसु जेसिमुदएण जीवस्स अरई समुप्पज्जइ तेसिमरदि त्ति सण्णा । शोचनं शोकः, शोचयतीति वा शोकः । जेसिं कम्मकखंधाणमुदएण जीवस्स सोगो समुप्पज्जइ तेसिं सोगो त्ति सण्णा । भीतिर्मयम् । जेहिं कम्मकखंधेहिं उदयमागदेहि जीवस्स भयमुप्पज्जइ तेसिं भयमिदि सण्णा, कारणे

अभिप्राय यह है—जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे पुरुषमें आकांक्षा उत्पन्न होती है उन कर्म-स्कन्धोंकी 'स्त्रीवेद' यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे स्त्रीके ऊपर आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी 'पुरुषवेद' यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे ईंटोंके अवाकी अग्निके समान स्त्री और पुरुष, इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है उनकी 'नपुंसक वेद' यह संज्ञा है। हंसनेको हास्य कहते हैं। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके हास्य-निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'हास्य' यह संज्ञा है। रमनेको रति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा जीव विषयोंमें आसक्त होकर रमता है उसे रति कहते हैं। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें राग-भाव उत्पन्न होता है, उनकी 'रति' यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें जीवके अरुचि उत्पन्न होती है उनकी 'अरति' यह संज्ञा है। सोच करनेको शोक कहते हैं। अथवा जो विपाद उत्पन्न करता है, उसे शोक कहते हैं। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे जीवके शोक उत्पन्न होता है उनकी 'शोक' यह संज्ञा है। भीतिको भय कहते हैं। उदयमें आये हुए जिन कर्म-स्कन्धोंके द्वारा जीवके भय उत्पन्न होता है उनकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'भय'

१ यस्योदयार्थान्नाभावानास्कन्दति स पुवेद । स. सि., त. रा. वा. ८, ९. पुरुगुणमोगे सेदे करोदि लोयम्मि पुरुगुण कम्म । पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वणिणओ पुरिसो ॥ गो जी. २७२.

२ यदुदयान्नापुसकान् भावानुपन्नजति स नपुसकवेद । स. सि त ; रा वा ८, ९. णेवित्थी णेव पुम णउसओ उहयल्लिगवदिरिचो । इट्ठावगिसमाणगवेदणगरुओ कलुसचित्तो ॥ गो. जी. २७४.

३ यस्योदयाद्वास्याविर्मावस्तद्वास्यम् । स. सि., त. रा. वा. ८, ९.

४ यदुदयाद्विषयादिप्चैत्सुक्य सा रति. । स. सि., त. रा. वा. ८, ९.

५ अरतिस्तद्विपरीता । स. सि , त. रा. वा. ८, ९.

६ यद्विपाकाच्छोचन स शोकः । स. सि ; त. रा. वा. ८, ९.

७ यदुदयादुद्वेगस्तदभयम् । स. सि., त. रा. वा. ८, ९.



कञ्जुवयारादो । जुगुप्सनं जुगुप्सा । जेसिं कम्माणमुदएण दुगुंछा उप्पज्जदि तेसिं दुगुंछा इदि सण्णा<sup>१</sup> । एदेसिं कम्माणमत्थित्तं कुदो णव्वदे ? पच्चक्खेणुवलंभमाण-  
अण्णाणादंसणादिकज्जण्णहाणुववत्तीदो ।

**आउगस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ<sup>२</sup> ॥ २५ ॥**

एदं दव्वट्टियणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादो । कधमेदम्हादो सव्वत्थावगई ?  
एदमाधारभूदं काऊण एदस्स सयलत्थपदुप्पादयआइरियादो<sup>३</sup> । पज्जवट्टियणयजणाणु-  
ग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

**णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदिं ॥ २६ ॥**

जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण जीवस्स उद्धगमणसहावस्स णेरइयभवम्मि अवट्टाणं  
होदि तेसिं णिरयाउवमिदि सण्णा<sup>४</sup> । जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण तिरिक्खभवस्स अवट्टाणं

यह संज्ञा है । ग्लानि होनेको जुगुप्सा कहते हैं । जिन कर्मोंके उदयसे ग्लानि उत्पन्न  
होती है उनकी 'जुगुप्सा' यह संज्ञा है ।

शंका—इन कर्मोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान—प्रत्यक्षके द्वारा पाये जानेवाले अज्ञान, अदर्शन आदि कार्योंकी  
उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे उक्त कर्मोंका अस्तित्व जाना  
जाता है ।

**आयुकर्मकी चार प्रकृतियां हैं ॥ २५ ॥**

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोंका संग्रह  
करनेवाला है ।

शंका—इस सूत्रसे सम्पूर्ण अर्थोंका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान—इस सूत्रको आधारभूत करके आगमानुकूल सभी अर्थोंके प्रतिपादन  
करनेवाले आचार्यसे सम्पूर्ण अर्थोंका ज्ञान प्राप्त होता है ।

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंका अनुग्रह करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

**नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयुकर्मकी चार प्रकृतियां  
हैं ॥ २६ ॥**

जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे ऊर्ध्वगमन स्वभाववाले जीवका नारक-भवमें अवस्थान  
होता है, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'नरकायु' यह संज्ञा है । जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे तिर्यच-

१ यद्दुदयादात्मदोषसवरणमन्यदोषस्याधारण सा छुगुप्सा । स. सि, त. रा. वा. ८, ९

२ त. सू ८, ५ ३ प्रतिष्ठु 'सयलत्थपदुप्पादयआइरियादो' इति पाठः । ४ त. सू ८, १०.

५ यद्वावाभावयोर्जीवितमरण तदायुः । ××× नरकेषु तीव्रशीतोष्णवेदनेषु यन्निमित्त दीर्घजीवन  
तन्नारकायुः । त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, १०.

होदि तेसिं तिरिक्खाउअमिदि सण्णा<sup>१</sup> । एवं मणुस-देवाउआणं पि वत्तव्वं<sup>२</sup> । जधा घड-पड-थंभादीणं पज्जायाणमवट्ठाणं वइससियमेवं णिरयभवादिपज्जायाणं पि वइससिए अवट्ठाणे जादे को दोसो चे ण, अकारणे अवट्ठाणे संते णियमविरोहादो । देव-णेरइयाणं जहणमवट्ठाणं दसवाससहस्साणि, उक्कस्सभवावट्ठाणं तेत्तीसं सागरोवमाणि । तिरिक्ख-मणुसाणं जहणमंतोमुहुत्तं, उक्कस्सं तिण्णि पलिदोवमाणि, एसो णियमो ण जुज्जदे, योग्गालाणं व अणियमेण अवट्ठाणं होज्ज । कथं पुग्गालाणमणियमेण अवट्ठाणं ? एग-वे-तिण्णि समयाइं काळण उक्कस्सेण मेरुपव्वदादिसु अणादि-अपज्जवसिदसरूवेण संट्ठाणा-वट्ठाणुवलंभा । तम्हा भवावट्ठाणेण सहेउएण होदव्वं, अण्णहा सरीरंतरं गयाणं पि णिरयगदीए उदयप्पसंगादो ।

णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाइं<sup>३</sup> ॥ २७ ॥

एदस्स संगहणयसुत्तस्स अत्थो जाणिय वत्तव्वो ।

भवमें जीवका अवस्थान होता है उन कर्म-स्कन्धोंकी 'तिर्यगायु' यह संज्ञा है । इसी प्रकार मनुष्यायु और देवायुका भी स्वरूप कहना चाहिये ।

शंका—जिस प्रकार घट, पट और स्तम्भ आदिक पर्यायोंका अवस्थान वैज्ञानिक (स्वाभाविक) होता है, उसी प्रकार नरक-भव आदि पर्यायोंके भी वैज्ञानिक अवस्थान होनेपर क्या दोष है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अकारण अवस्थान माननेपर नियममें विरोध आता है । अर्थात्, देव और नारकोंका जघन्य अवस्थान दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट भव-सम्बन्धी अवस्थान तेतीस सागरोपम है, तिर्यच और मनुष्योंका जघन्य अवस्थान अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अवस्थान तीन पत्योपम है, यह नियम नहीं घटित होता है । और इस नियमके अभावमें पुद्गलोंके समान अनियमसे अवस्थान प्राप्त होगा ।

शंका—पुद्गलोंका अनियमसे अवस्थान कैसे है ?

समाधान—पुद्गलोंका एक, दो, तीन समयोंको आदि करके उत्कर्षतः मेरुपर्वत आदिमें अनादि-अनन्तस्वरूपसे एक ही आकारका अवस्थान पाया जाता है ।

इसलिये भव-सम्बन्धी अवस्थानको सहेतुक होना चाहिये, अन्यथा अन्य शरीरको गये हुए भी जीवोंके नरकगतिके उदयका प्रसंग प्राप्त होगा ।

नाम कर्मकी व्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ॥ २७ ॥

इस संग्रहनयाश्रित सूत्रका अर्थ जान करके कहना चाहिये ।

१ भुत्पिप्रासाशीतोष्णादिकृतोपद्रवप्रचुरेषु तिर्यक्षु यस्योदयाद्दमन तच्चैर्यग्योन । त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, १०.

२ शारीरमानससुखदु खभूविष्टेषु मनुष्येषु जन्मोदयात् मनुष्यायुषः । शारीरमानससुखप्रायेषु देवेषु जन्मोदयात् देवायुषः । त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, ९.

३ त. सू. ८, ५.

गदिणामं जादिणामं सरीरणामं सरीरबंधणणामं सरीरसंघाद-  
णामं सरीरसंघणणामं सरीरअंगोवंगणामं सरीरसंघडणणामं वण्ण-  
णामं गंधणामं रसणामं फासणामं आणुपुब्बीणामं अगुरुअलहुवणामं  
उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोवणामं  
विहायगदिणामं तसणामं थावरणामं वादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं  
अपज्जत्तणामं पत्तेयसरीरणामं साधारणसरीरणामं थिरणामं अथिर-  
णामं सुहणामं असुहणामं सुभगणामं दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सर-  
णामं आदेज्जणामं अणादेज्जणामं जसकित्तिणामं अजसकित्तिणामं  
णिमिणणामं तित्थयरणामं चेदि' ॥ २८ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे- गतिर्भवः संसार इत्यर्थः । यदि गतिनामकर्म  
न स्यात् अगतिर्जीवः स्यात् । जम्हि जीवभावे आउकम्मादो लद्धावट्टाणे संते सरीरादियाइं  
कम्माइमुदयं गच्छंति सो भावो जस्स पोग्गलक्खंधस्स मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तस्स  
कम्मभावस्स उदयादो होदि तस्स कम्मक्खंधस्स गति त्ति सण्णा' ।

गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीरबंधननाम, शरीरसंघातनाम, शरीर-  
संस्थाननाम, शरीर-अंगोपांगनाम, शरीरसंहनननाम, वर्णनाम, गंधनाम, रसनाम,  
स्पर्शनाम, आनुपूर्वीनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, उच्छ्वासनाम,  
आतापनाम, उद्योतनाम, विहायोगतिनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, वादरनाम, सूक्ष्मनाम,  
पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम,  
शुभनाम, अशुभनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, आदेयनाम,  
अनादेयनाम, यशःकीर्तिनाम, अयशःकीर्तिनाम, निर्माणनाम और तीर्थकरनाम, ये  
नामकर्मकी ब्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ॥ २८ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— गति यह नाम भव अर्थात् संसारका है । यदि गति-  
नामकर्म न हो, तो जीव गतिरहित हो जाय । जिस जीव भावमें आयुर्कर्मसे अवस्थानके प्राप्त  
करनेपर शरीर आदि कर्म उदयको प्राप्त होते हैं वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणोंके  
द्वारा कर्मभावको प्राप्त जिस पुद्गल-स्कन्धके उदयसे उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी  
' गति ' यह संज्ञा है ।

१ त. सू. ८, ११.

२ यदुदयादात्मा भवान्तर गच्छति सा गतिः । । स. सि., त. रा. वा.; त. श्लो ८, ११.

जातिर्जीवानां सदृशपरिणामः' । यदि जातिनामकर्म न स्यात् मत्कुणा, मत्कुणैः, वृश्चिका वृश्चिकैः, पिपीलिकाः पिपीलिकाभिः, व्रीहयो व्रीहिभिः, शालयः शालिभिः समाना न जायेरन् । दृश्यते च सादृश्यम् । तदो जत्तो कम्मक्खंधादो जीवाणं भूओ सरिसत्तमुप्पज्जदे, सो कम्मक्खंधो कारणे कज्जुवयारादो जादि त्ति भण्णदे । जदि पारिणामिओ सरिसपरिणामो णत्थि तो सरिसपरिणामकज्जण्णहाणुववत्तीदो तक्कारण-कम्मस्स अत्थित्तं सिज्जेज्ज । किंतु गंगावालुवादिसु पारिणामिओ सरिसपरिणामो उवल्लभदे, तदो अणेयंतियादो सरिसपरिणामो अप्पणो कारणीभूदकम्मस्स अत्थित्तं ण साहेदि त्ति ? ण एस दोसो, गंगवालुआणं पुढविकाइयणामकम्मोदएण सरिसपरिणामत्तव्वुवगमादो । परमाणुसु सरिसपरिणामो पारिणामिओ उवल्लभदि, तदो हेऊ अणेयंतिओ त्ति ण सक्किज्जदे वोत्तुं, साहणदोसेसु अणेयंतियस्स अभावा । अण्णहाणु-ववत्तिविरहेण साहणस्स ओक्खत्तं जायदे, ण अण्णहा, अव्वत्थादो । ण च एत्थ अण्ण-हाणुववत्ती णत्थि, उवल्लभादो । किं च जदि जीवपडिग्गहिदपोग्गलक्खंधसरिसपरिणामो

(23150)

जीवोंके सदृश परिणामको जाति कहते हैं । यदि जातिनामकर्म न हो, तो खटमल खटमलोंके साथ, विच्छू विच्छुओंके साथ, चींटियां चींटियोंके साथ, धान्य धान्यके साथ और शालि शालिके साथ समान न होगी । किन्तु इन सबमें परस्पर सदृशता दिखाई देती है । इसलिये जिस कर्म-स्कन्धसे जीवोंके अत्यन्त सदृशता उत्पन्न होती है वह कर्म-स्कन्ध कारणमें कार्यके उपचारसे 'जाति' इस नामवाला कहलाता है ।

शंका—यदि पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं है, तो सदृश परिणामरूप कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिसे उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भले ही सिद्ध होवे । किन्तु गंगा नदीकी वालुका आदिमें पारिणामिक सदृश परिणाम पाया जाता है, इसलिये हेतुके अनैकान्तिक होनेसे सदृश परिणाम अपने कारणीभूत कर्मके अस्तित्वको नहीं सिद्ध करता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, गंगानदीकी वालुकाके पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयसे सदृश-परिणामता मानी गई है । परमाणुओंमें सदृश परिणाम स्वाभाविक पाया जाता है, इसलिये उपर्युक्त हेतु अनैकान्तिक है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि, हेतु सम्बन्धी दोषोंमें अनैकान्तिक नामके दोषका अभाव है । अन्यथानुपपत्तिके अभावसे साधनके अवक्षिप्तता प्राप्त होती है, अन्य प्रकारसे नहीं; क्योंकि, अन्य प्रकारसे माननेपर अव्यवस्था उत्पन्न होती है । यहां पर अन्यथानुपपत्ति न हो, यह बात नहीं है, क्योंकि, यहां वह पाई जाती है । दूसरी बात यह है, कि यदि जीवके

१ तासु नरकादिगतिव्यभिचारिणा सादृश्येनेकीकृतोऽर्थात्मा जाति । स सि ; त. रा. वा ।

पारिणामिओ वि अत्थि, तो हेऊ अणेयंतिओ होज्ज । ण च एवं, तहाणुवलंभा । जदि जीवाणं सरिसपरिणामो कम्मयत्तो ण होज्ज, तो चउरिंदिया हय-हत्थि-वय-वग्घ-छवच्छादि-संठाणा होज्ज, पंचिंदिया वि भमर-मक्कुण-सलहिंदगोव-खुल्लक्ख-रुक्खसंठाणाहोज्ज । ण चेवमणुवलंभा, पडिणियदसरिसपरिणामेसु अवड्ढिदरुक्खादीणमुवलंभा च । तदो ण पारिणामिओ जीवाणं सरिसपरिणामो त्ति सिद्धं ।

जस्स कम्मस्स उदएण आहारवग्गणाए पोग्गलक्खंधा तेजा-कम्मइयवग्गण-पोग्गलक्खंधा च सरीरजोग्गपरिणामेहि परिणदा संता जीवेण संबज्झंति तस्स कम्म-क्खंधस्स सरीरमिदि सण्णा' । जदि सरीरणाम कम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तस्स असरीरत्तं पसज्जदे । असरीरत्तादो अमुत्तस्स ण कम्माणि, विमुत्त-मुत्ताणं पोग्गलप्पाणं संबंधाभावादो । होदु चे ण, सव्वजीवाणं सिद्धसमाणत्तावत्तीदो संसाराभावप्पसंगा । सरीरदुमागयाणं पोग्गलक्खंधाणं जीवसंबद्धाणं जेहि पोग्गलेहि जीवसंबद्धेहि पत्तोदएहि

द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गल-स्कन्धोंका सदृश परिणाम पारिणामिक भी हो, तो हेतु अनैकान्तिक होवे? किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, उस प्रकारका अनुपलम्भ है । यदि जीवोंका सदृश परिणाम कर्मके आधीन न होवे, तो चतुरिन्द्रिय जीव घोड़ा, हाथी, भेड़िया, बाघ और छवल्ल आदिके आकारवाले हो जायेंगे । तथा पंचेन्द्रिय जीव भी भ्रमर, मत्कुण, शलभ, इन्द्रगोप, खुल्लक, अक्ष और वृक्ष आदिके आकारवाले हो जायेंगे । किन्तु इस प्रकार हैं नहीं, क्योंकि, इस प्रकारके वे पाये नहीं जाते, तथा प्रतिनियत सदृश परिणामोंमें अवस्थित वृक्ष आदि पाये जाते हैं । इसलिये जीवोंका सदृश परिणाम पारिणामिक नहीं है, यह सिद्ध हुआ ।

जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके पुद्गल-स्कन्ध तथा तैजस और कर्मणवर्गणाके पुद्गल-स्कन्ध शरीरयोग्य परिणामोंके द्वारा परिणत होते हुए जीवके साथ सम्बद्ध होते हैं उस कर्म-स्कन्धकी 'शरीर' यह संज्ञा है । यदि शरीरनामकर्म जीवके न हो, तो जीवके अशरीरताका प्रसंग आता है । शरीर-रहित होनेसे अमूर्त आत्माके कर्मोंका होना भी संभव नहीं है, क्योंकि, मूर्त पुद्गल और अमूर्त आत्माके सम्बन्ध होनेका अभाव है ।

शंका—अमूर्त आत्मा और मूर्त पुद्गल, इन दोनोंका यदि सम्बन्ध नहीं हो सकता, तो न होवे, क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वैसा माननेपर सभी संसारी जीवोंके सिद्धोंके समान होनेकी आपत्तिसे संसारके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा ।

शरीरके लिये आये हुए, जीव-सम्बद्ध पुद्गल-स्कन्धोंका जिन जीव-सम्बद्ध और

१ यदुदयादात्मनः शरीरनिर्वृत्तिस्तच्छरीरनाम । स सि , त. रा. वा , त श्लो वा ८, ११.

परोप्परं वंधो कीरइ तेसिं पोग्गलक्खंधाणं सरीरबंधणसण्णा<sup>१</sup>, कारणे कज्जुवयारादो, कत्तारणिहेसादो वा । जइ सरीरबंधणणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो वालुवाक्य-पुरिससरीरं व सरीरं होज्ज, परमाणुणमण्णोण्णे वंधाभावा । जेहि कम्मक्खंधेहि उदयं पत्तेहि वंधणणामकम्मोदएण वंधमागयाणं सरीरपोग्गलक्खंधाणं मट्टत्तं कीरदे तेसिं सरीरसंघादसण्णा<sup>२</sup> । जदि सरीरसंघादणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तिलमोअओ व्व अवुड्डुसरीरो जीवो होज्ज । ण चेवं, तहाणुवलंभा । जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण जाइ-कम्मोदयपरत्तेण सरीरस्स संठाणं कीरदे तं सरीरसंठाणं णाम<sup>३</sup> । सरीरसंठाणणामकम्माभावे जीवसरीरमसंठाणं होज्ज । होदु चे ण, संठाणाभावे सरीरस्साभावप्पसंगादो । ण च णिरुहेउअं सरीरसंठाणं, णिरुहेउअस्स संठाणस्स जाईसु णियमविरोहा । ण च

उदय प्राप्त पुद्गलोंके साथ परस्पर बंध किया जाता है उन पुद्गल स्कन्धोंकी 'शरीरबंधन' यह संघा कारणमें कार्यके उपचारसे, अथवा कर्तृ-निर्देशसे है । यदि शरीरबंधननामकर्म जीवके न हो, तो वालुका द्वारा बनाये गये पुरुष-शरीर (पुतला) के समान जीवका शरीर होगा. क्योंकि, परमाणुओंका परस्परमें बंध नहीं है । उदयको प्राप्त जिन कर्म-स्कन्धोंके द्वारा बंधननामकर्मके उदयसे बंधके लिये आये हुये शरीर-सम्बन्धी पुद्गल-स्कन्धोंका मृष्टत्व, अर्थात् छिद्र रहित संश्लेष, किया जाता है, उन पुद्गल-स्कन्धोंकी 'शरीरसंघात' यह संघा है । यदि शरीरसंघातनामकर्म जीवके न हो, तो तिलके मोदकके समान अपुष्ट शरीरवाला जीव हो जावे । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, तिलके मोदकके समान संश्लेष रहित परमाणुओंवाला शरीर पाया नहीं जाता । जातिनाम-कर्मके उदयसं परतन्त्र जिन कर्म स्कन्धोंके उदयसे शरीरका आकार बनता है वह शरीरसंस्थाननामकर्म है । शरीरसंस्थाननामकर्मके अभावमें जीवका शरीर आकृति-रहित हो जायगा ।

शंका — शरीरसंस्थाननामकर्मके अभाव माननेपर यदि जीवका शरीर आकृति-रहित होता है, तो होने दो ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संस्थानके अभाव माननेपर शरीरके अभावका प्रसंग आता है ।

और शरीरसंस्थान निर्हेतुक माना नहीं जा सकता, क्योंकि, द्वीन्द्रिय आदि जातियोंमें निर्हेतुक संस्थानके नियमका विरोध है । तथा जातियोंमें संस्थानका नियम

१ शरीरनामकर्मोदयवशाद्गुपाचाना पुद्गलानामन्योन्यप्रदेशसंश्लेषण यतो भवति तद्वन्धननाम । स. सि. , त. रा. वा.; त. श्लो वा ८, ११

२ यदुदयादौदारिकादिशरीराणां विवरविरहितान्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्संघातनाम । स. सि. ८, ११. अविवरभावेनैकत्वकरणं संघातनामकर्म । त. रा. वा., त. श्लो वा. ८, ११.

३ यदुदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिर्वृत्तिर्भवति तत्संस्थाननाम । स. सि. , त. रा. वा., त. श्लो. वा ८, ११.

णियमो असिद्धो, हय-हस्थि-हरिणेषु संठाणणियमुवलंभा । तदो सिद्धं जीवसरीरसंठाणं  
सहेउअमिदि । जस्स कम्मक्खंधस्सुदएण सरीरस्संगोवंगणिप्फत्ती होज्ज तस्स कम्म-  
क्खंधस्स सरीरंगोवंगं णाम' । एदस्स कम्मस्साभावे अडुंगाणमुवंगाणं च अभावो  
होज्ज । ण चेवं, तहाणुवलंभा । एत्थुवउज्जंती गाहा—

णलया वाइ अ तहा णियव पुट्ठी उरो य सीस च ।

अट्टेव दु अगाइ देहणाइ उवगाइ ॥ १० ॥

शिरसि ताप्रदुपांगानि मूर्द्ध-करोटि-मस्तक-ललाट-शंख-भ्रू-कर्ण-नासिका-नयनाक्षि-  
कूट-हनु-कपोल उत्तराधरोष्ठ-सृक्वणी-तालु-जिह्वादीनि । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे  
हड्ड-संधीण णिप्फत्ती होज्ज, तस्स कम्मस्स संघडणमिदि सण्णा' । एदस्स कम्मस्स  
अभावे सरीरमसंघडणं होज्ज देवसरीरं वा । होदु चे ण, तिरिक्ख मणुमसरीरेसु हड्ड-  
कलाउवलंभा ।

असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, घोड़ा, हाथी और हरिणोंमें संस्थानका नियम पाया जाता  
है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवके शरीरका संस्थान सहेतुक है ।

जिस कर्म-स्कंधके उदयसे शरीरके अंग और उपांगोंकी, निष्पत्ति होती है उस  
कर्म-स्कन्धका शरीरांगोपांग' यह नाम है । इस नामकर्मके नहीं माननेपर आठों अंगोंका  
और उपांगोंका अभाव हो जायगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, अंग और उपांगोंका  
अभाव पाया नहीं जाता है । इस विषयमें यह उपयोगी गाथा है—

शरीरमें दो पैर, दो हाथ, नितम्ब ( कमरके पीछेका भाग ), पीठ, हृदय और  
मस्तक, ये आठ अंग होते हैं । इनके सिवाय अन्य ( नाक, कान, आंख इत्यादि ) उपांग  
होते हैं ॥ १० ॥

शिरमें मूर्धा, कपाल, मस्तक, ललाट, शंख, भौंह, कान, नाक, आंख, अक्षिकूट, हनु,  
( टुट्टी ) कपोल, ऊपर और नीचेके ओष्ठ, सृक्वणी ( चाप ), तालु और जीभ आदि उपांग  
होते हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हड्डी और उसकी संधियों अर्थात् संयोग स्थानोंकी  
निष्पत्ति होती है, उस कर्मकी 'संहनन' यह संज्ञा है । इस कर्मके अभावमें शरीर  
देवोंके शरीरके समान संहनन-रहित हो जायगा ।

शंका—यदि संहननकर्मके अभावमें शरीर देव-शरीरके समान संहनन-रहित  
होता है, तो होने दो, क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्यके शरीरोंमें हाडोंका समूह  
पाया जाता है ।

१ यद्दुव्यादगोपांगानिविक्खत्तदगोपांगनाम । स. मि. त रा वा, त श्लो वा. ८. ११.

२ गो क २८ परंतु तत्र चतुर्थचरणे 'देहे सैसा उवंगाइ' इति पाठः ।

३ यस्योदयादस्थिवन्धनविशेषो भवति तत्सहनननाम । स. सि. त. रा वा. ३; त श्लो. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे वण्णणिप्फत्ती होदि, तस्स कम्मक्खंधस्स वण्णसण्णा<sup>१</sup> । एदस्स कम्मस्साभावे अणियदवण्णं सरीरं होज्ज । ण च एवं, भमर-कलयंठी-हंस-बलायादिसु सुणियदवण्णुवलंभा<sup>२</sup> । ण च णिरुहेउए णियमो होदि, विरोहादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जादिपडिणियदो गंधो उप्पज्जदि तस्स कम्मक्खंधस्स गंधसण्णा<sup>३</sup>, कारणे कज्जुवयारादो । जदि गंधणामकम्मं ण होज्ज, तो जीवसरीरगंधो अणियदो होज्ज । होदु चे ण, हत्थि-वग्घादिसु णियदगंधुवलंभादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जादिपडिणियदो तित्तादिरसो होज्ज तस्स कम्मक्खंधस्स रससण्णा<sup>४</sup> । एदस्स कम्मस्साभावे जीवसरीरे जाइपडिणियदरसो ण होज्ज । ण च एवं, णिवं-जत्रीरादिसु णियदरसस्सुवलंभादो । जस्स कम्मक्खंधस्स उदएण जीवसरीरे जाइपडिणियदो पासो उप्पज्जदि तस्स कम्मक्खंधस्स पाससण्णा<sup>५</sup>,

जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है, उस कर्म-स्कंधकी 'वर्ण' यह संज्ञा है । इस कर्मके अभावमें अनियत वर्णवाला शरीर हो जायगा । किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि, भौरा, कोइल, हंस और वगुला आदिमें सुनिश्चिन वर्ण पाये जाते हैं । परन्तु जो कार्य निहंतुक होता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि, निहंतुक कार्यमें नियमके माननेका विरोध है । जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जातिके प्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 'गन्ध' यह संज्ञा कारणमे कार्यके उपचारसे की गई है । यदि गन्धनामकर्म न हो, तो जीवके शरीरकी गन्ध अनियत हो जायगी ।

शंका — यदि गन्धनामकर्मके अभावमें जीवके शरीरकी गन्ध अनियत होती है, तो होने दो, क्या हानि है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि हाथी और बाघ आदिमें नियत गन्ध पाई जाती है ।

जिस कर्मस्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जातिके प्रति नियत तिक्त आदि रस उत्पन्न हो, उस कर्म-स्कन्धकी 'रस' यह संज्ञा है । इस कर्मके अभावमें जीवके शरीरमें जाति-प्रतिनियत रस नहीं होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, नीम, आम, और नीबु आदिमें नियत रस पाया जाता है । जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमें जाति-प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे 'स्पर्श'

१ यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्वर्णनाम । स. सि, त. रा. वा. ८, ११.

२ यदुदयप्रभवो गधस्तद्गन्धनाम । स. सि, त. रा. वा. ८, ११.

३ यन्निमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनाम । स. सि, त. रा. वा. ८, ११.

४ यस्योदयात्स्पर्शप्रादुर्भावस्तत्स्पर्शनाम । स. सि, त. रा. वा. ८, ११.



कारणे कञ्जुवयारादो । जदि पासणामकम्मं ण होज्ज तो जीवसरीरमणियदपासं होज्ज । ण च एवं, सपुण्फफलकमलणालादिसु णियदफासुवलंभादो । पुञ्चुत्तरसरीराणमंतरे एग-दो तिणिण समए वट्टमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसाणं विसिद्धो संठाण-विसेसो होदि, तस्स आणुपुञ्चि त्ति सण्णा' । संठाणणामकम्मादो संठाणं होदि त्ति आणुपुञ्चिपरियप्पणा णिरत्थिया चे ण, तस्स सरीरगाहिदपढमसमयादो उवरि उदय-मागच्छमाणस्स विग्गहकाले उदयाभावा' । जदि आणुपुञ्चिकम्मं ण होज्ज तो विग्गहकाले अणियदसंठाणो जीवो होज्ज । ण च एवं, जादिपडिणियदसंठाणस्स तत्थुवलंभादो । पुञ्च-सरीरं छड्डिय सरीरंतरमघेत्तूण द्विदजीवस्स इच्छिदगदिगमणं कुदो होदि ? आणुपुञ्चीदो । विहायगदीदो किण्ण होदि ? ण, तस्स तिण्हं सरीराणमुदएण विणा उदयाभावा ।

यह संज्ञा है । यदि स्पर्शनामकर्म न हो, तो जीवका शरीर अनियत स्पर्शवाला होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, कमलके स्वपुण्य, फल और कमल-नाल आदिमें नियत स्पर्श पाया जाता है । पूर्व और उत्तर शरीरोंके अन्तरालवर्ती एक, दो और तीन समयमें वर्तमान जीवके जिस कर्मके उदयसे जीव-प्रदेशोका विशिष्ट आकार-विशेष होता है, उस कर्मकी 'आनुपूर्वी' यह संज्ञा है ।

शंका — संस्थाननामकर्मसे आकार-विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए आनुपूर्वीकी परिकल्पना निरर्थक है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, शरीर-ग्रहण करनेके प्रथम समयसे ऊपर उदयमें आनेवाले उस संस्थाननामकर्मका विग्रहगतिके कालमें उदयका अभाव पाया जाता है ।

यदि आनुपूर्वी नामकर्म न हो, तो विग्रहगतिके कालमें जीव अनियत संस्थान-वाला हो जायगा, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, जाति-प्रतिनियत संस्थान विग्रह-कालमें पाया जाता है ।

शंका — पूर्व शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित जीवका इच्छित गतिमें गमन किस कर्मसे होता है ?

समाधान — आनुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन होता है ।

शंका — विहायोगतिनामकर्मसे इच्छित गतिमें गमन क्यों नहीं होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, विहायोगतिनामकर्मका औदारिकादि तीनों शरीरोंके उदयके विना उदय नहीं होता है ।

१ पूर्वशरीराकारविनाशो यस्योदयाद्भवति तदानुपूर्व्यनाम । स. सि , त रा वा , त. श्लो. वा. ८, ११.

२ ननु च तन्निर्माणनामकर्मसाध्य फल नानुपूर्व्यनामोदयकृत ? नैप दोषः, पूर्वयुरुच्छेदसमकाल एव पूर्वशरीरनिवृत्तौ निर्माणनामोदयो निवर्तते । तस्मिन्निवृत्तेऽष्टत्रिधकर्म तैजसकर्मणशरीरसत्रधिन आत्मन. पूर्वशरीर-सस्थानाविनाशकारणमातुपूर्व्यनामोदयमुपैति । तस्य कालो विग्रहगतौ जघन्येनैरुः समयः, उत्कर्षेण त्रयः समयाः । ऋणगतौ तु पूर्वशरीराकारविनाशे सति उत्तरशरीरयोग्यपुद्गलग्रहणाभिर्माणनामकर्मोदयव्यापार । त. रा. वा. ८, ११.

आणुपुव्वी संठाणम्हि वावदा क्खं गमणहेऊ होदि त्ति चे ण, तिस्से दोसु वि क्खजेसु वावारे विरोहाभावा । अच्चत्तसरीरस्स जीवस्स विग्गहर्गए उज्जुगर्गए वा जं गमणं तं क्खस्स फलं ? ण, तस्स पुव्वखेत्तपरिच्चायाभावेण गमणाभावा । जीवपदेसाणं जो पसरो सो ण णिकारणो, तस्स आउअसंतफलत्तादो । वण्ण-गंध-रस-फासक्खमाणं वण्ण-गंध-रस-पासा सकारणा णिकारणा वा । पढमपक्खे अणवत्था । विदियपक्खे सेसणोकम्मवण्ण-गंध-रस-फासा वि णिकारणा होतु, विसेसाभावा । एत्थ परिहारो उच्चदे— ण पढमे पक्खे उत्तदोसो, अणव्वुवगमादो । ण विदियपक्खदोसो वि, कालदव्वं व दुस्सहावत्तादो एदेसिमुभयत्थ वावारविरोहाभावा ।

शंका—आकार-विशेषको बनाये रखनेमें व्यापार करनेवाली आनुपूर्वी इच्छित गतिमें गमनका कारण कैसे होती है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोनों भी कार्योंके व्यापारमें विरोधका अभाव है । अर्थात् विग्रहगतिमें आकार-विशेषको बनाये रखना और इच्छित-गतिमें गमन कराना, ये दोनों ही आनुपूर्वी नामकर्मके कार्य हैं ।

शंका—पूर्व शरीरको न छोड़ते हुए जीवके विग्रहगतिमें, अथवा ऋजुगतिमें जो गमन होता है, वह किस कर्मका फल है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पूर्वशरीरको नहीं छोड़नेवाले उस जीवके पूर्व क्षेत्रके परित्यागके अभावसे गमनका अभाव है । पूर्व शरीरको नहीं छोड़नेपर भी जीव-प्रदेशोंका जो प्रसार होता है वह निष्कारण नहीं है, क्योंकि, वह आगामी भवसम्बन्धी आयुकर्मके सत्त्वका फल है ।

शंका—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श नामकर्मोंके वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श सकारण होते हैं, या निष्कारण । प्रथम पक्षमें अनवस्था दोष आता है । द्वितीय पक्षके माननेपर शेष नोकर्मोंके वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी निष्कारण होना चाहिए, क्योंकि, दोनोंमें कोई भेद नहीं है ?

समाधान—यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं—प्रथम पक्षमें कहा गया अनवस्था दोष तो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, वैसा माना नहीं गया है । न द्वितीय पक्षमें दिया गया दोष भी प्राप्त होता है, क्योंकि, कालद्रव्यके समान द्विस्वभावी होनेसे इन वर्णादिकके उभयत्र व्यापार करनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार कालद्रव्य अपने आपके परिवर्तन और अन्य द्रव्योंके परिवर्तनका कारण होता है, उसी प्रकार वर्णादिक नामकर्म भी अपने वर्णादिकके तथा अपनेसे भिन्न परपुद्गलोंके वर्णादिकके कारण होते हैं । इसीलिए इनको कालद्रव्यके समान द्विस्वभावी कहा है ।

अणंताणंतेहि पोग्गलेहि आऊरियस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खंधेहिंतो अगुरुअलहुअत्तं होदि, तेसिमगुरुअलहुअं ति सण्णा', कारणे कज्जुवयारादो । जदि अगुरुअलहुवकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो जीवो लोहगोलओ व्व गरुअओ, अकत्तूलं व हलुओ वा होज्ज । ण च एवं, अणुवलंभादो । अगुरुवलहुअत्तं णाम जीवस्स साहावियमत्थि चे ण, संसारावत्थाए कम्मपरतंतम्मि तस्साभावा । ण च सहावविणासे जीवस्स विणासो, लक्खणविणासे लक्खविणासस्स णाइयत्तादो । ण च णाण-दंसणे मुच्चा जीवस्स अगुरु-लहुअत्तं लक्खणं, तस्स आयासादीसु वि उवलंभा । किंच ण एत्थ जीवस्स अगुरुलहुत्तं कम्मेण कीरइ, किंतु जीवम्हि भरिओ जो पोग्गलक्खंधो, सो जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुओ हलुवो वा ति णावडइ तमगुरुवलहुअं । तेण ण एत्थ जीवविसय-अगुरुलहुवत्तस्स गहणं ।

अनन्तानन्त पुद्गलोंसे भरपूर जीवके जिन कर्म-स्कंधोंके द्वारा अगुरुलघुपना होता है, उन पुद्गल-स्कंधोंकी 'अगुरुलघु' यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे की गई है । यदि जीवके अगुरुलघुकर्म न हो, तो या तो जीव लोहेके गोलेके समान भारी हो जायगा, अथवा आकके तूल (रई) समान हलका हो जायगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है ।

शंका—अगुरुलघुत्व तो जीवका स्वाभाविक गुण है, ( फिर उसे यहां कर्म-प्रकृतियोंमें क्यों गिनाया ) ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संसार अवस्थामें कर्म-परतंत्र जीवमें उस स्वाभाविक अगुरुलघु गुणका अभाव है । यदि कहा जाय कि स्वभावका विनाश माननेपर जीवका विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि, लक्षणके विनाश होनेपर लक्ष्यका विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी यहां यह बात नहीं है, अर्थात् अगुरुलघुनामकर्मके विनाश हो जाने पर भी जीवका विनाश नहीं होता है, क्योंकि, ज्ञान और दर्शनको छोड़कर अगुरु-लघुत्व जीवका लक्षण नहीं है, चूंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता है । दूसरी बात यह है कि यहां जीवका अगुरुलघुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है, किन्तु जीवमें भरा हुआ जो पुद्गल-स्कंध है, वह जिस कर्मके उदयसे जीवके भारी या हलका नहीं होता है, वह अगुरुलघु यहां विवक्षित है । अतएव यहां पर जीव-विषयक अगुरुलघुत्वका ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

१ यस्योदयादयःपिण्डवद्-गुरुत्वाभावात् पतति, न चार्कतूलवत्त्वद्दूर्ध्वं गच्छति तदगुरुलघुनाम ।  
स. सि.; त. रा. वा. ८, १२.

उपेत्य घात उपघातः आत्मघात इत्यर्थः<sup>१</sup> । जं कम्मं जीवपीडाहेउअवयवे कुणादि, जीवपीडाहेदुदव्वाणि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि<sup>२</sup> तं उव-घादं गाम । के जीवपीडाकार्यवयवा इति चेन्महाशृङ्ग-लम्बस्तन-तुंदोदरादयः । जदि उवघादणामकम्मं जीवस्स ण होज्ज, तो सरीरादो वाद-पित्त-सेंभदूसिदादो जीवस्स पीडा ण होज्ज । ण च एवं, अणुवलंभादो । जीवस्स दुक्खुप्पायणे असादा-वेदणीयस्स वावारो चे, होदु तस्स तत्थ वावारो, किंतु उवघादकम्मं पि तस्स सहकारि-कारणं होदि, तदुदयणिमित्तपोग्गलदव्वसंपादणादो । परेषां घातः परघातः । जस्स कम्मस्स उदएण परघादहेदू सरीरे पोग्गला णिप्फज्जंति तं कम्मं परघादं गाम<sup>३</sup> । तं जहा— सप्पदाढासुं विसं, विच्छियपुंछे परदुःखहेउपोग्गलोवचओ, सीह-वग्घ-च्छवलादिसु णह-दंता, सिंगिवच्छणाहीधत्तूरादओ च परघादुप्पायया ।

स्वयं प्राप्त होनेवाले घातको उपघात अर्थात् आत्मघात कहते हैं । जो कर्म अवयवोंको जीवकी पीड़ाका कारण बना देता है, अथवा विष, खड्ग, पाश आदि जीव-पीड़ाके कारणस्वरूप द्रव्योंको जीवके लिए ढोता है, अर्थात् लाकर संयुक्त करता है, वह उपघात नामकर्म कहलाता है ।

शंका—जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव कौन कौन हैं ?

समाधान—महाशृंग ( वारह सिंगाके समान बड़े सींग ), लम्बे स्तन, विशाल तोंदवाला पेट आदि जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव हैं ।

यदि उपघात नामकर्म जीवके न हो, तो वात, पित्त और कफसे दूषित शरीरसे जीवके पीड़ा नहीं होना चाहिए । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है ।

शंका—जीवके दुःख उत्पन्न करनेमें तो असाता-वेदनीयकर्मका व्यापार होता है, ( फिर यहां उपघातकर्मको जीव-पीड़ाका कारण कैसे बताया जा रहा है ) ?

समाधान—जीवके दुःख उत्पन्न करनेमें असातावेदनीयकर्मका व्यापार रहा आवे, किन्तु उपघातकर्म भी उस असातावेदनीयका सहकारी कारण होता है, क्योंकि, उसके उदयके निमित्तसे दुःखकर पुद्गल द्रव्यका सम्पादन ( समागम ) होता है ।

पर जीवोंके घातको परघात कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें परको घात करनेके कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं, वह परघात नामकर्म कहलाता है । जैसे सांपकी दाढ़ोंमें विष, विच्छूकी पूंछमें पर-दुःखके कारणभूत पुद्गलोंका संचय, सिंह, व्याघ्र और छवल्ल ( शवल-चीता ) आदिमें ( तीक्ष्ण ) नख और दन्त, तथा सिंगी, वत्स्यनाभि और धत्तूरा आदि विपैले वृक्ष परको दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं ।

१ यस्योदयात्स्वयकृतोद्धन्वनमरुत्प्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम । स सि., त. रा. वा. ; त. श्लो. वा. ८, ११. २ प्रतिष्ठु ' दोएदि ' इति पाठ ।

३ यन्निमित्तः परशस्त्रादेर्व्याघातस्तत्परघातनाम । स सि., त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, ११.

४ प्रतिष्ठु ' दादासु ' इति पाठः ।

उच्छ्वासनमुच्छ्वासः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो उस्सास-णिस्सासकज्जु-  
प्पायणक्खमो होदि तस्स कम्मस्स उस्सासो त्ति सण्णा<sup>१</sup>, कारणे कज्जुवयारादो ।  
जदि उस्सासणामकम्मं ण होज्ज, तो जीवो अणुस्सासो होज्ज । ण च एवं, उस्सास-  
विरहिदजीवाणुवलभा । आतपनमातपः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे आदओ  
होज्ज, तस्स कम्मस्स आदओ त्ति सण्णा<sup>१</sup> । जदि आदवणामकम्मं ण होज्ज, तो  
सूरमंडले पुढविकाइयसरीरे आदवाभावो होज्ज । ण च एवं, तहाणुवलंभा । को आदवो  
णाम ? सोण्णः प्रकाशः आतपः । एवं संते तेउक्काइयम्मि वि आदावस्स उदओ पावदि  
त्ति चे ण, तत्थतणउण्हपभाए तेउक्काइयणामकम्मोदएणुप्पणाए सयलपहाविणाभावि-  
उण्हत्ताभावेण साधम्माभावादो । उद्योतनमुद्योतः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे  
उज्जोओ उप्पज्जदि तं कम्मं उज्जोवं णाम<sup>२</sup> । जदि उज्जोवणामकम्मं ण होज्ज, तो  
चंद-णक्खत्त-तारा-खज्जोतादिसु सरीराणमुज्जोवो ण होज्ज । ण च एवमणुवलंभा ।

सांस लेनेको उच्छ्वास कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव उच्छ्वास और निःश्वास-  
रूप कार्यके उत्पादनमें समर्थ होता है, उस कर्मकी 'उच्छ्वास' यह संज्ञा कारणमें कार्यके  
उपचारसे है। यदि उच्छ्वास नामकर्म न हो, तो जीव श्वास रहित हो जाय। किन्तु ऐसा  
है नहीं, क्योंकि उच्छ्वाससे रहित जीव पाये नहीं जाते। ग्वूय तपनेको आतप कहते हैं।  
जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरमें आताप होना है, उस कर्मकी 'आतप' यह संज्ञा  
है। यदि आतपनामकर्म न हो, तो पृथिवीकायिक जीवोंके शरीररूप सूर्य-मंडलमें  
आतापका अभाव हो जाय। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता।

शंका—आतप नाम किसका है ?

समाधान—उष्णता-सहित प्रकाशको आतप कहते हैं।

शंका—इस प्रकार 'आतप' शब्दका अर्थ करनेपर तेजस्कायिक जीवमें भी  
आतप कर्मका उदय प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तेजस्कायिक नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई उस  
अग्निकी उष्णप्रभामें सकल प्रभाओंकी अविनाभावी उष्णताका अभाव होनेसे उसका  
आतपके साथ समानताका अभाव है।

उद्योतन अर्थात् चमकनेको उद्योत कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरमें  
उद्योत उत्पन्न होता है वह उद्योत नामकर्म है। यदि उद्योत नामकर्म न हो, तो चन्द्र  
नक्षत्र, तारा और खद्योत ( जुगुनू नामक कीड़ा ) आदिमें शरीरोंके उद्योत ( प्रकाश ) न  
होवेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता।

१ यद्धेतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । स सि , त रा वा , त श्लो वा ८, २२

२ यदुदयागन्निर्वृत्तमातपन तदातपनाम । तदादिले वर्तने स. मि त रा. वा , त श्लो. वा ८, ११.

३ यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतनाम । तच्चन्द्रखद्योतादिषु वर्तते । स सि . त. रा. वा त. श्लो वा. ८, १२

विहाय आकाशमित्यर्थः । विहायसि गतिः विहायोगतिः' । जेसिं कम्मक्खंधाण-मुदएण जीवस्स आगासे गमणं होदि तेसिं विहायगदि त्ति सण्णा । तिरिक्ख-मणुसाणं भूमीए गमणं कस्स कम्मस्स उदएण ? विहायगदिणामस्स । कुदो ? विहत्थिमेत्तप्पायजीवपदेसेहि भूमिमोद्धहिय सयलजीवपएसाणमायासे गमणुवलंभा । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं तसत्तं होदि, तस्स कम्मस्स तसेत्ति सण्णा, कारणे कज्जुवयारादो । जदि तसणामकम्मं ण होज्ज, तो बीइंदियादीणमभावो' होज्ज । ण च एवं, तेसिमुवलंभा । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो थावरत्तं पडिवज्जदि तस्स कम्मस्स थावरसण्णा' । जदि थावरणामकम्मं ण होज्ज, तो थावरजीवाणमभावो होज्ज । ण च एवं, तेसिमुवलंभा । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो वादरेसु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स वादरमिदि सण्णा' । जदि वादरणाम-कम्मं ण होज्ज, तो वादराणमभावो होज्ज । ण च एवं, पडिहयसररिजीवाणं पि उवलंभादो ।

विहायस् नाम आकाशका है । आकाशमें गमनको विहायोगति कहते हैं । जिन कर्मस्कन्धोंके उदयसे जीवका आकाशमें गमन होता है, उनकी 'विहायोगति' यह संज्ञा है ।

शंका—तिर्यच और मनुष्योंका भूमिपर गमन किस कर्मसे उदयसे होता है ?

समाधान—विहायोगति नामकर्मके उदयसे, क्योंकि, विहस्तिमात्र (वारह अंगुलप्रमाण) पांचवाले जीव-प्रदेशोंके द्वारा भूमिको व्याप्त करके जीवके समस्त प्रदेशोंका आकाशमें गमन पाया जाता है ।

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके त्रसपना होता है, उस कर्मकी 'त्रस' यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे है । यदि त्रसनामकर्म न हो, तो डीन्द्रिय आदि जीवोंका अभाव हो जायगा । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, डीन्द्रिय आदि जीवोंका सद्भाव पाया जाता है । जिस कर्मके उदयसे जीव स्थावरपनेको प्राप्त होता है, उस कर्मकी 'स्थावर' यह संज्ञा है । यदि स्थावर नामकर्म न हो, तो स्थावर जीवोंका अभाव हो जायगा । किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थावर जीवोंका सद्भाव पाया जाता है । जिस कर्मके उदयसे जीव वादरकायवालोंमें उत्पन्न होता है, उस कर्मकी 'वादर' यह संज्ञा है । यदि वादरनामकर्म न हो, तो वादर जीवोंका अभाव हो जायगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिघाती शरीरवाले जीवोंकी भी उपलब्धि होती है ।

१ विहाय आकाशम् । तत्र गतिनिर्वर्तक तद्विहायोगतिनाम । स सि., त रा वा ; त. श्लो वा ८, ११.

२ यदुदयाद् द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत्रसनाम । स सि, त रा वा., त श्लो वा. ८, ११.

३ प्रतिषु 'बीइंदियाणमभावो' इति पाठ. ।

४ र्यन्निमित्त एकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावस्तत्स्थावरनाम । स सि, त. रा. वा., त श्लो वा. ८, ११.

५ अन्यवाधाकरशरीरकारण वादरनाम । स सि., त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण जीवो सुहुमत्तं पडिवज्जदि तस्स कम्मस्स सुहुम-  
मिदि सण्णा<sup>१</sup> । जदि सुहुमणामकम्मं ण होज्ज, तो सुहुमजीवाणमभावो होज्ज ण  
च एवं, सप्पडिवक्खाभावे वादराणं पि अभावप्पसंगादो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो  
पज्जत्तो होदि तस्स कम्मस्स पज्जत्तेत्ति सण्णा<sup>२</sup> । जदि पज्जत्तणामकम्मं ण होज्ज,  
तो सव्वे जीवा अपज्जत्ता चेव होज्ज । ण च एवं, पज्जत्ताणं पि उवलंभा । जस्स  
कम्मस्स उदएण जीवो पज्जत्तीओ समाणेदुं ण सकदि तस्स कम्मस्स अपज्जत्तणाम  
सण्णा<sup>३</sup> । जदि अपज्जत्तणामकम्मं ण होज्ज, तो सव्वे जीवा पज्जत्ता चेव होज्ज । ण  
च एवं, पडिवक्खाभावे अप्पिदस्स वि अभावप्पसंगा । जस्स कम्मस्स उदएण जीवो  
पत्तेयसरीरो होदि, तस्स कम्मस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णा<sup>४</sup> । जदि पत्तेयसरीरणामकम्मं  
ण होज्ज, तो एककम्भिह सरीरे एगजीवस्सेव उवलंभो ण होज्ज । ण च एवं, णिव्वाह-  
मुवलंभा ।

जिस कर्मके उदयसे जीव सूक्ष्मनाको प्राप्त होता है, उस कर्मकी 'सूक्ष्म' यह  
संज्ञा है । यदि सूक्ष्मनामकर्म न हो, तो सूक्ष्म जीवोंका अभाव हो जाय । किन्तु ऐसा है  
नहीं, क्योंकि, अपने प्रतिपक्षीके अभावमें वादरकायिक जीवोंके भी अभावका प्रसंग  
आता है । जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होता है, उस कर्मकी 'पर्याप्त' यह  
संज्ञा है । यदि पर्याप्तनामकर्म न हो, तो सभी जीव अपर्याप्त ही हो जावेंगे । किन्तु  
ऐसा है नहीं, क्योंकि, पर्याप्तक जीवोंका भी सद्भाव पाया जाता है । जिस कर्मके  
उदयसे जीव पर्याप्तियोंको समाप्त करनेके लिए समर्थ नहीं होता है, उस कर्मकी  
'अपर्याप्तनाम' यह संज्ञा है । यदि अपर्याप्तनामकर्म न हो, तो सभी पर्याप्तक ही होवेंगे ।  
किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षितके भी अभावका प्रसंग  
आता है । जिस कर्मके उदयसे जीव प्रत्येकशरीरी होता है, उस कर्मकी 'प्रत्येकशरीर'  
यह संज्ञा है । यदि प्रत्येकशरीरनामकर्म न हो, तो एक शरीरमें एक जीवका ही उपलम्भ  
न होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रत्येकशरीरी जीवोंका सद्भाव बाधा-रहित  
पाया जाता है ।

१ सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तक सूक्ष्मनाम । स. सि., त रा वा, त. श्लो. वा. ८, ११.

२ यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिर्वृत्ति. तत्पर्याप्तिनाम । स सि त, रा वा, त श्लो वा ८, ११.

३ षड्विधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिनाम । स सि, त रा. वा., त. श्लो. वा ८, ११.

४ शरीरनामकर्मोदयानिर्वर्त्तमान शरीरमेकात्मोपभोगकारण यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनाम । स सि ;  
त. रा. वा., त. श्लो. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण जीवो साधारणसरीरो होज्ज, तस्स कम्मस्स साधारण-सरीरमिदि सण्णा<sup>१</sup> । जदि साहारणणामकम्मं ण होज्ज, तो सब्बे जीवा पत्तेयसरीरा चव होज्ज । ण च एवं, पडिवक्खाभावे अप्पिदस्स वि अभावप्पसंगा । जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर-मेद-मज्जट्ठि-मांस-सुक्काणं तिथरत्तमविणासो अगलणं होज्ज तं थिर-णामं<sup>२</sup> । जदि थिरणामकम्मं ण होज्ज, तो एदेसिं गलणमेव होज्ज, थिरत्ताभावा । ण च एवं, हाणि-वड्डीहि विणा अवट्ठाणदंसणादो । जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर-मांस-मेद-मज्जट्ठि-सुक्काणं परिणामो होदि तमथिरणामं<sup>३</sup> । अत्रोपयोगी श्लोकः—

रसाद्रक्तं ततो मास मांसान्मेदः प्रवर्त्तते ।

मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जः शुक्रं ततः प्रजा ॥ ११ ॥

पंचदशाक्षिनिमेषा काष्ठा । त्रिंशत्काष्ठा कला । विंशतिकलो मुहूर्तः । कलाया दशमभागश्च त्रिंशन्मुहूर्तं च भवत्यहोरात्रम् । पंचदश अहोरात्राणि पक्षः । पंचवीसकलासयाइं

जिस कर्मके उदयसे जीव साधारणशरीरी होता है उस कर्मकी 'साधारणशरीर' यह संज्ञा है । यदि साधारणनामकर्म न हो, तो सभी जीव प्रत्येकशरीरी ही हो जावेंगे । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षित जीवके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । जिस कर्मके उदयसे रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, मांस और शुक्र, इन सात धातुओंकी स्थिरता अर्थात् अविनाश व अगलन हो, वह स्थिरनामकर्म है । यदि स्थिरनामकर्म न हो, तो इन धातुओंका स्थिरताके अभावसे गलना ही होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, हानि और वृद्धिके विना इन धातुओंका अवस्थान देखा जाता है । जिस कर्मके उदयसे रस रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओंका परिणमन होता है, वह अस्थिरनामकर्म है । इस विषयमे यह उपयोगी श्लोक है—

रससे रक्त बनता है, रक्तसे मांस उत्पन्न होता है, मांससे मेदा पैदा होती है, मेदासे हड्डी बनती है, हड्डीसे मज्जा पैदा होती है, मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और शुक्रसे प्रजा ( सन्तान ) उत्पन्न होती है ॥ ११ ॥

पन्द्रह नयन-निमेषोकी एक काष्ठा होती है । तीस काष्ठाकी एक कला होती है । बीस कलाका एक मुहूर्त होता है । तीस मुहूर्त और कलाके दशवें भाग कालप्रमाण एक अहोरात्र ( दिन-रात ) होता है । पन्द्रह अहोरात्रोंका एक पक्ष होता है । पच्चीस सौ

१ ब्रह्मनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीर यतो भवति तत्साधारणशरीरनाम । स सि., त रा. वा त. श्लो वा. ८, ११.

२ स्थिरभावस्य निर्वर्तक स्थिरनाम । स सि., त. श्लो वा. यदुदयाद् दुष्करोपवासादितपस्करणेऽपि अगोपांगानां स्थिरत्वं जायते तत्स्थिरनाम । त रा. वा ८, ११.

३ तद्विपरीतमस्थिरनाम । स. सि., त श्लो वा यदुदयादीषडुपवासादिकरणाद् स्वल्पशीतोष्णादि-सम्बन्धान् अंगोपांगानि कृषीभवन्ति तदस्थिरनाम । त. रा वा ८, ११.



चउरसीदिकलाओ च तिहि-सत्तभागेहि परिहीणणवकड्डाओ च रसो रससरूवेण अच्छिय रुहिरं होदि । तं हि तत्तिर्यं चैव कालं तत्थच्छिय मांससरूवेण परिणमइ । एवं सेसधादूणं पि वत्तव्वं । एवं मासेण रसो सुक्करूवेण परिणमइ । एवं जस्स कम्मस्स उदएण धादूणं क्रमेण परिणामो होदि तमथिरमिदि उत्तं होदि । एदस्साभावे क्रमणियमो ण होज्ज । ण च एवं, अणवत्थादो । सत्तधाउहेउकम्माणि वत्तव्वाणि ? ण, तेसिं सरीरणामकम्मादो उप्पत्तीए । सत्तधाउविरहिद्विग्गहगदीए वि थिराथिराणमुदय-दंसणादो णेदासिं तत्थ वावारो त्ति णासंकणिज्जं, सजोगिकेवलिपरघादस्सेव तत्थ अव्वत्तोदएण अवट्टाणादो । जस्स कम्मस्स उदएण अंगोवंगणामकम्मोदयजणिदअंगाण-मुवंगणं च सुहत्तं होदि तं सुहं णाम' । अंगोवंगणामसुहत्तणिव्वत्तयमसुहं णाम' ।

चौरासी कलाप्रमाण, तथा तीन बटे सात भागोंसे परिहीन नौ काष्ठाप्रमाण ( २५,८४ क. ८६ का. ) काल तक रस रसस्वरूपसे रहकर रुधिररूप परिणत होता है । वह रुधिर भी उतने ही काल तक रुधिररूपसे रहकर मांसस्वरूपसे परिणत होता है । इसी प्रकार शेष धातुओंका भी परिणमन-काल कहना चाहिए । इस तरह एक मासके द्वारा रस शुक्ररूपसे परिणत होता है । इस प्रकार जिस कर्मके उदयसे धातुओंका क्रमसे परिणमन होता है, वह 'अस्थिर' नामकर्म कहा गया है । इस अस्थिरनामकर्मके अभावमें धातुओंके क्रमशः परिवर्तनका नियम न रहेगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा मानने-पर अनवस्था प्राप्त होती है ।

शंका — सातों धातुओंके कारणभूत पृथक् पृथक् कर्म कहना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उन सातों धातुओंकी शरीरनामकर्मसे उत्पत्ति होती है ।

शंका — सप्त धातुओंसे रहित विग्रहगतिमें भी स्थिर और अस्थिर प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है, इसलिए इनका वहांपर व्यापार नहीं मानना चाहिए ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सयोगिकेवली भगवान्में परघात प्रकृतिके समान विग्रहगतिमें उन प्रकृतियोंका अव्यक्त उदयरूपसे अवस्थान रहता है ।

जिस कर्मके उदयसे आंगोपांगनामकर्मोदयजनित अंगों और उपांगोंके शुभपना ( रमणीयत्व ) होता है, वह शुभनामकर्म है । अंग और उपांगोंके अशुभताका उत्पन्न

१ यदुदयाद्रमणीयत्व तच्छुभनाम । स सि., त रा वा , त श्लो. वा ९, ११

२ तद्विपरीतमशुभनाम । स सि., त श्लो. वा द्रष्टु श्रोतुश्चारमणीयकर अशुभनाम । त रा वा ८, ११.

त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिव्वत्तयं सुभगं णामं । तेसिं चैव दूहवभावणिव्वत्तयं दूहवं णामं ।  
एइंदियादिसु अच्चत्तचेहेसु कथं सुहव-दूहवभावा णज्जंते ? ण, तत्थ तेसिमच्चत्ताणमागमेण  
अत्थित्तसिद्धीदो । सुस्सरो णाम महुरो णाओ । जस्सोदएण जीवाणं महुरसरो होदि तं  
कम्मं सुस्सरं णामं । अमहुरो सरो दुस्सरो, जहा गद्दहुइँ-सियालादीणं । जस्स कम्मस्स  
उदएण जीवे दुस्सरो होदि तं कम्मं दुस्सरं णामं । आदेयता ग्रहणीयता बहुमान्यता  
इत्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स आदेयत्तमुप्पज्जदि तं कम्ममादेयं णामं ।  
तच्चिव्वरीयभावणिव्वत्तयकम्ममणादेयं णामं । जसो गुणो, तस्स उब्भावणं कित्ती ।

करनेवाला अशुभनामकर्म है । स्त्री और पुरुषोंके सौभाग्यको उत्पन्न करनेवाला सुभग-  
नामकर्म है । उन स्त्री-पुरुषोंके ही दुर्भगभाव अर्थात् दौर्भाग्यको उत्पन्न करनेवाला  
दुर्भगनामकर्म है ।

शंका—अव्यक्त चेष्टावाले एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें सुभगभाव और दुर्भगभाव  
कैसे जाने जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय आदिमें अव्यक्तरूपसे विद्यमान उन  
भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है ।

सुस्वर नाम मधुर नाद ( शब्द ) का है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंका मधुर  
स्वर होता है वह सुस्वर नामकर्म कहलाता है । अमधुर स्वरको दुःस्वर कहते हैं ।  
जैसे—गधा, ऊंट और सियाल आदि जीवोंका अमधुर स्वर होता है । जिस कर्मके  
उदयसे जीवके बुरा स्वर उत्पन्न होता है वह दुःस्वर नामकर्म कहलाता है । आदेयता,  
ग्रहणीयता और बहुमान्यता, ये तीनों शब्द एक अर्थवाले हैं । जिस कर्मके उदयसे  
जीवके बहुमान्यता उत्पन्न होती है, वह आदेयनामकर्म कहलाता है । उससे अर्थात्  
बहुमान्यतासे विपरीत भाव ( अनादरणीयता ) को उत्पन्न करनेवाला अनादेयनामकर्म  
है । यश नाम गुणका है, उस गुणके उद्भावनको ( प्रकटीकरणको ) कीर्त्ति कहते हैं । जिस

१ यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनाम । स. सि. । विरूपाकृतिरपि सन् यदुदयात्परेषां प्रीतिहेतुर्भवति  
तच्छुभगनाम । त. रा. वा. ८, ११.

२ यदुदयाद्रूपादिगुणोपेतोऽप्यप्रीतिकरस्तद् दुर्भगनाम । स. सि. , त. रा. वा. , त. श्लो. वा. ८, ११.

३ यन्निमित्त मनोहृत्तरनिर्वर्तन तत्सुस्वरनाम । स. सि. , त. रा. वा. , त. श्लो. वा. ८, ११

४ प्रतिष्ठा ' गद्दहुइँ ' इति पाठ ।

५ तद्विपरीत दुःस्वरनाम । स. सि. , त. रा. वा. , त. श्लो. वा. ८, ११.

६ प्रमोषितशरीरकारणमादेयनाम । स. सि. , त. रा. वा. , त. श्लो. वा. ८, ११.

७ निष्प्रमशरीरकारणमनादेयनाम । स. सि. , त. रा. वा. , त. श्लो. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण संताणमसंताणं वा गुणाणमुच्चावणं लोणेहि कीरदि, तस्स कम्मस्स जसक्किच्चिसण्णा<sup>१</sup> । जस्स कम्मस्सोदएण संताणमसंताणं वा अवगुणाणं उच्चावणं जणेण कीरदे, तस्स कम्मस्स अजसक्किच्चिसण्णा<sup>२</sup> । नियतं मानं निमानं । तं दुविहं पमाणणिमिणं संठाणणिमिणमिदि । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं दो वि णिमिणाणि होंति, तस्स कम्मस्स णिमिणमिदि सण्णा<sup>३</sup> । जदि पमाणणिमिणणामकम्मं ण होज्ज, तो जंघा-वाहु-सिर-णासियादीणं वित्थारायामा लोयंतविसप्पिणो होज्ज । ण चेंवं, अणुवलंभा । तदो कालमस्सिदूण जाई च जीवाणं पमाणणिव्वत्तयं कम्मं पमाणणिमिणं णाम । जदि संठाणणिमिणकम्मं णाम ण होज्ज, तो अंगोवंग-पञ्चंगाणि संकर-वदियरसरूवेण<sup>४</sup> होज्ज । ण च एवं, अणुवलंभा । तदो कण्ण-णयण-णासियादीणं सजादिअणुरूवेण अप्पप्पणो द्वाणे जं णियामयं तं संठाणणिमिणमिदि ।

कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान गुणोंका उद्भावन लोगोंके द्वारा किया जाता है। उस कर्मकी 'यशःकीर्त्ति' यह संज्ञा है। जिस कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान अवगुणोंका उद्भावन लोक द्वारा किया जाता है, उस कर्मकी 'अयशःकीर्त्ति' यह संज्ञा है। नियत मानको निर्माण कहते हैं। वह दो प्रकारका है—प्रमाणनिर्माण और संस्थाननिर्माण। जिस कर्मके उदयसे जीवोंके दोनों ही प्रकारके निर्माण होते हैं, उस कर्मकी 'निर्माण' यह संज्ञा है। यदि प्रमाणनिर्माणनामकर्म न हो, तो जंघा, वाहु, शिर और नासिका आदिका विस्तार और आयाम लोकके अन्त तक फैलनेवाले हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, उस प्रकारसे पाया नहीं जाता है। इसलिए कालको और जातिको आश्रय करके जीवोंके प्रमाणको निर्माण करनेवाला प्रमाणनिर्माण नामकर्म है। यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो, तो अंग, उपांग और प्रत्यंग संकर और व्यतिकर-स्वरूप हो जावेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कान, आंख, नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरूप अपने अपने स्थानपर जो नियामक कर्म है, वह संस्थाननामकर्म कहलाता है।

विशेषार्थ—ऊपर जो संस्थाननिर्माण नामकर्मके अभावमें अंग-उपांगोंके संकर-व्यतिकर स्वरूप होनेका वर्णन किया है, उसका अभिप्राय यह है कि यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न माना जायगा, तो बाधक या नियामक कारणके अभावमें किसी एक अंगके स्थानपर सभी अंगोंके उत्पन्न होनेसे संकरदोष आ सकता है। तथा नियामक कारणके न रहनेसे नाकद्वारा आंखका कार्य और आंखद्वारा कानका कार्य भी होने लगेगा, इस-

१ पुण्यगुणस्यापनन्तारं यश्च कीर्त्तिनाम । स. सि ; त. रा वा ; त. श्लो. वा. ८, ११.

२ तत्प्रत्यनोक्तमयशःकीर्त्तिनाम । स. मि. ; त. रा. वा ; त. श्लो. वा. ८, ११.

३ यच्चिमित्तापरिनिष्पत्तिर्निर्माणम् । स. सि ; त. रा. वा. ; त. श्लो. ८, ११.

४ सर्वेषां युगपत्प्राप्तिः संकरः । परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । न्या. कु. च., पृ. २६० (उद्धृतम्)

जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स तिलोगपूजा होदि तं तित्थयरं णामं ।

जं तं गदिणामकम्मं तं चउव्विहं, णिरयगदिणामं तिरिक्ख-  
गदिणामं मणुसगदिणामं देवगदिणामं चेदि ॥ २९ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण णिरयभावो जीवाणं होदि, तं कम्मं णिरयगदि ति  
उच्चदि<sup>१</sup>, कारणे कज्जुवयारादो । एवं सेसगईणं पि वत्तव्वं<sup>२</sup> ।

जं तं जादिणामकम्मं तं पंचविहं, एइंदियजादिणामकम्मं  
वीइंदियजादिणामकम्मं तीइंदियजादिणामकम्मं चउरिंदियजादिणाम-  
कम्मं पंचिंदियजादिणामकम्मं चेदि ॥ ३० ॥

एइंदियाणमेइंदिएहि एइंदियभावेण जस्स कम्मस्स उदएण सरिसत्तं होदि तं  
कम्ममेइंदियजादिणामं । तं पि अणेयपयारं, अण्णहा जंबु-णिंव्व-जंबीर-कयम्भंभिलिया-

लिए इन्द्रियोंका परस्पर विषय गमन होनेसे व्यतिकर दोष भी प्राप्त होगा । अतएव  
दोनों दोषोंके परिहारके लिए संस्थाननिर्माण नामकर्मका मानना आवश्यक है ।

जिस कर्मके उदयसे जीवकी त्रिलोकमें पूजा होती है, वह तीर्थकर नामकर्म है ।

जो गतिनामकर्म है वह चार प्रकारका है— नरकगतिनामकर्म, तिर्यग्गति-  
नामकर्म, मनुष्यगतिनामकर्म और देवगतिनामकर्म ॥ २९ ॥

जिस कर्मके उदयसे नारकभाव जीवोंके होता है, वह कर्म कारणमें कार्यके  
उपचारसे 'नरकगति' इस नामसे कहलाता है । इसी प्रकार शेष गतियोंका भी अर्थ  
कहना चाहिए ।

जो जातिनामकर्म है वह पांच प्रकारका है— एकेन्द्रियजातिनामकर्म, द्वीन्द्रिय-  
जातिनामकर्म, त्रीन्द्रियजातिनामकर्म, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म और पंचेन्द्रियजाति-  
नामकर्म ॥ ३० ॥

जिस कर्मके उदयसे एकेन्द्रिय जीवोंकी एकेन्द्रिय जीवोंके साथ एकेन्द्रियभावसे  
सहशता होती है, वह एकेन्द्रियजातिनामकर्म कहलाता है । वह एकेन्द्रियजातिनाम-  
कर्म भी अनेक प्रकारका है । यदि ऐसा न माना जाय, तो जामुन, नीम, आम, निम्बू,

१ आर्हन्त्यकारण तीर्थकरत्वनाम । स. सि., त. रा. वा., त. खो. वा. ८, ११.

२ प्रतिष्ठु ' णिरयाभावो ' इति पाठः ।

३ यन्निमित्त आत्मनो नारको भावस्तन्नरकगतिनाम । स. सि., त. रा. वा., ८, ११.

४ एवं शेषेष्वपि योज्यम् । स. सि., त. रा. वा. ८, ११.

५ यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्धते तदेकेन्द्रियजातिनाम । स. सि., त. रा. वा. ९, ११.

६ अ-कप्रत्यो ' कयम्भंभिलया ' आप्रतौ ' कयम्भंभिलसियाविलया ' इति पाठ ।

शालि-वीहि-जव-गोहूमादिजादीणं भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं वीइंदियत्तणेण समाणत्तं होदि तं कम्मं वीइंदियणामं । तं पि अणेयपयारं, अण्णहा संख-माउवाहय-खुल्ल-वराडयारिद्ध- सुत्ति-गंडुवाला-कुक्खिक्खिमियादिजादीणं' भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं तीइंदियभावेण समाणत्तं होदि तं तीइंदियजादिणामकम्मं । तं च अणेयपयारं, अण्णहा कुंथु-मक्कुण-जूअ-विच्छिय-गोम्हिहदगोव-पिपीलियादिजादि-भेदाणुववत्तीदो' । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं चउरिंदियभावेण समाणत्तं होदि तं कम्मं चउरिंदियजादिणामं । तं च अणेयपयारं, अण्णहा भमर-महुवर-सलहय-पयंग-दंसमसय-मच्छियादिजादिभेदाणुववत्तीदो' । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं पंचिंदिय-जादिभावेण समाणत्तं होदि तं पंचिंदियजादिणामकम्मं । तं चाणेयपयारं, अण्णहा मणुस-देव-णेरइय-सीह-हय-हत्थि-वय-वग्घ-छवल्लादिजादिभेदाणुववत्तीदो ।

जं तं सरीरणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरणामं वेउ-वियसरीरणामं आहारसरीरणामं तेयासरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदि ॥ ३१ ॥

कदम्ब, इमली, शालि, धान्य, जौ, और गेहूं आदि जातियोंका भेद नहीं हो सकता है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी द्वीन्द्रियत्वकी अपेक्षा समानता होती है वह द्वीन्द्रियजातिनामकर्म कहलाता है । वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा शंख, मातृवाह, श्रुल्लक, वराटक ( कौडी ), अरिष्ठ, शुक्ति, ( सीप ), गंडोला और कुक्खि-क्खिमि ( पेटमें उत्पन्न होनेवाला कीड़ा ) आदि जातियोंका भेद नहीं बन सकता है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी त्रीन्द्रियभावकी अपेक्षा समानता होती है, वह त्रीन्द्रियजातिनामकर्म है । वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा, कुंथु, मक्कुण ( खटमल ) जूं, विच्छ, गोम्ही, इन्द्रगोप, और पिपीलिका ( चीटी ) आदि जातियोंका भेद हो नहीं सकता है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी चतुरिन्द्रियभावकी अपेक्षा समानता होती है वह चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म है । वह कर्म अनेक प्रकारका है, अन्यथा भ्रमर, मधुकर, शलभ, पतंग, दंश-मशक और मक्खी आदि जातियोंका भेद नहीं हो सकता है । जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी पंचेन्द्रियजातित्वके साथ समानता होती है, वह पंचेन्द्रियजातिनामकर्म है । वह कर्म अनेक प्रकारका है, अन्यथा, मनुष्य, देव, नारकी, सिंह, अञ्च, हस्ती, वृक, व्याघ्र और चीता आदि जातियोंका भेद बन नहीं सकता है ।

जो शरीरनामकर्म है वह पांच प्रकारका है— औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियिकशरीरनामकर्म, आहारकशरीरनामकर्म, तैजसशरीरनामकर्म और कर्मणशरीरनामकर्म ॥ ३१ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण आहारवग्गणाए पोग्गलक्खंधा जीवेणोगार्हदेसट्ठिदा रस-रुहिर-मांस-मेदट्ठि-मज्ज-सुक्कसहावओरालियसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स ओरालिय-सरीरमिदि सण्णा<sup>१</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण आहारवग्गणाए खंधा अणिमादिअट्ठगुणोव-लक्खियसुहासुहप्पयवेउच्चियसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स वेउच्चियसरीरमिदि सण्णा<sup>२</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण आहारवग्गणाए खंधा आहारसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स आहारसरीरमिदि सण्णा<sup>३</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण तेजइयवग्गणक्खंधा णिस्सरणा-णिस्सरण-पसत्थापसत्थप्पयतेयासरीरसरूवेण परिणमंति तं तेयासरीरं णामं, कारणे कज्जु-चयारादो । जस्स कम्मस्स उदओ कुंभंडफलस्स वेंटो व्व सच्चकम्मासयभूदो तस्स कम्मइयसरीरमिदि सण्णा<sup>४</sup> ।

जिस कर्मके उदयसे जीवके द्वारा अवगाह-देशमें स्थित आहारवर्गणाके पुद्गल-स्कन्ध रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा. और शुक्र स्वभाववाले औदारिक शरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, उस कर्मकी ' औदारिकशरीर ' यह संज्ञा है । जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके स्कन्ध अणिमा आदि गुणोंसे उपलक्षित शुभाशुभात्मक वैक्रियिकशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, उस कर्मकी ' वैक्रियिकशरीर ' यह संज्ञा है । जिस कर्मके उदयसे आहारवर्गणाके स्कन्ध आहारशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं उस कर्मकी ' आहारशरीर ' यह संज्ञा है । जिस कर्मके उदयसे तैजसवर्गणाके स्कन्ध निस्सरण-अनिस्सरणात्मक और प्रशस्त-अप्रशस्तात्मक तैजसशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, वह कारणमें कार्यके उपचारसे तैजसशरीरनामकर्म कहलाता है । जिस कर्मका उदय कूष्मांडफलके वेंटके सामान सर्व कर्मोंका आश्रयभूत हो, उस कर्मकी ' कार्मणशरीर ' यह संज्ञा है ।

१ प्रतिपु ' णोगाद ' इति पाठ. ।

२ उदार स्थूल, उदारे भवमौदारिकम् । उदार प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम् । स. सि, त. रा. वा ; त श्लो वा. २, ३६.

३ अष्टगुणेऽव्यययोगादेकानि क्राणुमहच्छरीरविविधकरण विक्रिया । सा प्रयोजनमस्येति वैक्रियिकम् । स. सि., त. रा. वा., त श्लो वा. २, ३६.

४ सूक्ष्मपदार्थनिर्ज्ञानार्थमसंयमपरिजिहीर्षया वा प्रमत्तसयतेनानिह्यते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् । स. सि, त रा. वा., त श्लो. वा. २, ३६.

५ यत्तेजोनिमित्त तेजसि वा भवं तत्तैजसम् । स. सि, त. रा. वा., त. श्लो. वा. २, ३६.

६ कर्मणा कार्यं कार्मणम् । स. सि, त. रा. वा ; त. श्लो. वा. २, ३६.

जं तं सरीरबंधणणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरबंधण-  
णामं वेउव्वियसरीरबंधणणामं आहारसरीरबंधणणामं तेजासरीरबंधण-  
णामं कम्मइयसरीरबंधणणामं चेदि ॥ ३२ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरपरमाणू अण्णोण्णेण बंधमागच्छंति तमोरा-  
लियसरीरबंधणं णाम । एवं सेससरीरबंधणणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जं तं सरीरसंघादणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद-  
णामं वेउव्वियसरीरसंघादणामं आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर-  
संघादणामं कम्मइयसरीरसंघादणामं चेदि ॥ ३३ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरक्खंधाणं सरीरभावमुवगयाणं बंधणणाम-  
कम्मोदएण एगबंधणबद्धाण मट्टत्तं होदि तमोरालियसरीरसंघादं णाम । एवं सेससरीर-  
संघादाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं छव्विहं, समचउरससरीरसंठाणणामं  
णगगोहपरिमंडलसरीरसंठाणणामं सादियसरीरसंठाणणामं खुज्जसरीर-  
संठाणणामं वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणामं चेदि ॥ ३४ ॥

जो शरीरबंधननामकर्म है वह पांच प्रकारका है— औदारिकशरीरबंधननामकर्म,  
वैक्रियिकशरीरबंधननामकर्म, आहारकशरीरबंधननामकर्म तैजसशरीरबंधननामकर्म और  
कार्मणशरीरबंधननामकर्म ॥ ३२ ॥

जिस कर्मके उदयसे औदारिकशरीरके परमाणु परस्पर बन्धको प्राप्त होते हैं,  
उसे औदारिकशरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं । इस प्रकार शेष शरीरसम्बन्धी बन्धनोंका  
भी अर्थ कहना चाहिए ।

जो शरीरसंघातनामकर्म है वह पांच प्रकारका है—औदारिकशरीरसंघातनाम-  
कर्म, वैक्रियिकशरीरसंघातनामकर्म, आहारकशरीरसंघातनामकर्म, तैजसशरीरसंघातनाम-  
कर्म और कार्मणशरीरसंघातनामकर्म ॥ ३३ ॥

शरीरभावको प्राप्त तथा बन्धननामकर्मके उदयसे एक बन्धन-बद्ध औदारिक  
शरीरके स्कन्धोंका जिस कर्मके उदयसे छिद्र-राहित्य होता है वह औदारिकशरीरसंघात  
नामकर्म है । इसी प्रकार शेष शरीर-संघातोंका भी अर्थ कहना चाहिए ।

जो शरीरसंस्थाननामकर्म है वह छह-प्रकारका है—समचतुरस्रशरीरसंस्थान-  
नामकर्म, न्यग्रोधपरिमंडलशरीरसंस्थाननामकर्म, स्वातिशरीरसंस्थाननामकर्म, कुब्ज-  
शरीरसंस्थाननामकर्म, वामनशरीरसंस्थाननामकर्म और हुंडशरीरसंस्थाननामकर्म ॥ ३४ ॥

समं चतुरस्रं समचतुरस्रं समविभक्तमित्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं समचउरस्ससंठाणं होदि तस्स कम्मस्स समचउरससंठाणमिदि सण्णा<sup>१</sup> । णग्गोहो वडरुक्खो, तस्स परिमंडलं व परिमंडलं जस्स सरीरस्स तण्णग्गोहपरिमंडलं । णग्गोहपरिमंडलमेव सरीरसंठाणं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणं आयतवृत्तमित्यर्थः । स्वातिर्वल्मीकः शाल्मलिर्वा, तस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य शरीरस्य तत्स्वातिशरीरसंस्थानम्<sup>२</sup>, अहो विसालं उवरि सण्णमिदि जं उच्चं होदि । कुब्जस्य शरीरं कुब्जशरीरम् । तस्य कुब्जशरीरस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तत्कुब्जशरीरसंस्थानम् । जस्स कम्मस्स उदएण साहाणं दीहत्तं मज्झस्स रहस्सत्तं च होदि तस्स खुब्जसरीरसंठाणमिदि सण्णा<sup>३</sup> । वामनस्य शरीरं वामनशरीरम् । वामनशरीरस्य संस्थानमिव संस्थानं यस्य तद्वामनशरीरसंस्थानम् ।

समान चतुरस्र अर्थात् सम-विभक्तको समचतुरस्र कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे जीवोंके समचतुरस्रसंस्थान होता है उस कर्मकी 'समचतुरस्रसंस्थान' यह संज्ञा है । न्यग्रोध वटवृक्षको कहते हैं, उसके परिमंडलके समान परिमंडल जिस शरीरका होता है उसे न्यग्रोधपरिमंडल कहते हैं । न्यग्रोध-परिमंडलरूप ही जो शरीरसंस्थान होता है, वह न्यग्रोधपरिमंडल अर्थात् आयत-वृत्त शरीरसंस्थाननामकर्म है । स्वाति नाम वल्मीक या शाल्मली वृक्षका है । उसके आकारके समान आकार जिस शरीरका है, वह स्वातिशरीरसंस्थान है । अर्थात् यह शरीर नाभिसे नीचे विशाल और ऊपर सूक्ष्म या हीन होता है । कुबड़े शरीरको कुब्ज-शरीर कहते हैं । उस कुब्जशरीरके संस्थानके समान संस्थान जिस शरीरका होता है, वह कुब्जशरीरसंस्थान है । जिस कर्मके उदयसे शाखाओंके दीर्घता और मध्य भागके न्हस्वता होती है, उसकी 'कुब्जशरीरसंस्थान' यह संज्ञा है । वौनेके शरीरको वामनशरीर कहते हैं । वामनशरीरके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, वह वामनशरीर-

१ तत्रोर्ध्वाधोमध्येषु समप्रविभागेन शरीरावयवसनिवेशव्यवस्थापन कुशलशिल्पिनिर्वर्तितसमस्थितिचक्रवत् अवस्थानं समचतुरस्रसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११

२ नामेरपरिष्ठाद् भ्रूयसो देहसनिवेशस्याथस्ताच्चाल्पीयसो जनक न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थाननाम न्यग्रोधा-कारणमताप्रापित्वादन्यर्थम् । त. रा. वा. ८, ११.

३ तद्विपरीतसनिवेशकर स्वातिसंस्थाननाम वल्मीकतुल्याकार । त. रा. वा. ८, ११ आदिरिहीत्सेधारख्यो नामेरधस्तनो देहभागो गृह्यते, ततः सह आदिना नामेरधस्तनभागेन यथोक्तप्रमाणलक्षणेन वर्तते इति सादि, विशेषणान्यथानुपपत्त्या विशिष्टार्थलामः । अपरे तु साचीति पठन्ति, तत्र साचीति समयविद शाल्मलीतरुमाक्षते, ततः साचीव यत्संस्थान तत्साचि, यथा शाल्मलीतरो स्क्रन्धकाण्डमतिपुष्ट उपरि च न तदरूपा महाविशालता तद्द्रवस्यापि संस्थानस्याच्चोभागः परिपूर्णो भवति, उपरिभागस्तु न तथेति भाव । कर्मप्रकृति पृ. ४.

४ पृष्ठप्रदेशमाविवहुपुद्गलप्रचयविशेषलक्षणस्य निर्वर्तक कुब्जकसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.

५ सर्वानोपागन्हस्त्रव्यवस्थाविशेषकारण वामनसंस्थाननाम । त. रा. वा. ८, ११.



जस्स कम्मस्स उदएण साहाणं जं रहस्सत्तं कायस्स दीहत्तं च होदि तं वामणसरीरसंठाणं होदि । विसमपासाणभरियदइओ व्व विस्सदो' विसमं हुंडं । हुंडस्स सरीरं हुंडसरीरं, तस्स संठाणमिव संठाणं जस्स तं हुंडसरीरसंठाणं णामं । जस्स कम्मस्स उदएण पुच्चत्त-पंचसंठाणेहिंतो त्तिरित्तमण्णसंठाणमुप्पज्जइ एकत्तीसभेदभिण्णं तं हुंडसंठाणसण्णिदं होदि त्ति णादब्बं ।

जं तं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं तिविहं ओरालियसरीरअंगो-  
वंगणामं वेजव्वियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि  
॥ ३५ ॥

संस्थान है। जिस कर्मके उदयसे शाखाओंके नहस्वता और शरीरके दीर्घता होती है, वह वामनशरीरसंस्थाननामकर्म है। विषम अर्थात् समानता-रहित अनेक आकारवाले पाषाणोंसे भरी हुई मशकके समान सर्व ओरसे विषम आकारको हुंड कहते हैं। हुंडके शरीरको हुंडशरीर कहते हैं। उसके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, उसका नाम हुंडशरीरसंस्थान है। जिस कर्मके उदयसे पूर्वोक्त पांच संस्थानोंसे व्यतिरिक्त, इकतीस भेद भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, वह शरीर हुंडसंस्थानसंज्ञावाला है, ऐसा जानना चाहिए।

विशेषार्थ—आगे स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकाके सूत्र ६८ की टीकामें धवलाकारने कहा है कि—“सव्वावयवेसु णियदसत्त्वपंचसंठाणेसु वे-तिण्णि-चटु-पंचसंठाणाणं संजोगेणं हुंडसंठाणमणेयभेदभिण्णमुप्पज्जदि” अर्थात् सर्व अवयवोंमें प्रथम पांच संस्थानोंका स्वरूप नियत होनेपर दो, तीन, चार व पांच संस्थानोंके संयोगसे हुंडसंस्थान अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है इस निर्देशके आधारसे हुंडसंस्थानको ध्रुव मानकर हुंडसंस्थानके द्विसंयोगी आदि भंग कुल मिलकर इकतीस उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

$$\text{द्विसंयोगी भंग } \frac{५}{१} = ५; \quad \text{त्रिसंयोगी भंग } \frac{५ \times ४}{१ \times २} = १०;$$

$$\text{चतुःसंयोगी भंग } \frac{५ \times ४ \times ३}{१ \times २ \times ३} = १०. \quad \text{पंचसंयोगी भंग } \frac{५ \times ४ \times ३ \times २}{१ \times २ \times ३ \times ४} = ५;$$

$$\text{छसंयोगी भंग } \frac{५ \times ४ \times ३ \times २ \times १}{१ \times २ \times ३ \times ४ \times ५} = १.$$

इस प्रकार हुंडसंस्थानके समस्त संयोगी भंग  $५+१०+१०+५+१=३१$  होते हैं।

जो शरीर-अगोपांगनामकर्म है वह तीन प्रकारका है—औदारिकशरीरअगोपांग-  
नामकर्म, वैक्रियिकशरीरअगोपांगनामकर्म और आहारकशरीर-अगोपांगनामकर्म ॥ ३५ ॥

१ आप्रतौ 'वस्स सव्व दो' इति पाठ । ज-क-प्रत्ययो. 'वस्सदो' इति पाठः ।

२ सर्वांगोपांगानां हुंडसंस्थितत्वात् हुंडसंस्थाननाम । त रा. वा. ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरस्स अंगोवंग-पच्चंगाणि उप्पज्जंति तं ओरालियसरीरअंगोवंगणामं । एवं सेसदोसरीरअंगोवंगणं पि अत्थो वत्तव्वो । तेजा-कम्मइय-सरीरअंगोवंगणि णत्थि, तेसिं कर-चरण-गीवादिअवयवाभावा ।

जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं छव्विहं, वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणणामं वज्जणारायणसरीरसंघडणणामं णारायणसरीरसंघडणणामं अद्धणारायणसरीरसंघडणणामं खीलियसरीरसंघडणणामं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणणामं चेदि ॥ ३६ ॥

संहननमस्थिसंचयः, ऋपभो वेष्टनम्, वज्रवदभेद्यत्वाद्ब्रह्मरूपमः । वज्रवन्नाराचः वज्रनाराचः, तौ द्वावपि यस्मिन् वज्रशरीरसंहनने तद्ब्रह्मरूपभवज्रनाराचशरीरसंहननम् । जस्स कम्मस्स उदएण वज्जहड्डाई वज्जवेट्ठेण वेट्ठियाई वज्जणाराएण खीलियाई च होंति तं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणमिदि उत्तं होदि' । एसो चेव हड्डुबंधो वज्जरिसह-वज्जिओ जस्स कम्मस्स उदएण होदि तं कम्मं वज्जणारायणसरीरसंघडणमिदि भण्णदे' ।

जिस कर्मके उदयसे औदारिकशरीरके अंग, उपांग और प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, वह औदारिकशरीर-अंगोपांगनामकर्म है । इसी प्रकार शेष दो अर्थात् वैक्रियिक और आहारक शरीरसम्बन्धी अंगोपांगोंका भी अर्थ कहना चाहिए । तैजस और कर्मणशरीरके अंगोपांग नहीं होते हैं, क्योंकि, उनके हाथ, पांव, गला आदि अवयवोंका अभाव है ।

जो शरीरसंहनन नामकर्म है वह छह प्रकारका है—वज्ररूपभवज्रनाराच-शरीरसंहनन नामकर्म, वज्रनाराचशरीरसंहनन नामकर्म, नाराचशरीरसंहनन नामकर्म, अर्ध-नाराचशरीरसंहनन नामकर्म, कीलकशरीरसंहनन नामकर्म और असंप्राप्तासृपाटिकाशरीर-संहनन नामकर्म ॥ ३६ ॥

हड्डियोंके संचयको संहनन कहते हैं । वेष्टनको ऋपभ कहते हैं । वज्रके समान अभेद्य होनेसे 'वज्ररूपभ' कहलाता है । वज्रके समान जो नाराच है वह वज्रनाराच कहलाता है । ये दोनों ही, अर्थात् वज्ररूपभ और वज्रनाराच, जिस वज्रशरीरसंहननमें होते हैं, वह वज्ररूपभवज्रनाराच शरीरसंहनन है । जिस कर्मके उदयसे वज्रमय हड्डियां वज्रमय वेष्टनसे वेष्टित और वज्रमय नाराचसे कीलित होती हैं, वह वज्ररूपभवज्र-नाराच शरीरसंहनन है, ऐसा अर्थ कहा गया है । यह उपर्युक्त अस्थिवन्ध ही जिस कर्मके उदयसे वज्ररूपभसे रहित होता है, वह कर्म 'वज्रनाराचशरीरसंहनन' इस

१ तत्र वज्रा ऋषभयारिभवि प्र येन मन्ये वलयवन्धन सनाराच सुमहत वज्रर्षमनाराचसहननम् । त रा. वा. ८, ३' XXX रिसहो पट्टो अ कीलिआ वज्ज । उमओ मकडवधो नाराय इमपुरालगे । क प्र १, ३९.

२ तदेव वलयवधनविरहितं वज्रनाराचसहनन । त रा वा ८, ११

जस्स कम्मस्स उदएण वज्जविसेसणरहिदणारायण-खीलियाओ हड्डसंधीओ हवंति तं णारायणसरीरसंघडणं णाम<sup>१</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण हड्डसंधीओ णाराएण अद्वविद्धाओ हवंति तं अद्वणारायणसरीरसंघडणं णाम<sup>२</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण अवज्जहड्डाईं खीलियाईं हवंति तं खीलियसरीरसंघडणं णाम<sup>३</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण अण्णोण्णमसंपत्ताईं सरि-सिवहड्डाईं व छिरावद्धाईं हड्डाईं हवंति तं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं णाम<sup>४</sup> ।

जं तं वण्णणामकम्मं तं पंचविहं, किण्हवण्णणामं णीलवण्ण-णामं रुहिरवण्णणामं हालिद्ववण्णणामं सुक्किलवण्णणामं चेदि<sup>५</sup> ॥३७॥

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं किण्हवण्णो उप्पज्जदि तं किण्हवण्णं णाम । एवं सेसवण्णाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जं तं गंधणामकम्मं तं दुविहं, सुरहिगंधं दुरहिगंधं चेव<sup>६</sup> ॥ ३८॥

नामसे कहा जाता है । जिस कर्मके उदयसे वज्र-विशेषणसे रहित नाराच-कीलें और हड्डियोंकी संधियां होती हैं वह नाराचशरीरसंहनन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे हाडोंकी सन्धियां नाराचसे आधी विधी हुई होती हैं, वह अर्धनाराचशरीरसंहनन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे वज्र-रहित हड्डियां और कीलें होती हैं वह कीलक-शरीरसंहनन नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे सरीरूप अर्थात् सर्पकी हड्डियोंके समान परस्परमें असंप्राप्त और शिरावद्ध हड्डियां होती हैं, वह असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहनन नामकर्म है ।

जो वर्णनामकर्म है वह पांच प्रकारका है— कृष्णवर्ण नामकर्म, नीलवर्ण नामकर्म, रुधिरवर्ण नामकर्म, हरिद्रवर्ण नामकर्म और शुक्लवर्ण नामकर्म ॥ ३७ ॥

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुट्टलोंका कृष्णवर्ण उत्पन्न होता है, वह कृष्णवर्णनामकर्म है । इसी प्रकार शेष वर्णनामकर्मोंका भी अर्थ कहना चाहिए ।

जो गन्धनामकर्म है वह दो प्रकारका है— सुरभिगन्ध और दुरभि-गन्ध ॥ ३८ ॥

१ तदेवोमय वज्राकारवधनव्यपेतमवलयवन्धन सनाराच नाराचसहनन । त रा वा. ८, ११.

२ तदेवैकपाश्वे सनाराच इतरत्रानाराचं अर्धनाराचसहनन । त रा वा. ८, ११.

३ तदुमयमते सकीलक कीलिकासहनन । त रा वा ८, ११

४ प्रतिष्ठु ' सरिसिवदणाइ ' इति पाठः ।

५ अतरसंप्राप्तपरस्परास्थिसधि वहि.सिरास्त्रायुमासघटित असंप्राप्तासृपाटिकासहनन । त. रा. वा. ८, ११.

६ तत्पचविध— शुक्लवर्णनाम कृष्णवर्णनाम नीलवर्णनाम रक्तवर्णनाम हरिद्रवर्णनाम ( हरिद्रवर्णनाम ) चेति । स. सि., त. रा. वा. ८, ११.

७ तदद्विविध सुरभिगन्धनाम असुरभिगन्धनाम । स. सि ; त. रा. वा ८, ११.

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला सुअंधा होंति तं सुरहिगंधं णाम । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला दुग्गंधा होंति तं दुरहिगंधं णाम ।

जं तं रसणामकम्मं तं पंचविहं, तित्तणामं कडुवणामं कसाय-  
णामं अंवणामं मधुरणामं चेदि' ॥ ३९ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला तित्तरसेण परिणमंति तं तित्तं णाम । एवं सेसरसाणमत्थो वत्तव्वो ।

जं तं पासणामकम्मं तं अट्टविहं, कक्खडणामं मउवणामं गुरुअ-  
णामं लहुअणामं णिद्धणामं लुक्खणामं सीदणामं उसुणणामं चेदि'  
॥ ४० ॥

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं कक्खडभावो होदि तं कक्खडं णाम ।  
एवं सेसफासाणं पि अत्थो वत्तव्वो ।

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल सुगन्धित होते हैं, वह सुरभिगन्ध नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल दुर्गन्धित होते हैं, वह दुरभिगन्ध नामकर्म है ।

जो रसनामकर्म है वह पांच प्रकारका है—तित्तनामकर्म, कटुकनामकर्म, कषायनामकर्म, आम्लनामकर्म और मधुरनामकर्म ॥ ३९ ॥

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गल तित्तरससे परिणत होते हैं, वह तित्तनामकर्म है । इसी प्रकार शेष रसनामकर्मोंका अर्थ कहना चाहिए ।

जो स्पर्शनामकर्म है वह आठ प्रकारका है—कर्कशनामकर्म, मृदुकनामकर्म, गुरुकनामकर्म लघुकनामकर्म, स्निग्धनामकर्म, रूक्षनामकर्म, शीतनामकर्म और उष्णनामकर्म ॥ ४० ॥

जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्गलोके कर्कशता होती है, वह कर्कशनामकर्म है । इसी प्रकार शेष स्पर्शनामकर्मोंका अर्थ कहना चाहिए ।

१ तत्पचविध- तित्तनाम कटुकनाम कषायनाम आम्लनाम मधुरनाम चेति । स. सि. ३ त. रा वा ८, ११.

२ तदष्टविध- कर्कशनाम मृदुनाम गुरुनाम लघुनाम स्निग्धनाम रूक्षनाम शीतनाम उष्णनाम चेति । स. सि. , त. रा वा. ८, ११.

जं तं आणुपुव्वीणामकम्मं तं चउव्विहं, णिरयगदिपाओग्गाणु-  
पुव्वीणामं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वीणामं मणुसगदिपाओग्गाणु-  
पुव्वीणामं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीणामं चेदि ॥ ४१ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण णिरयगइं गयस्स जीवस्स विग्गहगईए वट्टमाणयस्स  
णिरयगइपाओग्गसंठाणं होदि तं णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वीणामं । एवं सेसआणुपुव्वीणं  
पि अत्थो वत्तव्वो ।

अगुरुअलहुअणामं उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदाव-  
णामं उज्जोवणामं ॥ ४२ ॥

एदासिमेत्थ णिहेसो किमट्ठो ? णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपगडीओ त्ति  
णिहेसो पाधण्णपदत्थो त्ति जाणावणट्ठो । कुदो ? एदासिं पिंडपयडित्ताभावा ।

जं तं विहायगइणामकम्मं तं दुव्विहं, पसत्थविहायोगदी अप्पसत्थ-  
विहायोगदी चेदि ॥ ४३ ॥

जो आनुपूर्वी नामकर्म है वह चार प्रकारका है—नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी  
नामकर्म, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म और  
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म ॥ ४१ ॥

जिस कर्मके उदयसे नरकगतिको गये हुए और विग्रहगतिमे वर्तमान जीवके  
नरकगतिके योग्य संस्थान होता है, वह नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म है । इसी  
प्रकार शेष आनुपूर्वी नामकर्मोंका भी अर्थ कहना चाहिए ।

अगुरुलघु नामकर्म, उपघात नामकर्म, परघात नामकर्म, उच्छ्वास नामकर्म, आताप  
नामकर्म और उद्योत नामकर्म ॥ ४२ ॥

शंका — यहाँपर इन प्रकृतियोंका निर्देश किसलिए किया है ?

समाधान — ' नामकर्मकी व्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ' यह निर्देश प्राधान्यपदकी  
अपेक्षा है, इस बातके वतलानेके लिए यहाँपर उक्त प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है,  
क्योंकि, सूत्रमें वतलाई गई इन प्रकृतियोंके पिंडप्रकृतिताका अभाव है । अर्थात् ये प्रकृ-  
तियां भेद-रहित हैं ।

जो विहायोगति नामकर्म है वह दो प्रकारका है—प्रशस्तविहायोगति और  
अप्रशस्तविहायोगति ॥ ४३ ॥

१ यदा विज्ञानायुर्मनुष्यस्तिर्यग्वा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदैव नरकमव प्रत्यभिमुखस्य तस्य पूर्वशरीर-  
संस्थानानिवृत्तिकारणं विग्रहगतावुदेति तन्नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम । त रा वा ८, ११.

२ तद्विधेय-प्रशस्ताप्रशस्तभेदात् । स सि., त. श. वा. ८, ११

जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं सीह-कुंजर-वसहाणं व पसत्था गई होज्ज, तं पसत्थविहायगदी णाम' । जस्स कम्मस्स उदएण खरोट्ट-सियालाणं व अप्पसत्था गई होज्ज, सा अप्पसत्थविहायोगदी णाम' ।

तसणामं थावरणामं वादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं, एवं जाव णिमिण-तित्थयरणामं चेदि ॥ ४४ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुच्चं परूविदो । ण पुणरुत्तदोसो वि, एदाओ पिंडपगडीओ ण होंति त्ति जाणावणट्ठं पुणो परूवणादो ।

गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चैव णिच्चागोदं चैव' ॥ ४५ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण उच्चागोदं होदि तसुच्चागोदं' । गोत्रं कुलं वंशः संतान-

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके सिंह, कुंजर, और वृषभ ( बैल ) के समान प्रशस्त गति होवे, वह प्रशस्तविहायोगति नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे गर्दभ, ऊंट और सियालोंके समान अप्रशस्तगति होवे, वह अप्रशस्तविहायोगति नामकर्म है ।

त्रस नामकर्म, स्थावर नामकर्म, वादर नामकर्म, सूक्ष्म नामकर्म, पर्याप्त नामकर्म, इनको आदि लेकर निर्माण और तीर्थकर नामकर्म तक । अर्थात् अपर्याप्त नामकर्म, प्रत्येकशरीर नामकर्म, माधारणशरीर नामकर्म, स्थिर नामकर्म, अस्थिर नामकर्म, शुभ नामकर्म, अशुभ नामकर्म, सुभग नामकर्म, दुर्भग नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, दुःस्वर नामकर्म, आदेय नामकर्म, अनादेय नामकर्म, यशःकीर्ति नामकर्म, अयशःकीर्ति नामकर्म, निर्माण नामकर्म और तीर्थकर नामकर्म ॥ ४४ ॥

इस सूत्रका अर्थ पहले अर्थात् २८ वें सूत्रकी व्याख्यामे निरूपण किया जा चुका है । तथापि द्वारा यहां उक्त प्रकृतियोंके कहनेपर पुनरुक्तदोष नहीं आता है, क्योंकि, ये सूत्र पठित प्रकृतियां पिंडप्रकृतियां नहीं हैं, इस बातके बतलानेके लिए उनका पुनः प्ररूपण किया गया है ।

गोत्रकर्मकी दो प्रकृतियां हैं— उच्चगोत्र और नीचगोत्र ॥ ४५ ॥

जिस कर्मके उदयसे जीवोंके उच्चगोत्र होता है, वह उच्चगोत्रकर्म है । गोत्र, कुल,

१ ऋषभद्विरदादिप्रशस्तगतिकारण प्रशस्तविहायोगतिनाम । त रा वा ८, ११

२ उष्टखराचप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्तविहायोगतिनाम । त रा. वा. ८, ११.

३ उच्चैर्नचिञ्चै । त. सू. ८, १२.

४ यस्यादयाहोऋषुजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् । स सि, त रा वा, त श्लो. वा ८, १२.

मित्येकोऽर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाणं णीचगोदं होदि तं णीचगोदं णामं ।

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ॥ ४६ ॥

जस्स कम्मस्स उदएण देतस्स विग्घं होदि तं दाणंतराइयं । जस्स कम्मस्स उदएण लाहस्स विग्घं होदि तल्लाहंतराइयं । जस्स कम्मस्स उदएण भोगस्स विग्घं होदि तं भोगंतराइयं । सकृद् भुज्यत इति भोगः, ताम्बूलाशन-पानादिः<sup>३</sup> । जस्स कम्मस्स उदएण परिभोगस्स विग्घं होदि तं परिभोगंतराइयं । पुनः पुनः परिभुज्यत इति परिभोगः, स्त्रीवस्त्राभरणादिः । जस्स कम्मस्स उदएण वीरियस्स विग्घं होदि तं वीरियंतराइयं णाम । वीर्यं<sup>४</sup> बलं शुक्रमित्येकोऽर्थः ।

एव पयडिसमुक्कित्तण णाम पढमा चूलिया समत्ता ।

वंश और संतान, ये सब एकार्थवाचक नाम हैं । जिस कर्मके उदयसे जीवोंके नीचगोत्र होता है, उसे नीचगोत्रनामकर्म कहते हैं ।

अन्तरायकर्मकी पांच प्रकृतियां हैं— दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ४६ ॥

जिस कर्मके उदयसे दान देते हुए जीवके विघ्न होता है, वह दानान्तरायकर्म है । जिस कर्मके उदयसे लाभमें विघ्न होता है, वह लाभान्तरायकर्म है । जिस कर्मके उदयसे भोगमें विघ्न होता है, वह भोगान्तरायकर्म है । जो वस्तु एक बार भोगी जाती है वह भोग है, जैसे ताम्बूल, भोजन, पान आदि । जिस कर्मके उदयसे परिभोगमें विघ्न होता है, वह परिभोगान्तरायकर्म है । जो वस्तु पुनः पुनः भोगी जाती है वह परिभोग है, जैसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि । जिस कर्मके उदयसे वीर्यमें विघ्न होता है, वह वीर्यान्तरायकर्म है । वीर्य, बल, और शुक्र, ये सब एकार्थक नाम हैं ।

इस प्रकार प्रकृतिसमुत्कीर्तन नामकी प्रथम चूलिका समाप्त हुई ।

१ यदुदयाद् गहितेषु कुलेषु जन्म तच्चीचैर्गोत्रम् । स सि, त रा वा, त श्यो वा. ८, १२.

२ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् । त. सू ८, १३

३ भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य । उपभोगोऽशनवसनप्रभृति पचेन्द्रियो विषयः ॥ रत्नक. ३, ३७ भोग सेव्यः सकृदुपभोगस्तु पुन पुनः सगम्बरवत् ॥ सागार ५, १४

४ यदुदयाद्दातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि न लभते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुक्ते, उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपभुक्ते, उत्साहितुकामोऽपि नोत्सहते, त एते पंचान्तरायस्य भेदा । स. सि., त रा. वा ८, १३.

## विदिया चूलिया

एतो ट्ठाणसमुक्कित्तणं वण्णइस्सामो ॥ १ ॥

किं स्थानम् ? तिष्ठत्यस्यां संख्यायामस्मिन् वा अवस्थाविशेषे प्रकृतयः इति स्थानम् । ठाणं ठिदी अवट्ठाणमिदि एयट्ठो । समुक्कित्तणं वण्णणं परूवणमिदि उत्तं होदि । ट्ठाणस्स समुक्कित्तणा ट्ठाणसमुक्कित्तणा, तं वण्णइस्सामो कस्सामो त्ति उत्तं होदि । ट्ठाणसमुक्कित्तणा किमट्ठमागदा ? पुव्वं पयडिसमुक्कित्तणाए जाओ पयडीओ परूविदाओ तासिं वंधो किमक्कमेण होदि, किं कमेणेत्ति पुच्छिदे एवं होदि त्ति जाणावणट्ठं ट्ठाणसमुक्कित्तणा आगदा<sup>१</sup> ।

तं जहा ॥ २ ॥

सा ट्ठाणसमुक्कित्तणा कथं उच्चदि त्ति पुच्छिदे एवं उच्चदि त्ति जाणावैतो ताव ट्ठाणाणं चेव सरूवसंखाणं परूवणट्ठमुत्तरसुत्तं भणदि—

अव इससे आगे स्थानसमुत्कीर्तनका वर्णन करेंगे ॥ १ ॥

शंका — स्थान किसे कहते हैं ?

समाधान—जिस संख्यामें, अथवा जिस अवस्थाविशेषमें, प्रकृतियां ठहरती हैं, उसे 'स्थान' कहते हैं ।

स्थान, स्थिति और अवस्थान, ये तीनों एकार्थक हैं । समुत्कीर्तन, वर्णन और प्ररूपण, इनका अर्थ एक ही कहा गया है । स्थानकी समुत्कीर्तनाको स्थानसमुत्कीर्तना कहते हैं । उसका वर्णन अर्थात् व्याख्यान करेंगे, यह अर्थ कहा गया है ।

शंका—यह स्थानसमुत्कीर्तना नामकी चूलिका किसलिए आई है ?

समाधान—पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी चूलिकामें जिन प्रकृतियोंका प्ररूपण कर आए हैं, उन प्रकृतियोंका बन्ध क्या एक साथ होता है, अथवा क्रमसे होता है, ऐसा पूछने पर 'इस प्रकार होता है' यह बात बतलानेके लिए यह स्थानसमुत्कीर्तना नामकी चूलिका आई है ।

वह स्थानसमुत्कीर्तन किस प्रकार है ? ॥ २ ॥

वह स्थानसमुत्कीर्तना किस प्रकार कही जाती है, ऐसा पूछनेपर 'इस प्रकार कही जाती है' यह बतलाते हुए आचार्य पहले स्थानोंके ही स्वरूप-संख्यानका निरूपण करनेके लिए उत्तर-सूत्र कहते हैं—

१ किं स्थानम् ? एकस्य जीवस्यैकरिम्भु समये समवतीना समूह । गो. क. जी. प्र. ४५१.

२ तत्किमर्थमागत ? पूर्वं प्रकृतिसमुत्कीर्तने या प्रकृतय उक्तास्तासा बन्धः क्रमेणाक्रमेण वेति प्रश्ने एव स्यादिति ज्ञापयितुं । गो. क. जी. प्र. ४५१



तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा-  
दिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स  
वा ॥ ३ ॥

तं पयडिद्वानं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छादिद्विस्स  
वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा होदि, एदेहिंतो वदिरित्त-  
बंधगाणमभावा' । एत्थ पढमाए अत्थे छट्ठी दडुव्या, तेण मिच्छादिद्विद्वानमिदि संबंधे-  
द्वं । कधं तस्स द्वाणववएसो ? तिष्ठन्त्यस्मिन् बंधहेतुप्रकृतय इति स्थानगदस्य व्युत्पत्तेः ।  
संजदस्सेत्ति वुत्ते अट्ट वि संजदगुणद्वाणाणि वेत्तव्वाणि, संजदभावं पडि भेदाभावा ।  
णवमं गुणद्वानं ( ण ) वेत्तपदि, तस्स बंधगत्ताभावा ।

णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, आभिणिवोधिय-  
णाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओधिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणा-  
वरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ ४ ॥

वह स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-  
सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतसम्बन्धी है ॥ ३ ॥

वह स्थान अर्थात् प्रकृतिस्थान, मिथ्यादृष्टिके, अथवा सासादनसम्यग्दृष्टिके,  
अथवा सम्यग्मिथ्यादृष्टिके, अथवा असंयतसम्यग्दृष्टिके, अथवा संयतासंयतके, अथवा  
संयतके होता है; क्योंकि, इनसे अतिरिक्त अन्य बन्धकोंका अभाव है । यद्वा, अर्थात्  
मिथ्यादृष्टि आदि पदोंमें, प्रथमाके अर्थमें पट्टी विभक्ति जानना चाहिए, अतएव मिथ्या-  
दृष्टिस्थान, सासादनसम्यग्दृष्टिस्थान, इत्यादि प्रकारसे सम्बन्ध करना चाहिए ।

शंका—मिथ्यादृष्टि आदि बन्धकोंके 'स्थान' यह नाम कैसे हुआ ?

समाधान — 'बन्धकी कारणभूत प्रकृतियां जिस बन्धक जीवमें रहती हैं' इस  
प्रकार स्थान शब्दकी व्युत्पत्ति करनेसे मिथ्यादृष्टि आदि बन्धकोंके 'स्थान' यह नाम  
सार्थक हो जाता है ।

'संयतसम्बन्धी स्थान' ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयत आदि आठ ही संयत-गुण-  
स्थानोंको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, संयतभावकी अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है ।  
यहां नवमां, अर्थात् अयोगिकेवली गुणस्थान, नहीं ग्रहण किया गया है, क्योंकि, उसके  
बन्धकपनेका अभाव है ।

ज्ञानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां हैं—आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञाना-  
वरणीय, अत्राधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय ॥ ४ ॥

१ छट्टु सगविहमद्वविह कम्म वधति तिष्ठ य सवविह । छव्विहमेकद्वाने तिष्ठ एकमबंधगो एक्को ॥  
गो. क. ४५२.

पुणरुत्तादो ण वत्तव्वमिदं सुत्तं ? ण, सव्वेसिं जीवाणं सरिसणाणावरणीय-  
कम्मक्खओवसमाभावा' । जदि सव्वेहि जीवेहि गहिदत्थो टंकुक्किण्णक्खरं व ण  
विणस्सदि तो पुणरुत्तादोसो होज्ज । ण च एवं, जलालिहियंक्खरस्सेव गहिदत्थस्स केसु  
वि विणासुवलंभादो । तदो भट्टसंसकारसिस्ससंभालणहुं वत्तव्वमिदं सुत्तं ।

एदासिं पंचण्हं पयडीणं एक्कमिह चैव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ ५ ॥

एदासिं पुच्चुत्तपंचण्हं पगडीणं बंधमाणस्स जीवस्स एक्कमिह अवत्थाविसेसे  
पंचसंखुवलक्खिए द्वाणमवद्वाणं होदि । एवकारो किमद्वो ? एक्क-वे-तिण्णि-चत्तारि-  
संखुवलक्खियवत्थाए अवद्वाणपडिसेहद्वो ।

तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा-  
दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स  
वा ॥ ६ ॥

शंका—पहले प्रकृतिसमुत्कीर्तनचूलिकामें कहे जानेके कारण पुनरुक्त होनेसे  
यह सूत्र पुनः नहीं कहना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सभी जीवोंके सदृश ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमका  
अभाव है । यदि सर्व जीवोंके द्वारा ग्रहण किया गया, अर्थात् जाना गया, अर्थ टांकीसे  
उखेरे गये अक्षरके समान नहीं विनष्ट होता, तो पुनरुक्त दोष होता । किन्तु ऐसा है  
नहीं, क्योंकि, जलमें लिखे गये अक्षरके समान ग्रहण किये गये अर्थका कितने ही  
जीवोंमें विनाश पाया जाता है । इसलिए भ्रष्ट संस्कारवाले शिष्यके स्मरण करानेके लिए  
यह सूत्र कहना चाहिए ।

इन पांचों प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५ ॥

इन, अर्थात् पूर्व सूत्रमें कही गई पांचो प्रकृतियोंके बांधनेवाले जीवका 'पांच'  
इस संख्यासे उपलक्षित एक ही अवस्था-विशेषमें स्थान अर्थात् अवस्थान होता है ।

शंका—सूत्रमें एवकारपद किसलिए दिया है ?

समाधान—ज्ञानावरणीय कर्मकी एक, दो, तीन और चार संख्यासे उपलक्षित  
प्रकृतिसम्बन्धी अवस्थामें बन्धक जीवोंके अवस्थानका प्रतिषेध करनेके लिए सूत्रमें  
एवकार पद दिया है । अर्थात् दशवें गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका बन्ध होता  
रहता है ।

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-  
सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ६ ॥

तं पंचसंखुवलक्खियभावाधारबंधट्टाणमेदेसिं उत्तगुणट्टाणाणं होदि, ण अण्णेसिं, एदेहितो पुधभूदगुणट्टाणाभावा । संजदेत्ति उत्ते सुहुमसांपराइयसंजदंताणं गहणं, उवरि-  
माणं णाणावरणबंधाभावा ।

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स तिण्णि ट्टाणाणि, णवण्हं छण्हं चट्टण्हं  
ठाणमिदिं ॥ ७ ॥

एदं संगहणयसुत्तं, सन्धविसेसाधारत्तादो । एदस्सत्थो उच्चदे- णवपयडिसंबंधि  
एक्कं ट्टाणं, छप्पयडिसंबंधि विदियं ट्टाणं, चत्तारि पयडिसंबंधि तदियं ठाणं । पयडिं  
पडि भेदाभावा ट्टाणभेदो ण जुज्जदि त्ति चे ण, णव-छ-चट्टुसंखाविसिट्टपयडिसमूहाण-  
मेयत्तविरोहा । किं च भिण्णगुणाधारत्तादो चाण्यत्तं ट्टाणाणं । पज्जवणयाणुग्गहट्ट-  
मुत्तरसुत्तं भणदि—

वह पांच संख्यासे उपलक्षित भावोंका आधारभूत बन्धस्थान इन सूत्रोक्त गुण-  
स्थानवाले बन्धक जीवोंके होता है, अन्यके नहीं; क्योंकि इनसे पृथग्भूत गुणस्थानोंका  
अभाव है। यहां 'संयत' ऐसा कहनेपर सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत गुणस्थान तकके  
बन्धक जीवोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानवाले जीवोंके  
ज्ञानावरणीयकर्मका बन्ध नहीं होता है।

दर्शनावरणीय कर्मके तीन बन्धस्थान हैं— नौ प्रकृतिसम्बन्धी, छह प्रकृति-  
सम्बन्धी और चार प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ७ ॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, वह अपने अन्तर्गत सर्व विशेषोंका आधार-  
भूत है। इसका अर्थ कहते हैं— दर्शनावरणीयकर्मकी नौ प्रकृतिसम्बन्धी एक स्थान है,  
स्थानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छह प्रकृतिसम्बन्धी दूसरा स्थान है,  
और चक्षुदर्शनावरण आदि चार प्रकृतिसम्बन्धी तीसरा स्थान है।

शंका—प्रकृतियोंके प्रति भेदका अभाव होनेसे स्थानका भेद करना युक्ति-संगत  
नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नौ, छह और चार संख्यासे विशिष्ट प्रकृतियोंके  
समूहोंके एकताका विरोध है। दूसरी बात यह है कि भिन्न गुणस्थानोंके आधारसे  
स्थानोंके एकता नहीं है, अर्थात् अनेकता या विभिन्नता है। अतएव स्थानका भेद  
युक्ति-संगत है।

अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ णव छक्क चट्टुक्कं य य विदियावरणस्स वधट्टाणाणि । गो क. ४५९.

२ णव सासणो त्ति वधो छच्चेव अपुच्चपदममागो त्ति । चत्तारि होंति ततो सुहुमकसायस्स चरिमो त्ति ।

गो. क. ४६०.

तत्थ इमं णवण्हं द्वाणं, णिदाणिदा पयलापयला थीणगिद्धी  
णिदा पयला य चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहि-  
दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ ८ ॥

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स उत्तरपयडीणं णामणिदेसो संखा च पयडिसमुक्तितणाए  
सव्वमेदं परूविदं, पुणो एत्थ किमद्वं उच्चदे ? ण एस दोसो, मंदवुद्धिसिस्ससंभाल-  
णट्टत्तादो । अधवा णेदाओ पयडीणं सण्णाओ, किंतु पयडिवंधकारणद्वाणस्स सत्तीणं  
सण्णाओ । तेण ण पुणरुत्तदोसो ।

एदासिं णवण्हं पयडीणं एक्कमिह चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ ९ ॥

एदासिं पुव्वुत्तणवपयडीणं एक्कमिह चेव भावे द्वाणमवद्वाणं होदि, बंधमाणस्स  
जीवस्स एदासिं पयडीणं बंधस्स वा । को सो एको भावो ? णवण्हं पयडीणं बंधहेदु-  
सम्मत्ताभावो ।

दर्शनावरणीयकर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला,  
स्त्यानगृद्धि, निद्रा, और प्रचला, तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधि-  
दर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय, इन नौ प्रकृतियोंका समुदायात्मक यह प्रथम  
बन्धस्थान है ॥ ८ ॥

शंका—दर्शनावरणीयकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंका नामनिर्देश और संख्या, यह  
सब प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी प्रथम चूलिकामें निरूपण किया जा चुका है, फिर यहां  
उसे किसलिए कहा जा रहा है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्दबुद्धिवाले शिष्योंको पूर्वोक्त  
अर्थका स्मरण करानेके लिए वह सब यहां पर पुनः निरूपण किया जा रहा है । अथवा  
ये निद्रानिद्रा आदि संज्ञापं प्रकृतियोंकी नहीं हैं, किन्तु प्रकृतिबन्धके कारणभूत स्थानकी  
शक्तियोंकी संज्ञापं हैं, इसलिए उनके पुनः कथन करनेपर भी कोई पुनरुक्त दोष नहीं  
आता है ।

इन नौ प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९ ॥

इन पूर्व सूत्रोक्त नौ प्रकृतियोंका एक ही भावमें स्थान या अवस्थान होता है,  
अथवा, बंध करनेवाले जीवके इन नवों प्रकृतियोंके बंधका एक ही स्थान या भाव है ।

शंका—वह एक भाव कौनसा है ?

समाधान—वह एक भाव दर्शनावरणीय कर्मकी नवों प्रकृतियोंके बन्धका  
कारणभूत सम्यक्त्वका अभाव है ।

तं मिच्छादिट्टिस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा' ॥ १० ॥

एकस्स ट्टाणस्स णवपयडिणिप्पणस्स एदे सामिणो होंति । किमट्टं सामित्तं उच्चदे ? ण, सम्मत्ताभावं पडि' एयत्तं पडिवण्णट्टाणमिह समुप्पण्णएगेयंतवुद्धिमोसारिय अणेयत्तवुद्धिसमुप्पायणट्टत्तादो ।

तत्थ इमं छण्हं ट्टाणं, णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धीओ वज्ज णिद्दा य पयला य चक्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ॥ ११ ॥

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धीओ वज्ज छण्हं ट्टाणं होदि त्ति उत्ते सेस-पयडीओ इमाओ होंति त्ति णव्वदे, तदो तासिं णिद्देसो अणत्थओ त्ति ? ण एस दोमो, अइजडसिस्ससंभालणट्टत्तादो ।

वह नौ प्रकृतिरूप प्रथम बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके और सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ १० ॥

नौ प्रकृतियोंसे निष्पन्न होनेवाले एक, अर्थात् प्रथम, बन्धस्थानके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि, ये दोनों स्वामी होते हैं ।

शंका—यहां स्वामित्व किसलिए कहा जा रहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्वके अभावकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त स्थानमें उत्पन्न होनेवाली एक स्वामिस्वरूप एकान्तबुद्धिको दूर करके 'उसके स्वामी अनेक हैं' इस प्रकारकी अनेकत्वस्वरूप बुद्धिको उत्पन्न करानेके लिए यहां स्वामित्वका कथन किया जा रहा है ।

दर्शनावरणीय कर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धिको छोड़कर निद्रा और प्रचला, तथा चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय, और केवलदर्शनावरणीय, इन छह प्रकृतियोंका समुदायात्मक दूसरा बन्धस्थान है ॥ ११ ॥

शंका—निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्त्यानगृद्धि, इन तीनको छोड़कर शेष छह प्रकृतियोंका दूसरा स्थान होता है, ऐसा सूत्र कहनेपर शेष प्रकृतियां ये होती हैं, यह जाना जाता है, अतएव उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना अनर्थक है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अति जड़बुद्धि शिष्योंको समझालनेके लिए सूत्रमें उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश किया गया है ।

एदासिं छण्हं पयडीणं एक्कमिह चव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ १२ ॥

कधमेत्थ द्वाणस्स एयत्तं ? छण्हं पयडीणं बंधजोग्गभावं पडि भेदाभावा ।  
बंधमाणस्सेत्ति उत्ते जीवस्स वज्झमाणस्स वा कम्मस्स ग्गहणं ।

तं सम्मामिच्छादिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्टिस्स वा संजदा-  
संजदस्स वा संजदस्स वा ॥ १३ ॥

संजदस्सेत्ति उत्ते अपुव्वकरणद्वाए पढमसत्तमभागद्धिसंजदाणं ति गहणं ।  
एदासिं पयडीणं बंधस्स जदि एदे सव्वे सामिणो हवंति तो कधमेक्कमिह अवद्वाणं,  
वहुअस्स एयत्तविरोहादो ? ण एस दोसो, बहूणं पि एदेसिं छप्पयडिबंधपरिणामेण  
समाणाणमेयत्ताविरोहा ।

इन छह प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान  
होता है ॥ १२ ॥

शंका—यहांपर छह प्रकृतियोंवाले स्थानके एकत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान—छह प्रकृतियोंके बन्ध योग्य भावकी अपेक्षा कोई भेद न होनेसे  
छह प्रकृतियोंवाले स्थानके एकत्व बन जाता है ।

‘बन्धमानके’ ऐसा कहनेपर बंध करनेवाले जीवका, अथवा बंधनेवाले कर्मका  
ग्रहण करना चाहिए ।

वह छह प्रकृतिरूप द्वितीय बन्धस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि,  
संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १३ ॥

सूत्रमें ‘संयतके’ ऐसा पद कहनेपर अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम सप्तम  
भागमें अर्थात् अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे प्रथम भागमें स्थित संयतोंका ग्रहण करना  
चाहिए ।

शंका—इन उपर्युक्त छह प्रकृतियोंके बन्धके यदि सूत्रोक्त ये सब सम्यग्मिथ्यादृष्टि  
आदि स्वामी होते हैं, तो फिर कैसे उन सबका एक भावमें अवस्थान हो सकता है,  
क्योंकि बहुतोंके एकत्वका विरोध है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, छह प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन  
बहुतसे भी स्वामियोंके छह प्रकृतियोंके बन्ध परिणामकी अपेक्षा समानता होनेसे एकत्व  
माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

तत्थ इमं चदुण्हं द्वाणं, णिदा य पयला य वज्ज चक्खुदंसणा-  
वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओधिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं  
चेदि ॥ १४ ॥

णेदं सुत्तं णिप्फलं, वज्जिज्जमाणपयडिपरूवणाए विणा अप्पिदचदुपयअवगमे  
उवायाभावा । वदिरेगेण अवगदविधीदो पयडिणिदेसो णिप्फलो त्ति णासंकणिज्जं,  
दव्वद्वियसिस्साणुग्गहट्ठं णिदिट्ठस्स तस्स णिप्फलत्तविरोहा ।

एदासिं चदुण्हं पयडीणं एकम्मिह चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ १५ ॥

एदाओ चत्तारि पयडीओ बंधमाणस्स एकं चेव द्वाणं होदि त्ति एत्थ संबंधो  
कायव्वो, पढमाए अत्थे पाययम्मि छट्ठी-सत्तमीणं पउत्तीए संभवादो । सेसं सुगमं ।

तं संजदस्स ॥ १६ ॥

कुदो ? अपुच्चकरणादिसुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदंतमहारिसीसु एदासिं बंधुवलंभा' ।

दर्शनावरणीय कर्मके उक्त तीन बन्धस्थानोंमें निद्रा और प्रचलाको छोड़कर  
चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय,  
इन चार प्रकृतियोंके समुदायात्मक तीसरा बन्धस्थान है ॥ १४ ॥

यह सूत्र निष्फल नहीं है, क्योंकि, छोड़ी जानेवाली प्रकृतियोंकी प्ररूपणाके  
विना विवक्षित चार पदोंके जाननेमें और कोई उपाय नहीं है । व्यतिरेकद्वारा विधीय-  
मान प्रकृतियोंके ज्ञात हो जानेसे पुनः सूत्रमें प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना निष्फल है,  
ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, द्रव्यार्थिकनयवाले शिष्योंके अनुग्रहार्थ उस  
निर्दिष्ट प्रकृतिनिर्देशके निष्फलताका विरोध है ।

इन चार प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥१५॥

यहांपर इस प्रकार अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियोंको  
बांधनेवाले जीवका एक ही स्थान होता है, क्योंकि, प्रथमा विभक्तिके अर्थमें प्राकृतभाषामें  
षष्ठी और सप्तमी विभक्तियोंकी प्रवृत्तिका होना संभव है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह चार प्रकृतिरूप तृतीय बंधस्थान संयतके होता है ॥ १६ ॥

क्योंकि, अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे द्वितीय भागसे आदि लेकर सूक्ष्मसाम्परा-  
थिक शुद्धिसंयत तक महा ऋषियोंमें इन चारों प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है ।

बहूणं संजदाणं संजदस्सेत्ति एगवयणेण णिद्देशो कधं घडदे ? ण, तेसिं बहूणं पि संजदत्तणेण एयत्ताविरोहा । ण च एयत्तमणेयत्तं वा अण्णोण्णेण पुघभूदमत्थि, अणुवलंभादो ।

वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, सादावेदणीयं चेव असादा-  
वेदणीयं चेव ॥ १७ ॥

विस्सरणालुवसिस्ससंभालणडुमिदं सुत्तं, वज्झमाणपयडिमेत्ततरंगकारणपदु-  
प्पायणडु वा । सेसं सुगमं ।

एदासिं दोण्हं पयडीणं एकमिह चेव ट्ठाणं बंधमाणस्स ॥ १८ ॥

सादासादवेदणीयपयडीणं दोण्हं पि जुगवं बंधो णत्थि, तेसिं बंधकारणविसोहि-  
संकिलेसाणमक्कमेण पउत्तीए अभावादो । तेणेदेसिं दोण्हमेगं ठाणमिदि ण घडदे;  
फित्तु दोण्हं वे द्वाणाणि त्ति वत्तव्वं ? बंधकारणविसोहि-संकिलेसाणं चे भेदादो होदु  
णाम वेदणीयस्स मूलपयडीए सादावेदणीयमसादावेदणीयमिदि वेणिं द्वाणाणि, दोण्ह-

शंका—‘संयतके’ इस एक वचनके द्वारा अपूर्वकरणादि बहुतसे संयतोंका निर्देश कैसे घटित होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बहुतसे भी उन संयतोंका संयतत्वकी अपेक्षा एकत्व माननेमें कोई विरोध नहीं है । दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्परमें पृथग्भूत नहीं हैं, क्योंकि, वे भिन्न पाये नहीं जाते हैं । अर्थात् वस्तुओंमें संग्रह नयसे अभेद विवक्षा होनेपर एकत्व और व्यवहार नयसे भेदविवक्षा होनेपर अनेकत्वका कथन किया जाता है ।

वेदनीयकर्मकी दो ही प्रकृतियां हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय ॥ १७ ॥

विस्मरणशील शिष्योंको स्मरण करानेके लिए, अथवा बंधनेवाली प्रकृतिमात्रके अन्तरंग कारणको बतलानेके लिए यह सूत्र रचा गया है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ १८ ॥

शंका—सातावेदनीय और असातावेदनीय, इन दोनों ही प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, उन दोनों प्रकृतियोंके बंधके कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामोंकी एक साथ प्रवृत्तिका अभाव है । इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंका एक स्थान है, यह बात घटित नहीं होती है, किन्तु दोनों प्रकृतियोंके दो स्थान कहना चाहिए ?

समाधान—यदि बन्धके कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामोंके भेदसे वेदनीयकर्मकी मूल प्रकृतिके सातावेदनीय और असातावेदनीय, ये दो स्थान होते हों, तो भले ही होवें, क्योंकि, दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, तथा मूल



मकमेण बंधाभावा, मूलपयडिवदिरित्तुत्तरपयडीणमभावादो च । किंतु गंधयारेण एसो भेदो ण विवक्खिओ । को पुण गंधयारस्स अहिप्पाओ ? उच्चदे— एदेसिं दोण्हं पि एकम्मिह चेव द्वाणं होदि त्ति उत्ते एकसंखावड्ढिट्ठादो एकम्मिह चेव द्वाणमिदि घेत्तव्वं, अण्णहा द्वाणस्स एयत्तविरोहादो । सेसं सुगमं ।

तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा-  
दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स  
वा ॥ १९ ॥

संजदस्सेत्ति बुत्ते जाव सजोगिभयवंतो ताव घेत्तव्वं, ण परदो; तत्थेदस्स बंधा-  
भावा । सेसं सुगमं ।

मोहणीयस्स कम्मस्स दस द्वाणाणि, वावीसाए एकवीसाए  
सत्तारसण्हं तेरसण्हं णवण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं एकस्से द्वाणं  
चेदि ॥ २० ॥

प्रकृतिसे व्यतिरिक्त वेदनीयकर्मकी अन्य उत्तर प्रकृतियोंका अभाव है । किन्तु ग्रन्थकारने इस भेदकी चिक्खा नहीं की है ।

शंका—तो फिर ग्रन्थकारका अभिप्राय क्या है ?

समाधान—सातावेदनीय और असातावेदनीय, इन दोनों ही प्रकृतियोंका एक ही भावमे अवस्थान होता है, ऐसा कहनेपर एक संख्या अवस्थित होनेसे एक ही भावमे अवस्थान है, अर्थात् दोनों प्रकृतियोंका एक ही बन्धस्थान है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जायगा, तो वेदनीयकर्मके बन्धस्थानकी एकताका विरोध आयगा । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह वेदनीय कर्मसम्बन्धी बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्य-  
गिमिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १९ ॥

सूत्रमें 'संयतके' ऐसा सामान्य पद कहने पर सयोगिभगवन्त तकके संयतोंका ग्रहण करना चाहिए, आगेके संयतोंका नहीं, क्योंकि, वहांपर अर्थात् अयोगिभगवन्तके इस स्थानके बन्धका अभाव है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

मोहनीयकर्मके दश बन्धस्थान हैं— बाईस प्रकृतिसम्बन्धी, इक्कीस प्रकृति-  
सम्बन्धी, सत्तरह प्रकृतिसम्बन्धी, तेरह प्रकृतिसम्बन्धी, नौ प्रकृतिसम्बन्धी, पांच  
प्रकृतिसम्बन्धी, चार प्रकृतिसम्बन्धी, तीन प्रकृतिसम्बन्धी, दो प्रकृतिसम्बन्धी और  
एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ २० ॥

एदं दव्वड्डियणयसुत्तं । कुदो ? वीजीभूदत्तादो ।

तत्थ इमं वावीसाए द्वाणं, मिच्छत्तं सोलस कसाया इत्थिवेद-  
पुरिसवेद-णउंसयवेद तिण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं  
जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं वावीसाए पयडीणं एक्कमिह चैव  
द्वाणं वंधमाणस्स ॥ २१ ॥

मिच्छत्त-सोलसकसाया ध्रुवबंधिणो, उदएणेव बंधेण परोप्परेण विरोहाभावा ।  
तेण तत्थ एगदरसदो ण पउत्तो । इत्थि-पुरिस-णउंसयवेदाणं हस्सरदि-अरदिसोगजुगलाणं  
च उदएणेव बंधेण वि विरोहो अत्थि त्ति जाणावणद्धमेक्कदरसदपओओ कओ । भय-  
दुगुंछासु पुण ण कओ, बंधं पडि विरोहाभावा । एदासिमेक्कमिह' चैव अवद्वाणं होदि ।  
कत्थ ? वावीसाए । कथमेक्कमिह आहाराहेयभावो ? ण, संखाणादो संखेज्जस्स कथंचि

यह द्रव्यार्थिकनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, वह अपने अन्तर्निहित समस्त अर्थोंके  
बीजपदस्वरूप है ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि  
सोलह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद,  
हास्य और रति, तथा अरति और शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय  
और जुगुप्सा, इन चाईस प्रकृतियोंका एक बन्धस्थान होता है । इन चाईस प्रकृतियोंके  
बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २१ ॥

मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी आदि सोलस कषाय, ये सत्तरह ध्रुवबन्धी  
प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि, उदयके समान बन्धकी अपेक्षा परस्परमें उनका कोई विरोध नहीं  
है । इसलिए इनके साथमें 'एकतर' इस शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है । स्त्रीवेद,  
पुरुषवेद और नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंका, तथा हास्य रति और अरति-शोक इन दोनों  
युगलोंका उदयके समान बन्धके साथ भी विरोध है, यह बात बतलानेके लिए इनके  
साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग किया गया है । किन्तु भय और जुगुप्सा, इन दोनों प्रकृ-  
तियोंके साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि, बन्धके प्रति उनका  
परस्परमें कोई विरोध नहीं है । इन चाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान होता है ।

शंका — उक्त प्रकृतियोंका किस एक भावमें अवस्थान है ?

समाधान — चाईस प्रकृतियोंके समुदायात्मक एक भावमें अवस्थान है ।

शंका — एक ही वस्तुमें आधार और आधेय भाव कैसे बन सकता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, संख्यानसे संख्येय कथंचित् पृथग्भूत होता है,

पुधभूदस्स आधारत्ताविरोहा ।

तं मिच्छादिद्विस्स ॥ २२ ॥

कुदो ? मिच्छत्तस्सण्णत्थ वंधाभावा । तं पि कुदो ? अण्णत्थ मिच्छत्तोदयाभावा ।  
ण च कारणेण विणा कज्जस्सुप्पत्ती अत्थि, अइप्पसंगादो । तम्हा मिच्छादिद्वी चैव सामी  
होदि । एत्थ वंधभंगा छ ( ६ )' ।

इसलिए उसके आधारपना होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

वह वाईस प्रकृतिरूप प्रथम वन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ २२ ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकृतिका मिथ्यादृष्टि जीवके सिवाय अन्यत्र वन्ध नहीं होता है । और इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय नहीं होता है, तथा कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि ऐसा न माना जाय तो अति-प्रसंग दोष प्राप्त होगा । इसलिए यही सिद्ध होता है कि इस वाईस प्रकृतिरूप प्रथम वन्धस्थानका स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव ही है । यहांपर वन्धसम्बन्धी भंग या भेद छह (६) होते हैं ।

विशेषार्थ—यहां पर जो वाईस प्रकृतिरूप वन्धस्थानके छह भंग बतलाये हैं, वे इस प्रकार होते हैं— उक्त वाईस प्रकृतियोंमें, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्सा, ये उन्नीस प्रकृतियां भुववन्धी हैं, अर्थात् मिथ्यात्व गुणस्थानमें इनका वंध निरन्तर होता ही रहता है । शेष तीनों वेद और हास्य-रति तथा अरति-शोक ये दोनों युगल अधुववन्धी और सप्रतिपक्षी हैं, अर्थात् एक साथ एक जीवमें तीन वेदोंमेंसे किसी एक ही वेदका और दोनों युगलोंमेंसे किसी एक युगलका वंध होता है । अतएव नाना जीवोंकी-अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगलोंके विकल्पसे परस्पर गुणा करनेपर (३×२=६) छह भंग हो जाते हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं—

	१	+	१६	+	१	+	२	+	२	= २२
१	मिथ्यात्व		सोलह कपाय		पुरुषवेद		हास्य-रति		भय-जुगुप्सा	२२
२	"		"		स्त्रीवेद		"		"	२२
३	"		"		नपुंसकवेद		"		"	२२
४	"		"		पुरुषवेद		अरति-शोक		"	२२
५	"		"		स्त्रीवेद		"		"	२२
६	"		"		नपुंसकवेद		"		"	२२

जिस प्रकार यहांपर उक्त छह भंगोंकी उत्पत्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः उच्चारणक्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार आगे भी जहां जहां भंगोंका उल्लेख आया है, वहांपर भी भंगोंका यही क्रम जानना चाहिए ।

तत्थ इमं एक्कवीसाए' द्वाणं मिच्छत्तं णवुंसयवेदं वज्ज ॥ २३ ॥

एत्थ णउंसयवेदं च इदि चसहो कायव्वो, अण्णहा समुच्चयस्स अवगमोवाया-  
भावा ? ण, चसहेण विणा वि तदवगमादो । वदिरेगपज्जवट्टियणयाणुग्गहट्टमेदं सुत्तं  
भणिय विहिणयाणुग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

सोलस कसाया इत्थिवेद पुरिसवेदो दोण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्स-  
रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं एक्क-  
वीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ २४ ॥

एक्कवीसाए इदि संबंधे छट्ठी । एदासिं पयडीणं एक्कम्हि चैव द्वाणमिदि<sup>१</sup> उत्ते  
एक्कवीसाए त्ति घेत्तव्वं, एक्कवीसपयडिवंधपाओग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं । एत्थ  
भंगा चत्तारि ( ४ )<sup>२</sup> ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें प्रथम बन्धस्थानकी बाईस  
प्रकृतियोंमेंसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदको छोड़ देनेपर यह इक्कीस प्रकृतिरूप द्वितीय  
बन्धस्थान होता है ॥ २३ ॥

शंका—यहां सूत्रमें ' और नपुंसकवेदको ' इस प्रकार ' च ' शब्दका अध्याहार  
करना चाहिए, अन्यथा समुच्चयार्थके जाननेका और कोई उपाय नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ' च ' शब्दके विना भी समुच्चय अर्थका ज्ञान हो  
जाता है ।

व्यतिरेकरूप पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए यह सूत्र कहकर अब  
विधिरूप द्रव्यार्थिक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, स्त्रीवेद और पुरुषवेद इन दोनों वेदोंमेंसे  
कोई एक वेद, हास्य-रति और अरति-शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल,  
भय और जुगुप्सा, इन इक्कीस प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें  
अवस्थान है ॥ २४ ॥

'एक्कवीसाए' यह सम्बन्धमें षष्ठी विभक्ति है । इन प्रकृतियोंका एकमें ही अवस्थान  
है, ऐसा कहनेपर इक्कीस प्रकृतियोंके समूहात्मक बन्धस्थानमें अवस्थान होता है, ऐसा  
अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अथवा इक्कीस प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममें अवस्थान  
होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है । यहांपर उक्त दोनों  
वेद और हास्यादि दोनों युगलों विकल्पसे ( २×२=४ ) चार भंग होते हैं ।

१ अ-आ प्रत्यो. ' एक्कवीसावीसाए ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' विहिणाया- ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' एक्कम्हि अवद्वाणमिदि ' इति पाठः ।

४ चट्ट इगिवीसे । गो. क. ४६७१

तं सासणसम्मादिट्टिस्स ॥ २५ ॥

कुदो ? उवरि अणंताणुवंधिचदुक्कस्स इत्थिवेदस्स य वंधाभावा । तं पि कुदो ? तत्थ अणंताणुवंधीणमुदयाभावा । ण च कारणेण विणा कज्जं संभवदि, विरोहादो ।

तत्थ इमं सत्तरसण्हं ट्ठाणं अणंताणुवंधिकोह-माण-माया-लोभं इत्थिवेदं वज्ज ॥ २६ ॥

एक्कवीसपयडीसु अणंताणुवंधिचदुक्के अवणिदे सत्तारस पयडीओ हवंति । एदं सुत्तं वदिरेगणयाणुग्गहट्ठं । ताओ कदमाओ त्ति पुच्छिदमंदवुद्धिसिस्साणुग्गहट्ठसुत्तर-सुत्तं भणदि—

वारस कसाय पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं सत्तरसण्हं पयडीणमेक्कमिह चैव ट्ठाणं वंधमाणस्स ॥ २७ ॥

तमिह एक्कमिह सत्तारससंखाए एदासिं वंधजोग्गजीवपरिणामे वा त्ति घेत्तव्वं ।

वह इक्कीस प्रकृतिरूप द्वितीय बन्धस्थान सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ २५ ॥

क्योंकि, दूसरे गुणस्थानसे ऊपर अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका और स्त्रीवेदका बन्ध नहीं होता है । और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानोंमें अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयका अभाव है । तथा कारणके बिना कार्य संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा माननेपर विरोध आता है ।

मोहनीयकर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें द्वितीय बन्धस्थानकी इक्कीस प्रकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और स्त्रीवेदको छोड़नेपर यह सत्तरह प्रकृतिरूप तृतीय बन्धस्थान होता है ॥ २६ ॥

पूर्व सूत्रोक्त इक्कीस प्रकृतियोंमेंसे अनन्तानुबन्धी-चतुष्कके निकाल देनेपर सत्तरह प्रकृतियां होती हैं । यह सूत्र व्यतिरेकनयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए कहा गया है ।

वे सत्तरह प्रकृतियां कौनसी हैं, ऐसा पूछनेवाले मन्द-बुद्धि शिष्योंके अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

अप्रत्याख्यानावरणीय आदि बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य-रति और अरति-शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन सत्तरह प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २७ ॥

उस एक सत्तरह संख्यामें, अथवा इन सत्तरह प्रकृतियोंके बन्धयोग्य जीवके परिणाममें उनका अवस्थान है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

सेसं सुगमं । भंगा दोणिण ( २ )' ।

तं सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा ॥ २८ ॥

कुदो ? उवरि अपच्चक्खाणचदुक्कस्स वंधाभावा । तं पि कुदो ? सोदयाभावा । तदो एदाणि दो गुणद्वाणाणि एदस्स वंधद्वाणस्स सामित्तं पडिवज्जंति ।

तत्थ इमं तेरसण्हं द्वाणं अपच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभं वज्ज ॥ २९ ॥

वज्जेत्ति उत्ते वज्जिय इदि घेत्तव्वं । सेसं सुगमं । पुव्वुत्तसत्तारसपयडीसु' अपच्चक्खाणचदुक्के अवणिदे तेरस पयडीओ हवंति । ताओ कदमाओ ति भत्तीए पुच्छिदे तस्साणुग्गहड्डमुत्तरसुत्तं भणदि, पुव्वमणुमाणेण अवगयद्वस्स दढीकरणडुं वा ।

यहांपर हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं ।

वह सत्तरह प्रकृतिरूप तृतीय बन्धस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ २८ ॥

क्योंकि, चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर अप्रत्याख्यानावरणीय कषायचतुष्कका बन्ध नहीं होता है । और इसका भी कारण यह है कि वहांपर स्वोदय अर्थात् अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयका अभाव है । इसलिए सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, ये दोनों गुणस्थान इस सत्तरह प्रकृतिरूप बन्धस्थानके स्वामित्वको प्राप्त होते हैं ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें तृतीय बन्धस्थानकी सत्तरह प्रकृतियोंमेंसे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभको छोड़नेपर यह तेरह प्रकृतिरूप चतुर्थ बन्धस्थान होता है ॥ २९ ॥

'वज्ज' ऐसा कहनेपर 'वज्जिय' अर्थात् 'छोड़कर' ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है । पूर्वोक्त सत्तरह प्रकृतियोंमेंसे अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय-चतुष्कके घटा देनेपर तेरह प्रकृतियां होती हैं ।

वे तेरह प्रकृतियां कौनसी हैं, इस प्रकार भक्तिसे पूछनेपर उस शिष्यके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं । अथवा, पहले अनुमानसे जिस तेरह प्रकृतिरूप अर्थको जाना है, उसीके दढीकरणके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ दो दो हवति छ्ठो ति । गो. न. ४६७.

२ प्रतिषु 'पउत्तसत्ता पयडीसु' इति पाठः ।

अट्ट कसाया पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-  
मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं तेरसण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं  
बंधमाणस्स ॥ ३० ॥

एकम्हि कथं ? तेरससंखाए । कथं तेरसण्हमेयत्तं ? संखासामण्णावेक्खाए,  
तेरसण्हं पयडीणं बंधपाओग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा दोण्णि ( २ )' ।

तं संजदासंजदस्स ॥ ३१ ॥

कुदो ? उवरि पच्चक्खाणचदुक्कस्स बंधाभावा । तं पि कुदो ? तत्थ तस्सु-  
दयाभावा । तेण संजदासंजदो चैव सामी होदि ।

तत्थ इमं णवण्हं द्वाणं पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-  
लोहं वज्ज ॥ ३२ ॥

प्रत्याख्यानानावरणीय आदि आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य-रति और अरति-शोक  
इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन तेरह प्रकृतियोंके बन्ध  
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३० ॥

शंका—एकमें ही अवस्थान कैसे होता है ?

समाधान—एक अर्थात् तेरह संख्यामें समुदायकी अपेक्षा तेरह प्रकृतियोंका  
अवस्थान होता है ।

शंका—तेरह प्रकृतियोंके एकत्व कैसे संभव है ?

समाधान—'तेरह' इस संख्या-सामान्यकी अपेक्षासे तेरह प्रकृतियोंके एकत्व  
संभव है । अथवा तेरह प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य परिणाममें उक्त तेरह प्रकृतियोंका अ-  
वस्थान होता है, इस अपेक्षासे उनके एकत्व बन जाता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है । यहाँपर  
हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो भंग होते हैं ।

उक्त तेरह प्रकृतिरूप चतुर्थ बन्धस्थान संयतासंयतके होता है ॥ ३१ ॥

क्योंकि, पंचम गुणस्थानसे ऊपर प्रत्याख्यानानावरणीय कपाय-चतुष्कका बन्ध  
नहीं होता है । और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानोंमें प्रत्याख्यानानावर-  
णीय कपायके उदयका अभाव है । इसलिए तेरह प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी  
संयतासंयत ही होता है ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें चतुर्थ बन्धस्थानकी तेरह  
प्रकृतियोंमेंसे प्रत्याख्यानानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभकपायको छोड़नेपर  
यह नौ प्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान होता है ॥ ३२ ॥

तेरससु पयडीसु पञ्चकलाणचदुक्के अवणिदे णव पयडीओ हवन्ति । वदिरेग-  
मुहेण णवपयडिद्वाणं परुविय 'अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां वस्तुनिर्णयः' इति न्यायात्  
अण्णयमुहेण परूवणद्धमुत्तरसुत्तं भणदि—

चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-  
मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं णवण्हं पयडीणमेक्कहिं<sup>१</sup> चेव द्वाणं  
बंधमाणस्स ॥ ३३ ॥

सुगममेदं । भंगा दोण्णि ( २ )<sup>२</sup> ।

तं संजदस्स ॥ ३४ ॥

संजदस्सेत्ति उत्ते पमत्तादि-अपुव्वंताणं संजदाणं गहणं, उवरि छण्णोकसायाणं  
बंधाभावादो णवण्हं द्वाणस्स संभवाभावा ।

तत्थ इमं पंचण्हं द्वाणं हस्सरदि-अरदिसोग-भयदुगुंछं वज्ज  
॥ ३५ ॥

पूर्वोक्त तेरह प्रकृतियोंमेंसे प्रत्याख्यानावरणीय कपाय-चतुष्कके घटानेपर नौ  
प्रकृतियां होती हैं ।

व्यतिरेकमुखसे नौ प्रकृतिरूप बन्धस्थानको निरूपण करके 'अन्वय और व्यति-  
रेकसे वस्तुका निर्णय होता है, इस न्यायके अनुसार अन्वयमुखसे उसी स्थानको  
निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

चारों संज्वलनक्रपाय, पुरुषवेद, हास्य-रति और अरति-शोक इन दोनों युग-  
लोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन नौ प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका  
एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३३ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है । यहाँपर हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो  
भंग होते हैं ।

वह नौ प्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३४ ॥

'संयतके' ऐसा सामान्य पद कहनेपर प्रमत्तसंयतसे आदि लेकर अपूर्वकरण  
गुणस्थान तकके संयतोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर छह नोकषायोंका  
बन्ध नहीं होता है, इसलिये वहाँपर नौ प्रकृतिरूप बन्धस्थानका होना संभव नहीं है ।

मोहनीयकर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें पंचम बन्धस्थानकी नौ  
प्रकृतियोंमेंसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, और जुगुप्साको छोड़नेपर यह पांच  
प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान होता है ॥ ३५ ॥

१-प्रतिपु '—मेक्क हि' इति पाठः ।

२ दो दो हवति ष्ठो चि । गो. क. ४६७.



णवसु एदासु चत्तारि पयडीओ अवणिदे अवसेसाओ पंच होंति । अत्थावत्तीदो पेक्खापुव्वयारिसिस्सेहि जदिवि अवगदाओ सेसपंचपयडीओ, तो वि सद्दाणुसारि-सिस्साणुग्गहड्डमुत्तरसुत्तं भणदि—

चदुसंजलणं पुरिसवेदो । एदासिं पंचण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव  
द्वानं बंधमाणस्स ॥ ३६ ॥

तत्थ पंचसंखाए, पंचपयडिवंधजोग्गपरिणामे वा । सेसं सुगमं ।

तं संजदस्स ॥ ३७ ॥

कुदो ? अण्णत्थ पंचपयडिवंधाभावा ।

तत्थ इमं चदुण्हं द्वानं पुरिसवेदं वज्ज ॥ ३८ ॥

पंचसु पयडीसु पुरिसवेदे अवणिदे अवसेसाओ चत्तारि हवंति ।

इन उपर्युक्त नौ प्रकृतियोंमेंसे हास्यादि चार प्रकृतियोंको कम कर देनेपर अवशेष पांच प्रकृतियां रह जाती हैं ।

यद्यपि प्रेक्षापूर्वकारी अर्थात् बुद्धि-प्रधान शिष्योंके द्वारा अर्थापत्तिसे शेष पांच प्रकृतियां जान ली गई हैं, तो भी शब्दनयानुसारी शिष्योंके अनुग्रहके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

क्रोध आदि चारों संज्वलन कपाय और पुरुषवेद, इन पांचों प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३६ ॥

उस 'एक ही भावमें' इस पदका अर्थ 'पांच प्रकृतिरूप संख्यामें, अथवा पांच प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममें' ऐसा लेना चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह पांच प्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३७ ॥

क्योंकि, संयतके सिवाय अन्यत्र इस पांच प्रकृतिरूप बन्धस्थानका अभाव है ।

विशेषार्थ— यहाँपर यद्यपि संयत-सामान्यको ही इस बन्धस्थानका स्वामी बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयतसे ही है । तथा यही बात आगे कहे जानेवाले चार, तीन और दो प्रकृतिरूप बन्धस्थानोंके स्वामित्वमें भी जानना चाहिए । एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी सूक्ष्मसाम्परायसंयत है । इससे आगे न किसी मोहप्रकृतिका बन्ध ही होता है और न उदय या सत्त्व ही रहता है ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें छठे बन्धस्थानकी पांच प्रकृतियोंमेंसे पुरुषवेदको छोड़नेपर यह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धस्थान होता है ॥ ३८ ॥

पूर्व सूत्रोक्त पांच प्रकृतियोंमेंसे पुरुषवेदके घटा देनेपर अवशेष चार प्रकृतियां रहती हैं ।

जदि वि तेसिं णामाणि अत्थावत्तीदो पमाणाणुसारिसिस्सेहि अवगदाणि, तो वि सदाणुसारिसिस्साणुग्गहद्धमुत्तरसुत्तं भणदि—

चदुसंजलणं, एदासिं चदुण्हं पयडीणमेक्कहि चेव द्वाणं  
बंधमाणस्स ॥ ३९ ॥

सुगममेदं ।

तं संजदस्स ॥ ४० ॥

एदं पि सुगमं ।

तत्थ इमं तिण्हं द्वाणं क्रोधसंजलणं वज्ज ॥ ४१ ॥

चदुसु पयडीसु क्रोधसंजलणे अवणिदे अवसेसाओ तिण्णि पयडीओ हवंति ।  
सेसं सुगमं ।

माणसंजलणं मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासिं तिण्हं पयडीण-  
मेक्कहि चेव द्वाणं बंधमाणस्स ॥ ४२ ॥

सुगममेदं ।

यद्यपि उन चारों प्रकृतियोंके नाम अर्थापत्तिसे प्रमाणानुसारी शिष्योंके द्वारा जान लिए गये हैं, तथापि शब्दानुसारी शिष्योंके अनुग्रहार्थ आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं—

क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन चारों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

वह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४० ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें सप्तम बन्धस्थानकी चार प्रकृति-  
योंमेंसे क्रोधसंज्वलनके छोडनेपर यह तीन प्रकृतिरूप आठवां बन्धस्थान होता है ॥४१॥

चारों संज्वलन प्रकृतियोंमेंसे क्रोधसंज्वलनके घटा देनेपर अवशेष तीन प्रकृतियां रह जाती हैं । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन तीनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता है ॥ ४२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तं संजदस्स ॥ ४३ ॥

एदं पि सुगमं ।

तत्थ इमं दोण्हं ट्वाणं माणसंजलणं वज्ज ॥ ४४ ॥

मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासिं दोण्हं पयडीणमेक्कम्हि  
चेव ट्वाणं बंधमाणस्स ॥ ४५ ॥

तं संजदस्स ॥ ४६ ॥

तत्थ इमं एक्किस्से ट्वाणं मायसंजलणं वज्ज ॥ ४७ ॥

लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से पयडीए एक्कम्हि चेव ट्वाणं  
बंधमाणस्स ॥ ४८ ॥

तं संजदस्स ॥ ४९ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

आउअस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ॥ ५० ॥

वह तीन प्रकृतिरूप अष्टम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४३ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें अष्टम बन्धस्थानकी तीन प्रकृतियोंमेंसे मानसंज्वलनको छोड़नेपर यह दो प्रकृतिरूप नवमां बन्धस्थान होता है ॥ ४४ ॥

मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ४५ ॥

वह दो प्रकृतिरूप नवम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४६ ॥

मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें नवम बन्धस्थानकी दो प्रकृतियोंमेंसे मायासंज्वलनको छोड़नेपर यह एक प्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान होता है ॥ ४७ ॥

लोभसंज्वलन, इस एक प्रकृतिके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ४८ ॥

वह एक प्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४९ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

आयु कर्मकी चार प्रकृतियां होती हैं ॥ ५० ॥

एदं संगहणयाणुग्गहकारि सुत्तं, उवरि उच्चमाणासेसत्थमवगाहिय अवट्टाणादो ।

णिरआउअं तिरिक्खाउअं मणुसाउअं देवाउअं चेदि ॥ ५१ ॥

ण चेदं णिरत्थयं सुत्तं, विस्सरणालुअसिस्ससंभालणट्टत्तादो ।

जं तं णिरयाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५२ ॥

एदस्स 'एक्कम्हि चेव अवट्टाणं होदि' ति अज्झाहारो कायव्वो, अण्णहा सुत्तस्स अकिरियत्तावत्तीदो । कत्थ अवट्टाणं ? एक्कसंखाए, णिरयाउअंधपाओग्गपरिणामे वा । किमट्टमेत्थ एक्कम्हि चेव द्वाणमिदि वेदणीयस्सेव ण परूविदं ? ण एस दोसो, संखं पडुच्च चट्टुहं पयडीणमेक्कम्हि चेव ठाणं होदि; परिणामं पडुच्च आउअस्स कम्मस्स चत्तारि द्वाणाणि होंति ति जाणावणट्टं तहा अउत्तीदो ।

यह सूत्र संग्रहनयवाले जीवोंका अनुग्रहकारी है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले समस्त अर्थको अवगाहन करके, अर्थात् अपने अन्तर्गत करके, अवस्थित है ।

नारकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयुर्कर्मकी चार प्रकृतियां हैं ॥ ५१ ॥

यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि, वह विस्मरणशील शिष्योंके स्मरणार्थ बनाया गया है ।

आयुर्कर्मकी चार प्रकृतियोंमें जो नारकायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५२ ॥

इस सूत्रमें 'एकमें ही अवस्थान होता है' इस वाक्यका अध्याहार करना चाहिए । अन्यथा सूत्रके निष्क्रियताकी आपत्ति प्राप्त होती है ।

शंका—नारकायुके बन्ध करनेवाले जीवका कहांपर अवस्थान होता है ?

समाधान—एक संख्यामें, अथवा नारकायुके बन्धयोग्य परिणाममें उसका अवस्थान होता है ।

शंका—यहांपर वेदनीय कर्मके समान 'एकमें ही अवस्थान होता है' इतना वाक्य आचार्यने सूत्रमें किसलिये नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, संख्याकी अपेक्षा चारों आयुर्कर्मकी प्रकृतियोंका एकमें ही अवस्थान होता है । किन्तु परिणामकी अपेक्षा आयुर्कर्मके चार स्थान होते हैं । यह बतलानेके लिए सूत्रमें उक्त प्रकारका वाक्य आचार्यने नहीं कहा ।

तं मिच्छादिद्विस्स ॥ ५३ ॥

तं बंधद्वाणं मिच्छादिद्विस्स चैव होदि, मिच्छत्तोदएण विणा णिरआउअस्स बंधाभावा ।

जं तं तिरिक्खाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५४ ॥

एदस्स अत्थो पुव्वं व परूवेदव्वो ।

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा ॥ ५५ ॥

तं बंधद्वाणमेदेसिं दोण्हं गुणद्वाणाणं होदि, एदेसु तिरिक्खाउअबंधपाओग्ग-परिणासुवलंभा ।

जं तं मणुसाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५६ ॥

सुगममेदं ।

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा-दिद्विस्स वा ॥ ५७ ॥

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ५३ ॥

वह अर्थात् नारकायुके बन्धवाला एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके ही होता है, क्योंकि, मिथ्यात्वकर्मके उदयके विना नारकायुका बन्ध नहीं होता है ।

जो तिर्यगायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५४ ॥

इस सूत्रका अर्थ भी पूर्व सूत्रके समान कहना चाहिए ।

वह तिर्यगायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ५५ ॥

वह बन्धस्थान इन सूत्रोक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है, क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें तिर्यगायुके बांधनेयोग्य परिणाम पाए जाते हैं ।

जो मनुष्यायु कर्म है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

वह मनुष्यायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ५७ ॥

कुदो ? उवरिमगुणद्वाणेषु मणुसाउअबंधपरिणामाभावा । सम्मामिच्छादिद्विद्दिहिं चत्तारि वि आउआणि बंधसरूवेण णत्थि त्ति घेत्तव्वं । कुदो ? तत्थेक्कस्स वि आउअस्स सामित्तपरूवणाभावा ।

जं तं देवाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५८ ॥  
सुगममेदं ।

तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा-  
दिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ५९ ॥  
एदं पि सुगमं ।

णामस्स कम्मस्स अट्ट द्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगूण-  
तीसाए अट्टवीसाए छव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एक्कस्से द्वाणं  
चेदिं ॥ ६० ॥

एद संगहणयसुत्तं, बीजपदत्तादो । कधमेदम्हादो उवरि उच्चमाणसव्वत्थावगमो ?

क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टिसे ऊपरके गुणस्थानोंमें मनुष्यायुके बांधने योग्य परि-  
णामोंका अभाव है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों ही आयुर्कर्म बन्धस्वरूपसे नहीं  
हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए । इसका कारण यह है कि उस गुणस्थानमें एक भी  
आयुर्कर्मके बन्धका स्वामित्व नहीं बतलाया गया है ।

जो देवायु कर्म है, उसे बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान  
होता है ॥ ५८ ॥

यह सूत्र सुगम है । ( यहाँ संयतसे अभिप्राय अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम छह  
भागों तकके संयतोंसे ही है । )

वह देवायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि,  
असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ५९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नामकर्मके आठ बन्धस्थान हैं— इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस प्रकृतिसम्बन्धी  
उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी अट्टाईस प्रकृतिसम्बन्धी, छव्वीस प्रकृतिसम्बन्धी, पच्चीस प्रकृति-  
सम्बन्धी, तेईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६० ॥

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, वह बीजपदस्वरूप है ।

शंका—इसके ऊपर कहे जानेवाले सर्व अर्थोंका ज्ञान इस सूत्रसे कैसे होता है ?

१ प्रतिपु ' सम्मामिच्छादिद्विहिं ' इति पाठ ।

२ तेवीम पणुवीस छव्वीस अट्टवीसपुगतीस । तीसेक्कतीसमेव एक्को बधो दुसेदिहिं ॥ गो क. ५२१.  
तेवीस पंचवीसा छवीसा अट्टवीस गुणतीसा । तीसेक्कतीस एग पडिग्गहा अट्ट णामस्स ॥ कम्म प. स. २४.

ण एस दोसो, एदस्सुवरि सव्वत्थं परूवयंतआइरियवक्खाणादो तदवगमविरोहाभावा ।

विसेसरुइसिस्साणुग्गहट्टमुत्तरसुत्तं भणदि—

तत्थ इमं अट्टावीसाए ट्टाणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-  
तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-  
फासं णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं  
अप्पसत्थविहायगई तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-दुहव-  
दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणणामं । एदासिं अट्टावीसाए पय-  
डीणमेक्कम्हि चैव ट्टाणं ॥ ६१ ॥

णिरयगदीए सह एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियजादीओ किण्ण वज्झंति ?  
ण, णिरयगइवंधेण सह एदासिं बंधाणं उत्तिविरोहादो । एदेसिं संताणमकमेण एय-

---

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निहित  
सर्व अर्थका प्ररूपण करनेवाले आचार्योंके व्याख्यानसे उन अर्थोंके जाननेमें कोई विरोध  
नहीं है ।

अब विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

नामकर्मके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अट्टाईस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान  
है— नरकगति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, वैक्रियिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>, कार्मणशरीर<sup>५</sup>, हुंड-  
संस्थान<sup>६</sup>, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, वर्ण<sup>८</sup>, गन्ध<sup>९</sup>, रस<sup>१०</sup>, स्पर्श<sup>११</sup>, नरकगतिप्रायोग्यानु-  
पूर्वी<sup>१२</sup>, अगुरुलघु<sup>१३</sup>, उपघात<sup>१४</sup>, परघात<sup>१५</sup>, उच्छ्वास<sup>१६</sup>, अप्रशस्तविहायोगति<sup>१७</sup>, त्रस<sup>१८</sup>,  
बादर<sup>१९</sup>, पर्याप्त<sup>२०</sup>, प्रत्येकशरीर<sup>२१</sup>, आस्थिर<sup>२२</sup>, अशुभ<sup>२३</sup>, दुर्भग<sup>२४</sup>, दुःस्वर<sup>२५</sup>, अनादेय<sup>२६</sup>,  
अयशःकीर्त्ति<sup>२७</sup>, और निर्माणनाम<sup>२८</sup> । इन अट्टाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान  
है ॥ ६१ ॥

शंका—नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति-  
नामवाली प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन द्वीन्द्रियजाति आदि  
प्रकृतियोंके बंधनेका विरोध है ।

शंका—इन प्रकृतियोंके सत्त्वका एक साथ एक जीवमें अवस्थान देखा जाता

जीवम्हि उत्तिदंसणादो ण विरोहो त्ति चे, होदु संतं पडि विरोहाभावो, इच्छिज्ज-  
माणत्तादो । ण बंधेण अविरोहो, तधोवदेसाभावा । ण च संतम्मि विरोहाभावं दट्ठण  
बंधम्हि वि तदभावो वोत्तुं सक्किज्जइ, बंध-संताणमेयत्ताभावा । गिरयगईए सह जासि-  
मक्कमेण उदओ अत्थि ताओ गिरयगईए सह बंधमागच्छंति त्ति केइं भणंति, तण्ण  
घडदे, थिर-सुहाणं धुवोदयत्तणेण गिरयगदीए सह उदयमागच्छंताणं गिरयगदीए सह  
बंधप्पसंगादो । ण च एवं, सुहाणमसुहेहि सह बंधाभावा । तदो गिरयगदीए जासि-  
मुदओ णत्थि, एयंतेण तासिं बंधो णत्थि चेव । जासिं पुण उदओ अत्थि, तासिं  
गिरयगदीए सह केसिं पि बंधो' होदि, केसिं पि ण होदि त्ति घेत्तव्वं । एवमण्णासिं  
पि गिरयगदीए बंधेण सह विरुद्धबंधपयडीणं परूवणा कादव्वा ।

गिरयगई पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-  
दिट्ठिस्स ॥ ६२ ॥

है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं होना चाहिए ?

समाधान—सत्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंके एक साथ रहनेका विरोध भले ही  
न हो, क्योंकि, वैसा माना गया है । किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकृतियोंके एक साथ  
रहनेमें विरोधका अभाव नहीं है, अर्थात् विरोध ही है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश  
नहीं पाया जाता है । और सत्त्वमें विरोधका अभाव देखकर बन्धमें भी उनका अभाव  
नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अर्थात् बन्ध  
और सत्त्व ये दोनों एक वस्तु नहीं हैं ।

कितने ही आचार्य यह कहते हैं कि नरकगतिनामक नामकर्मकी प्रकृतिके साथ जिन  
प्रकृतियोंका युगपत् उदय होता है, वे प्रकृतियां नरकगतिनाम प्रकृतिके साथ बन्धको प्राप्त  
होती हैं । किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वैसा मानने पर ध्रुव-उदय-  
शील होनेसे नरकगतिनाम प्रकृतिके साथ उदयमें आनेवाले स्थिर और शुभ नामकर्मोंका  
नरकगतिके साथ बन्धका प्रसंग आता है । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, शुभ प्रकृतियोंका  
अशुभ प्रकृतियोंके साथ बन्धका अभाव है । इसलिए नरकगतिके साथ जिन प्रकृति-  
योंका उदय नहीं है, एकान्तसे उनका बन्ध नहीं ही होता है । किन्तु जिन प्रकृतियोंका  
एक साथ उदय होता है, उनका नरकगतिके साथ कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होता  
है और कितनी ही प्रकृतियोंका नहीं होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । इसी  
प्रकार अन्य भी नरकगतिके बन्धके साथ विरुद्ध पड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोंकी प्ररूपणा  
करना चाहिए ।

वह अट्टाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त नरकगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६२ ॥



तं बंधद्वानं कस्स होदि त्ति पुच्छिदे मिच्छादिद्विस्स होदि । कुदो ? उवरिम-  
गुणद्वानेसु गिरयगदीए बंधाभावा ।

तिरिक्खगदिणामाए पंच द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए छवी-  
साए पणुवीसाए तेवीसाए द्वाणं चेदि ॥ ६३ ॥

तिरिक्खगदिणामाए पयडीए त्ति संबंधो कायव्वो । एदं संगहणयसुत्तं, एदम्मि  
उवरि उच्चमाणसव्वत्थसंभवादो ।

तत्थ इमं पढमतीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी पंचिंदियजादी  
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संद्वानाणमेक्कदरं ओरालियसरीर-  
अंगोवंगं छण्हं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदि-  
पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं  
विहायगदीणमेक्कदरं तस-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं  
सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं

वह बन्धस्थान किसके होता है, ऐसा पूछनेपर उत्तर दिया जाता है कि वह  
बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानोंमें नरकगतिके  
बन्धका अभाव है ।

तिर्यग्गतिनामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं— तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस  
प्रकृतिसम्बन्धी, छवीस प्रकृतिसम्बन्धी, पचीस प्रकृतिसम्बन्धी और तेवीस प्रकृति-  
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६३ ॥

यहां 'तिर्यग्गतिनामा नामकर्मकी प्रकृतिके' इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए ।  
यह संग्रहनयाश्रित सूत्र है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले सर्व अर्थ इसमें संभव हैं ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम तीस प्रकृति-  
रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>, कार्मण-  
शरीर<sup>५</sup>, छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक<sup>६</sup>, औदारिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, छहों संहननोंमेंसे कोई  
एक<sup>८</sup>, वर्ण<sup>९</sup>, गन्ध<sup>१०</sup>, रस<sup>११</sup>, स्पर्श<sup>१२</sup>, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>१३</sup>, अगुरुलघु<sup>१४</sup>, उपघात<sup>१५</sup>,  
परघात<sup>१६</sup>, उच्छ्वास<sup>१७</sup>, उद्योत<sup>१८</sup>, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक<sup>१९</sup>, त्रस<sup>२०</sup>, चादर<sup>२१</sup>,  
पर्याप्त<sup>२२</sup>, प्रत्येकशरीर<sup>२३</sup>, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२४</sup>, शुभ और अशुभ  
इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२५</sup>, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२६</sup>, सुस्वर और

आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं  
णिमिणणामं च । एदासिं पढमतीसाए पयडीणं एक्कमिह चैव  
ट्टाणं ॥ ६४ ॥

एदासिं उतासेसपयडीणं एक्कमिह चैव तीससंखाणम्मि एदासिमक्कमेण बंध-  
जोगपरिणामे वा द्वाणमवट्टाणं होदि । सेसं सुगमं । एत्थ भंगपमाणं ४६०८' ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं  
मिच्छादिट्ठिस्स ॥ ६५ ॥

तं मिच्छादिट्ठिस्सेत्ति एदं चैव वत्तव्वं, णेदरं, पयडिणिहेसेणेव तदवगमादो ?  
ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहट्ठं तदुप्पत्तीदो । एदं बंधद्वाणमुवरिमाणं णत्थि' ।

दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक', आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक',  
यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक' और निर्माण नामकर्म' । इन  
प्रथम तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६४ ॥

इन सूत्रोक्त समस्त प्रकृतियोंका एक ही तीस-संख्यामें, अथवा इनके युगपत्  
बंधनेयोग्य परिणाममें स्थान अर्थात् अवस्थान होता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।  
यहांपर भंगोंका प्रमाण चार हजार छह सौ आठ ( ४६०८ ) है ।

विशेषार्थ—यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगति, स्थिर, शुभ,  
सुभग, सुस्वर, आदेय और यशःकीर्त्ति, इन सात युगलोके विकल्पसे ६×६×२×२×२-  
×२×२×२×२=४६०८ छयालीस सौ आठ भंग होते हैं ।

वह प्रथम तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत  
नामकर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६५ ॥

शंका—' वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ' इतना वाक्य ही सूत्रमें  
कहना चाहिये, अन्य ( शेष ) नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके नाम-निर्देशसे ही उसका ज्ञान  
हो जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्द-बुद्धि शिष्योंके अनुग्रहके लिए  
उसकी रचना हुई है ।

यह बन्धस्थान उपरिम, अर्थात् सासादनसम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानवर्ती जीवोंके

१ सठाणे सहडणे विहायजुम्मे य चरिमच्छजुम्मे । अविस्सेक्कदरादो बधट्टाणेसु भगा हु ॥ ५३२ ॥  
सणिणस्स मणुस्सस्स य ओधेक्कदर तु मिच्छभगा हु । जदालसय अट्ट य ××× ॥ गो. क ५३६.

२ प्रतिपु 'मुवरिमा णत्थि' इति पाठः ।

कुदो ? हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं सासणे वंधाभावा ।

तत्थ इमं विदियत्तीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी पंचिंदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाणमेक्कदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवद्वसंघडणं वज्ज पंचण्हं संघडणाण-मेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुव-लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरं तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-मेक्कदरं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं विदियत्तीसाए पयडीणं एक्कम्मिह चैव द्वाणं ॥ ६६ ॥

पुञ्चिल्लतीसद्वाणादो कधमेदस्स भेदो ? हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसरीर-

नहीं होता है, क्योंकि, सासादन तथा उससे ऊपर किसी भी गुणस्थानमें हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन, इन प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय तीस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति', पंचेन्द्रियजाति', औदारिकशरीर', तैजसशरीर', कर्मण-शरीर', हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांचों संस्थानोंमेंसे कोई एक', औदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तासृपाटिकासंहननको छोड़कर शेष पांचों संहननोंमेंसे कोई एक', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलघु', उपघात', परघात', उच्छ्वास', उद्योत', दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक', त्रस', वादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर', स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक', शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक', सुभग, और दुर्भग, इन दोनोंमेंसे कोई एक', सुस्वर और दुस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक', आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक', यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक', तथा निर्माणनामकर्म' । इन द्वितीय तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६६ ॥

शंका—पूर्वोक्त तीस प्रकृतिवाले बन्धस्थानसे इस तीस प्रकृतिवाले बन्ध-स्थानका भेद किस प्रकार है ?

समाधान—हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहनन, इन दो

संघडणाणमभावेण । तीसाहारं पडि ण भेद इदि चे ण, छस्संढाण-संघडणपडिवद्ध-  
तीसठाणादो पंचसंठाण-संघडणपडिवद्धतीसढाणस्स एयत्तविरोहा । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं  
सासणसम्मादिट्टिस्स ॥ ६७ ॥

अंतिमसंढाण संघडणाणि सासणस्स किण्ण बंधमागच्छंति ? ण, तत्थ जोग्गतिव्व-  
संकिलेसाभावा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगपमाणं ३२००' ।

तत्थ इमं तदियतीसाए ढाणं, तिरिक्खगदी वीइंदिय-तीइंदिय-  
चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेक्कदरं ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड-

प्रकृतियोंके अभावकी अपेक्षा पूर्वोक्त बन्धस्थानसे इस बन्धस्थानका भेद है ।

शंका—' तीस ' इस संख्यारूप आधारकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, छह संस्थानों और छह संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस  
प्रकृतिरूप बन्धस्थानसे, अर्थात् उसकी अपेक्षा, अथवा उसके साथ पांच संस्थानों और  
पांच संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानके एकत्वका विरोध है । अर्थात्  
प्रकृतियोंकी संख्या दोनों स्थानोंमें तीस ही होनेपर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकृतियोंवाले  
दो बन्धस्थान एक नहीं हो सकते हैं ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह द्वितीय तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत  
नामकर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ६७ ॥

शंका — अन्तिम संस्थान अर्थात् हुंडसंस्थान और अन्तिम संहनन अर्थात् असं-  
प्राप्तासृपाटिकासंहनन सासादनसम्यग्दृष्टिके क्यों नहीं बन्धको प्राप्त होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वहांपर, अर्थात् दूसरे गुणस्थानमें, उन दोनों  
प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य तीव्र संक्लेश नहीं होता है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है । यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा उक्त विहायोगति  
आदि सात युगलोंके विकल्पसे  $५ \times ५ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ = ३२००$  बत्तीस सौ भंग  
होते हैं ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय तीस प्रकृति-  
रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति<sup>१</sup>, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, और चतुरिन्द्रिय-  
जाति इन तीन जातियोंमेंसे कोई एक<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>, कर्मणशरीर<sup>५</sup>,

संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणं वण्ण-गंध-  
रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-  
उस्सास-उज्जोवं अप्पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं  
थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्सर-अणादेज्जं जस-  
कित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण्णामं । एदासिं तदियतीसाए  
पयडीणमेक्कग्ग्हि चैव द्वाणं ॥ ६८ ॥

विगलिंदियाणं बंधो उदओ वि हुंडसंठाणमेवेत्ति सुत्ते उत्तं । णेदं घडदे, विगलिं-  
दियाणं छस्संठाणुवलंभा ? ण एस दोसो, सव्वावयवेषु णियदसरूवपंचसंठाणेषु वे-  
त्तिण्णि-चदु-पंचसंठाणाणं संजोगेण हुंडसंठाणमणेयभेदभिण्णमुप्पज्जदि । ण च पंच-  
संठाणाणि पच्चवयवमेरिसाणि त्ति णज्जंते, संपहि तथाविधोवदेसाभावा । ण च तेषु  
अविण्णादेसु एदेसिमेसो संजोगो त्ति णाहुं सक्किज्जदे । तदो सव्वे वि विगलिंदिया हुंड-

हुंडसंस्थान<sup>१</sup>, औदारिकशरीर-अंगोपांगं<sup>२</sup>, असंप्राप्तसृपाटिकासंहननं<sup>३</sup>, वर्णं<sup>४</sup>, गन्धं<sup>५</sup>,  
रसं<sup>६</sup>, स्पर्शं<sup>७</sup>, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीं<sup>८</sup>, अगुरुलघुं<sup>९</sup>, उपघातं<sup>१०</sup>, परघातं<sup>११</sup>, उच्छ्वासं<sup>१२</sup>,  
उद्योतं<sup>१३</sup>, अप्रशस्तविहायोगतिं<sup>१४</sup>, त्रसं<sup>१५</sup>, वादरं<sup>१६</sup>, पर्याप्तं<sup>१७</sup>, प्रत्येकशरीरं<sup>१८</sup>, स्थिर और  
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एकं<sup>१९</sup>, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एकं<sup>२०</sup>, दुर्भगं<sup>२१</sup>,  
दुःस्वरं<sup>२२</sup>, अनादेयं<sup>२३</sup>, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एकं<sup>२४</sup>, तथा  
निर्माणनामकर्मं<sup>२५</sup> । इन तृतीय तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ६८ ॥

शंका—विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडसंस्थान इस एक प्रकृतिका ही बन्ध और  
उदय होता है, यह सूत्रमें कहा है । किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय  
जीवोंके छह संस्थान पाये जाते हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्व अवयवोंमें नियत स्वरूपवाले  
पांच संस्थानोंके होनेपर दो, तीन, चार, और पांच संस्थानोंके संयोगसे हुंडसंस्थान  
अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है । वे पांच संस्थान प्रत्येक अवयवके प्रति इस प्रकारके  
आकारवाले होते हैं, यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि, आज उस प्रकारके उपदेशका  
अभाव है । और, उन संयोगी भेदोंके नहीं ज्ञात होनेपर इन जीवोंके 'अमुक संस्थानोंके  
संयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता है । अतएव सभी विकलेन्द्रिय

१ प्रतिपु ' पच सद्धानाणि ' इति पाठो नास्ति । म प्रतौ तु ' पच द्वाणाणि ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' सव्वेहि ' इति पाठः ।

संठाणा वि होंता ण णज्जंति त्ति सिद्धं ।

विगल्लिंदियाणं वंधो उदओ वि दुस्सरं चेव होदि त्ति सुत्ते उत्तं । भमरादओ सुस्सरा वि दिस्संति. तदो कधमेदं घडदे ? ण, भमरादिसु कोइलासु व महुरसराणुवलंभा । भिण्णरुचीदो केसिं पि जीवाणममहुरो वि सरो महुरो व्व रुच्चइ त्ति तस्स सरस्स महुरत्तं किण्ण इच्छिज्जदि ? ण एस दोसो, पुरिसिच्छादो वत्थुपरिणामाणुवलंभा । ण च णिवो केसिं पि रुच्चदि त्ति महुरत्तं पडिवज्जदे, अच्चवत्थावत्तीदो । एत्थ भंगा चउवीसा ( २४ ) ।

जीव हुंडसंस्थानवाले होते हुए भी आज नहीं जाने जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई ।

विशेषार्थ—उक्त कथनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेन्द्रिय जीवोंके एक हुंडकसंस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें संभव अवयवोंकी अपेक्षा अन्य भी संस्थान हो सकते हैं, क्योंकि, प्रत्येक अवयवमें भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत स्वरूप माना गया है । किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं है कि उनके किस अवयवमें कौनसा संस्थान किस आकाररूपसे होता है । अतएव विकलेन्द्रिय जीवोंमें अंगोपांगोंकी संख्या-वृद्धिके अनुसार मूल संस्थान एक हुंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थानोंके द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुःसंयोगी और पंचसंयोगी भेदोंके निमित्तसे छहों संस्थानोंकी संभावना होने पर भी आगममें इन संयोगी संस्थान-भेदोंकी विवक्षा नहीं की गई है, और इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही बतलाया गया है । द्विसंयोगी आदि भंगोंके लिए देखो इसी भागके पृष्ठ ७२ परका विशेषार्थ ।

शंका—विकलेन्द्रिय जीवोंके वन्ध भी और उदय भी दुःस्वर प्रकृतिका होता है, यह सूत्रमें कहा है । किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी दिखलाई देते हैं, इसलिए यह बात कैसे घटित होती है कि उनके सुस्वरप्रकृतिका वन्ध या उदय नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, भ्रमर आदिमें कोकिलाओंके समान मधुर स्वर नहीं पाया जाता है ।

शंका—भिन्न रुचि होनेसे कितने ही जीवोंके अमधुर स्वर भी मधुरके समान रुचता है । इसलिए उसके, अर्थात् भ्रमरके स्वरके मधुरता क्यों नहीं मान ली जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इच्छासे वस्तुका परिणमन नहीं पाया जाता है । नीम कितने ही जीवोंको रुचता है, इसलिए वह मधुरताको नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, वैसा माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है ।

यहांपर तीन जाति, तथा स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (  $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$  ) चौबीस भंग होते हैं ।

तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं  
मिच्छादिट्टिस्स ॥ ६९ ॥

सुगममेदं ।

तत्थ इमं पढमऊणतीसाए ठाणं । जधा, पढमतीसाए भंगो ।  
णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं पढमऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव  
ट्ठाणं ॥ ७० ॥

ऊणतीसाए त्ति उत्ते एगूणतीसाए त्ति घेत्तव्वं, दोआदीहि ऊणतीसाए गहणं ण  
होदि । कुदो ? रूढिवलभावादो । जहा इदि उत्ते तं जहा इदि सिस्सपुच्छावयणं त्ति  
घेत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं ( बंधमाणस्स तं ) मिच्छा-  
दिट्टिस्स ॥ ७१ ॥

एदं पुव्वुत्तबंधट्ठाणसामित्तसुत्तं सुगममिदि ण एत्थ किंचि उच्चदे ।

वह तृतीय तीस प्रकृतिरूप बंधस्थान विकलेन्द्रिय, पर्याप्त और उद्योत नाम-  
कर्मसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमेंसे यह प्रथम उनतीस  
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह प्रथम तीस प्रकृति-सम्बन्धी बन्ध-  
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना  
चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७० ॥

‘उनतीस’ ऐसा कहनेपर ‘एक कम तीस’ यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, दो  
आदिसे कम तीसका ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, रूढिके बलसे ऐसा ही अर्थ लिया  
जाता है । ‘यथा’ ऐसा पद कहनेपर ‘वह किस प्रकार है ?’ इस प्रकार शिष्यका पृच्छा-  
वचन यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७१ ॥

यह पहले कहे हुये बन्धस्थानके स्वामित्वका सूत्र सुगम है, अतएव यहांपर  
कुछ भी नहीं कहा जाता है ।

तत्थ इमं विदियएगूणतीसाए द्वाणं । जधा, विदियत्तीसाए भंगो ।  
णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं विदीए ऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि  
चेव द्वाणं ॥ ७२ ॥

सुगममेदमणंतरमेव उत्तत्थत्तादो ।

तिरिक्खगदिं पांचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सासण-  
सम्मादिट्टिस्स ॥ ७३ ॥

सुगममेदं सामित्तसुत्तं ।

तत्थ इमं तदियऊणतीसाए ठाणं । जधा, तदियतीसाए भंगो ।  
णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं तदियऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि  
चेव द्वाणं ॥ ७४ ॥

एदं वि सुगमं ।

तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-  
दिट्टिस्स ॥ ७५ ॥

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस  
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह द्वितीय तीस प्रकृतिसम्बन्धी  
बन्धस्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़  
देना चाहिए । इन द्वितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७२ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, अनन्तर ही इसका अर्थ कहा जा चुका है ।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ७३ ॥

यह स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस  
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह तृतीय तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध-  
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना  
चाहिए । इन तृतीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान विकलेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७५ ॥



सुगममेदं ।

तत्थ इमं छव्वीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरा-  
लिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदि-  
पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं आदावुज्जो-  
वाणमेक्कदरं ( थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं )  
सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं  
णिमिणणामं । एदासिं छव्वीसाए पयडीणमेक्कम्हि च्चैव द्वाणं ॥ ७६ ॥

एइंदियाणमंगोवंगं किण्ण परुविदं ? ण, तेसिं णलय वाहू-णिदंत्त-पड्ढि-सीसो-  
राणमभावादो तदभावा । एइंदियाणं छ संठाणाणि किण्ण परुविदाणि ? ण, पच्चवयव-  
परुविदलक्खणपंचसंठाणाणं समूहसरूवाण छसंठाणत्थित्तविरोहा । भंगा मोलस (१६) ।

यह सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह छव्वीस प्रकृति-  
सम्बन्धी बन्धस्थान है— तिर्यग्गति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर,  
कार्मणशरीर, हुंडसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत इन दोनोंमेंसे कोई  
एक, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे  
कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्त्ति  
और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक, तथा निर्माण नामकर्म । इन छव्वीस  
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७६ ॥

शंका—एकेन्द्रिय जीवोंके अंगोपांग क्यों नहीं बतलाये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके पैर, हाथ, नितम्ब, पाँठ, शिर और उर (हृदय)  
का अभाव होनेसे अंगोपांग नहीं होते हैं ।

शंका—एकेन्द्रियोंके छहों संस्थान क्यों नहीं बतलाए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रत्येक अवयवमें प्ररूपित लक्षणवाले पांच संस्थानोंको  
समूहस्वरूपसे धारण करनेवाले एकेन्द्रियोंके पृथक् पृथक् छह संस्थानोंके अस्तित्वका  
विरोध है ।

वहाँ पर आतप, स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन चार युगलोंके विकल्पसे  
( २×२×२×२=१६ ) सोलह भंग होते हैं ।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-बादर-पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर-  
संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ॥ ७७ ॥

कुदो ? अण्णेसिमेइंदियजादीए बंधाभावा ।

तत्थ इमं पढमपणुवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरा-  
लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदि-  
पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-थावरं बादर-  
सुहुमाणमेक्कदरं पज्जत्तं पत्तेग-साधारणसरीराणमेक्कदरं थिराथिराण-  
मेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीण-  
मेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं पढमपणुवीसाए पयडीणमेक्कमिह चव  
द्वाणं ॥ ७८ ॥

अगुरुअलहुअत्तं णाम सच्चजीवाणं पारिणामियमत्थि, सिद्धेसु खीणासेसकम्मसेसु  
वि तस्सुवलंभा । तदो अगुरुलहुअकम्मस्स फलाभावा तस्साभावो इदि ? एत्थ

वह छत्तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, बादर, प्रत्येकशरीर, आतप  
और उद्योत, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि  
जीवके होता है ॥ ७७ ॥

क्योंकि, अन्य गुणस्थानवर्ती जीवोंके एकेन्द्रियजातिका बन्ध नहीं होता है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम पच्चीस प्रकृति-  
रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति<sup>१</sup>, एकेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>, कर्मण-  
शरीर<sup>५</sup>, हुंडसंस्थान<sup>६</sup>, वर्ण<sup>७</sup>, गन्ध<sup>८</sup>, रस<sup>९</sup>, स्पर्श<sup>१०</sup>, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>११</sup>, अगुरुलघु<sup>१२</sup>,  
उपघात<sup>१३</sup>, परघात<sup>१४</sup>, उच्छ्वास<sup>१५</sup>, स्थावर<sup>१६</sup>, बादर और सूक्ष्म इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>१७</sup>,  
पर्याप्त<sup>१८</sup>, प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>१९</sup>, स्थिर और अस्थिर  
इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२०</sup>, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२१</sup>, दुर्भग<sup>२२</sup>  
अनादेय<sup>२३</sup>, यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२४</sup> और निर्माणनामकर्म<sup>२५</sup> ।  
इन प्रथम पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७८ ॥

शंका—अगुरुलघुत्व नामका गुण सर्व जीवोंके पारिणामिक है, क्योंकि, अशेष  
कर्मोंसे रहित सिद्धोंमें भी उसका सद्भाव पाया जाता है। इसलिए अगुरुलघु नामकर्मका  
कोई फल न होनेसे उसका अभाव मानना चाहिए ?

परिहारो उच्चदे— होज्ज एसो दोसो, जदि अगुरुअलहुअं जीवविवाई होदि । किंतु एदं पोग्गलविवाई, अणंताणंतपोग्गलेहि गरुवपासेहि आरद्धस्स सरीरस्स अगुरुअलहुअत्तु-  
प्पायणादो । अण्णहा गरुअसरीरेणोद्धो जीवो उद्धेदुं पि ण सक्केज्ज । ण च एवं, सरीरस्स  
अगुरु-अलहुअत्ताणमणुवलंभा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा वत्तीसं ( ३२ )' ।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-पज्जत्त-वादर-सुहुमाणमेक्कदरं संजुत्तं  
बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ॥ ७९ ॥

कुदो ? उवरिमाणमेइंदियवादर-सुहुमाणं बंधाभावा । सेसं सुगमं ।

तत्थ इमं विदियपणुवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी वेइंदिय-  
तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियचदुण्हं जादीणमेक्कदरं ओरालिय-तेजा-  
कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसरीर-

समाधान—यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हैं— यह उपर्युक्त दोष प्राप्त होता, यदि अगुरुलघु नामकर्म जीवविपाकी होता । किन्तु यह कर्म पुद्गलविपाकी है, क्योंकि, गुरुस्पर्शवाले अनन्तानन्त पुद्गल-वर्गणाओंके द्वारा आरद्ध शरीरके अगुरु-लघुताकी उत्पत्ति होती है । यदि ऐसा न माना जाय, तो गुरु-भारवाले शरीरसे संयुक्त यह जीव उठनेके लिए भी नहीं समर्थ होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, शरीरके केवल हलकापन और केवल भारीपन पाया नहीं जाता ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है । यहांपर वादर, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ और यश कीर्त्ति, इन पांच युगलोंके विकल्पसे (२×२×२×२×२=३२) वत्तीस भंग होते हैं ।

वह प्रथम पच्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, पर्याप्त, वादर और सूक्ष्म, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७९ ॥

क्योंकि, उपरिम गुणस्थानवर्त्ती जीवोंके एकेन्द्रियजाति, वादर और सूक्ष्म, इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय पच्चीस प्रकृति-रूप बन्धस्थान है— तिर्यग्गति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पंचेन्द्रियजाति, इन चारों जातियोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण-शरीर, हुंडसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहनन,

संघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुब्बी अगुरुअ-  
लहुअ-उवघाद-तस-वादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुहव-  
अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं विदियपणुवीसाए पयडीण-  
मेक्कम्हि चैव द्वाणं ॥ ८० ॥

परघादुस्मास-विहायगदि-सरंणामाणमेत्थ बंधो णत्थि । कुदो ? अपज्जत्तबंधेण  
सह विरोहा, अपज्जत्तकाले एदेसिमुदयाभावादो च । जेसिं जत्थ उदओ आत्थि तेसिं  
चैव तत्थ बंधो । ण थिर-सुहेहि अणेयंतो, सुहासुहपयडीणं अधुवबंधीणमक्कमेण बंधा-  
भावा । सेसं सुगमं । एत्थ भंगा चत्तारि ( ४ ) ।

तिरिक्खगदिं तस-अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-  
दिट्ठिस्स ॥ ८१ ॥

सुगममेदं ।

वर्णं गन्धं, रसं स्पर्शं, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीं अगुरुलघुं, उपघातं, त्रसं  
वादरं, अपर्याप्तं, प्रत्येकशरीरं, अस्थिरं, अशुभं, दुर्भगं, अनादेयं, अयशः-  
कीर्त्तिं और निर्माण नामकर्म । इन द्वितीय पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें  
अवस्थान है ॥ ८० ॥

परघात, उच्छ्वास, विहाययोगति और स्वर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका इस बन्ध-  
स्थानमें बन्ध नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्धका अपर्याप्तप्रकृतिके बन्धके साथ  
विरोध है, तथा अपर्याप्तकालमें इन परघात आदि प्रकृतियोंका उदय नहीं पाया जाता  
है । जिन प्रकृतियोंका जहांपर उदय होता है, उन प्रकृतियोंका ही वहांपर बन्ध होता है ।  
उक्त कथनमें स्थिर और शुभ प्रकृतियोंके द्वारा अनकान्त दोष नहीं आता है, क्योंकि,  
अधुवबंधी शुभ और अशुभ प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है । शेष सूत्रार्थ  
सुगम है । यहांपर द्विन्द्रियादि चार जातियोंके विकल्पसे ( ४ ) चार भंग होते हैं ।

वह द्वितीय पच्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान त्रस और अपर्याप्त नामकर्मसे संयुक्त  
तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ८१ ॥

यद्द सूत्र सुगमं है ।

१ प्रतिपु ' साह्य ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' -सरीर- ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' अणेर्यता ' इति पाठः ।

तत्थ इमं तेवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-  
तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपा-  
ओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-थावरं बादर-सुहुमाणमेक्कदरं  
अपज्जत्तं पत्तेय-साधारणसरीराणमेक्कदरं अथिर-असुह-दुहव-अणादेज्ज-  
अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं तेवीसाए पयडीणमेक्कमिह चेव द्वाणं  
॥ ८२ ॥

एत्थ संघडणस्स बंधो किण्ण उत्तो ? ण, एइंदिएसु संघडणस्सुदयाभावा ।  
एत्थ भंगा चत्तारि ( ४ ) । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खगदिं एइंदिय-अपज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेक्कदरसंजुत्तं  
बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स' ॥ ८३ ॥

नामकर्मके तिर्यग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तेवीस प्रकृति-  
सम्बन्धी बन्धस्थान है— तिर्यग्गति', एकेन्द्रियजाति', औदारिकशरीर', तैजसशरीर',  
कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान', वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी',  
अगुरुलघु', उपघात', स्थावर', बादर और सूक्ष्म इन दोनोंमेंसे कोई एक', अपर्याप्त',  
प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर इन दोनोंमेंसे कोई एक', अस्थिर', अशुभ', दुर्भग',  
अनादेय', अयशःकीर्त्ति' और निर्माण नामकर्म' । इन तेवीस प्रकृतियोंका एक ही  
भावमें अवस्थान है ॥ ८२ ॥

शंका—यहांपर, अर्थात् तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानमें, संहननकर्मका बन्ध क्यों  
नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवोंमें संहननकर्मका उदय नहीं होता है ।  
यहांपर बादर और प्रत्येकशरीर इन दो युगलोंके विकल्पसे (२×२=४) चार भंग  
होते हैं । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह तेवीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और  
सूक्ष्म इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तिर्यग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके  
होता है ॥ ८३ ॥

सुगममेदं ।

मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु-  
वीसाए द्वाणं चेदि ॥ ८४ ॥

एदं संगहणयस्स सुत्तं, उवरि उच्चमाणसच्चत्थस्स आधारभावेण अवद्वाणादो ।

तत्थ इमं तीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरालिय-  
तेजा-कम्मइयसरীরं समचउरससंठाणं ओरालियसरীরअंगोवंगं वज्ज-  
रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअ-  
लहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी तस-वादर-पज्जत्त-  
पत्तेयसरীরं थिराथिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-  
आदेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणं तित्थयरं । एदासिं  
तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ॥ ८५ ॥

तित्थयरेण सह अजसकित्तीए अप्पसत्थाए तेण सह उदयमणागच्छमाणाए

यह सूत्र सुगम है ।

मनुष्यगति नामकर्मके तीन बन्धस्थान हैं— तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी और पच्चीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ८४ ॥

यह संज्ञहनयका सूत्र है, क्योंकि, ऊपर कहे जानेवाले सर्व अर्थके आधाररूपसे इसका अवस्थान है ।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मण-शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्रवृषभनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और, अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक, निर्माण, और तीर्थकर नामकर्म । इन तीस प्रकृतियोंके बन्धस्थानका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८५ ॥

शंका—तीर्थकर प्रकृतिके साथ उदयमें नहीं आनेवाली अप्रशस्त अयशःकीर्तिका

कथं बंधो ? ण, तेसिमुदयाणं व बंधाणं विरोहाभावा । दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं ध्रुवबंधि-  
त्तादो संकिलेसकाले वि वज्झमाणेण तित्थयरेण सह क्रिण्ण बंधो ? ण, तेसिं बंधाणं  
तित्थयरबंधेण सम्मत्तेण य सह विरोधादो । संकिलेसकाले वि सुभग सुस्सर-आदेज्जाणं  
चेव बंधुवलंभा । एत्थ भंगा अट्ट (८) ।

मणुसगदिं पंचिंदिय-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं असंजदसम्मा-  
दिट्ठिस्स ॥ ८६ ॥

सुगममेदं सामित्तसुत्तं ।

तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए द्वाणं । जधा, तीसाए भंगो । णवरि  
विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं पढमएगूणतीसाए पयडीणमेक्कमिहि  
चेव द्वाणं ॥ ८७ ॥

सुगममेदं ।

उसके साथ बन्ध कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके उदयके समान बन्धका कोई विरोध नहीं है ।

शंका—संक्लेश-कालमें भी बंधनेवाले तीर्थकर नामकर्मके साथ ध्रुवबंधी होनेसे  
दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका बन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उन प्रकृतियोंके बन्धका तीर्थकर प्रकृतिके बंधके  
साथ और सम्यग्दर्शनके साथ विरोध है । संक्लेश-कालमें भी सुभग, सुस्वर और आदेय  
प्रकृतियोंका ही बन्ध पाया जाता है ।

यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (२×२×२=८)  
आठ भंग होते हैं ।

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और तीर्थकरप्रकृतिसे संयुक्त  
मनुष्यगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टिके होता है ॥ ८६ ॥

यह स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह प्रथम उनतीस  
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध-  
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता यह है कि यहां तीर्थकरप्रकृतिको छोड़  
देना चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सम्मामिच्छा-  
दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा ॥ ८८ ॥

बंधट्टाणाणं सामित्तं किमट्ठं उच्चदे ? ण, अण्णहा अउत्तसमाणदावत्तीदो ।  
सेसं सुगमं ।

तत्थ इमं विदियाए एगूणतीसाए ट्टाणं, मणुसगदी पंचिंदिय-  
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाण-  
मेक्कदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसंघडणं वज्ज पंचण्हं  
संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरु-  
अलहु-उवघाद-परघाद-उस्सासं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरं तस-वादर-  
पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-  
दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरं

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्तनामकर्मसे  
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिके होता  
है ॥ ८८ ॥

शंका—बन्धस्थानोंका स्वामित्व किसलिए कहते हैं ?

समाधान— नहीं, अन्यथा अनुक्त-समानताकी आपत्ति प्राप्त होती है। अर्थात्  
यदि बन्धस्थानोंका स्वामित्व नहीं कहा जायगा तो फिर बन्धस्थानोंका कहना भी नहीं  
कहनेके समान हो जायगा।

शेष सूत्रार्थ सुगम है।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस  
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है— मनुष्यगति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजस-  
शरीर<sup>४</sup>, कर्मणशरीर<sup>५</sup>, हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांच संस्थानोंमेंसे कोई एक<sup>६</sup>,  
औदारिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, असंप्राप्तासृपाटिकासंहननको छोड़कर पांच संहननोंमेंसे कोई  
एक<sup>८</sup>, वर्ण<sup>९</sup>, गन्ध<sup>१०</sup>, रस<sup>११</sup>, स्पर्श<sup>१२</sup>, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>१३</sup>, अगुरुलघु<sup>१४</sup>, उपघात<sup>१५</sup>,  
परघात<sup>१६</sup>, उच्छ्वास<sup>१७</sup>, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक<sup>१८</sup>, त्रस<sup>१९</sup>, बादर<sup>२०</sup>, पर्याप्त<sup>२१</sup>,  
प्रत्येकशरीर<sup>२२</sup>, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२३</sup>, शुभ और अशुभ इन  
दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२४</sup>, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२५</sup>, सुस्वर और दुःस्वर  
इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२६</sup>, आदेय और अनोदय इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२७</sup>, यशःकीर्त्ति



जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणं । एदासिं विदियएगुणतीसाए  
पयडीणमेक्कम्हि चव ट्ठाणं ॥ ८९ ॥

सेसं सुगमं । भंगा वत्तीससयं ( ३२०० ) ।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं सासणसम्मा-  
दिट्ठिस्स ॥ ९० ॥

एदं पि सुगमं ।

तत्थ इमं तदियएगुणतीसाए ठाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी  
ओरालिय-तेजा कम्मइयसरीरं छण्हं संट्ठाणाणमेक्कदरं ओरालियसरीर-  
अंगोवंगं छण्हं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस फासं मणुसगदिपा-  
ओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सासं दोण्हं विहाय-  
गदीणमेक्कदरं तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुहा-  
सुहाणमेक्कदरं सुभग-दुभगाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरं

और अयशःकीर्त्तिं इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>८</sup>, और निर्माण नामकर्म<sup>९</sup> । इन द्वितीय  
उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८९ ॥

शेष सूत्रार्थ सुगम है । केवल भंग यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा  
विहायोगति आदि उक्त सात युगलोंके विकल्पसे ( ५×५×२×२×२×२×२×२×२=३२०० )  
वत्तीस सौ होते हैं ।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नाम-  
कर्मसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ९० ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस  
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— मनुष्यगति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>,  
कार्मणशरीर<sup>५</sup>, छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक<sup>६</sup>, औदारिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, छहों संहननोंमेंसे  
कोई एक<sup>८</sup>, वर्ण<sup>९</sup>, गन्ध<sup>१०</sup>, रस<sup>११</sup>, स्पर्श<sup>१२</sup>, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>१३</sup>, अगुरुलघु<sup>१४</sup>,  
उपघात<sup>१५</sup>, परघात<sup>१६</sup>, उच्छ्वास<sup>१७</sup>, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक<sup>१८</sup>, त्रस<sup>१९</sup>, बादर<sup>२०</sup>,  
पर्याप्त<sup>२१</sup>, प्रत्येकशरीर<sup>२२</sup>, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२३</sup>, शुभ और अशुभ  
इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२४</sup>, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२५</sup>, सुस्वर और

आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-  
णामं । एदासिं तदियएगूणतीसाए पगडीणमेक्कहि चेव द्वाणं ॥९१॥

कम्हि अवद्वाणं ? एगूणतीसाए संखाए, एगूणतीसंपयडिवंधपाओग्गपरिणामे वा ।  
भंगा छादालसयं अद्दुत्तरं ( ४६०८ ) । सेसं सुगमं ।

मणुसगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-  
दिट्ठिस्स ॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं ।

तत्थ इमं पणुवीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरा-  
लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्त-  
सेवट्टसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअ-

दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>१</sup>, आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२</sup>,  
यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>३</sup> और निर्माणनामकर्म<sup>४</sup> । इन  
तृतीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९१ ॥

शंका — उक्त बन्धस्थानका किसमें अवस्थान होता है ?

समाधान—उनतीसरूप संख्यामें, अथवा उनतीस प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य  
परिणाममें अवस्थान होता है ।

यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगति आदि उक्त सात युगलोंके  
विकल्पसे ( ६×६×२×२×२×२×२×२×२=४६०८ ) छयालीस सौ आठ भंग होते हैं । शेष  
सूत्रार्थ सुगम है ।

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नामकर्मके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह पच्चीस प्रकृतिरूप  
बन्धस्थान है— मनुष्यगति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, औदारिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>, कार्मण-  
शरीर<sup>५</sup>, हुंडसंस्थान<sup>६</sup>, औदारिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन<sup>८</sup>, वर्ण<sup>९</sup>,  
गन्ध<sup>१०</sup>, रस<sup>११</sup>, स्पर्श<sup>१२</sup>, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>१३</sup>, अगुरुलघु<sup>१४</sup>, उपघात<sup>१५</sup>, त्रस<sup>१६</sup>,

लहुअ-उवघाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरिर-अथिर-असुभ-दुभग-  
अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं पणुवीसाए पयडीणमेक्कमिह  
चेव द्वाणं ॥ ९३ ॥

अपज्जत्तेण सह थिरादीणि<sup>१</sup> किण्ण वज्झंति ? ण, संकिलेसद्वाए वज्झमाणअपज्ज-  
त्तेण सह थिरादीणं विसोहिपयडीणं बंधविरोहा । सेसं सुगमं ।

मणुसगदिं पंचिंदियजादि-अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा-  
दिट्ठिस्स ॥ ९४ ॥

सुगममेदं ।

देवगदिणामाए पंच द्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण-  
तीसाए अड्ढवीसाए एक्किस्से द्वाणं चेदि ॥ ९५ ॥

एदं संगहणयसुत्तं, उवरि उच्चमाणमसेसमत्थमवगाहिय अवाट्ठिट्ठादो ।

बादर<sup>१०</sup>, अपर्याप्त<sup>११</sup>, प्रत्येकशरीर<sup>१२</sup>, अस्थिर<sup>१३</sup>, अशुभ<sup>१४</sup>, दुर्भग<sup>१५</sup>, अनादेय<sup>१६</sup>, अयशः-  
कीर्त्ति<sup>१७</sup> और निर्माण नामकर्म<sup>१८</sup> । इन पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान  
है ॥ ९३ ॥

शंका—अपर्याप्तप्रकृतिके साथ स्थिर आदि प्रकृतियां क्यों नहीं बंधती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, संक्लेश-कालमें बंधनेवाले अपर्याप्त नामकर्मके साथ  
स्थिर आदि विशोधि-कालमें बंधनेवाली शुभ प्रकृतियोंके बंधका विरोध है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह पच्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ९४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

देवगति नामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं— इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस  
प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, अट्ठाईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक प्रकृति-  
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ९५ ॥

यह संग्रहनयके आश्रित सूत्र है, क्योंकि, ऊपर कहे जानेवाले अशेष अर्थको  
अवगाहन करके अवस्थित है ।

१ प्रतिष्ठ ' थिराथिरादीणि ' इति पाठ ।

तत्थ इमं एक्कत्तीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-  
आहार-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्विय-आहारअंगोवंगं  
वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-  
परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-  
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेक्क-  
त्तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ॥ ९६ ॥

देवगदीए सह छ संघडणाणि किण्ण वज्झंति ? ण, देवेषु संघडणाणमुदया-  
भावा । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-आहार-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं  
अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ ९७ ॥

सुगममेदं ।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह इकतीस प्रकृतिरूप  
बन्धस्थान है— देवगति', पंचेन्द्रियजाति', वैक्रियिकशरीर', आहारकशरीर', तैजसशरीर',  
कार्मणशरीर', समचतुरस्रसंस्थान', वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग', आहारकशरीर-अंगोपांग',  
वर्ण', गन्ध', रस', स्पर्श', देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलघु', उपघात', परघात',  
उच्छ्वास', प्रशस्तविहायोगति', त्रस', बादर', पर्याप्त', प्रत्येकशरीर', स्थिर', शुभ',  
सुभग', सुस्वर', आदेय', यशःकीर्त्ति', निर्माण' और तीर्थकर' । इन इकतीस  
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९६ ॥

शंका—देवगतिके साथ छह संहनन क्यों नहीं बंधते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देवोंमें संहननोंके उदयका अभाव है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह इकतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त, आहारकशरीर और  
तीर्थकर नामकर्मसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण संयतके  
होता है ॥ ९७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तत्थ इमं तीसाए ठाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णवरि  
विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव  
ट्ठाणं ॥ ९८ ॥

एत्थ आत्थिरादीणं किण्ण वंधो होदि ? ण, एदासिं विसोहीए वंधविरोहा ।  
सेसं सुगमं ।

देवगदिं पांचिंदिय-पज्जत्त-आहारसंजुत्तं वंधमाणस्स तं अप्पमत्त-  
संजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ ९९ ॥

सुगममेदं ।

तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए ट्ठाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो ।  
णवरि विसेसो, आहारसरीरं वज्ज । एदासिं पढमएगूणतीसाए पयडीणं  
एक्कम्हि चेव ट्ठाणं ॥ १०० ॥

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तीस प्रकृतिसम्बन्धी  
बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानके समान  
प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता केवल यह है कि यहां तीर्थकर प्रकृतिको छोड़ देना  
चाहिए । इन तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९८ ॥

शंका—यहांपर अस्थिर आदि प्रकृतियोंका बन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियोंका विशुद्धिके  
साथ बंधनेका विरोध है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है

वह तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और आहारकशरीरसे  
संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयतके अथवा अपूर्वकरणसंयतके होता है ॥ ९९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम उनतीस  
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है । वह किस प्रकार है ? वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध-  
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है । विशेषता केवल यह है कि यहां आहारकशरीर  
और आहारक-अंगोपांगको छोड़ देना चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही  
भावमें अवस्थान है ॥ १०० ॥

वज्ज' वज्जिदव्वमिदि धेत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्प-  
मत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ १०१ ॥

सुगममेदं ।

तत्थ इमं विदियएगुणतीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी  
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं  
वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-  
परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा-  
थिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसकित्ति-  
अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेगुणतीसाए पयडीण-  
मेक्कमिह चेव द्वाणं ॥ १०२ ॥

‘वज्ज’ इस पदका ‘छोड़ना चाहिए’ यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए । शेष  
सूत्रार्थ सुगम है ।

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और तीर्थकर  
प्रकृतिसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण संयतके होता  
है ॥ १०१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस  
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— देवगति<sup>१</sup>, पंचेन्द्रियजाति<sup>२</sup>, वैक्रियिकशरीर<sup>३</sup>, तैजसशरीर<sup>४</sup>,  
कार्मणशरीर<sup>५</sup>, समचतुरस्रसंस्थान<sup>६</sup>, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग<sup>७</sup>, वर्ण<sup>८</sup>, गन्ध<sup>९</sup>, रस<sup>१०</sup>,  
स्पर्श<sup>११</sup>, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी<sup>१२</sup>, अगुरुलघु<sup>१३</sup>, उपघात<sup>१४</sup>, परघात<sup>१५</sup>, उच्छ्वास<sup>१६</sup>, प्रशस्त-  
विहायोगति<sup>१७</sup>, त्रस<sup>१८</sup>, बादर<sup>१९</sup>, पर्याप्त<sup>२०</sup>, प्रत्येकशरीर<sup>२१</sup>, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे  
कोई एक<sup>२२</sup>, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२३</sup>, सुभग<sup>२४</sup>, सुस्वर<sup>२५</sup>, आदेय<sup>२६</sup>,  
यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक<sup>२७</sup>, निर्माण<sup>२८</sup>, और तीर्थकर नाम-  
कर्म<sup>२९</sup> । इन द्वितीय उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ १०२ ॥

देवगदीए सह उज्जोवस्स किण्ण बंधो होदि ? ण, देवगदीए तस्स उदयाभावा, तिरिक्खगदिं मोत्तूण अण्णगदीहि सह तस्म बंधविरोधादो च । देवेषु उज्जोवस्सुदयाभावे देवाणं देहदित्ती कुदो होदि ? वण्णणामकम्मोदयादो । उज्जोउदयजाददेहदित्ती सुट्ठु त्थोवा, पाएण थोवावयवपडिणियदा, तिरिक्खगदिउदयसंवद्धा च । तेण उज्जोउदओ तिरिक्खेसु चैव, ण देवेषु; विरोहादो । भंगा अट्ठ ८ । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं असंजद-सम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा ॥ १०३ ॥

सुगममेदं ।

तत्थ इमं पढमअट्ठावीसाए ट्टाणं, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियअंगोवंगं वण्ण-

शंका—देवगतिके साथ उद्योतप्रकृतिका बन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उद्योतप्रकृतिके उदयका अभाव है, और तिर्यग्गतिको छोड़कर अन्य गतियोंके साथ उसके बंधनेका विरोध है ।

शंका—देवोंमें उद्योतप्रकृतिका उदय नहीं होनेपर देवोंके शरीरमें दीप्ति (कान्ति) कहाँसे होती है ?

समाधान—देवोंके शरीरोंमें दीप्ति वर्णनामकर्मके उदयसे होती है ।

उद्योतप्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाली देहकी दीप्ति अत्यन्त अल्प, प्रायः स्तोत्र ( थोड़े ) अवयवोंमें प्रतिनियत और तिर्यग्गति नामकर्मके उदयसे संवद्ध होती है । इसलिए उद्योतप्रकृतिका उदय तिर्यच्चोंमें ही होता है, देवोंमें नहीं, क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है । यहाँपर स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे ( २×२×२=८ ) आठ भंग होते हैं । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और तीर्थकर प्रकृतिसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतके होता है ॥ १०३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम अट्ठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान है— देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,

गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-  
उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-वाटर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-  
सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-णिमिणणामं । एदासिं पढमअट्ठवीसाए  
पयडीणमेक्कमिह चैव द्वाणं ॥ १०४ ॥

एत्थ अजसकित्तीए बंधो णत्थि, पमत्तगुणद्वाणे तिस्से बंधविणासादो ।  
सेसं सुगमं ।

देवगदिं पांचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्तसंजदस्स  
वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ १०५ ॥

एदं पि सुगमं ।

तत्थ इमं विदियअट्ठवीसाए द्वाणं, देवगदी पांचिंदियजादी  
वेउव्विय-तेजा कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं  
वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-

देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायो-  
गति, त्रस, वाटर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर  
आदेय, यशःकीर्त्ति और निर्माण नामकर्म । इन प्रथम अट्ठाईस प्रकृतियोंका एक  
ही भावमें अवस्थान है ॥ १०४ ॥

यहांपर अयशःकीर्त्तिका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें  
उसके बन्धका विनाश हो जाता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

वह प्रथम अट्ठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त  
नामकर्मसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणसंयतके होता  
है ॥ १०५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नामकर्मके देवगतिस्मन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय अट्ठाईस प्रकृति-  
रूप बन्धस्थान है— देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण-  
शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,  
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायो-



परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा-  
थिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसकित्ति-  
अजसकितीणमेक्कदरं णिमिणं । एदासिं विदियअट्ठावीसाए पयडीण-  
मेक्कम्हि चेव ट्ठाणं ॥ १०६ ॥

एत्थ भंगा अट्ठ (८) । सेसं सुगमं ।

देवगदिं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स  
वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा-  
दिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ १०७ ॥

संजदस्सेत्ति उत्ते पमत्तसंजदग्गहणं । कुदो ? उवरिमाणमथिरासुभ-अजसकितीणं  
बंधाभावा । सेसं सुगमं ।

तत्थ इमं एक्किस्से ट्ठाणं जसकित्तिणामं । एदिस्से पयडीए  
एक्कम्हि चेव ट्ठाणं ॥ १०८ ॥

गति", त्रस", बादर", पर्याप्त", प्रत्येकशरीर", स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई  
एक", शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक", सुभग", सुस्वर", आदेय", यशः-  
कीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक" और निर्माण नामकर्म" । इन  
द्वितीय अट्ठाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ १०६ ॥

यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीर्त्ति, इन तीन युगलोंके विकल्पसे (२×२×२=८)  
आठ भंग होते हैं ।

वह द्वितीय अट्ठाईस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे  
संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि,  
असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १०७ ॥

'संयतके' ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयतका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, उपरिम  
गुणस्थानवर्ती जीवोंके अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्त्ति, इन प्रकृतियोंका बंध नहीं  
होता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

नामकर्मके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यशःकीर्त्ति नामकर्म-  
सम्बन्धी यह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है । इस एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका एक ही  
भावमें अवस्थान है ॥ १०८ ॥-

बंधमाणस्स तं संजदस्स ॥ १०९ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

होदु णाम एगतीसाए तीसाए एगुणतीसाए अट्टावीसाए ति चदुण्हं द्वाणाणं देवगदीए सह बंधो, ण एक्किस्से । कुदो ? देवगदिवंधस्स' पंचिदियजादिआदिअट्टावीसपयट्ठि-बंधाविणाभावित्तणेण एगत्तविरोहादो चे', ण एस दोसो, इट्टत्तादो । ण सुत्तविरोहो होदि, तस्स गुणद्वाणाणिवंधणत्तेण भूदपुव्वणयं पडुच्च संजुत्तपदुप्पायणे वावदस्स देवगदिवंधाभावे वि अणियट्ठिम्मि क्रोधसंजलणबंधोवरमे वि अधापवत्तसंकमपवुत्ति' व्व तदुव्वत्तीदो ।

वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान उसी एक यशःकीर्त्ति प्रकृतिका बन्ध करनेवाले संयतके होता है ॥ १०९ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

विशेषार्थ—यहांपर संयतसे अभिप्राय अपूर्वकरण गुणस्थानके सातवें भागसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती संयतसे है, क्योंकि, केवल एक यशःकीर्त्ति नाम-कर्मको छोड़कर शेष समस्त नामकर्मकी प्रकृतियां अपूर्वकरणके छठवे भागमें बन्धसे व्युच्छिन्न हो जाती हैं, परन्तु यशःकीर्त्ति प्रकृति दशवें गुणस्थान तक बंधती रहती है ।

शंका—इकतीस, तीस, उनतीस और अट्टाईस, इन चार बन्धस्थानोंका देव-गतिके साथ बन्ध भले ही हो, किन्तु एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका बन्ध देवगतिके साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि, देवगतिका बन्ध पंचेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृति-योंके बन्धका अविनाभावी है । और इसीलिए उसके साथ एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानके एकत्वका विरोध है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह वात इष्ट है । तथा, वैसा मानने-पर सूत्रके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, गुणस्थान-निबंधनक होनेसे, अर्थात् उसी अपूर्वकरण गुणस्थानसे संबंध रखनेके कारण, भूतपूर्वनयकी अपेक्षा संयुक्त प्रतिपादनमें व्यापार करनेवाले उस सूत्रकी देवगतिका बन्ध नहीं होनेपर भी, अनिवृत्ति-करण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनके बन्धसे उपरम (व्युच्छिन्न) होनेपर भी अधःप्रवृत्त-संक्रमणकी प्रवृत्तिके समान सार्थकता वन जाती है ।

१ प्रतिपु ' देवगदिवंधयस्स ' इति पाठ ।

२ प्रतिपु ' च ' इति पाठ ।

३ सजलणतिये पुरिमे अधापवत्तो य सच्चो य । गो. क ४२४. ससारत्था जीवा संबधजोगाण तद्दल-पमाणा । सक्रामे तशुरूव अहापवत्तीए तो णाम । प स ७६ धुव्वन्धिनीनां स्वबधयोग्याना प्रकृतीनाम् अधुव-वन्धिन्यस्तु सर्वा अपि योग्या एव, तासा दल, तत्प्रमाणात्स्तोकात्स्तोके तदनु रूप सक्रामयति, यथाप्रवृत्त्या यथा-हीन-मध्यमोत्कृष्टयोग्याना प्रवृत्तिस्तथा तथा संक्रामयति कर्मदल, अतोऽस्यैतन्नाम इति गाथार्थ । प. स ७६ स्वी. टीका निद्राद्विकोपघाताशुभवर्णादिनवकहास्य-रति-भय जुगुप्साना त्वपूर्वकरणस्वबधव्यवच्छेदादारभ्य गुणसक्रम. प्रवर्तते । प. स ७७ मलय टीका. जत्य जातिं पयडीणं बंधो समवदि तत्थ तासिं पयडीण वधे सते असते । वि अधापवत्त-

एवं संते अपुव्वकरणमिह णिहा-पयलाणं बंधवोच्छेदे जादे अधापवत्तसंकमो पसज्जदि  
त्ति णासंकणिज्जं, तस्स सव्वसंकमपुव्वसेससंतकम्मविसयस्स तदभावे' तस्स वि  
अभावादो ।

शंका—ऐसा माननेपर तो अपूर्वकरण गुणस्थानमें निद्रा और प्रचला, इन  
दोनोंके बन्ध-व्युच्छेद होनेपर अधःप्रवृत्तसंक्रमणका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सर्वसंक्रमणसे पूर्व शेष  
प्रकृतियोंके सत्त्वको विषय करनेवाले उस अधःप्रवृत्तसंक्रमणका सर्वसंक्रमणके अभावमें  
उसका भी अभाव रहता है ।

विशेषार्थ—यहांपर प्रश्न यह है कि, नामकर्मके देवगतिसंबंधी जो पांच बन्ध-  
स्थान बतलाये गये हैं उनमें प्रथम चार तो बराबर देवगतिसे संबन्ध रखते हैं, किन्तु  
यह यशःकीर्ति प्रकृतिसंबंधी बन्धस्थान तो देवगतिके साथ बंधनेवाला नहीं कहा गया,  
तब फिर उसे देवगतिसंबंधी बंधस्थानोंमें क्यों गिनाया है ? इसका समाधान इस प्रकार  
किया गया है— यद्यपि यह ठीक है कि यहां देवगतिके बंधका सम्बन्ध नहीं है, तथापि  
यशःकीर्तिप्रकृतिके बंध करनेवाले जीवका उससे पूर्व उसी गुणस्थानमें देवगतिके  
बंधसे सम्बन्ध रहा है, अतः भूतपूर्व न्यायसे उसे देवगतिसम्बन्धी भंगोंमें सम्मिलित कर  
लिया है । इस भूतपूर्व न्यायका यहां आचार्यने एक दृष्टान्त दिया है कि यद्यपि  
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें जब क्रोधसंज्वलनकपायके बंधकी व्युच्छित्ति हो जाती है,  
तब अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं होना चाहिये, क्योंकि, यह संक्रमण बंधयोग्य कालमें ही  
होता है । पर तो भी उसमें क्रोधसंज्वलन कपायसंबंधी अधःप्रवृत्तसंक्रमण कुछ काल तक  
होता ही रहता है जबतक कि उस कपायका सर्वसंक्रमण न हो जाय । इसी प्रकार देव-  
गतिबन्धका विराम हो जानेपर भी उसकी परम्पराको भूतपूर्व न्यायसे मान लेनेमें कोई  
विरोध नहीं आता ।

अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनसम्बन्धी अधःप्रवृत्तसंक्रमणके उदा-  
हरण परसे एक थद्द शंका उठ खड़ी हुई कि जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें  
क्रोधसंज्वलनकी बंधव्युच्छित्ति होने पर भी उसमें अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता रहता है,  
उसी प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थानमें निद्रा-प्रचलाके बंधव्युच्छेद हो जाने पर भी उनमें

सकमो होदि । एसो णियमो बधपयलीण । ×××× णिहा-पयला य अप्पसत्थवण्ण-गंध रस-फास-उवघादाण  
अधापवत्तसकमो गुणसकमो चेदि दो चेव सकमा । त जहा— णिहा-पयलाण मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणस्स  
पदमसत्तममागो चि ताव अधापवत्तसंकमो, एत्थ एदासिं बधुवलंमादो । उवरिं जाव सुंहुमसांपराइयचरिमसमयो चि  
ताव गुणसकमो, बधामावादो । ××× तिण्ण सजलणाण पुरिसवेदस्स च मिच्छाइट्ठिप्पहुडि जाव अणियट्ठि चि  
अधापवत्तसकमो, चरिमट्ठिदिखडयचरिमफालीए एदासिं सव्वसकमो । धवला, सक्रमअधिकार, कप्रति पत्र  
१३६३ आदि.

१ णिहा पयला असुहं वण्णचउळं च उवघादे ॥ सत्तण्हं गुणसंकममधापवत्तो ×× । गो. क. ४२१-४२२.

गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चव णीचागोदं  
चव ॥ ११० ॥

णेदं सुत्तं पुणरुत्तदोसेण दूसिज्जदि, विस्सरणालुअसिस्सस्स संभालणं पुणो पुणो  
परूवणाए दोसाभावा ।

जं तं णीचागोदं कम्मं ॥ १११ ॥

बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा  
॥ ११२ ॥

कुदो ? उवरि णीचागोदस्स बंधाभावा ।

जं तं उच्चागोदं कम्मं ॥ ११३ ॥

तमेगं ठाणमिदि अज्झाहारो कायव्वो ।

अधःप्रवृत्तसंक्रमण होना चाहिये ? इस शंकाका आचार्यने इस प्रकार निवारण किया है कि उक्त अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी प्रवृत्ति तो केवल सर्वसंक्रमणसे पूर्व सत्तामें वर्तमान शेष सब कर्मोंको विषय करती है। किन्तु जिन कर्मोंका सर्वसंक्रमण होता ही नहीं है उनमें वहां अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं हो सकता। ऐसी केवल चार ही प्रकृतियां हैं— क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेद— जिनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण और सर्वसंक्रमण होता है। निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णादि चार और उपघात, इन सात प्रकृतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण और गुणसंक्रमण ही होता है, सर्वसंक्रमण नहीं। ( देखो गो. क. ४१९-४२८। ) निद्रा और प्रचलाका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लगाकर अपूर्वकरणके प्रथम सप्तम भाग तक तो अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है, और वहां उनकी बंधव्युच्छित्ति हो जाने पर उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण बाधित होकर ऊपर सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान तक गुणसंक्रमण होता है। अतः उनकी बन्धव्युच्छित्तिके पश्चात् उनका अधःप्रवृत्तसंक्रमण नहीं होता।

गोत्र कर्मकी दो ही प्रकृतियां हैं— उच्चगोत्र और नीचगोत्र ॥ ११० ॥

यह सूत्र पुनरुक्त दोषसे दूषित नहीं होता है, क्योंकि, विस्सरणशील शिष्योंके स्मरणार्थ पुनः पुनः प्ररूपण करने पर भी कोई दोष नहीं है।

जो नीचगोत्रकर्म है, वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ १११ ॥

वह बन्धस्थान नीचगोत्रकर्मको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ११२ ॥

क्योंकि, इससे ऊपर नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता है।

जो उच्चगोत्रकर्म है, वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है ॥ ११३ ॥

यहां वह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है, इस वाक्यका ऊपरसे अभ्याहार करना चाहिए।

बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा  
सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा  
संजदस्स वा ॥ ११४ ॥

सुगममेदं ।

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं  
भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ॥ ११५ ॥

सुगममेदं ।

एदासिं पंचणहं पयडीणमेक्कमहि चेव डाणं ॥ ११६ ॥

एदं पि सुगमं ।

बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासणसम्मादिट्ठिस्स वा  
सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा  
संजदस्स वा ॥ ११७ ॥

सुगममेदं ।

एवं ठाणसमुक्कित्तणा णाम त्रिदिया चूलिया समत्ता ।

वह बन्धस्थान उच्चगोत्रकर्मको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि,  
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ११४ ॥

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें गुणस्थान तकके संयतोंका अभिप्राय है।)

अन्तराय कर्मकी पांच प्रकृतियां हैं— दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय,  
परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ११५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

इन प्रकृतियोंके समुदायात्मक पांच प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानका एक ही  
भावमें अवस्थान होता है ॥ ११६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

वह बन्धस्थान उन पांचों अन्तरायप्रकृतियोंके बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि,  
सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके  
होता है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है। (यहां संयतसे १० वें गुणस्थान तकके संयतोंका अभिप्राय है।)

इस प्रकार स्थानसमुक्तीर्त्तना नामकी द्वितीय चूलिका समाप्त हुई ।

तदिया चूलिया

इदाणिं पढमसम्मत्ताभिमुहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ  
पयडीओ कित्तइस्सामो ॥ १ ॥

पयडिसमुक्कित्तणं ट्ठाणसमुक्कित्तणं च भणिदाणंतरं तिण्णिमहादंडयपरूवणा  
किमट्टमागदा ? पढमसम्मत्ताभिमुहमिच्छादिट्ठीहि वज्झमाणपयडीओ जाणावणट्टमागदा ।  
पुव्विल्लदो चूलियाओ किमट्टमागदाओ ? ण, ताहि विणा उवरिमचूलियावगमणे उवाया-  
भावा । ण च पयडीणं सरूवमजाणंतस्सं तव्विसेसो जाणाविट्ठं सक्किज्जदे, अण्णत्थ  
तहाणुवलंभा । उवरि भण्णमाणचूलियाणमाहारभूददोचूलियाओ भणिदूण पढमसम्मत्ताभि-  
मुहत्तणेण महत्तं संपत्तजीवेहि वज्झमाणत्तादो वा ।

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं  
मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं

अव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख जीव जिन प्रकृतियोंको  
बांधता है, उन प्रकृतियोंको कहेंगे ॥ १ ॥

शंका—प्रकृतिसमुत्कीर्तन और स्थानसमुत्कीर्तनको कहनेके अनन्तर तीन महा-  
दंडकोंकी प्ररूपणा किसलिए आई है ?

समाधान—प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवोंके  
द्वारा बांधनेवाली प्रकृतियोंके ज्ञान करानेके लिए यह तीन महादंडकोंकी प्ररूपणा  
आई है ।

शंका—तो फिर पहली दो चूलिकाएं किसलिए आई हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उन पहली दो चूलिकाओंके विना आगे आनेवाली  
चूलिकाओंके समझनेका अन्य उपायका नहीं है। प्रकृतियोंके स्वरूपको नहीं जानने-  
वाले व्यक्तिको उनका विशेष नहीं बतलाया जा सकता है, क्योंकि, अन्यत्र वैसा पाया  
नहीं जाना । अथवा आगे कहे जानेवाली चूलिकाओंके आधारभूत दो चूलिकाओंको  
कहकर प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख होनेके कारण महत्त्वको संप्राप्त जीवोंके द्वारा  
बांधनेवाली होनेसे उन बध्यमान प्रकृतियोंका यहां वर्णन किया जाता है ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच अथवा  
मनुष्य, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी  
आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको बांधता है ।

च ण बंधदि । देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं  
समचउरससंठाणं वेउव्वियअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपा-  
ओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय-  
गदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-  
कित्ति-णिमिण-उच्चागोदं पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंधदि  
पढमसम्मत्ताभिमुहो सण्णिपंचिंदियतिरिक्खो वा मणुसो वां ॥ २ ॥

पंचण्हं गाणावरणीयाणमिच्चादी छट्ठीवहुवयणणिदेसा विदियाए विहत्तीए अत्थे  
दड्ढवा । 'आउगं च ण बंधदि' एत्थतणचसद्दो समुच्चयत्थे दड्ढवो, आउगं च  
अण्णाओ च ण बंधदि त्ति । काओ अण्णाओ ? असाद-इत्थी-णउंसयवेद-आउचउक्क-  
अरदि-सोग-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगइ-एइंदिय वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियजादि-ओरालिया-  
हारसरीर-णग्गोहपरिमंडल-सादिय-खुज्ज-वामण-हुंडसंठाण-ओरालियाहारसरीरंगोवंग-छ-

आयुर्कर्मको नहीं बांधता है । देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,  
कार्माणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति-  
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर,  
पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्चगोत्र  
और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥ २ ॥

'पंचण्हं गाणावरणीयाणं' इत्यादि षष्ठी विभक्तिके बहुवचनका निर्देश द्वितीया  
विभक्तिके अर्थमें जानना चाहिए । 'आउगं च ण बंधदि' इस वाक्यमें प्रयुक्त 'च' शब्द  
समुच्चयार्थक जानना चाहिए, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि आयुर्कर्मको और  
अन्य प्रकृतियोंको नहीं बांधता है ।

शंका—वे अन्य प्रकृतियां कौनसी हैं जिन्हें प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख हुआ  
संक्षी पंचेन्द्रिय तिर्यच अथवा मनुष्य नहीं बांधता ?

समाधान—असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आयुचतुष्क, अरति, शोक,  
नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतु-  
रिन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, आहारकशरीर, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वाति-  
संस्थान, कुञ्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग,

१ घादिति सादं मिच्छं कसाय पुहंसरदि मयस्त दुग । अपमत्तव्वीसुच्चं वधति विसुद्धणरतिरिया ॥  
देवतसवण्णअयुक्कउक्क समचउरतेजकम्मइय । सगमण पंचिंदी थिरादिछण्णिमिणमडवीस ॥ लघ्वि. २०-२१.

संघडण-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगदिपाओग्गाणुपुञ्जी आदाउज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि-  
थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण-अथिर-असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-तित्थयर-  
णीचागोदमिदि एदाओ ण बंधदि, विसुद्धतमपरिणामत्तादो । तित्थयराहारदुगं ण बंधदि,  
सम्मत्त-संजमाभावादो ।

एत्थ विसोधीए वड्डमाणेए सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिट्टिस्स पयडीणं बंधवोच्छेदकमो  
उच्चदे- सच्चो सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिट्टी सागरोवमकोडाकोडीए अंतो ठिदिं बंधदि', णो  
बाहिद्धा । तदो सागरोवमसदपुधत्तं हेट्ठा ओसरिदूण णिरआउअस्स बंधवोच्छेदो होदि' ।

आहारकशरीर-अंगोपांग, छहों संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु-  
पूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म,  
अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति,  
तीर्थकर और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंको विशुद्धतम परिणाम होनेसे पूर्वोक्त जीव नहीं  
बांधता है । तीर्थकर और आहारकद्विकको सम्यक्त्व और संयमका अभाव होनेसे नहीं  
बांधता है ।

अब यहां विशुद्धिके बढ़नेपर प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवके  
प्रकृतियोंके बंध-व्युच्छेदका क्रम कहते हैं— सभी अर्थात् चारों गतिसंबंधी कोई भी  
प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव एक कोड़कोड़ी सागरोपमके भीतरकी  
स्थिति अर्थात् अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी स्थितिको बांधता है । इससे बाहिर,  
अर्थात् अधिककी, कर्मस्थितिको नहीं बांधता । इस अन्तःकोड़कोड़ी सागरोपम स्थिति-  
बंधसे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे अपसरणकर नारकायुका बन्धव्युच्छेद होता है ।

विशेषार्थ— अन्तःकोड़कोड़ी सागरोपम स्थितिवंधसे नारकायुकी बन्ध-व्युच्छिप्ति  
पर्यन्त क्रम इस प्रकार पाया जाता है— उक्त स्थितिवंधसे पल्यके संख्यातवें भागसे हीन  
स्थितिको अन्तर्मुहूर्त तक समानता लिए हुए ही बांधता है । फिर उससे पल्यके संख्यातवें  
भागसे हीन स्थितिको अन्तर्मुहूर्त तक बांधता है । इस प्रकार पल्यके संख्यातवें भागरूप  
हानिके क्रमसे एक पल्य हीन-अन्तःकोड़कोड़ी सागरोपम स्थितिको अन्तर्मुहूर्त तक  
बांधता है । इसी पल्यके संख्यातवें भागरूप हानिके क्रमसे ही स्थितिबन्धापसरण  
करता हुआ दो पल्यसे हीन, तीन पल्यसे हीन, इत्यादि स्थितिको अन्तर्मुहूर्त तक बांधता

१ सम्मत्ताहिमुहमिच्छो विसोहिबड्डीहिं वड्डमाणो हु । अतोकोडाकोडिं सत्तण्ह वधण कुणई ॥ लन्धि. ९.

२ तस्मादन्त-कोटीकोटिसागरोपमप्रमितात् स्थितिबन्धात् पल्यसख्यातैकभागोना स्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावत्स-  
मानामेव बध्नाति । पुनस्तत पल्यसख्यातैकभागोनामपरा स्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावत् बध्नाति । एव पल्यसख्यातैकभागहानि-  
क्रमेण पल्योनामन्त कोटीकोटिसागरोपमस्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावद्बध्नाति । एवं पल्यसख्यातैकभागहानिक्रमेणैव पल्य-  
द्वयोना पल्यत्रयोनामित्यादिस्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावद्बध्नाति । तथा सागरोपमहीनां द्विसागरोपमहीनां त्रिसागरोपमहीना  
इत्यादिसप्ताष्टशतलक्षणसागरोपमपृथक्त्वहीनामन्त-कोटीकोटिस्थितिमन्तर्मुहूर्तं यावद्बध्नाति तदा एक नारकायुःप्रकृति-  
बन्धापसरणस्थान भवति, तदा नारकायुर्बन्धव्युच्छिप्तिर्भवतीत्यर्थः । लन्धि. गा. १०. टी. ।



तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण तिरिक्खाउअस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसद-  
 पुधत्तमोसरिदूण मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण देवाउ-  
 अस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण णिरयगदि-णिरयगदिपाओग्गाणु-  
 पुव्वीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो होदि । तदो सागरोवमसदपुधत्तं हेट्ठा ओसरिदूण सुहुम-  
 अपज्जत्त-साहारणसरीराणं अण्णोण्णसंजुत्ताणमेक्कसराहेण तिण्हं पयडीणं बंधवोच्छेदो ।  
 तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण सुहुम-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराणं तिण्हमण्णोण्णसंजुत्ताण-  
 मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण वादर-अपज्जत्त-साधारण-  
 सरीराणमण्णोण्णसंजुत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसद-  
 पुधत्तमोसरिदूण वादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराणं तिण्हमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो  
 सागरोवमसदपुधत्तं ओसरिदूण वेइंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्हं पयडीण-  
 मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण तेइंदिय-अपज्जत्ताण-

है । पुनः इसी क्रमसे आगे आगे स्थितिवंधका न्हास करता हुआ एक सागरसे हीन,  
 दो सागरसे हीन, तीन सागरसे हीन, इत्यादि क्रमसे सात आठ सौ सागरोपमोसे  
 हीन अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको जिस समय बांधने लगता है उस समय एक  
 नारकायुप्रकृति बन्धसे व्युच्छिन्न होती है । नारकायुकी बंध-व्युच्छित्तिके पश्चात् तिर्य-  
 गायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति तक उपर्युक्त क्रमसे ही स्थितिवंधका न्हास होता है और जब  
 वह न्हास सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमित हो जाता है तब तिर्यगायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति  
 होती है । यही क्रम आगे भी जानना चाहिये । इस प्रकारसे स्थितिके न्हास होनेको  
 स्थितिवंधापसरण कहते हैं ।

उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे अपसरणकर तिर्यगायुका बन्ध-व्युच्छेद  
 होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यायुका बन्ध-व्युच्छेद होता  
 है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर देवायुका बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे  
 सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी, इन दोनों  
 प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर  
 परस्पर-संयुक्त सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इन तीन प्रकृतियोंका एक साथ  
 बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे जाकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और  
 प्रत्येकशरीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है ।  
 उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इन  
 परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपम-  
 शतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, अपर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इन तीन प्रकृतियोंका  
 एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रिय-  
 जाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता  
 है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर त्रीन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर

मण्णोणसंजुत्ताणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमो-  
सरिदूण चदुरिंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोणसंजुत्ताणमेक्कसराहेण दोण्हं पयडीणं बंधवोच्छेदो ।  
तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण असण्णिपंचिंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोणसंजुत्ताणं दोण्हं  
पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो' । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण सण्णिपंचिंदिय-  
अपज्जत्ताणमण्णोणसंजुत्ताणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम-  
सदपुधत्तमोसरिदूण सुहुम-पज्जत्त-साधारणाणमण्णोणसंजुत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्क-  
सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण सुहुम-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण-  
मण्णोणसंजुत्ताणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्त-  
मोसरिदूण वादर-पज्जत्त-साधारणसरीराणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो  
सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं एइंदिय-आदाव-थावराणं च  
एदासिं छण्हं पयडीणमण्णोणसंबद्धाणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसद-  
पुधत्तमोसरिदूण वेइंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्त-  
मोसरिदूण तेइंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण

संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशत-  
पृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृति-  
योंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर  
असंखी पंचेन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ  
बंध व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर संखी पंचेन्द्रियजाति  
और अपर्याप्त, इन 'परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध व्युच्छेद होता है ।  
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर सूक्ष्म, पर्याप्त और साधारण, इन परस्पर-  
संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व  
नीचे उतरकर सूक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका  
एक साथ बंध व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, पर्याप्त  
और साधारणशरीर, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध व्युच्छेद होता है । उससे  
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, तथा एकेन्द्रिय,  
आताप और स्थावर, इन परस्पर-संबद्ध छहों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता  
है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों  
प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतर  
कर त्रीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध व्युच्छेद होता है ।  
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों

१ आऊ पडि णिरयदुगे सुहुमतिथे सुहुमदोण्णि पत्तेय । वादरसुद दोण्णि पदे अपुण्णसुद वितिचसण्णि-  
सण्णीसु ॥ लब्धि. ११.

चदुरिंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण  
 असण्णिपंचिंदिय-पज्जत्ताणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण  
 तिरिक्खगदि-( तिरिक्खगदि- ) पाओग्गाणुपुच्ची-उज्जोवाणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण  
 बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण णीचागोदस्स बंधवोच्छेदो । तदो  
 सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण अप्पसत्थविहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं चदुण्हं  
 पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण हुंडसंठाण-  
 असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम-  
 सदपुधत्तमोसरिदूण णवुंसयवेदबंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण वामण-  
 संठाण-खीलियसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम-  
 सदपुधत्तमोसरिदूण खुज्जसंठाण-अट्टणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणं एक्कसराहेण  
 बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण इत्थिवेदबंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम-  
 सदपुधत्तमोसरिदूण सादियसंठाण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण

प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतर-  
 कर असंखी पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद  
 होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानु-  
 पूर्वी और उद्योत, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे  
 सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर नीचगोत्रका बंध व्युच्छेद होता है । उससे  
 सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दु स्वर और अनादेय,  
 इन चारों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व  
 नीचे उतरकर हुंडसंस्थान और असंप्राप्तासृपाटिकाशरीरसंहनन, इन दोनों  
 प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतर-  
 कर नपुंसकवेदका बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर  
 वामनसंस्थान और कीलितशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद  
 होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर कुब्जसंस्थान और अर्धनाराच-  
 शरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरो-  
 पमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर स्त्रीवेदका बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशत-  
 पृथक्त्व नीचे उतर कर स्वातिसंस्थान और नाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका

१ अट्ट अपुण्णपदेसु वि पुण्णेण जुदेसु तेसु तुरियपदे । एहदिय आदाव धावरणाम च मिलिदव्व ॥  
 लुब्धि. १२.

२ तिरिगदुज्जोवो वि य णीचे अपसत्थगमणदुमगतिए । हुंडासंपत्ते वि य णओसए वामखीलीए ॥  
 लुब्धि. १३.

बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायण-सरीरसंघडणाणं दोण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमो-सरिदूण मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीर-संघडण-मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्चीणं पंचण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो' । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजसकित्तीणं छण्हं पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदो ।

कुदो एस बंधवोच्छेदकमो ? असुह-असुहयर-असुहतमभेएण पयडीणमवट्टाणादो । एसो पयडिबंधवोच्छेदकमो विसुज्जमाण्णाणं भव्वाभव्वमिच्छादिट्ठीणं साहारणो' । किंतु तिण्णि करणाणि भव्वमिच्छादिट्ठिस्सेव, अण्णत्थ तेसिमणुवलंभादो । भणिदं च—

खयउवसमो विसोही देसण पाओग करणलद्धी य ।

चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होइ सम्मत्ते' ॥ १ ॥

एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर न्यग्रोध-परिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यगति, औदारिक-शरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्रवृषभवज्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, इन पांचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, और अयशःकीर्त्ति, इन छहों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है ।

शंका—यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम किस कारणसे है ?

समाधान—अशुभ, अशुभतर और अशुभतमके भेदसे प्रकृतियोंका अवस्थान माना गया है । उसी अपेक्षासे यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम है ।

यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम विशुद्धिको प्राप्त होनेवाले भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके साधारण अर्थात् समान है । किन्तु अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादृष्टि जीवके ही होते हैं, क्योंकि, अन्यत्र अर्थात् अभव्य जीवोंमें वे पाये नहीं जाते हैं । कहा भी है—

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये पांच लब्धियां होती हैं । उनमेंसे प्रारंभकी चार तो सामान्य हैं, अर्थात् भव्य और अभव्य जीव, इन दोनोंके होती हैं । किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके समय भव्य जीवके ही होती है ॥ १ ॥

१ खुज्जङ्ग णाराए इत्थीवेदे य सादिणाराए । णग्गोधवज्जणाराए मणुओरालडुगवज्जे ॥ लब्धि. १४.

२ अथिर सुमग जस अरदी सोय असादे य हीति चोतीसा । बधोमरणट्टाणा भव्वासब्बेसु सामण्णा ॥ लब्धि. १५.

३ लब्धि. ३. परं तत्र चतुर्थचरणे ' करणं सम्मसचारिचे ' इति पाठः ।

एदासु पयडीसु बंधेण वोच्छिण्णासु अवसेसपयडीओ पुव्वपरुविदाओ तिरिक्ख-  
मणुसमिच्छादिह्ठी सम्मत्ताहिमुहो ताव बंधदि जाव मिच्छादिद्विचरिमसमयं पत्तो त्ति ।

एव तदियचूलिया समत्ता ।

### चउत्था चूलिया

तत्थ इमो विदियो महादंडओ कादव्वो भवदि ॥ १ ॥

पढमदंडयादो अभिण्णस्स कधमेदस्स विदियत्तं ? ण, पयडिभेदेण सामित्तभेदेण  
च भेदुवलंभा ।

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं  
मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउअं  
च ण बंधदि । मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-  
समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्जरिसहसंधडणं वण्ण-  
गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-

इन उपर्युक्त प्रकृतियोंके बन्धसे व्युच्छिन्न होनेपर पूर्व प्ररूपित अवशिष्ट  
प्रकृतियोंको सम्यक्त्वके अभिमुख तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव तत्र तक बांधता  
है, जबतक कि वह मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होता है ।

इस प्रकार तीसरी चूलिका समाप्त हुई ।

उन तीन महादंडकोंमेंसे यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है ॥ १ ॥

शंका—प्रथम महादंडकसे अभिन्न इस दंडकके द्वितीयपना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके भेदसे और स्वामित्वके भेदसे दोनों  
दंडकोंमें भेद पाया जाता है ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख देव, अथवा नीचे सातवीं पृथिवीके नारकीको  
छोड़कर शेष नारकी जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय,  
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा,  
इन प्रकृतियोंको बांधता है । किन्तु आयुर्कर्मको नहीं बांधता है । मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय-  
जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुस्रसंस्थान, औदारिकशरीर-  
अंगोपांग, वज्ररूपभनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,

परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-  
सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोदं पंचण्हमंत-  
राइयाणं एदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए  
पुढवीए णेरइयं वज्ज देवो वा णेरइओ वा ॥ २ ॥

पढममहादंडए जधा ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं बंधवाच्छेदो  
जादो, तथा ताए चैव विसोहीए वट्टमाणणं देव-णेरइयाणं तासिं पयडीणं बंधवोच्छेदो  
किण्ण जादो ? उच्चदे— ण विसोही एकल्लिया मणुस-तिरिक्खगइउदएण सहकारि-  
कारणेण वज्जिया तेसिं बंधवोच्छेदकरणक्खमा, कारणसामग्गीदो उप्पज्जमाणस्स  
कज्जस्स वियलकारणादो समुप्पत्तिविरोहा । देव-णेरइएसु तासिं धुवबंधित्तसंभवादो च  
ण बंधवोच्छेदो । एवं वज्जरिसहसंघडणस्स विणासे कारणं वत्तव्वं । ‘आउगं च ण  
बंधदि’ त्ति च-सदो समुच्चयट्टत्तादो अण्णाओ च पयडीओ अवज्जमाणाओ सूचेदि ।  
ताओ कदमाओ ? असादावेदणीय-इत्थि-णउंसयवेद-अरदि-सोग-आउचउक्क-णिरय-

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-  
शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांचों  
अन्तराय, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥ २ ॥

शंका — प्रथम महादंडकमें जिस प्रकार औदारिकशरीर और औदारिकशरीर-  
अंगोपांग, इन प्रकृतियोंका बन्ध-व्युच्छेद हुआ है, उस प्रकार उसी ही विशुद्धिमें वर्तमान  
देव और नारकियोंके उन प्रकृतियोंका बन्ध-व्युच्छेद क्यों नहीं होता ?

समाधान—सहकारी कारणरूप मनुष्यगति और तिर्यग्गतिके उदयसे वर्जित  
(रहित) अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेद करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि,  
कारण-सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाले कार्यकी विकल कारणसे उत्पत्तिका विरोध है । अर्थात्  
जो कार्य कारण-सामग्रीकी सम्पूर्णतासे उत्पन्न होता है, वह कारण-सामग्रीकी  
अपूर्णतासे उत्पन्न नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि देव और नारकियोंमें  
औदारिकशरीर आदि उन प्रकृतियोंका ध्रुवबंध संभव है, इसलिए उनका बन्ध-व्युच्छेद  
नहीं होता है ।

इसी प्रकार घज्जपभनाराचसंहननके बन्ध-व्युच्छेदमें कारण कहना चाहिए ।  
‘आउगं च ण बंधदि’ इस वाक्यमें पठित ‘च’ शब्द समुच्चयार्थक है, अतएव नहीं  
बंधनेवाली अन्य भी प्रकृतियोंको सूचित करता है ।

शंका— वे नहीं बंधनेवाली प्रकृतियां कौन सी हैं ?

समाधान—असातावेदनीय, खीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आयुं-चतुष्क,

तिरिक्ख-देवगदि-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिंदियजादि-वेउव्विय-आहारसरीरं समचउ-  
रससंठाणं वज्ज पंच संठाणं वेउव्वियाहारसरीर-अंगोवंगं वज्जरिसहसंघडणं वज्ज पंच  
संघडणं णिरय-तिरिक्ख-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी अप्पसत्थविहायगई आदाउज्जोत्र-थावर-  
सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णीचागोद-तित्थ-  
यरमिदि । एदासिं वंधवोच्छेदकमो जहा पढममहादंडए उत्तो तथा वत्तव्वो ।

एवं चउथी चूलिया समत्ता ।

### पंचमी चूलिया

तत्थ इमो तदिओ महादंडओ कादव्वो भवदिं ॥ १ ॥

एदस्स तदियत्तमउत्ते वि जाणिज्जदि, पुव्वं दोण्हं दंडयाणमुवलंभा ? ण, जुत्ति-  
वादे अकुसलसद्दाणुसारिसिस्साणुग्गहड्डत्तादो ।

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं

नरकगति, तिर्यग्गति, देवगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरि-  
न्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़कर शेष पांच  
संस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगोपांग, चक्ररूपभनाराचसंहननको  
छोड़कर शेष पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, देवगति-  
प्रायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधा-  
रणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, नीचगोत्र और  
तीर्थकर, ये नहीं बंधनेवाली प्रकृतियां हैं ।

इन प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम जिस प्रकार प्रथम महादंडकमें कहा है,  
उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए ।

इस प्रकार चौथी चूलिका समाप्त हुई ।

उन तीन महादंडकोंमेंसे यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है ॥ १ ॥

शंका— इस महादंडकके तृतीयपना नहीं कहने पर भी जाना जाता है, क्योंकि,  
इसके दो पूर्व दंडक पाये जाते हैं ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, युक्तिवादमें अकुशल ऐसे शब्दनयानुसारी शिष्योंके  
अनुग्रहके लिए यहांपर इस महादंडकके पूर्व 'तृतीय' यह शब्द कहा है ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं पृथिवीका नारकी मिथ्या-  
दृष्टि जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-

मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं  
च ण बंधदि । तिरिक्खगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-  
सरीर-समचउरससंठाण-ओरालियंगोवंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-  
रस-फास-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-( पर-  
घाद- ) उस्सासं । उज्जोवं सिया बंधदि, सिया ण बंधदि । पसत्थविहाय-  
गदि-त्तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-( सुभ- ) सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-  
जसकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ  
बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ' ॥ २ ॥

तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-णीचागोदाणं एत्थ कथं ण  
बंधो वोच्छिण्णो ? ण, सत्तमपुढोवेणरइयोमच्छादिद्विस्स सेसगदिबंधं पडि भवसंकिलेसेण  
अजोग्गस्स तिरिक्खगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदे मुच्चा सस्सकाल-

बन्धी आदि सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको  
बांधता है । किन्तु आयुर्कर्मको नहीं बांधता है । तिर्यग्गति, पंचेन्द्रियजाति,  
औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग,  
वज्ररूपभनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु,  
उपघात, परघात, उच्छ्वास, इन प्रकृतियोंको बांधता है । उद्योत प्रकृतिको कदाचित्  
बांधता है और कदाचित् नहीं बांधता है । प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त,  
प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, नीचगोत्र और  
पांचों अन्तरायकर्म, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥ २ ॥

शंका—तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, और नीचगोत्र, इन  
प्रकृतियोंकी यहांपर बन्ध-व्युच्छिन्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, भव-सम्बन्धी संक्लेशके कारण शेष गतियोंके बन्धके  
प्रति अयोग्य, ऐसे सातवीं पृथिवीके नारकी मिथ्यादृष्टिके तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायो-  
ग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रको छोड़कर सदाकाल इनकी प्रतिपक्षस्वरूप अन्य प्रकृतियोंका

१ त णरइयुच्चहीण तिरियदुणीचजुदपयडिपरिमाण । उज्जोवेण जुद वा सत्तमखिदिगा हु बधति ॥  
लब्धि. २३.



मण्णासिमेदासिं पडिवक्खपयडीणं बंधाभावा । ण च विसोहीवसेण धुवबंधीणं बंधवोच्छेदो होदि, पाणावरणादीणं पि तदो बंधवोच्छेदप्पसंगा । ण च एवं, अणवत्थावत्तीदो । 'आउअं च ण बंधदि' त्ति च-सद्देण सूचिदअवज्झमाणपयडीओ एत्थ जाणिय वत्तन्नाओ ।

एव पचमी चूलिया समत्ता ।

एवं 'कदि काओ पयडीओ बंधदि' त्ति जं पदं तस्स वक्खाणं समत्तं ।

बन्ध नहीं होता है। तथा विशुद्धिके वशसे ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध-व्युच्छेद नहीं होता है, अन्यथा उसी विशुद्धिके वशसे ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके भी बन्ध-व्युच्छेदका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वैसा माननेपर अनवस्था दोष आता है।

'आउअं च ण बंधदि' इस वाक्यमें पठित 'च' शब्दके द्वारा सूचित अवध्यमान प्रकृतियां यहां जानकर कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—'च' शब्दसे सूचित प्रकृतियां इस प्रकार हैं—असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगति, मनुष्यगति, देवगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगोपांग, वज्रनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, अर्धनाराचसंहनन, कीलितसंहनन, असंप्राप्तासृपाटिकासंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतपे, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, तीर्थकर और उच्चगोत्र । इन प्रकृतियोंको प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हुआ सातवीं पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी नहीं बांधता है ।

इस प्रकार पांचवीं चूलिका समाप्त हुई ।

इस प्रकार 'कितनी और किन प्रकृतियोंको बांधता है' यह जो सूत्रोक्त पद है, उसका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

## छठी चूलिया

केवडि कालट्टिदीएहि कम्मेहि सम्मत्तं लब्भदि वा ण लब्भदि  
वा, ण लब्भदि त्ति विभासा ॥ १ ॥

एदस्सत्थो—कम्मेहि केवडिकालट्टिदीएहि संतेहि जीवो सम्मत्तं लहदि, केवडिकाल-  
ट्टिदीएहि कम्मेहि सम्मत्तं ण लहदि त्ति एसा पुच्छा । एदस्स पुच्छासुत्तस्स दब्बट्टिय-  
णयमवलंबिय अवट्टाणादो संगहिदासेसपयदत्थस्स वक्खाणे कीरमाणे तत्थ जं ण लहदि  
त्ति पदं तस्स विहासा कीरेदे । तासिं ठिदीण परूवणं कुणंतो उक्कस्सठिदिवण्णणट्टुत्तर-  
सुत्तं भणदि—

एत्तो उक्कस्सयट्टिदिं वण्णइस्सामो ॥ २ ॥

किमट्टमेत्थ ट्टिदिपरूवणा कीरेदे ? ण, अणवगदाए कम्मट्टिदीए संगहिदासेस-  
ट्टिदिविसेसाए एसा ट्टिदी सम्मत्तगगहणजोग्गा एसा वि ण जोग्गा त्ति परूवणाए  
उवायाभावा, उक्कस्सट्टिदिं वंधंतो पढमसम्मत्तं' ण पडिवज्जदि त्ति जाणावणट्ठं वा

‘ कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा  
नहीं प्राप्त करता है, ’ इस वाक्यके अन्तर्गत ‘ अथवा नहीं प्राप्त करता है ’ इस पदकी  
व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— कितने कालस्थितिवाले कर्मोंके होते हुए जीव  
सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, और कितने कालस्थितिवाले कर्मोंके होते हुए सम्यक्त्वको  
नहीं प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है । इस पुच्छासूत्रके द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन  
कर अवस्थान होनेसे संगृहीत समस्त प्रकृत अर्थका व्याख्यान किये जाने पर उसमें जो  
‘ सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है ’ यह पद है, उसकी विभाषा की जाती है ।

उन स्थितियोंका प्ररूपण करते हुए आचार्य कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वर्णनके  
लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

अव इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिको वर्णन करेंगे ॥ २ ॥

शंका—यहांपर कर्मोंकी स्थितिका निरूपण किसलिए किया जा रहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंका संग्रह करनेवाली कर्म-  
स्थितिके ज्ञात नहीं होनेपर, यह स्थिति सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य है और यह  
स्थिति सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, इस प्रकारकी प्ररूपणा करनेका और  
कोई उपाय न होनेसे; अथवा कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाला जीव प्रथमोपशम-  
सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, इस वानका ज्ञान करानेके लिए, कर्मोंकी उत्कृष्ट

उक्कस्सट्ठिदिपरुवणा कीरदे । का ठिदी णाम ? जोगवसेण कम्मस्सरुवेण परिणदाणं पोग्गलक्खंधाणं कसायवसेण जीवे एगसरुवेणावट्ठानकालो ट्ठिदी णाम । तस्स उक्कस्सट्ठिदी चेव पढमं किमट्ठं उच्चदे ? ण, उक्कस्सट्ठिदीए संगहिदासेसट्ठिदिविसेसाए परुविदाए सव्वट्ठिदीणं परुवणासिद्धीदो ।

तं जहा ॥ ३ ॥

पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं असादावेदणीयं पंचण्हमंतराइयाणमुक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ' ॥ ४ ॥

एदेसिं उच्चकम्माणं उक्कस्सिया ट्ठिदी तीसं सागरोवमकोडाकोडीमेत्ता होदि । तत्थ एगसमयपवद्धपरमाणुपोग्गलाणं किं सव्वेसिं पि तीसं सागरोवमकोडाकोडी होदि, आहो णं होदि त्ति ? पढमपक्खे उवरि उच्चमाणआवाहा-णिसेयसुत्ताणमभावप्पसंगो,

स्थितिका निरूपण किया जा रहा है ।

शंका—स्थिति किसे कहते हैं ?

समाधान—योगके वशसे कर्मस्वरूपसे परिणत पुद्गल-स्कन्धोंका कपायके वशसे जीवमें एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थिति कहते हैं ।

शंका—उस कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंकी संग्रह करनेवाली उत्कृष्ट स्थितिके प्ररूपण किये जानेपर सर्व स्थितियोंके निरूपण की सिद्धि होती है ।

वह उत्कृष्ट स्थिति किस प्रकार है ? ॥ ३ ॥

पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, असातावेदनीय और पांचों अन्तराय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोडाकोड़ी सागरोपम है ॥ ४ ॥

इन सूत्रोक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण होती है ।

शंका—इस स्थितिबंधमें एक समयमें बंधे हुए क्या सभी पुद्गल-परमाणुओंकी स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपम होती है, अथवा सबकी नहीं होती है ? प्रथम पक्षके माननेपर आगे कहे जानेवाले आवाधा और निपेकसम्बन्धी सूत्रोंके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि, समान स्थितिवाले कर्म-स्कन्धोंमें आवाधा, निपेक और विशेष

१ आदित्तित्तमृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटिकोट्य परा स्थितिः ॥ त. घ. ८, १४ तीस कोडाकोड़ी तिषादितदिपुसु ॥ गो. क १२७. .

२ प्रतिषु 'कोडाकोड़ी आहृण' इति पाठः ।

समाणट्ठिदिकम्मक्खंधेसु आवाधा-णिसेग-विसेसाणमत्थित्तविरोहा । विदियपक्खे णाणा-  
वरणादीणं तीसं सागरोवमकोडाकोडी ट्ठिदि त्ति ण घडदे, तदो समऊणादिट्ठिदीणं पि  
तत्थुवलंभादो ? एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा- ण ताव एगसमयपवद्धपरमाणु-  
पोग्गलाणं पुध पुध णाणावरणविवक्खा एत्थ अत्थि<sup>१</sup>, णाणावरणस्स अणंतियप्पसंगादो ।  
ण णिसेयं पडि णाणावरणववएसो अत्थि, तस्स असंखेज्जत्तप्पसंगादो । तदो मदि-सुद-  
ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणसामणस्स मदि-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणत्त-  
मिच्छिज्जदे, अण्णहा णाणावरणपयडीणं पंचयत्तविरोहादो । एत्थ वि ण पढमपक्खउत्त-  
दोसो, अणब्भुवगमादो । ण विदियपक्खउत्तदोसो वि, तदो समऊणादिट्ठिदीणं उक्कस्स-  
ट्ठिदीदो दच्चट्ठियणयावलंणो<sup>२</sup> अपुधभूदाणं पुधणिहेसाणुववचीदो ।

अर्थात् हानिवृद्धि प्रमाण (चय) के अस्तित्व माननेमें विरोध आता है । द्वितीय पक्षके माननेपर ज्ञानावरणादि सूत्रोक्त कर्मोंकी तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थिति घटित नहीं होती है, क्योंकि, उस उत्कृष्ट स्थितिसे एक समय कम आदि स्थितियां भी उन कर्मोंमें पाई जाती हैं ?

समाधान—यहां पर उक्त आशंकाका परिहार कहते हैं । वह इस प्रकार है—  
यहांपर न तो एक समयमें वंधे हुए पुद्गल-परमाणुओंके पृथक् पृथक् ज्ञानावरण-कर्मकी विवक्षा है, क्योंकि, वैसा माननेपर ज्ञानावरणकर्मके अनन्तताका प्रसंग आता है । न यहांपर एक एक निपेकके प्रति 'ज्ञानावरण' ऐसा व्यपदेश (नाम) किया गया है, क्योंकि, वैसा माननेपर ज्ञानावरण कर्मके असंख्येयताका प्रसंग आता है । इसलिये मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, और केवलज्ञानके आवरणसामान्यके मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल-ज्ञानावरणता मानी गई है । अर्थात् यहां मति, श्रुत आदि ज्ञानावरणोंके भेद-प्रभेदोंकी विवक्षा नहीं की गई; किन्तु, मति, श्रुत आदि पांच भेदोंकी सामान्यसे ही विवक्षा की गई है । यदि ऐसा न माना जाय, तो ज्ञानावरणकी प्रकृतियोंके 'पांच' इस संख्याका विरोध आता है । तथा ऐसा माननेपर भी प्रथम पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि, वैसा माना नहीं गया है । अर्थात् एक समयमें वंधे हुए पांचों ज्ञानावरणीय कर्मोंके समस्त पुद्गल-परमाणुओंकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण ही स्वीकार नहीं की गई है । इसी प्रकार द्वितीय पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करने पर उस उत्कृष्ट स्थितिसे अपृथग्भूत एक समय कम, दो समय कम आदि स्थितियोंके पृथक् निर्देशकी आवश्यकता नहीं रहती ।

१ दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेणं हिदे । इट्ठे पढमणिसेये विसेसमागच्छे तत्थ ॥ गो. क. ९२८.

२ कप्रतौ ' गत्थि ' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा 'लणो' इति पाठः ।

संपहि दव्वट्टियणयदेसणाए वाउलिदचित्तस्स पज्जवट्टियणयसिस्सस्स मदिवाउल्लं-  
विणासणहं पज्जवट्टियणयदेसणा कीरेदे—

### तिण्णि वाससहस्साणि आवाधा ॥ ५ ॥

ण वाधा आवाधा, आवाधा चेव आवाधा । जम्हि समयपवद्धम्हि तीसं  
सागरोवमकोडाकोडिडिदीया परमाणुपोग्गला अत्थि, ण तत्थ एगसमयकालट्टिदीया  
परमाणुपोग्गला संभवन्ति, विरोहादो । एवं दो तिण्णि आदिं कादूण जा उक्कस्सेण तिण्णि  
वाससहस्समेत्तकालट्टिदीयां वि परमाणुपोग्गला णत्थि । कुदो ? सहावदो । 'न हि  
स्वभावाः परपर्यनुयोगार्हाः' । एसा उक्कस्सिया आवाहा । एगसमयपवद्धो तीसं  
सागरोवमकोडाकोडीडिदिपोग्गलक्खंधेहि अप्पणो असंखेज्जदिभागेहि सहिदो ओकड्डणाए  
विणा ट्टिदिक्खण्णेत्तियं कालं उदयं णागच्छदि त्ति उत्तं होदि । समउण-दुसमउणादि-  
तीसं सागरोवमकोडाकोडीणं पि एसा आवाधा होदि जाव समउणावाधाकंडएणूण-

अव, द्रव्यार्थिकनयकी देशनासे व्याकुलित चित्तवाले, पर्यायार्थिकनयी शिष्यकी  
बुद्धि-व्याकुलताको दूर करनेके लिए आचार्य पर्यायार्थिकनयकी देशना करते हैं—

पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि कर्मोंका आवाधाकाल तीन हजार वर्ष है ॥ ५ ॥

वाधाके अभावको आवाधा कहते हैं और आवाधा ही आवाधा कहलाती है । जिस  
समयप्रबद्धमें तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले पुद्गलपरमाणु होते हैं, उस  
समयप्रबद्धमें एक समयप्रमाण काल-स्थितिवाले पुद्गलपरमाणु रहना संभव नहीं है,  
क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है । इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थितिवाले समय-  
प्रबद्धमें दो समय, तीन समयको आदि करके तीन हजार वर्ष प्रमित काल-स्थितिवाले  
भी पुद्गल परमाणु नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है, और स्वभाव अन्यके प्रश्न योग्य  
नहीं हुआ करते हैं' ऐसा न्याय है । पूर्व सूत्रोक्त कर्मोंकी यह उत्कृष्ट आवाधा है । एक  
समयप्रबद्ध अपने असंख्यातवै भागप्रमाण तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले पुद्गल-  
स्कंधोंसे सहित होता हुआ अपकर्षणके द्वारा विना स्थिति-क्षयके इतने, अर्थात् तीन हजार  
वर्ष-प्रमित, काल तक उदयको नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया है । एक समय कम  
तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम, दो समय कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम, इत्यादि क्रमसे  
एक समय-हीन आवाधाकांडकसे कम तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम-प्रमित उत्कृष्ट स्थिति

१ प्रतिष्ठा 'मदिवाउल्ल' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा '-मेक्ककालट्टिदीया' इति पाठः ।

३ प्रतिष्ठा 'परपर्यनुयोगार्हा' इति पाठः ।

४ उक्कस्सट्टिदिक्खे सयलावाहा हु सव्वठिदिरयणा । तक्काले दीसदि तोऽधोऽधो वधट्टिदीण च ॥  
आवाधाण विदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो द्द । पढमो विदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेओ दु ॥  
गो. क. ९४०-९४१.

५ कम्मसरूवेणागयदव्व ण य एदि उदयरूवेण । रूवेणुदीरणस्स व आवाहा जाव ताव हवे ॥ गो. क. १५५.

उक्कस्सड्ढिदि ति । कधमावाधाकंडयस्सुप्पत्ती ? उक्कस्साबाधं विरलिय उक्कस्सड्ढिदिं समखंडं करिय दिण्णे रूवं पडि आवाधाकंडयपमाणं पावेदिं । तत्थ रूवूणावाधाकंडय-मेत्तड्ढिदीओ जाओ उक्कस्सड्ढिदीओ जा ओहड्ढंति ताव सा चेव उक्कस्सिया आवाधा होदि । एगावाधाकंडएणूणउक्कस्सड्ढिदिं बंधमाणस्स समऊणतिण्णिवाससहस्साणि आवाधा होदि । एदेण सरूवेण सच्चड्ढिदीणं पि आवाधापरूवणं जाणिय कादव्वं । णवरि दोहिं आवाधाकंडएहिं ऊणियमुक्कस्सड्ढिदिं बंधमाणस्स आवाधा उक्कस्सिया दुसमऊणा होदि । तीहि आवाधाकंडएहि ऊणियमुक्कस्सड्ढिदिं बंधमाणस्स आवाधा उक्कस्सिया

तकके पुद्गलस्कंधोंकी भी यही, अर्थात् तीन हजार वर्षकी, आवाधा होती है ।

शंका—आवाधाकांडककी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—उत्कृष्ट आवाधाकालको विरलन करके उसके ऊपर उत्कृष्ट स्थितिके समान खंड करके एक एक रूपके प्रति देनेपर आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है ।

उदाहरण—मान लो उत्कृष्ट स्थिति ३० समय, अवाधा ३ समय । तो  $\frac{१०}{१} \frac{१०}{१} \frac{१०}{१}$   
अर्थात्  $\frac{३}{१} = १०$  यह आवाधाकांडकका प्रमाण हुआ । और उक्त स्थितिवन्धके भीतर ३ आवाधाके भेद हुए ।

विशेषार्थ—कर्म-स्थितिके जितने भेदोंमें एक प्रमाणवाली आवाधा होती है, उतने स्थितिभेदोंके समुदायको आवाधाकांडक कहते हैं । विवक्षित कर्म-स्थितिमें आवाधाकांडकका प्रमाण जाननेका उपाय यह है कि विवक्षित कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमें उसीकी उत्कृष्ट आवाधाका भाग देनेपर जो भजनफल आता है, तत्प्रमाण ही उस कर्म-स्थितिमें आवाधाकांडक होता है । यही बात ऊपर विरलन-देयके क्रमसे समझाई गई है । इस प्रकार जितने स्थितिके भेदोंका एक आवाधाकांडक होता है, उतने स्थितिभेदोंकी आवाधा समान होती है । यह कथन नाना समयप्रवद्धोंकी अपेक्षासे है ।

उन कर्मस्थितिके भेदोंमें एक समय, दो समय आदिके क्रमसे जब तक एक समय हीन आवाधाकांडकमात्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थितिसे कम होती हैं तब तक उन सब स्थितिचिकल्पोंकी वही, अर्थात् तीन हजार वर्ष-प्रमित, उत्कृष्ट आवाधा होती है । एक आवाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले समयप्रवद्धके एक समय कम तीन हजार वर्ष की आवाधा होती है । इसी प्रकार सभी कर्म-स्थितियोंकी भी आवाधा-सम्बन्धी प्ररूपणा जानकर करना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि दो आवाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रवद्धकी उत्कृष्ट आवाधा दो समय कम होती है । तीन आवाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रवद्धकी उत्कृष्ट

तिसमऊणा । चउहि आवाधाकंडएहि ऊणियमुक्कस्सट्टिदिं बंधमाणस्स आवाधा उक्कस्सिया चदुसमऊणा । एवं णेदव्वं जाव जहण्णट्टिदि ति । सव्वावाधाकंडएसु वीचारद्वानत्तं पत्तेसु समऊणावाधाकंडयमेत्तट्टिदीणमवट्टिदा आवाधा होदि ति घेत्तव्वं ।

**आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ' ॥ ६ ॥**

आवाधाए अवगदाए तदुवरि कम्मणिसेगो' होदि ति अउत्ते वि जाणिज्जदि,

आवाधा तीन समय कम होती है । चार आवाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले समयप्रवद्धकी उत्कृष्ट आवाधा चार समय कम होती है । इस प्रकार यह क्रम विवक्षित कर्मकी जघन्य स्थिति तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार सर्व आवाधाकांडकोंके वीचारस्थानत्व, अर्थात् स्थितिभेदोंको, प्राप्त होनेपर एक समय कम आवाधाकांडकमात्र स्थितियोंकी आवाधा अवस्थित, अर्थात् एक सी, होती है, यह अर्थ जानना चाहिए ।

उदाहरण—मान लो उत्कृष्ट स्थिति ६४ समय और उत्कृष्ट आवाधा १६ समय है । अतएव आवाधाकांडका प्रमाण  $\frac{६४}{१६} = ४$  होगा ।

मान लो जघन्य स्थिति ४५ समय है । अतएव स्थितिके भेद ६४ से ४५ तक होंगे जिनकी रचना आवाधाकांडकोंके अनुसार इस प्रकार होगी—

( १ ) ६४, ६३, ६२, ६१ —	उत्कृष्ट आवाधा
( २ ) ६०, ५९, ५८, ५७ —	एक समय कम ,,
( ३ ) ५६, ५५, ५४, ५३ —	दो ,, ,,
( ४ ) ५२, ५१, ५०, ४९ —	तीन ,, ,,
( ५ ) ४८, ४७, ४६, ४५ —	चार ,, ,,

ये पांच आवाधाके भेद हुए । आवाधाकांडक  $४ \times ५$  ( आवाधा-भेद ) = २० स्थिति-भेद । स्थिति-भेद  $२० - १ = १९$  वीचारस्थान ।

इन्हीं वीचारस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटाने पर जघन्यस्थिति प्राप्त होती है । स्थितिकी क्रमहानि भी इतने ही स्थानोंमें होती है । इस प्रकार 'जेट्टावाहोवट्टिय.' (गो. क. १४७) के अनुसार गणितक्रमसे निकले हुए स्थितिके भेदोंको वीचारस्थान समझना चाहिए ।

पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निषेककाल होता है ॥ ६ ॥

शंका—आवाधाके जान लेनेपर उसके ऊपर अर्थात् आवाधाकालके पश्चात् कर्म-

१ आवाधूणियकम्मट्टिदीणिसेगो इ सत्तकम्मार्णं । गो. क. १६०, ११९.

२ निषेचन निषेक कम्मपरमाणुक्खघणिकस्सेवो णिसेगो णाम । धवला, अ. प्र. प. ९४०.

तदो णेदं सुत्तं वत्तव्वमिदि ? ण, पवयणे अणुमाणस्स पमाणस्स पमाणत्ताभावादो । आगमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण अणिंदियत्थविसओ अचित्तियसहाओ जुत्ति-गोयरादीदो । तदो ण तत्थ लिंगवलेण किंचि वोत्तुं सक्किज्जदि । तम्हा सुत्तमिदमाढवेदव्वं चेव । अधवा आवाधादो उवरि णिसेयरचना होदि त्ति जदि वि जुत्तीए णव्वदि, तो वि किमुवरिमसव्वट्ठिदीसु परमाणुपोग्गलरचना समाणा होदि, आहो असमाणा त्ति ण णव्वदे । तदो पदेसरयणासरूवपदंसणहुं वा आढवेदव्वमिदं सुत्तं । संपहि उक्कस्सट्ठिदीए पदेसरचणक्कमं परूवेमो । तं जहा- समयपवद्धस्स सव्वपदेसा अभवसिद्धिएहि अणंत-गुणा, सिद्धाणमणंतभागमेत्ता जदि वि होंति, तो वि संदिट्ठीए तिसट्ठिसदमेत्ता त्ति ते धेत्तव्वा ६३००' । एत्थ णाणागुणहाणिसलागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता होंति । तं जहा- पढमणिसेओ अवट्ठिदहाणीए जेत्तियमद्धानं गंतूण अद्धं होदि तमद्धानं गुणहाणि त्ति उच्चदि । तस्स एगा सलागा णिक्खिविदव्वा । पुणो तत्तियं चेव अद्धान-निषेक होता है, यह बात नहीं कहनेपर भी जानी जाती है, अतएव यह सूत्र नहीं कहना चाहिए ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रवचन ( परमागम ) में अनुमान प्रमाणके प्रमाणता नहीं मानी गई है । जो केवलज्ञानपूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदार्थोंको विषय करनेवाला है, अचिन्त्य-स्वभावी है और युक्तिके विषयसे परे है, उसका नाम आगम है । अतएव उस आगममें लिंग अर्थात् अनुमानके बलसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । इसलिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए । अथवा, आवाधासे ऊपर निषेक-रचना होती है, यह बात यद्यपि युक्तिसे जानी जाती है, तथापि क्या ऊपरकी सर्व स्थितियोंमें पुद्गल-परमाणुओंकी रचना समान होती है, अथवा असमान होती है, यह बात नहीं जानी जाती है । अतएव प्रदेश-रचनाके स्वरूपको वतलानेके लिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए ।

अव उत्कृष्ट स्थितिकी प्रदेश-रचनाके क्रमको कहते हैं । वह इस प्रकार है— यद्यपि एक समयप्रवद्धके सर्व प्रदेश अभव्यसिद्धिक जीवोंसे अनन्तगुणित और सिद्ध जीवोंके अनन्तवें भागमात्र होते हैं, तथापि संदृष्टिमें उन्हें तिरेसठ सौ (६३००) संख्या-प्रमाण ग्रहण करना चाहिए । यहां, अर्थात् एक समयप्रवद्धमें, नानागुणहानिशलाकारं पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होती हैं । उनका स्पष्टीकरण यह है—प्रथम निषेक अवस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है, उस अध्वानको 'गुणहानि' कहते हैं । उस गुणहानिकी एक शलाका पृथक् स्थापन करना चाहिए । पुनः उतने ही अध्वान-

१ दव्व ठिदिगुणहार्णाणद्धान दलसला णिसेयच्छिदी । अण्णोण्णगुणसला वि य जाणेज्जो सव्वठिदिरयणे ॥  
तेवट्ठिं च सयाइ अढदाला अट्ट छक्क सोलसय । चउसट्ठिं च त्रिजाणे दव्वादीणं च सदिट्ठी ॥ गो क. ९२३-९२४.



गुणरि गंतूण पक्खेवो पदणिसेयस्स चदुभागो होदि । एदमद्धानं विदिया दुगुणहाणि  
त्ति विदिया सलागा णिक्खिविदव्वा । एवं णेयव्वं जाव कम्मट्ठिदिचरिमगुणहाणि त्ति ।  
एदासिं सलागाणं सव्वसमासो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो मोहणीयणाणागुणहाणि-  
सलागाणं तिण्णिसत्तभागमेत्ता त्ति उत्तं होदि । मोहणीयणाणागुणहाणिसलागा पुण  
परमगुरूवदेसेण पलिदोवमवग्गसलागद्धच्छेदणूपलिदोवमद्धच्छेदणयमेत्ता । णाणागुणहाणि-  
सलागाहि कम्मट्ठिदिमिह भागे हिदे गुणहाणी (आगच्छदि । सा) सव्वकम्मणं समाणा ।  
कुदो ? भज्जमाणाणुसारिभागहारादो । सव्वमेदं दव्वं पढमणिसेयपमाणेण कीरमाणे  
दिवङ्गुणहाणिमेत्ता पढमणिसेया होंति । कुदो ? पढमगुणहाणिमिह पदिददव्वादो  
विदियादिगुणहाणीसु पदिददव्वस्स दुभाग-चदुव्वभागत्तादिदंसणादो । तं पि कुदो ?

प्रमाण ऊपर जाकर प्रक्षेप पद-निषेकके, अर्थात् प्रथम गुणहानिसम्बन्धी प्रथम निषेकके,  
चतुर्भागप्रमाण हो जाता है । इस अध्वानको दूसरी दुगुणहानि कहते हैं, अतएव उसकी  
दूसरी शलाका पृथक् स्थापन करना चाहिए । इस प्रकार यह क्रम कर्मस्थितिकी अन्तिम  
गुणहानि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इन शलाकाओंका समस्त जोड़ पल्योपमके  
असंख्यातर्वे भागमात्र होता है, जो कि मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाओंके तीन  
वटे सात ३) भागप्रमाण होता है, यह अर्थ कहा गया है । मोहनीयकर्मकी नानागुण-  
हानिशलाकाएं तो परम गुरुके उपदेशानुसार पल्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्धच्छेदोंसे  
कम पल्योपमके अर्धच्छेदोंके प्रमाण होती है ।

उदाहरण— मान लो, पल्योपम = ६५५३६ है । इसके अनुसार पल्योपमकी वर्ग-  
शलाका ४, पल्योपमके अर्धच्छेद १६, और पल्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्धच्छेद २ होंगे ।  
अतः मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं १६ - २ = १४ होंगी । और ज्ञानावरणादि  
कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं १४ × ३ = ६ होंगी ।

नानागुणहानि-शलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका  
प्रमाण आता है । वह गुणहानि सर्व कर्मोंकी समान होती है, क्योंकि भज्यमान राशिके  
अनुसार भागहार होता है । यह सर्व द्रव्य प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर डेढ़ गुण-  
हानि-प्रमित प्रथम निषेकप्रमाण होता है । इसका कारण यह है कि प्रथम गुणहानिमें  
पतित द्रव्यसे द्वितीयादि गुणहानियोंमें पतित द्रव्य द्विभाग, चतुर्भाग आदि क्रमसे  
देखा जाता है । और इसका भी कारण यह है कि एक एक, गुणहानिके प्रति आधे,

१ प्रतिषु ' -णयता ' इति पाठ ।

२ सव्वासिं पयडीण णिसेयहारो य एयगुणहाणी । सरिसा हवति ××× ॥ गो क. ९३२.

गुणहाणिं पडि अद्धद्धकमेण गोवुच्छविसेसाणं गमणुवलंभां । तं हि अवड्ढिदेण णिसेग-  
भागहारेण दोगुणहाणिपमाणेणं विहज्जमाणपढमणिसेयाणमद्धद्धत्तुवलंभादो णव्वदे ।  
एवमागददेसूणदिवड्ढुगुणहाणीए संदिट्ठीए पणुवीसरूवूणसोलहसदाणं अट्ठावीससदभाग-  
मेत्ताए १<sup>५०५</sup>/<sub>१२८</sub> समयपवद्धे भागे ( हिदे ) पढमणिसेओ आगच्छदि । एवं सव्वणिसेयाणं  
भागहारो जाणिय उप्पादेदव्वो ।

आधेके आधे, इत्यादि क्रमसे गोपुच्छा-विशेषोंका गमन पाया जाता है । यह बात भी  
दोगुणहानिप्रमाण अवस्थित निषेकभागहारसे विभज्यमान प्रथम निषेकोंके उत्तरोत्तर  
आधे आधे प्रमाण पाये जानेसे जानी जाती है । इस प्रकार आये हुए देशोन डेढ़ गुण-  
हानिके प्रमाणसे, जो कि संदष्टिमें पच्चीससे कम सोलह सौके एक सौ अट्ठाईसवें  
भागमात्र  $\frac{1505}{128}$  होता है, उससे समयप्रवद्धमें भाग देनेपर ( पांच सौ वारह ५१२ संख्या-  
प्रमाण ) प्रथम निषेक आता है ।

इस प्रकार सर्व निषेकोंके भागहार जान करके उत्पन्न करना चाहिये ।

उदाहरण—द्रव्य ६३००, भागहार  $\frac{1505}{128}$  ।  $6300 \times \frac{1505}{128} = 742$ . यह प्रथम-  
निषेकका प्रमाण है । डेढ़ गुणहानिका प्रमाण यथार्थतः  $8 + 4 = 12$  होता है । पर संदष्टिमें  
जो भागहार बतलाया है वह डेढ़ गुणहानिसे अधिक होता है— $\frac{1505}{128} = 12 \frac{1}{128}$  तो  
भी इसे डेढ़ गुणहानिसे कुछ अधिक ( देसाहिय ) न कहकर कुछ कम ( देसूण ) कहा  
है । आगे भी यही बात पायी जाती है । किन्तु अभिप्राय स्पष्ट है ।

विशेषार्थ—आगे सूत्र नं. ३२ की टीकामें उद्धृत गाथाके द्वारा द्वितीयादि  
निषेकोंके भागहार उत्पन्न करनेकी रीति यह बतलाई गयी है कि प्रथम निषेकके भागहारमें  
इच्छित निषेकका भाग और प्रथम निषेकका गुणा करनेसे इच्छित निषेकका भागहार  
निकल आता है । इस नियमके अनुसार प्रथम गुणहानिके द्वितीयादि सात निषेकोंके

भागहार निम्न प्रकार हुए—  
 $\frac{1505}{128} \times \frac{2}{812}$ ;  $\frac{1505}{128} \times \frac{3}{812}$ ;  $\frac{1505}{128} \times \frac{4}{812}$ ;  
 $\frac{1505}{128} \times \frac{5}{812}$ ;  $\frac{1505}{128} \times \frac{6}{812}$ ;  $\frac{1505}{128} \times \frac{7}{812}$ ;  
 $\frac{1505}{128} \times \frac{8}{812}$ ;

किन्तु इस नियमके अनुसार अभीष्ट निषेकका भागहार उत्पन्न करनेके लिए उस  
निषेकका प्रमाण पहलेसे ही ज्ञात होना चाहिये ।

१ आवाह बोलाविय पढमणिसेगम्मि देय बहुग तु । ततो विसेसहीण विदियस्सादिमणिसेओ षि ॥  
निदिये विदियणिसेगे हाणी पुव्विहज्जहाणिअद्ध तु । एव गुणहाणिं पडि हाणी अद्धद्धय होदि ॥ गो. क. १६१-१६२.  
तथा ९२०-९२१.

२ दोगुणहाणिपमाण णिसेयहारो दु होइ ॥ गो. क. ९२८.

३ प्रतिषु ' -उव्वट्ट- ' इति पाठ. ।

एत्थ णिसेगाणं संदिद्धी ५१२ | ४८० | ४४८ | ४१६ | ३८४ | ३५२ | ३२० |  
 २८८ | २५६ | २३० | २२४ | २०८ | १९२ | १७६ | १६० | १४४ | १२८ | १२० |  
 ११२ | १०४ | ९६ | ८८ | ८० | ७२ | ६४ | ६० | ५६ | ५२ | ४८ | ४४ | ४० | ३६ |  
 ३२ | ३० | २८ | २६ | २४ | २२ | २० | १८ | १६ | १५ | १४ | १३ | १२ | ११ |  
 १० | ९ | एसा संदिद्धी आवाहणकम्मडिदीए । सयलकम्मडिदीए किण्ण होदि ? ण,  
 आवाहणभंतरे पदेसणिसेयाभावादो । ण च एवं वेप्पमाणे चरिमगुणहाणिअद्वानं तीहि  
 वाससहस्सेहि ऊणयं होदि, णाणागुणहाणिसलागाहि आवाहणकम्मडिदीए ओवडिदाए  
 एयगुणहाणिआयामपमाणुवलंभादो । ण च णिसेगाडिदीए कम्मडिदिएयत्तमसिद्धं,

यहांपर सर्व निपेकोकी संदष्टि इस प्रकार है—

गुणहानि आयाम	प्रथम गुणहानि	द्वितीय गुण.	तृतीय गुण.	चतुर्थ गुण.	पंचम गुण.	षष्ठ गुण.
१	५१२	२५६	१२८	६४	३२	१६
२	४८०	२४०	१२०	६०	३०	१५
३	४४८	२२४	११२	५६	२८	१४
४	४१६	२०८	१०४	५२	२६	१३
५	३८४	१९२	९६	४८	२४	१२
६	३५२	१७६	८८	४४	२२	११
७	३२०	१६०	८०	४०	२०	१०
८	२८८	१४४	७२	३६	१८	९
सर्वद्रव्य	३२००	+ १६००	+ ८००	+ ४००	+ २००	+ १०० = ६३००

यह संदष्टि आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिकी है ।

शंका—यह संदष्टि समस्त कर्मस्थितिकी क्यों नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, आवाधाकालके भीतर प्रदेशोकी निपेक-रचनाका अभाव होता है । तथा ऐसा माननेपर अन्तिम गुणहानिका अध्वान तीन हजार वर्षोंसे कम भी नहीं होता है, क्योंकि, नाना-गुणहानि-शलाकाओंसे आवाधा रहित कर्म-स्थितिके अपवर्तित करनेपर एक गुणहानिके आयाम, अर्थात् कालका प्रमाण प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहां टीकाकार द्वारा दी हुई निपेकोंकी संदष्टि निम्न कल्पनाओंके आधारसे की गई है— उत्कृष्टस्थिति = ६४ समय; आवाधा = १६ समय; निपेक-स्थिति ६४ - १६ = ४८ समय; समयप्रवद्धमें पुद्गलपरमाणुओंकी संख्या ६३०० ।

तथा, निपेक-स्थितिका कर्म-स्थितिसे एकत्व आसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि,

१ प्रतिषु 'कम्मडिदीएत्तमसिद्धं' इति पाठः ।

णिसेयाहियोरे णिसेगट्ठिदीए चेव कम्मट्ठिदि त्ति ववहारदंसणादो, कम्मपदेसा चिट्ठंति एत्थ इदि ट्ठिदिसद्दुत्पत्तिअवलंबमाणादो वा । तेण णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मट्ठिदीए ओवट्ठिदाए एगगुणहाणिमद्धानं आगच्छदि त्ति जं पुत्राइरियवक्खाणं तण्ण विरुज्झदे । संपुण्णाए कम्मट्ठिदीए णाणागुणहाणिसलागाहि ओवट्ठिदाए एगगुणहाणिअद्धानमागच्छदि त्ति किण्ण धेप्पदे ? ण, तिण्हं वाससहस्साणं णिसेगट्ठिदीसु असंताणं फलभावेण मज्झिम-रासिग्गिह पवेशाणुववत्तीदो । तम्हा णिसेगट्ठिदिं चेव कम्मट्ठिदि त्ति धेत्तूण एयगुणहाणि-अद्धानं साहेयव्वं ।

निषेकके अधिकारमें निषेक-स्थितिमें ही कर्म-स्थितिका व्यवहार देखा जाता है । अथवा, 'कर्म प्रदेश जिसमें ठहरते हैं' इस प्रकार स्थिति शब्दकी व्युत्पत्तिके अचलम्बन करनेसे भी निषेक-स्थितिको कर्म-स्थिति कहना बन जाता है । अतएव 'नाना-गुणहानि-शलाकाओंसे कर्म-स्थितिके अपवर्तित करनेपर एक गुणहानिका अध्वान (आयाम) आता है' इस प्रकार जो पूर्वाचार्योंका व्याख्यान है, वह भी विरोधको नहीं प्राप्त होता है ।

शंका—'सम्पूर्ण कर्म-स्थितिको नाना-गुणहानिशलाकाओंसे अपवर्तित करनेपर एक गुणहानिका आयाम आता है' ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, फल देनेकी अपेक्षा निषेक-स्थितियोंमें अविद्यमान तीन हजार वर्षोंका मध्यम राशिमें, अर्थात् भज्यमान राशिमें, प्रवेश नहीं हो सकता । इसलिए निषेक-स्थितिको ही कर्म-स्थिति मानकर एक गुणहानिका आयाम सिद्ध करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां सूत्रकारने निषेकोंके स्थिति-भेदोंको उत्पन्न करनेके पहले निषेक-स्थितिका निर्णय किया है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे आवाधाकालको घटा देनेपर निषेक-स्थिति शेष रह जाती है । इस निषेक-कालमें धवलाकारने गुणहानियों आदिके द्वारा निषेक-स्थितियोंका निर्णय किया है । यहां प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दूसरे आचार्योंने तो कर्म-स्थिति और निषेक-स्थितिका भेद न करके कर्म-स्थितिमें ही नाना-गुणहानियोंका भाग देकर गुणहानि-आयाम उत्पन्न करनेका उपदेश दिया है, अतएव प्रस्तुत उपदेशका उक्त व्याख्यानसे विरोध उत्पन्न होता है ? इसका समाधान धवलाकारने इस प्रकार किया है कि पूर्व आचार्योंका भी वहां कर्मस्थितिसे अभिप्राय इसी निषेक-कालसे रहा है, क्योंकि, निषेक अधिकारमें निषेकस्थितिके लिए ही कर्मस्थिति शब्दका व्यवहार देखा जाता है । आवाधाकालको पृथक् किये बिना कर्मस्थितिमें नाना-गुणहानियोंका भाग तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि, आवाधाकालमें तो निषेक-रचना होती ही नहीं है, और इसलिए उस कालको शामिल करनेकी कोई सार्थकता नहीं । इस प्रकार पूर्वाचार्योंके उपदेशसे भी कोई विरोध नहीं आता और निषेक-रचनाके गणितमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती ।

एत्थ णिसेयक्कमो उच्चदे । तं जहा- णाणागुणहाणिसलागगच्छमेगादिदुगुण-  
संकलणमाणिय तीए समयप्रवद्धे भागे हिदे जं लद्धं तेण अंतादिधणे गुणिदे पढमादिगुण-  
हाणिद्वं होदि । तम्हि एगगुणहाणीए तीहि चउवभागेहि एगरूवस्स चउवभागेण-  
व्भहिएहि भागे हिदे पढमणिसेओ होदि । तम्हि दोगुणहाणीहि भागे हिदे गोउच्छ-

अब यहां निषेक-क्रमको कहते हैं । वह इस प्रकार है— नानागुणहानि-  
शलाकाओंको गच्छ मानकर तत्प्रमाण एकको आदि लेकर दुगनी दुगनी संख्या लो  
और उसका योग करलो । इस संकलनका जो फल आवे, उससे समयप्रवद्धमें भाग  
देनेपर जो लब्ध होगा उससे पूर्वोक्त दुगुण-क्रमके अंतिम आदिधनमें गुणा करनेसे  
क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होगा ।

उदाहरण—समयप्रवद्ध = ६३००, नानागुणहानिशलाका = ६, अतएव गुणहानि-  
शलाका गच्छका एकादि-द्विगुण-संकलन हुआ— १ २ ३ ४ ५ ६

$$१ + २ + ४ + ८ + १६ + ३२ = ६३.$$

$\frac{६३००}{६} = १००$  । अतः ६ गुणहानियोंका द्रव्य इस प्रकार होगा—

१०० × ३२ = ३२००	प्रथम गुणहानिका द्रव्य.
१०० × १६ = १६००	द्वितीय            ”
१०० × ८ = ८००	तृतीय             ”
१०० × ४ = ४००	चतुर्थ             ”
१०० × २ = २००	पंचम              ”
१०० × १ = १००	षष्ठ                ”

६३०० समस्त द्रव्यका प्रमाण.

इन गुणहानियोंके द्रव्योंमेंसे किसी भी एक गुणहानिसंबंधी द्रव्यमें गुणहानि-  
प्रमाण ( आयाम ) के त्रिचतुर्थांशमें एक रूपका चतुर्थभाग ( $\frac{१}{४}$ ) और मिलाकर उसका भाग  
देने पर विवक्षित गुणहानिका प्रथम निषेक निकल आवेगा ।

उदाहरण— गुणहानि आयाम = ८.

$$८ \times \frac{३}{४} + \frac{१}{४} = ६\frac{१}{४} = \frac{२५}{४} \text{ इसका पूर्वोक्त गुणहानि द्रव्योंमें भाग}$$

देनेसे निकलेगा—

प्रथम गुणहानिका	= ३२०० × $\frac{४}{२५}$	= ५१२	प्रथम निषेक
द्वितीय    ”	= १६०० × $\frac{४}{२५}$	= २५६	”
तृतीय     ”	= ८०० × $\frac{४}{२५}$	= १२८	”
चतुर्थ     ”	= ४०० × $\frac{४}{२५}$	= ६४	”
पंचम     ”	= २०० × $\frac{४}{२५}$	= ३२	”
षष्ठ       ”	= १०० × $\frac{४}{२५}$	= १६	”

प्रत्येक गुणहानिके प्रथम निषेकमें दो गुणहानियोंका भाग देनेसे उस गुणहानिका

विसेसो आगच्छदि' । पुणो पढमणिसेगं रूऊणगुणहाणिमेत्तद्वाणेसु इविय एगादि-  
एगुत्तरकमेण गोबुच्छविसेसेसु परिवाडीए अचणिदेसु विदियादिणिसेगा हँति ।

गोपुच्छोंका विशेष ( चय-प्रमाण ) आता है ।

उदाहरण—दोगुणहानि ( निपेकहार ) = ८ × २ = १६ । अतएव प्रत्येक गुण-  
हानिका विशेष ( चय ) इस प्रकार होगा —

प्रथम गुणहानिका	$\frac{१०}{२६} = ३२$	विशेष या चयका प्रमाण.
द्वितीय	$\frac{२०}{२६} = १६$	”
तृतीय	$\frac{३०}{२६} = ८$	”
चतुर्थ	$\frac{४०}{२६} = ४$	”
पंचम	$\frac{५०}{२६} = २$	”
षष्ठ	$\frac{६०}{२६} = १$	”

विशेषार्थ—गौकी पूंछ मूलमं विस्तीर्ण और क्रमशः नीचेकी ओर संक्षिप्त होती  
है । अतएव जहां किसी संख्या-समुदायमें संख्याएं उत्तरोत्तर घटती हुई पाई जाती हैं  
तहां उन संख्याओंको उपमानका उपमेयमें उपचारसे गोपुच्छ कहते हैं । उन संख्याओंके  
बीच जो व्यवस्थित हानिप्रमाण होता है उसे विशेष या चय कहते हैं ।

पुनः प्रथम निपेकको एक कम गुणहानिप्रमाण स्थानोंमें रखकर उनमेंसे एकादि  
एकोत्तर क्रमसे गोपुच्छोंके विशेषोंको यथाक्रमसे घटानेपर द्वितीय, तृतीय आदि निपेक  
प्राप्त होते हैं ।

उदाहरण—गुणहानि = ८ । ८-१ = ७ । अतएव गुणहानियोंके द्वितीयादि निपेक  
इस प्रकार होंगे—

	२	३	४	५	६	७	८
गुणहानि	५१२	५१२	५१२	५१२	५१२	५१२	५१२
१	३२	६४	९६	१२८	१६०	१९२	२२४
	४८०	४४८	४१६	३८४	३५२	३२०	२८८
२	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६	२५६
	१६	३२	४८	६४	८०	९६	११२
	२४०	२२४	२०८	१९२	१७६	१६०	१४४
३	१२८	१२८	१२८	१२८	१२८	१२८	१२८
	८	१६	२४	३२	४०	४८	५६
	१२०	११२	१०४	९६	८८	८०	७२
४	६४	६४	६४	६४	३४	६४	६४
	४	८	१२	१६	२०	२४	२८
	६०	५६	५२	४८	४४	४०	३६

१ दोगुणहाणिप्रमाण णिसेयहारो दु होइ तेण दिदे । इट्टे पढमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥ गो. क. ९२८.

## अत्रोपयोगिगणितसूत्रम्—

प्रक्षेपकसंक्षेपेण विभक्ते यद्भनं समुपलब्धम् ।

प्रक्षेपास्तेन गुणाः प्रक्षेपसमानि खंडानि ॥ १ ॥

एवं रूवूण-दुरूजणादिकम्मड्डीदीणं णिसेगरचना अन्नामोहेण' कायन्ना ।

सादावेदणीय-इत्थिवेद-मणुसगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्विणा-  
माणमुक्कस्सओ द्विदिबंधो पण्णारस सागरोवमकोडाकोडीओ' ॥७॥

कुदो ? पारिणामियादो । सेसं सुगमं ।

	३२	३२	३२	३२	३२	३२	३२
	२	४	६	८	१०	१२	१४
५	३०	२८	२६	२४	२२	२०	१८
	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६
	१	२	३	४	५	६	७
६	१५	१४	१३	१२	११	१०	९

इस विषयका उपयोगी गणितसूत्र यह है—

यदि किसी राशिके विवाक्षित राशिप्रमाण खंड करना हो, तो उन खंड-प्रमाणों (प्रक्षेपकों) को जोड़ लो और उससे राशिमें भाग दे दो। इस भागसे जो धन लब्ध आवे, उससे उन प्रक्षेपोंका गुणा करनेसे क्रमशः प्रक्षेपोंके प्रमाण खंड प्राप्त हो जावेंगे ॥ १ ॥

उदाहरण—राशि ६३०० के हमें ६ ऐसे खंड चाहिये, जो क्रमशः उत्तरोत्तर दुगुने हों। अतएव हमारे प्रक्षेपोंका योग हुआ  $१ + २ + ४ + ८ + १६ + ३२ = ६३$ ।

$\frac{६३००}{६३} = १००$  इस संख्यामें क्रमशः प्रक्षेपोंका गुणा करनेसे हमें १००, २००, ४००, ८००, १६००, ३२०० इस प्रकार उत्तरोत्तर द्विगुण द्विगुणप्रमाण ६ खंड मिल जावेंगे, जिनका समस्त योग ६३०० ही होगा। यह नियम किसी भी राशिके किसी भी प्रमाण कितने ही खंड करनेके लिये उपयोगी होगा।

इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम आदि कर्म-स्थितियोंकी भी निपेकरचना विना किसी व्यामोहके कर लेना चाहिये।

सातावेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ७ ॥

क्योंकि, यह स्थितिबन्ध पारिणामिक (स्वाभाविक) है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

१ प्रतिष्ठ 'अद्दामोहेण' इति पाठः ।

२ सादिच्छीमण्डुगे तदच्छं तु । गो. क. १२८.

## पण्णारस वाससदाणि आवाधा ॥ ८ ॥

पण्णारससागरोवमकोडाकोडीमेत्तट्टिदिममयपवद्धम्हि कम्मपदेसाणं मज्जे सुद्धु  
जदि जहण्णाट्टिदीओ कम्मपदेसा होज्ज तो वि' समयाहियपण्णारसवाससदमेत्तट्टिदीओ  
होज्ज, णो हेट्ठा, तत्थ तहाविहपरिणामपदेसाणमसंभवादो । तेरासियकमेण पण्णारसवास-  
सदमेत्तआवाधाए आगमणं उच्चदे- तीसं सागरोवमकोडाकोडीमेत्तकम्मट्टिदीए जदि  
आवाधा तिण्णि वामसहस्याणि मेत्ताणि लब्भदि, तो पण्णारससागरोवमकोडाकोडिमेत्त-  
ट्टिदीए किं लभामो त्ति फलेण इच्छं गुणिय पमाणेणोवट्टिदे पण्णारसवाससदमेत्ता  
आवाधा होदि ।

## आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ९ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छत्तस्स उक्कत्सओ ट्टिदिवंधो सत्तरि सागरोवमकोडा-  
कोडीओ' ॥ १० ॥

उक्त सातावेदनीय आदि चारों कर्म प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका आवाधाकाल  
पन्द्रह सौ वर्ष हैं ॥ ८ ॥

पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिवाले समयप्रवद्धमें कर्मप्रदेशोंके  
भीतर यदि अच्छी तरह जग्न्य स्थितिवाले कर्म प्रदेश हों, तो भी एक समय अधिक  
पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण स्थितिवाले कर्म-प्रदेश ही होंगे, इससे नीचेकी स्थितिके नहीं  
होंगे, क्योंकि, उन कर्म प्रकृतियोंमें उस प्रकारके परिमाणवाले प्रदेशोंका होना असंभव  
है । अब धैराशिक क्रमसे पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण आवाधाके लानेकी विधि कहते हैं— यदि  
तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी आवाधा तीन हजार वर्षप्रमाण प्राप्त  
होती है, तो पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी आवाधा कितनी प्राप्त होगी,  
इस प्रकार फलराशिसे इच्छाराशिको गुणित करके प्रमाणराशिसे अपवर्तित करनेपर  
पन्द्रह सौ वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है ।  $\frac{१५ \times ३०००}{३०} = १५००$  वर्ष ।

उक्त कर्मोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उन कर्मोंका कर्म-निषेक  
होता है ॥ ९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ १० ॥

१ प्रतिपु ' सो वि ' इति पाठः ।

२ सत्ततिगोहनीयस्स ॥ त. ए. ८, १५, सत्तरि दत्तणमोहि । गो. क. १२८.



कुदो ? अदीवअप्पसत्थत्तादो । एत्थ गुणहाणिपणाणं णाणावरणीयगुणहाणि-  
समाणं, जहाणायं भज्ज-भागहारवड्डीणमुवलंभादो । णाणागुणहाणिमलागा पुण पलिदो-  
वमवग्गसलागद्धेदणेणूणपलिदोवमद्धेदणयमेत्ता । एदाओ णाणागुणहाणिसलागाओ  
सिद्धाओ कादूण एदाहितो सव्वकम्माणं णाणागुणहाणिसलागाओ तेरासियकमेण  
उप्पादेदव्वाओ ।

## सत्तवाससहस्साणि आवाधा ॥ ११ ॥

सत्तवाससहस्सेहि मिच्छत्तुक्कस्सट्ठिदिम्हि भागे हिदे आवाधाकंडयमागच्छदि ।  
एदं च सव्वकम्माणं सरिसं', जहाणायं भज्ज-भागहाराणं वड्ढि-हाणिदंसणादो ।

क्योंकि, यह मिथ्यात्वकर्म अत्यन्त अप्रशस्त है । यहापर गुणहानिका प्रमाण  
ज्ञानावरणीयकर्मकी गुणहानिके समान ही है, क्योंकि, भाज्य और भागहार दोनोंमें अनुरूप  
वृद्धि पायी जाती है । केवल नानागुणहानिशलाकाएं पल्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्ध-  
च्छेदोंसे कम पल्योपमके अर्धच्छेद प्रमाण होती हैं । इन नानागुणहानिशलाकाओंको  
सिद्ध मानकर इनके द्वारा सर्व कर्मोंकी नाना गुणहानिशलाकाएं त्रैराशिकक्रमसे उत्पन्न  
कर लेना चाहिए ।

उदाहरण मान लो पल्योपम = ६५५३६. अतएव पल्योपमकी वर्गशलाका = ४;  
पल्योपमके अर्धच्छेद = १६, पल्योपमकी वर्गशलाकाओंके अर्धच्छेद = २. अतः मिथ्यात्व-  
कर्मकी नानागुणहानिशलाकाओंका प्रमाण होगा— १६ - २ = १४.

इस प्रमाणको लेकर अन्य कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं त्रैराशिकक्रमसे  
इस प्रकार निकाली जा सकती हैं—

७० को को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्वकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं १४  
होती हैं, तो ३० को. को. सा. स्थितिवाले ज्ञानावरणीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं  
कितनी होंगी—  $\frac{३० \times १४}{७०} = ६.$

उसी प्रकार १५ को. को. सा. स्थितिवाले सातावेदनीय आदि कर्मोंकी नानागुण-  
हानि-वर्गशलाकाएं—  $\frac{१५ \times १४}{७०} = ३,$  तथा ४० को. को. सा. स्थितिवाले कपायोकी—  
 $\frac{४० \times १४}{७०} = ८$  होंगी । इत्यादि.

मिथ्यात्वकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आवाधाकाल सात हजार वर्ष है ॥११॥

सात हजार वर्षोंसे मिथ्यात्व कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमे भाग देनेपर आवाधा-  
कांडकका प्रमाण आता है । यह आवाधाकांडक सर्व कर्मोंका सदृश है, क्योंकि, भाज्य  
और भागहारोंके यथान्याय अर्थात् अनुरूप वृद्धि और हानि देखी जाती है ।

उक्कस्सट्ठिदीदो जाव समऊणावाधाकंडयं ऊणं होदि ताव सा चे उक्कस्सावाधा ।  
आवाधाकंडएणूणउक्कस्सट्ठिदीए पुण समऊणा सत्तवाससहस्साणि आवाधा होदि ।  
एवमेसा चेव आवाधा अवट्ठिदा होदूण गच्छदि जाव अवरेगं समऊणावाधाकंडयमाणं  
जादं ति । एवं हेट्ठा वि जाणिदूण वत्तव्वं ।

आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ॥ १२ ॥

सुगममेदं ।

सोलसण्हं कसायाणं उक्कस्सगो ट्ठिदिबंधो चत्तालीसं सागरो-  
वमकोडाकोडीओ' ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—पृष्ठ १४९ पर उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कृष्ट आवाधाका भाग देकर  
आवाधाकांडक निकालनेकी विधि उदाहरण देकर वतला आये हैं । चूंकि उत्कृष्ट स्थिति  
और उत्कृष्ट आवाधाका अनुपात एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति पर सौ वर्ष की  
आवाधा निश्चित है, अतएव जिस प्रमाणमें उत्कृष्ट स्थिति बढेगी उसीके अनुरूप उसका  
आवाधाकाल भी बढेगा और फलतः भजनफल अर्थात् आवाधाकांडकका प्रमाण  
वही रहेगा ।

उदाहरण—उत्कृष्ट स्थिति ३० समय और आवाधा काल ३ समय कल्पित  
करके आवाधाकांडक  $\frac{३}{३०} = १०$  आता है । उसी प्रकार ७० समयकी उत्कृष्ट स्थिति  
और तदनु रूप ७ समयकी आवाधा कल्पित करके भी आवाधाकांडकका प्रमाण  $\frac{७}{७०} = १०$   
ही आवेगा ।

उत्कृष्ट स्थितिमेंसे ( एक समय कम, दो समय कम, आदिके क्रमसे ) जब तक  
एक समय-हीन आवाधाकांडक कम होता है तब तक वही उत्कृष्ट आवाधा होती है ।  
किन्तु एक आवाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिकी आवाधा एक समय कम सात हजार  
वर्ष होती है । इस प्रकार यही आवाधा अवस्थित होकर तब तक जाती है, जब तक  
कि एक और दूसरा एक समय कम आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है । इसी  
प्रकार नीचे भी जान करके आवाधाका प्रमाण कहना चाहिए ।

मिथ्यात्वकर्मके आवाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक  
होता है ॥ १२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी  
सागरोपम है ॥ १३ ॥

कुदो ? चारित्तमोहणीयत्तादो । मोहणीयत्तं पडि सामणत्तादो मिच्छत्तद्विदि-  
समाणा कसायद्विदी किण्ण संजादा ? ण, सम्मत्त-चारित्तानं भेदेण भेदमुवगदकम्माणं  
पि समाणत्तविरोहादो ।

**चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा ॥ १४ ॥**

तं जहा— सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीमेत्ताद्विदीए जदि सत्तत्राससहस्समेत्ता आवाहा  
लब्भदि तो चालीससागरोवमकोडाकोडीमेत्ताद्विदीए किं लब्भदि त्ति फलेण इच्छं गुणिय  
पमाणेण भागे हिदे चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा लब्भदि ।

**आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ॥ १५ ॥**

सुगममेदं ।

**पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-  
देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी-पसत्थविहायगदि-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-**

क्योंकि, ये सोलहों कपाय चारित्रमोहनीय अर्थात् सम्यक्चारित्र गुणको घात  
करनेवाले हैं ।

शंका— मोहनीयत्वकी अपेक्षा समान होनेसे मिथ्यात्वकर्मकी स्थितिके समान ही  
कषायोंकी स्थिति क्यों नहीं हुई ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्व और चारित्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए  
कर्मोंके भी समानता होनेका विरोध है ।

अनन्तानुबन्धी आदि सोलहों कषायोंका उत्कृष्ट आवाधाकाल चार हजार  
वर्ष है ॥ १४ ॥

वह इस प्रकार है— सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी यदि  
सात हजार वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है, तो चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण  
कर्म-स्थितिकी कितनी आवाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार फलराशिके द्वारा इच्छाराशिको  
गुणित करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर चार हजार वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त  
होती है ।  $\frac{४० \times ७०००}{७०} = ४०००$  वर्ष.

सोलहों कषायोंके आवाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कर्म-निपेक  
होता है ॥ १५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराचसंहनन,  
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशः-

आदेज्ज-जसकित्ति-उच्चागोदाणं उक्कस्सगो ट्ठिदिबंधो दससागरोवम-  
कोडाकोडीओ' ॥ १६ ॥

कुदो ? पयडिविसेसादो । एत्थ णाणागुणहाणिसलागाणं गुणहाणीए च' पमाणं  
तेरासिएण आणेदूण सोदाराणं पवोहो कायव्वो ।

दसवाससदाणि आवाधा ॥ १७ ॥

सुगममेदं ।

आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ॥ १८ ॥

एदं पि सुगमं ।

णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा णिरयगदी तिरिक्खगदी  
एइंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-हुंड-

कीर्त्ति और उच्चगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दश कोड़ाकोड़ी सागरो-  
पम है ॥ १६ ॥

क्योंकि, प्रकृतिविशेष होनेसे उनका उक्त स्थितिवन्ध होता है । यहांपर नाना-  
गुणहानिशलाकाओंका और गुणहानिका प्रमाण त्रैराशिकविधिसे लाकर श्रोताओंको  
समझाना चाहिए ।

उदाहरण—७० को. को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्व कर्मकी नानागुणहानि-  
शलाकाएं यदि १४ होती हैं, तो १० को. को. सा. स्थितिवाले पुरुषवेद आदि कर्मोंकी  
ना. गु. द्वा. शलाकाएं कितनी होंगी—  $\frac{१० \times १४}{७०} = २$ . अब हम यदि यहां उत्कृष्ट  
स्थितिको १६ मान लें तो एक गुणहानिका प्रमाण  $\frac{१६}{२} = ८$  आजाता है ।

पुरुषवेद आदि उक्त कर्मप्रकृतियोंकी आवाधा दश सौ वर्ष है ॥ १७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उक्त प्रकृतियोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता  
है ॥ १८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय-  
जाति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,

१ हस्सरदिउच्चपुरिसे धिरच्छके सत्थगमणदेवदुगे । तस्सद्ध । गो क. १३२.

२ प्रतिष्ठ 'शुणहाणि एव' इति पाठ ।

संठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्टसंघडण-वण्ण-  
गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-  
उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि-तस-थावर-  
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अथिर-असुभ-दुव्वभग-दुस्सर-अणादेज-अजस-  
कित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं उक्कस्सगो द्विदिवंधो वीसं सागरोवम-  
कोडाकोडीओ' ॥ १९ ॥

कुदो ? पयडिविसेसादो । ण च सव्वाइं कज्जाइं' एयंतेण वज्जत्थमत्रेक्खिय चे  
उप्पज्जंति, सालिबीजादो जवंकुरस्स वि उप्पत्तिप्पसंगा । ण च तारिसाइं दव्वाइं तिसु  
वि कालेसु कहिं पि अत्थि, जेसिं वलेण सालिबीजस्स जवंकुरुप्पायणसत्ती होज्ज,  
अणवत्थापसंगादो । तम्हा कम्हि वि अतरंगकारणादो चैव कज्जुप्पत्ती होदि त्ति  
णिच्छओ कायव्वो । गुणहाणीए असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्ताए सव्वक्कम्माणं

हुंडसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, असंप्राप्तासृपाटिका-  
सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी,  
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस,  
स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय,  
अयशःकीर्त्ति, निर्माण, और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वीस  
कोडाकोडी सागरोपम है ॥ १९ ॥

क्योंकि, प्रकृतिविशेष होनेसे इन सूत्रोक्त प्रकृतियोंका यह स्थितिवन्ध होता है ।  
सभी कार्य एकान्तसे बाह्य अर्थकी अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते हैं, अन्यथा  
शालि-धान्यके बीजसे जौके अंकुरकी भी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होगा । किन्तु उस  
प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालोंमें किसी भी क्षेत्रमें नहीं है कि जिनके बलसे शालि-धान्यके  
बीजके जौके अंकुरको उत्पन्न करनेकी शक्ति हो सके । यदि ऐसा होने लगेगा तो  
अनवस्था दोष प्राप्त होगा । इसलिए कहीं पर भी अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति  
होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ।

पह्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र एवं सर्व कर्मोंकी समान प्रमाणचाली

१ प्रतिष्ठा ' अथिरअसुभगदुस्सर ' इति पाठः

२ विंशतिर्नामगोत्रयो ॥ त सू. ८, १६ अरदीसोगे सदे तिरिक्खमयणिरयतेज्जुरालहुगे । वेगुव्वादावदुगे  
णीचे तसवण्णअशुक्तिचउके ॥ इगिपचिदियथावरणिमिणासग्गमणअथिरक्कण । वीस कोडाकोडीसागरणामाणमुक्कस्स ॥  
गो. क. १२०-१२१.

३ प्रतिष्ठा ' पचाइ ' इति पाठ. ।

समाणाए अप्पिदुक्त्सद्विदिम्हि भागे हिदे णाणादुगुणहाणिसलागा होंति । णाणादुगुण-  
हाणिसलागाहि अप्पिदक्म्मद्विदिम्हि भागे हिदे गुणहाणी होदि । रूवूण-दुरूऊणादिकम्म-  
द्विदीसु अवसाणगुणहाणी विकला होदि । तत्थ णादूण णाणागुणहाणिसलागाओ  
वत्तव्वाओ ।

### वेवाससहस्साणि आवाधा ॥ २० ॥

एत्थ तेरासियं काऊण आवाधा आवाधाकंडयाणि च आणेदव्वाणि । आवाधा-  
वड्ढि हाणिट्ठाणं अवड्ढिदावाधाए द्विदीणमद्धानं च पुवं व परूवेदवं ।

### आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ॥ २१ ॥

गुणहानिका विवक्षित उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर नानादुगुणहानिशलाकाएं उत्पन्न  
होती हैं । नानादुगुणहानिशलाकाओके द्वारा विवक्षित कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गुण-  
हानिका प्रमाण आता है । एक समय कम, दो समय कम आदि कर्मस्थितियोंमें अन्तिम  
गुणहानि विकल अर्थात् उत्तरोत्तर हीन होती है । यहांपर जानकर नानागुणहानि-  
शलाकाएं कहना चाहिए, अर्थात् कर्मनिपेकोंका विवरण करना चाहिए ।

उदाहरण—मान लो यहां उत्कृष्टस्थिति = ४८, आवाधाकाल = १६, और गुण-  
हानि आयाम = ८ है । तो नानागुणहानियोंका प्रमाण होगा  $-\frac{४८-१६}{८} = \frac{३२}{८} = ४$  । अव  
यदि कर्मस्थिति १ कम हुई तो नानागुणहानियां हुई  $\frac{३}{२}$  अर्थात् तीन गुणहानियोंका  
आयाम तो ८ ही रहेगा, किन्तु अन्तिम गुणहानिका आयाम ७ होगा । यदि कर्मस्थिति  
२ कम हुई तो अन्तिम गुणहानि-आयाम ६ रह जायगा । इसी क्रमसे जितनी स्थिति  
कम होगी उसी प्रमाणसे अन्तिम गुणहानि हीन होती जायगी ।

नपुंसकवेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट कर्म-स्थितिका आवाधाकाल दो  
हजार वर्ष है ॥ २० ॥

यहांपर त्रैराशिक करके आवाधा और आवाधाकांडकोंको ले आना चाहिए ।  
आवाधाके वृद्धि और हानिसम्बन्धी स्थान, तथा अवस्थित आवाधाके होनेपर  
स्थितियोंके आयामका प्रमाण पूर्वके समान प्ररूपण करना चाहिए । ( देखो सूत्र ५ का  
विशेषार्थ ) ।

नपुंसकवेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियोंके आवाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण  
उनका कर्म-निपेक होता है ॥ २१ ॥

एत्थ वेण्णिवाससहस्सणं कम्मट्ठिदिगुणहाणीसु पक्खेवसंक्खेवत्थसुत्तादो पुव्वं व पदेसरयणं कादव्वं । सेसं सुगमं ।

णिरयाउ-देवाउअस्स उक्कस्सओ ढ्ठिदिबंधो तेत्तीसं सागरो-  
वमाणिं ॥ २२ ॥

एसा देव-णेरइयाणं आउअस्स उक्कस्सणिसेयट्ठिदी । कुदो ? देव-णेरइएसु सम्मा-  
इट्ठि-मिच्छाइट्ठिणं गुणट्ठिदीए सुत्ते तेत्तीससागरोवमपमाणणिद्देसादो । किमट्ठमेत्थ णिरय-  
देवाउआणैमुक्कस्सट्ठिदिपरूवणाए आवाहाए सह उक्कस्सणिसेयट्ठिदी ण उत्ता ? ण,  
एत्थ णिसेयट्ठिदिमणवेक्खिय आवाधापउत्ती होदि त्ति परूवणफलत्ता । जधा णाणा-  
वरणादीणमावाधा<sup>१</sup> णिसेयट्ठिदिपरतंता, एवमाउअस्स आवाधा णिसेयट्ठिदी अण्णोण्णा-  
यत्ताओ ण होंति त्ति जाणावणट्ठं णिसेयट्ठिदी चेव परूविदा । पुव्वक्कोडिदिभागमादिं

यहांपर दो हजार वर्षप्रमाण आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिकी गुणहोनियोंमें  
'प्रक्षेपकसंक्षेपेण' इत्यादि करणसूत्रके अनुसार पूर्वके समान प्रदेश-रचना करना  
चाहिए । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेत्तीस सागरोपम है ॥ २२ ॥

यह देव और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट निषेक-स्थिति है, क्योंकि, देव और  
नारकियोंमें यथाक्रमसे सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि जीवोंकी गुणस्थानसम्बन्धी स्थितिका  
सूत्रमें अर्थात् कालानुयोगद्वारसूत्रमें तेत्तीस सागरोपमप्रमाण निर्देश किया गया है ।

शंका—यहांपर नारकायु और देवायुकी उत्कृष्ट स्थिति-प्ररूपणामे आवाधाके  
साथ उत्कृष्ट निषेक-स्थिति किसलिए नहीं कही ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहांपर अर्थात् आयुकर्मकी स्थितिमें निषेकस्थितिकी  
अपेक्षा न करके आवाधाकी प्रवृत्ति होती है, इस बातका प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट  
स्थिति-प्ररूपणामें आवाधाके साथ उत्कृष्ट निषेकस्थिति न कहनेका फल है । जिस प्रकार  
ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवाधा निषेक-स्थितिके परतंत्र है, उस प्रकार आयुकर्मकी  
आवाधा और निषेक-स्थिति परस्पर एक दूसरेके आधीन नहीं है, यह बात बतलानेके  
लिए यहांपर आयुकर्मकी निषेक-स्थिति ही प्ररूपण की गई है । इसका यह अर्थ होता है  
कि पूर्वकोटी वर्षके त्रिभाग अर्थात् तीसरे भागको आदि करके असंक्षेपाद्धा अर्थात्

१ प्रतिपु 'वाससहस्साण-' इति पाठ ।

२ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुष ॥ त. सू. ८, १७. सुरणिरयाऊणोघ ॥ गो. क. १३३.

३ अप्रतौ 'देवाण्ण' आप्रतौ 'देवाऊण' इति पाठः ।

४ प्रतिपु 'णाणावरणासावाधा' इति पाठः ।

कादूण जाव असंखेपद्धा' ति एदेसु आवाधावियप्पेसु देव-णेरइयाणं आउअस्स उक्कस्स-  
णिसेयट्ठिदी संभवदि ति उत्तं होदि' ।

## पुव्वकोडितिभागो आवाधा ॥ २३ ॥

पुव्वकोडितिभागमादिं कादूण जाव असंखेपद्धा ति । जदि एदे आवाधावियप्पा  
आउअस्स सच्चणिसेयट्ठिदीसु होंति, तो पुव्वकोडितिभागो चेव उक्कस्सणिसेयट्ठिदीए  
किमट्ठं उच्चदे ? ण, उक्कस्सावाधाए विणा उक्कस्सणिसेयट्ठिदीए चेव उक्कस्सट्ठिदी

जिससे छोटा (संक्षिप्त) कोई काल न हो, ऐसे आबलीके असंख्यातवें भागप्रमाण काल  
तक जितने आवाधाकालके विकल्प होते हैं, उनमें देव और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट  
निपेक-स्थिति संभव है ।

विशेषार्थ— देवायुका वंध मनुष्य या तिर्यच गतिमें ही हो सकता है, नरक  
या देवगतिमें नहीं । और आगामी आयुका वंध शीघ्रसे शीघ्र भुज्यमान आयुके  $\frac{3}{4}$   
भाग व्यतीत होनेपर तथा अधिकसे अधिक मृत्युके पूर्व होता है । कर्मभूमिज मनुष्य या  
तिर्यचकी उत्कृष्ट आयु एक कोटिपूर्व वर्ष की है । अतएव देवायुका वंध भुज्यमान आयुके  
 $\frac{1}{4}$  भाग शेष रहनेपर हो सकता है और यही काल देवायुके स्थितिवंधका उत्कृष्ट आवाधा-  
काल होगा । मरते समय ही आयुका वंध होनेसे असंक्षेप-अद्धारूप जघन्य आवाधाकाल  
प्राप्त होता है । इन दोनों मर्यादाओंके बीच देवायुकी आवाधाके मध्यम विकल्प संभव हैं ।  
भोगभूमिज प्राणियोंके आगामी आयुका वंध आयुके केवल ६ मास तथा अन्यमतानुसार  
९ मास, शेष रहनेपर होता है ।

नारकायु और देवायुका उत्कृष्ट आवाधाकाल पूर्वकोटिवर्षका त्रिभाग ( तीसरा  
भाग ) है ॥ २३ ॥

पूर्वकोटिके त्रिभागसे लेकर असंक्षेपाद्धा पर्यंत आवाधाका प्रमाण होता है, ऐसा  
अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—यदि पूर्वकोटी वर्षके त्रिभागको आदि करके असंक्षेपाद्धा काल तक  
संभव सब आवाधाके भेद आयुकर्मकी सर्व निपेक-स्थितियोंमें होते हैं, तो पूर्वकोटी वर्षके  
त्रिभागप्रमाण ही यह उत्कृष्ट आवाधाकाल उत्कृष्ट निपेक-स्थितिमें किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट आवाधाकालके विना उत्कृष्ट निपेक-स्थिति-  
संबंधी उत्कृष्ट कर्म-स्थिति प्राप्त नहीं होती है, यह बात बतलानेके लिए यह उत्कृष्ट  
आवाधाकाल कहा गया है । अर्थात् यद्यपि आयुकर्मके संबंधमें उत्कृष्ट निपेकस्थिति और

१ जहण्णओ आउअवधकालो जहण्णविस्समणकालपुरस्सरो असखेपद्धा णाम । धवला. अ. प्र. प. १३४१.  
न विघते अस्मादन्य सक्षेप असक्षेप, स चासौ अद्धा च असक्षेपाद्धा आत्रव्यसख्येयभागमात्रत्वात् । गो. क.  
जी. प्र. टी १५८.

२ पुव्वान कोडितिमागादासखेप अद्ध वोत्ति हवे । आउस्स य आवाहा ण  
ट्ठिदिपडिभागमाउस्स ॥ गो क १५८



ण होदि त्ति जाणावणड्डमुक्कस्सावाधाउत्तीदो ।

आवाधा ॥ २४ ॥

पुब्बुत्तावाधाकालब्भंतरे णिमेयद्धिदीए वाधा णत्थि । जधा णाणावरणादीणं आवाधापरुवयसुत्तेण वाधाभावो सिद्धो, एवमेत्थ वि सिञ्जदि, किमड्डं विदियवारमावाधा उच्चदे ? ण, जधा णाणावरणादिसमयपवद्धानं वं'प्रावलयवदिक्कंताणं ओक्कड्डण-परपयडि-संकमेहि वाधा अत्थि, तथा आउअस्स ओक्कड्डण-परपयडिसंकमादीहि वाधाभावपरुवणड्डं विदियवारमावाधाणिहेसादो ।

कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ' ॥ २५ ॥

आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो त्ति किमड्डमेत्थ ण परुविदं ?

उत्कृष्ट आवाधाकालका अविनाभाची संबंध नहीं है, जैसा कि अन्य कर्मोंका है । तथापि आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्कृष्ट निपेकस्थितिका योग किया जाय । इसीलिये इन दोनों उत्कृष्ट स्थितियोंका मेल करना आवश्यक है ।

आवाधाकालमें नारकायु और देवायुकी निपेक-स्थिति वाधा-रहित है ॥ २४ ॥

पूर्व सूत्रोक्त आवाधा-कालके भीतर विवक्षित किसी भी आयुर्कर्मकी निपेक-स्थितिमें वाधा नहीं होती है ।

शंका—जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवाधाका प्ररूपण करनेवाले सूत्रसे वाधाका अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहांपर भी वाधाका अभाव सिद्ध होता है, फिर दूसरी वार 'आवाधा' यह सूत्र किसलिये कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार वंधावलि-व्यतिक्रान्त अर्थात् जिनका वंध होनेपर एक आवलीप्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके समयप्रवद्धोंके अपकर्षण और पर-प्रकृति-संक्रमणके द्वारा वाधा होती है, उस प्रकार आयुर्कर्मके आवाधाकालके पूर्ण होनेतक अपकर्षण और पर-प्रकृति-संक्रमण आदिके द्वारा वाधाका अभाव है, अर्थात् आगामी भवसम्बन्धी आयुर्कर्मकी निपेकस्थितिमें कोई व्याघात नहीं होता है, इस बातके प्ररूपण करनेके लिए दूसरी वार 'आवाधा' इस सूत्रका निर्देश किया है ।

नारकायु और देवायुकी कर्म-स्थितिप्रमाण उन कर्मोंका कर्म-निपेक होता है ॥ २५ ॥

शंका—यहांपर 'आवाधा कालसे रहित कर्मस्थिति ही उन कर्मोंकी निपेक-स्थिति है' इस प्रकार प्ररूपण किसलिये नहीं किया ?

ण, विदियवारमावाधाणिहेसेण आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो होदि त्ति सिद्धीदो । कुदो ? अण्णहा विदियवारआवाधाणिहेसाणुववत्तीदो ।

**तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्कस्सओ ट्टिदिबंधो तिण्णि पलिदोवमाणि' ॥ २६ ॥**

एसा वि णिसेयट्टिदी चेव णिदिट्ठा । कुदो ? तिरिक्ख-मणुसेसु तिण्णि पलिदो-वममेत्ताए ओरालियसरीरउक्कस्सट्टिदीए उवलंभादो । किमट्टमावाधाए सह णिसेगुक्कस्स-ट्टिदी ण परूविदा ? ण, णिसेगावाधाओ अण्णोण्णायत्ताओ ण होंति त्ति जाणावण्डं तथा णिहेसादो । एदस्स भावो— उक्कस्सावाधाए जहण्णणिसेयट्टिदिमादिं कादूण जावुक्कस्सणिसेयट्टिदी ताव वंधदि । एवं समऊण-दुसमऊणुक्कस्सावाधादीणं पि परूवे-दव्वं जाव असंखेपद्दा त्ति' । पुव्वकोडितिभागादो आवाधा अहिया किण्ण होदि ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, दूसरी वार 'आवाधा' इस सूत्रके निर्देश-द्वारा 'आवाधाकालसे रहित कर्म स्थिति ही उन कर्मोंकी निपेक-स्थिति होती है,' यह बात सिद्ध हो जाती है । और यदि वैसा न माना जाय, तो दूसरी वार 'आवाधा' इस सूत्रके निर्देशकी उपपत्ति बन नहीं सकती है ।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीन पल्योपम है ॥ २६ ॥

यह भी निपेक-स्थिति ही निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि, तिर्यच और मनुष्योंमें तीन पल्योपममात्र औदारिकशरीरकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है ।

शंका—आवाधाके साथ निपेकोंकी उत्कृष्ट स्थिति किसलिए नहीं निरूपण की गई ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां निपेककाल और आवाधाकाल परस्पर एक दूसरेके आधीन नहीं होते हैं, यह जतलानेके लिए उस प्रकारसे निर्देश किया गया है, अर्थात् आवाधाके साथ निपेकोंकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है ।

इस उपर्युक्त कथनका भाव यह है— उत्कृष्ट आवाधाके साथ जघन्य निपेक-स्थितिको आदि करके उत्कृष्ट निपेक-स्थिति तक जितनी निपेक-स्थितियां हैं, वे सब बंधती हैं । इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम (इत्यादि रूपसे उत्तरोत्तर एक एक समय कम करते हुए) असंक्षेपाद्धा काल तक उत्कृष्ट आवाधा आदिकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

शंका—आयुर्कर्मकी आवाधा पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक क्यों नहीं होती है ?

१ ××× परतिरियाऊण तिण्णि पट्ठाणि । उक्कस्सट्टिदिबंधो । गो क १३३.

२ पुव्वाण कोडितिभागादासखेपद्द वो त्ति ह्वे । आउस्स य आवाहा ण ट्टिदिपट्ठिभागमाउस्स ॥ गो. क. १५८.

उच्चदे- ण ताव देव-णेरइएसु बहुसागरोवमाउट्टिदिएसु पुन्वकोडितिभागादो अधिया आवाधा अत्थि, तेसिं छम्मासावसेसे भुंजमाणाउए असंखेपद्धापज्जवसाणे संते परभवियमाउअं वंधमाणाणं तदसंभवा । ण तिरिक्ख-मणुसेसु वि तदो अधिया आवाधा अत्थि, तत्थ पुन्वकोडीदो अधियभवदिट्ठीए अभावा । असंखेज्जवस्साऊ तिरिक्ख-मणुसा अत्थि त्ति चे ण, तेसिं देव-णेरइयाणं व भुंजमाणाउए छम्मासादो अहिए संते परभविआउअस्स वंधाभावा । संखेज्जवस्साउआ वि तिरिक्ख-मणुसा कदलीघादेण वा अधट्टिदिगलणेण वा जाव भुंजावभुत्ताउट्टिदीए अद्धपमाणेण तदो हीणपमाणेण वा भुंजमाणाउअं ण कदं ताव ण परभवियमाउअं वंधंति । कुदो ? पारिणामियादो । तम्हा उक्कस्सावाधा पुन्व-

समाधान—कहते हैं— न तो अनेक सागरोपमोंकी आयुस्थितिवाले देव और नारकियोंमें पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक आवाधा होती है, क्योंकि उनकी भुज्यमान आयुके (अधिकसे अधिक) छह मास अवशेष रहनेपर (तथा कमसे कम) असंखे-पाद्माकालके अवशेष रहनेपर आगामी भवसम्बन्धी आयुको बांधनेवाले उन देव और नारकियोंके पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक आवाधाका होना असंभव है । न तिर्यंच और मनुष्योंमें भी इससे अधिक आवाधा संभव है, क्योंकि, उनमें पूर्वकोटीसे अधिक भवस्थितिका अभाव है ।

शंका—(भोगभूमियोंमें) असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्य होते हैं, (फिर उनके पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक आवाधाका होना संभव क्यों नहीं है)?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उनके देव और नारकियोंके समान भुज्यमान आयुके छह माससे अधिक होनेपर पर-भवसम्बन्धी आयुके बांधका अभाव है, (अतएव पूर्वकोटिके त्रिभागसे अधिक आवाधाका होना संभव नहीं है) ।

तथा, संख्यात वर्षकी आयुवाले भी तिर्यंच और मनुष्य कदलीघातसे, अथवा अधःस्थितिके गलनसे, अर्थात् विना किसी व्याघातके समय समय प्रति एक एक निषेकके खिरनेसे, जब तक भुज्य और अवभुक्त आयुस्थितिमें भुक्त आयु-स्थितिके अर्धप्रमाणसे, अथवा उससे हीन प्रमाणसे भुज्यमान आयुको नहीं कर देते हैं, तबतक पर-भवसम्बन्धी आयुको नहीं बांधते हैं, क्योंकि, यह नियम पारिणामिक है । इसलिए आयुकर्मकी उत्कृष्ट

१ वधति देव-नाग्य असखतिरिनर छमाससेसाऊ । परमविआउ सेसा निरुक्कम तिमागसेसाऊ ॥ सोवक्कमाउआ पुण सेसतिमागे अहव नवममागे । सत्तावीसइमे वा अतएहुत्तंतिमे वावि ॥ बृहत्सग्रहणीसूत्रम् ३०७-३२८,

२ अ-कप्रत्यो 'अ-धट्टिदीगलणेण' आप्रतौ 'अत्थि त्ति ठिदीगलणेण' इति पाठ । मप्रतौ 'अद्धट्टिदी गलणेण' इति पाठ । ज कम्म जिस्से ट्टिदीए णिसिचमणोऋद्धिमणुक्काट्टिद त्तिस्से चेव ट्टिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयट्टिदिपत्तयं । ××× जहाणिसेयसरुवेणावट्टिदस्स ट्टिदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमय-पनद्धसवद्धपदेसपुजस्स अत्थाणुगओ पयदववएत्तो त्ति मणिदं होइ । जयघ. अ. प. ५२९.

कोडितिभागादो अहिया णत्थि त्ति घेत्तच्चं ।

**पुव्वकोडितिभागो आवाधा ॥ २७ ॥**

अणेगावाधाणं संभवे संते वि एत्थ पुव्वकोडितिभागो चेव आवाधा होदि, अण्णहा उक्कस्सट्ठिदीए अणुववत्तीदो इदि जाणावण्हं एदस्स सुत्तस्स अवयारो । सेसं सुगमं ।

**आवाधा ॥ २८ ॥**

पुव्वकोडितिभागो आवाधा त्ति एदेणेव सुत्तेण पुव्वकोडितिभागमिह वाधाभावे अवगदे संते पुणो आवाधा इदि किमहं उच्चदे ? ण, जधा णाणावरणादीणमावाधाए अचमंतरे ओकड्डण-उक्कड्डण-परपयडिसंकमेहि णिसेयाणं वाधा होदि, तथा आउअस्स वाधा णत्थि त्ति जाणावण्हं पुणो आवाधापरूवणादो ।

**कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ॥ २९ ॥**

सुगममेदं ।

आवाधा पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट आवाधाकाल पूर्वकोटीका त्रिभाग है ॥२७॥

अनेक आवाधा-विकल्पोंके संभव होनेपर भी यहां पूर्वकोटी-त्रिभागमात्र ही आवाधा होती है यह कथन किया गया है, क्योंकि, अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति वन नहीं सकती है, इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

आवाधाकालमें तिर्यगायु और मनुष्यायुकी निषेक-स्थिति वाधा-रहित है ॥२८॥

शंका — 'तिर्यगायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटीका त्रिभाग है,' इस उपर्युक्त सूत्रसे ही पूर्वकोटीके त्रिभागमें वाधाका अभाव जान लेनेपर पुनः 'आवाधा' यह सूत्र किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवाधाके भीतर अपकर्षण, उत्कर्षण और पर-प्रकृतिसंक्रमणके द्वारा निषेकोंके वाधा होती है, उस प्रकार आयुकर्मकी वाधा नहीं होती है, यह बतलानेके लिए पूर्वसूत्रद्वारा आवाधाके कहे जानेपर भी पुनः आवाधाका प्ररूपण किया गया है ।

तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्म-स्थितिप्रमाण ही उनका कर्म-निषेक होता है ॥ २९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-वामणसंठाण-खीलियसंघडण-  
सुहुम-अपजत्त-साधारणणामाणं उक्कस्सगो द्विदिवंधो अट्टारससागरो-  
वमकोडाकोडीओ' ॥ ३० ॥

एदमुक्कस्सट्टिदिं गुणहाणीए सच्चकम्मणं पमाणेण समाणाए भागे हिदे एत्थ-  
तणणाणागुणहाणिसलागाओ उप्पज्जंति । एदाहि णाणागुणहाणिसलागाहिं कम्मट्टिदिमिह  
भागे हिदे एया दुगुणवड्डी आगच्छदि । सेसं सुगमं ।

अट्टारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३१ ॥

कुदो ? सागरोवमकोडाकोडीए वाससदमावाधा होदि, तं तेरासियकमेणागद-  
अट्टारसेहि गुणिदे अट्टारसवाससदमेत्तआवाधुप्पत्तीदो । एदाए कम्मट्टिदिमिह भागे हिदे  
आबाधाकंडओ होदि ।

आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ३२ ॥

द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन,  
सूक्ष्मनाम, अपर्याप्तनाम और साधारणनाम, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  
अट्टारह कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३० ॥

इस सूत्रोक्त उत्कृष्ट स्थितिमें सर्व-कर्मोंके प्रमाणसे समान गुणहानिके द्वारा  
भाग देनेपर यहांपरकी, अर्थात् उक्त कर्म स्थितिकी, नानागुणहानिशलाकाए उत्पन्न हो  
जाती हैं । इन नानागुणहानिशलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर एक दुगुण-  
वृद्धि अर्थात् गुणहानि-आयामका प्रमाण आ जाता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

पूर्व सूत्र-कथित द्वीन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट आवाधाकाल अट्टारह  
सौ वर्ष है ॥ ३१ ॥

क्योंकि, एक कोडाकोडी सागरोपमकी आवाधा सौ वर्ष होती है । उसे  
त्रैराशिक क्रमसे प्राप्त अट्टारह रूपोंसे गुणित करनेपर अट्टारह सौ वर्षप्रमाण आवाधा-  
कालकी उत्पात्ति होती है । इस आवाधाके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर आवाधा-  
कांडकका प्रमाण उत्पन्न होता है ।

उक्त कर्मोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उन कर्मोंका कर्म-निपेक  
होता है ॥ ३२ ॥

एत्थ दिवड्डुगुणहाणीए' किंचूणाए समयपवद्धम्हि भागे हिदे पढमणिसेओ होदि । विदियणिसेयभागहारो पुव्वभागहारादो सादिरेओ होदि । एवं गुणहाणिअब्भंतर-सव्वणिसेयाणं भागहारा साहेयव्वा । एत्थुवउज्जंती गाहा —

इच्छिदणिसेयभत्तो पढमणिसेयस्स भागहारो जो' ।

पढमणिसेयेण गुणो तहिं तहिं होइ अवहारो ॥ २ ॥

एदीए गाहाए इच्छिदणिसेगाणं भागहारो आणेद्वो । विदियगुणहाणि-पढमणिसेयस्स भागहारो किंचूणतिणिगुणहाणिमेत्तो । कुदो ? पढमगुणहाणि-पढमणिसेयादो विदियगुणहाणिपढमणिसेयस्स अद्धत्तादो । एवमुवरिमगुणहाणिं पडि

यहांपर, अर्थात् उक्त निषेक-स्थितिमें, कुछ कम डेढ़ गुणहानिसे समयप्रवद्धमें भाग देनेपर प्रथम निषेकका प्रमाण होता है । दूसरे निषेकका भागहार पूर्व-निषेकके भागहारसे सातिरेक होता है । इस प्रकार विवक्षित गुणहानिके भीतर सर्व निषेकोंके भागहार सिद्ध करना चाहिए । इस विषयमें यह उपयोगी गाथा है—

प्रथम निषेकका जो भागहार हो उसमें इच्छित निषेकका भाग देने तथा प्रथम निषेकसे गुणा करनेपर भिन्न भिन्न निषेकोंका भागहार उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

इस गाथाके द्वारा इच्छित निषेकोंका भागहार ले आना चाहिए ।

उदाहरण— द्रव्य = ६३००, प्रथम निषेक = ५१२, प्रथम निषेकका भागहार =  $\frac{१५०५}{२३८}$  (देखो सूत्र नं ६ की टीका व विशेषार्थ) । अतः प्रस्तुत नियमके अनुसार द्वितीय निषेकका भागहार होगा—  $\frac{१५०५}{२३८} \times \frac{५१२}{१०} = \frac{३९५}{३८}$  । इस भागहारका द्रव्यमें भाग देनेसे इच्छित निषेक ४८० प्राप्त होगा ।  $६३०० \times \frac{३९५}{३८०} = ४८०$  द्वितीय निषेकका प्रमाण । इसी प्रकार अन्य निषेकोंका भागहार उत्पन्न किया जा सकता है । (देखो पृ. १५३ का विशेषार्थ )

दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार कुछ कम तीन गुणहानिप्रमाण है, क्योंकि, प्रथम गुणहानिके प्रथम निषेकसे दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक आधा होता है ।

विशेषार्थ— यथार्थतः दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार तीन गुणहानि-प्रमाणसे कुछ कम न होकर कुछ अधिक होता है । उदाहरणार्थ—  $\frac{१५०५}{२३८} \times \frac{५१२}{१०} = \frac{३९५}{३८}$  यह दूसरी गुणहानिके प्रथम निषेकका भागहार है, क्योंकि, द्रव्य ६३०० में इसका भाग देनेपर निषेकका प्रमाण  $६३०० \div \frac{३९५}{३८} = २५६$  प्राप्त होता है । किन्तु यह भागहार  $२४ \frac{३}{४}$  है जो तीन गुणहानि प्रमाण  $८ \times ३ = २४$  से कुछ अधिक है ।

इस प्रकार उपरिम गुणहानिके प्रति भागहार दुगुण-दुगुणादि क्रमसे अन्तिम

भागहारो दुगुण-दुगुणादिकमेण गच्छदि जाव चरिमगुणहाणिपढमणिसेगो त्ति ।  
सव्वगुणहाणिविदियादिणिसेयाणं भागहारपरुवणं जाणिय परुवेद्वं । एवं सव्वकम्माणं  
पि वत्तवं ।

**आहारसरीर—आहारसरीरंगोवंग—तित्थयरणामाणमुक्कस्सगो  
ट्टिदिबंधो अंतोकोडाकोडीए' ॥ ३३ ॥**

कुदो ? सम्माइड्विबंधत्तादो । अंतोकोडाकोडीए त्ति उत्ते<sup>१</sup> सागरोवमकोडाकोडिं  
संखेज्जकोडीहि खंडिदएगखंडं होदि त्ति घेत्तवं । एदिस्से ट्टिदीए अंतोमुहुत्तमेत्ता-  
वाधादो पणवणोवाओ— दससागरोवमकोडाकोडीणमावाधं वस्ससहस्सं ट्टिविय मुहुत्ते

गुणहानिका प्रथम निपेक प्राप्त होने तक चला जाता है

उदाहरण—प्रथम गुणहानिके प्रथम निपेकका भागहार =  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ , द्वि. गु. के प्र.  
नि. का भागहार  $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$ ; तृ. गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{8} \frac{1}{8} \frac{1}{8}$ ; चतु. गु. के प्र.  
नि. का भागहार  $\frac{1}{16} \frac{1}{16} \frac{1}{16}$ ; पंचम गु. के प्र. नि. का भागहार  $\frac{1}{32} \frac{1}{32} \frac{1}{32}$ ; षष्ठम गु. के प्र.  
नि. का भागहार  $\frac{1}{64} \frac{1}{64} \frac{1}{64}$  । इस प्रकार स्पष्टतः भागहार एक गुणहानिसे दूसरी गुण-  
हानिमें दुगुना होता चला गया है ।

समस्त गुणहानियोंके द्वितीय, तृतीय आदि निपेकोंके भागहारोंकी प्ररूपणा  
जान करके कहना चाहिए । इसी प्रकार सर्व कर्मोंकी भी उक्त सब रचना कहना  
चाहिए ।

आहारकशरीर, आहारकशरीर-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका  
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३३ ॥

क्योंकि, इन प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टि जीवके ही बन्ध होता है, (और  
सम्यग्दृष्टिके अन्तःकोडाकोडीसे अधिक बन्ध होता नहीं है) । 'अन्तःकोडाकोडी'  
ऐसा कहनेपर एक कोडाकोडी सागरोपमको संख्यात कोटियोंसे खंडित करनेपर जो  
एक खंड होता है, वह अन्तःकोडाकोडीका अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अन्तर्मुहूर्तमात्र  
आवाघाके द्वारा इस स्थितिके प्रज्ञापन अर्थात् जाननेका उपाय यह है—दश  
कोडाकोडी सागरोपमप्रमित कर्मस्थितिकी आवाधा एक हजार वर्ष स्थापित करके

१ X X अंतकोडाकोडी आहारतित्थये । गो क. १३२.

२ प्रतिपु ' उत्त ' इति पाठः ।

कदे अट्टलक्खाहियकोडिमेत्ता मुहुत्ता होंति । तेसिं पमाणमेदं १०८००००० । एदेहि ओवट्टिददससागरोवमकोडाकोडिमेत्तट्टिदी यदि एदेसिं तिण्हं कम्माणं होज्ज, तो एदिस्से ट्टिदीए एगमुहुत्तमेत्ता आवाधा पावेदि । पुव्वुत्तभागहारेण दसगुणेणोवट्टिददससागरोवमकोडाकोडीमेत्ता ट्टिदी यदि होदि, तो मुहुत्तस्स दसमभागो आवाधा होज्ज । ण च एदेसिमेत्तियमेत्तावाधा होदि, असंजदसम्मादिट्टिउक्कस्सट्टिदिवंधादो संतादो वि संखेज्जगुणमिच्छाइट्टिधुवट्टिदीए संखेज्जंतोमुहुत्तमेत्तावाधापसंगादो । ण च एवं, तत्तो संखेज्जगुणपंचिदियअपज्जत्तुक्कस्सट्टिदीए वि अंतोमुहुत्तमेत्तावाधुवलंभा' । तदो संखेज्ज-

उसके मुहूर्त करनेपर आठ लाखसे अधिक एक कोटिप्रमाण मुहूर्त होते हैं । उनका प्रमाण यह है— १०८००००० ।

विशेषार्थ—चूंकि एक अहोरात्रमें ३० मुहूर्त होते हैं, तो मध्यम प्रतिपत्तिसे एक वर्षके ३६० दिनोंमें कितने मुहूर्त होंगे, इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर १०८०० मुहूर्त प्राप्त होते हैं । इस प्रमाणको १००० वर्षोंसे गुणा करनेपर १०८००००० एक करोड़ आठ लाख मुहूर्त सिद्ध हो जाते हैं ।

इन मुहूर्तोंसे अपवर्तन की गई दश कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र स्थिति यदि इन सूत्रोक्त तीनों कर्मोंकी हो तो इस स्थितिकी एक मुहूर्तमात्र आवाधा प्राप्त होती है ।

उदाहरण—  $\frac{१००००००००००००००००००}{१०८०००००} = ९२५९२५९२ \frac{६}{८}$  इतने सागरोपमप्रमित स्थितिकी आवाधा एक मुहूर्त होती है ।

दश गुणित पूर्वोक्त भागहारसे अपवर्तित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित स्थिति यदि उक्त तीनों कर्मोंकी हो, तो उनकी आवाधा मुहूर्तका दशवां भाग होगी । किन्तु इन आहारकशरीरादि तीनों कर्मोंकी इतनी आवाधा नहीं होती है, अन्यथा असंयतसम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे और उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वसे भी संख्यातगुणी मिथ्यादृष्टिकी ध्रुवस्थितिके संख्यात अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आवाधा होनेका प्रसंग आता है । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उससे संख्यातगुणी पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्कृष्ट स्थितिके

१ × × × सजदस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । सजदासजदस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव उक्कस्सओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । असंजदसम्मादिट्टिपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव पज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । सण्णिमिच्छाइट्टिपंचिदियपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्टिदिवंधो सखेज्जगुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । × × × पंचिदियाण सण्णीण मिच्छाइट्टीणमपज्जत्तयाण मत्तण्ण कम्माणमाउव्वज्जाणमंतोमुहुत्तमावाधं मोत्तूण ज पढमसमए पदेसग्ग णिसिच्च त बहुगं । ज विदियसमए णिसिच्च पदेसग्ग त विससहीण । ज तदियसमए पदेसग्ग णिसिच्च त विससहीण । एव विससहीण विससहीण जावउक्कस्सेण अंतोकोडाकोडीओ चि ॥ धवला अ प ९४०-९४३.



कोड़ीहिं खंडिददसागरोपमकोडाकोडी उक्कस्सड्ढिदी होदि त्ति सिद्धं ।

भी अन्तर्मुहूर्तमात्र आवाधा पाई जाती है । इसलिए संख्यात कोटियोंसे खंडित अर्थात् भाजित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सूत्रोक्त तीनों कर्मोंकी पृथक् पृथक् होती है, यह बात सिद्ध हुई ।

विशेषार्थ—सूत्रकारने जो आहारकशरीरादि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम बतलाया है, उसीको धवलाकारने यहां और भी सूक्ष्मतासे समझानेका प्रयत्न किया है कि यहां अन्तःकोड़ाकोड़ीसे अभिप्राय एक सागरोपम कोड़ाकोड़ीके संख्यातवें भागसे है, न कि एक कोटी सागरोपमसे ऊपर और एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे नीचे किसी भी मध्यवर्ती संख्यासे, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है । और इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि यदि यहां अन्तःकोड़ाकोड़ीका प्रमाण  $९२५९२५९२\frac{१}{१०}\frac{४}{८}$  सागरोपमोंका दशवां भाग भी लेवें, तो उसका आवाधाकाल मुहूर्तके  $\frac{१}{१०}$  वां भाग पड़ेगा । किन्तु यदि यही प्रमाण ग्रहण किया जाय तो असंयतसम्यग्दृष्टि, संज्ञी पंचेन्द्रियमिथ्यादृष्टि और संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकोंके स्थितिवन्धका जो संख्यातगुणित क्रमसे अल्पचहुत्व बतलाया गया है, उसके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकोंका आवाधाकाल संख्यात मुहूर्त प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ — धवलामें ( अ. प्रति पत्र ९४०-९४३ पर ) संयतका उत्कृष्ट<sup>१</sup>, संयतासंयतका जघन्य<sup>२</sup> व उत्कृष्ट<sup>३</sup>, असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्तका जघन्य<sup>४</sup>, इसीके अपर्याप्तका जघन्य<sup>५</sup> व उत्कृष्ट<sup>६</sup>, इसीके पर्याप्तका उत्कृष्ट<sup>७</sup>, संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य<sup>८</sup>, इसीके अपर्याप्तका जघन्य<sup>९</sup>, और इसीके अपर्याप्तका उत्कृष्ट<sup>१०</sup> स्थितिवन्ध उत्तरोत्तर संख्यातगुणा बतलाया गया है । अब यदि हम संव्रतके अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिवन्धका प्रमाण एक कोटी सागरोपम ही मान लें, और तदनुसार उसके आवाधाकालका प्रमाण मुहूर्तका  $\frac{१}{१०}$  वां भाग मान लें, तो जघन्य संख्यात गुणितक्रमसे भी संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  $१ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ = ५१२$  कोटी सागरोपम और उसकी आवाधाका प्रमाण  $\frac{१}{१०} \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ \times २ = \frac{५१२}{१०} = ५१\frac{२}{५}$  मुहूर्त होगा । किन्तु आगममें संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्याप्त मिथ्यादृष्टिका आवाधाकाल भी अन्तर्मुहूर्त ही माना गया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रकृतिमें अन्तःकोड़ाकोड़ीका प्रमाण एक कोटी सागरोपमसे भी बहुत नीचे ही ग्रहण करना चाहिए । तभी उससे उत्तरोत्तर संख्यातगुणित स्थिति-बन्धोंकी आवाधा भी अन्तर्मुहूर्त ही सिद्ध हो सकेगी । इस प्रकार धवलाकारका यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत है कि सूत्रोक्त तीनों कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात कोटियोंसे भाजित सागरोपम कोड़ाकोड़ी ग्रहण करना चाहिए ।

एदं वक्खाणं पाहुडच्चुणिसुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयट्टिदिवंधस्स सागरोवम-  
कोडीलक्खपुधत्तपमाणं परुवयंतेण विरुज्झदेत्ति' णासंकाणिज्जं, तस्स तंतंतरत्तादो ।  
अथवा सग-सगजादिपडिवद्धट्टिदिवंधेसु आवाधासु च एसो तेरासियणियमो, ण अणत्थ,  
खव्वगसेडीए अंतोमुहुत्तट्टिदिवंधाणमावाधाभावप्पसंगादो । तम्हा सग-सगुक्कस्सट्टिदि-  
बंधेसु सग-सगुक्कस्सावाधाहि ओवट्टिदेसु आवाधाकंडयाणि आगच्छंति त्ति घेत्तव्वं ।  
तदो एत्थ अंतोमुहुत्तावाधाए वि संतीए अंतोकोडाकोडी ट्टिदिवंधो होदि त्ति ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ३४ ॥

आवाधाकंडएण उक्कस्सट्टिदिग्घि' भागे हिदे आवाधा होदि ।

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ३५ ॥

सुगममेदं ।

णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायणसंघडणणामाणं उक्कस्सगो  
ट्टिदिवंधो वारस सागरोवमकोडाकोडीओ' ॥ ३६ ॥

यह व्याख्यान, अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम समयकी स्थितिवन्धका सागरोपम-  
कोटिलक्षपृथक्त्व प्रमाणके प्ररूपण करनेवाले कसायपाहुडचूर्णिसूत्रसे विरोधको प्राप्त  
होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, वह तंत्रान्तर अर्थात् दूसरा  
सिद्धान्तग्रन्थ या मत है । अथवा, अपनी अपनी जातिसे प्रतिबद्ध स्थितिवन्धोंमें और  
आवाधाओंमें यह त्रैराशिकका नियम लागू होता है, अन्यत्र नहीं, अन्यथा, क्षपकश्रेणीमें  
होनेवाले अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितिवन्धोंकी आवाधाके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है ।  
इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धोंको अपनी अपनी उत्कृष्ट आवाधाओंसे अपवर्तन  
करनेपर आवाधाकांडक आ जाते हैं, ऐसा नियम ग्रहण करना चाहिए । अतएव यह  
सिद्ध हुआ कि यहांपर, अर्थात् उक्त तीनों कर्मोंकी स्थितिमें, अन्तर्मुहूर्तमात्र आवाधाके  
होनेपर भी स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडीप्रमाण होता है ।

पूर्व सूत्रोक्त आहारकशरीरादि प्रकृतियोंका आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्तमात्र  
है ॥ ३४ ॥

आवाधाकांडकसे उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर आवाधा प्राप्त होती है ।

उक्त तीनों कर्मोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक  
होता है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंका उत्कृष्ट  
स्थितिवन्ध वारह कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३६ ॥

१ अप्रतौ ' विरुज्झोदिदि ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' उक्कस्सट्टिदिजा ' इति पाठ ।

३ सठाणसहदीण चरिमस्सोध द्दहीणमादि त्ति । गो क. १२९.

णामत्तणेण भेदे इदरणामकम्महेहितो असंते वि किमट्ठं ट्ठिदिभेदो ? ण, पयाडि-  
विसेसेण भिण्णाणं' ट्ठिदिभेदं पडि विरोधाभावा । सेसं सुगमं ।

वारसवाससदाणि आवाधा ॥ ३७ ॥

एणेण आवाधाकांडएण अप्पिदुक्कस्सट्ठिदिमिह भागे हिदे वारसवाससदमेत्ता  
आवाधा होदि ।

आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ॥ ३८ ॥

सुगममेदं ।

सादियसंठाण-णारायसंघडणणामाणमुक्कस्सओ ट्ठिदिबंधो चौदस-  
सागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ३९ ॥

एदं पि सुगमं ।

चौदसवाससदाणि आवाधा ॥ ४० ॥

शंका—नामत्वकी अपेक्षा इतर नामकर्मोंसे भेद नहीं होनेपर भी उक्त  
प्रकृतियोंकी स्थितिमें भेद किसलिए है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रकृति-विशेषकी अपेक्षासे भिन्नताको प्राप्त प्रकृतियोंके  
स्थिति-भेद माननेमें कोई विरोध नहीं है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट  
आवाधाकाल वारह सौ वर्ष है ॥ ३७ ॥

एक आवाधाकांडकसे विवक्षित उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर वारह सौ वर्ष-  
प्रमाण आवाधा प्राप्त होती है ।

उक्त दोनों कर्मोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक  
होता है ॥ ३८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध  
चौदह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

उक्त दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट आवाधाकाल चौदह सौ वर्ष है ॥ ४० ॥

१ प्रतिष्ठा ' विणाणं ' इति पाठः ।

तं जथा— दसकोडाकोडीसागरोवमाणं जदि दसवाससदमेत्ताबाधा लब्भदि, तो चोदसकोडाकोडीसागरोवमेसु किं लभामो त्ति फलगुणिदमिच्छं पमाणेणोवट्टिदे चोदस-  
वाससदाणि' आवाधा होदि ।

आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ४१ ॥

सुगममेदं ।

खुज्जसंठाण-अद्धणारायणसंघडणणामाणमुक्कस्सओ ट्टिदिबंधो  
सोलससागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ४२ ॥

एदं पि सुगमं ।

सोलसवाससदाणि आवाधा ॥ ४३ ॥

आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ४४ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं छट्ठी चूलिया समत्ता ।

वह इस प्रकार है— दश कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले कर्मोंकी आवाधा यदि दश सौ ( १००० ) वर्षप्रमाण प्राप्त होती है, तो चौदह कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले कर्मोंमें कितनी आवाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे गुणा करके प्रमाणराशिसे अपवर्तन करनेपर चौदह सौ ( १४०० ) वर्षप्रमाण आवाधा प्राप्त होती है ।  $\frac{१४ \times १०००}{१०} = १४००$ .

स्वातिसंस्थान और नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंके आवाधा-कालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

कुब्जकसंस्थान और अर्धनाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति-  
बन्ध सोलह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ४२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

उक्त दोनों कर्मोंका उत्कृष्ट आवाधाकाल सोलह सौ वर्ष है ॥ ४३ ॥

उक्त दोनों कर्मोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४४ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

इस प्रकार छठी चूलिका समाप्त हुई ।

## सत्तमी चूलिया

एत्तो जहण्णट्टिदिं वण्णइस्सामो ॥ १ ॥

तं जहा ॥ २ ॥

उक्कस्सविसोहीए जा ट्टिदी वज्झदि सा जहण्णिया होदि, सव्वासिं ट्टिदीणं पसत्थभावाभावादो । संकिलेसवट्ठीदो सव्वपयडिडिदीणं वट्ठी होदि, विसोहिंवट्ठीदो तासिं चेव हाणी होदि । को संकिलेसो णाम ? असादवंधजोग्गपरिणामो संकिलेसो णाम । का विसोही ? सादवंधजोग्गपरिणामो । उक्कस्सट्टिदीदो हेट्टिमट्टिदीयो वंधमाणस्स परिणामो विसोहि ति उच्चदि, जहण्णट्टिदीदो उवरिमविदियादिट्टिदीओ वंधमाणस्स परिणामो संकिलेसो ति के वि आइरिया भणंति, तण्ण घडदे । कुदो ? जहण्णुक्कस्स-ट्टिदिपरिणामे मोत्तूण सेसमज्झिमट्टिदीणं सव्वपरिणामाणं पि संकिलेस-विसोहित्त-प्पसंगादो । ण च एवं, एक्कस्स परिणामस्स लक्खणभेदेण विणा दुभावविरोहादो ।

अत्र इससे आगे जघन्य स्थितिका वर्णन करेंगे ॥ १ ॥

वह किस प्रकार है ? ॥ २ ॥

उत्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा जो स्थिति बंधती है, वह जघन्य होती है, क्योंकि सर्व स्थितियोंके प्रशस्त भावका अभाव है । संक्लेशकी वृद्धिसे सर्व प्रकृतिसम्बन्धी स्थितिकी वृद्धि होती है, और विशुद्धिकी वृद्धिसे उर्द्धा स्थितियोंकी हानि होती है ।

शंका—संक्लेश नाम किसका है ?

समाधान—असाताके बंध-योग्य परिणामको संक्लेश कहते हैं ।

शंका—विशुद्धि नाम किसका है ?

समाधान—साताके बंध-योग्य परिणामको विशुद्धि कहते हैं ।

कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसे अधस्तन स्थितियोंको बांधनेवाले जीवका परिणाम 'विशुद्धि' इस नामसे कहा जाता है, और जघन्य स्थितिसे उपरिम द्वितीय, तृतीय आदि स्थितियोंको बांधनेवाले जीवका परिणाम 'संक्लेश' कहलाता है । किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है; क्योंकि, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिके बांधनेके योग्य परिणामोंको छोड़कर शेष मध्यम स्थितियोंके बांधने योग्य सर्व परिणामोंके भी संक्लेश और विशुद्धिताका प्रसंग आता है । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, एक परिणामके लक्षणभेदके बिना द्विभाव अर्थात् दो प्रकारके होनेका विरोध है ।

१ सव्वट्टिदीणमुक्कस्सओ दु उक्कस्ससंकिलेसेण । विवरंदिण जहण्णो आउगतिववडियाण तु ॥ गो. क. १३४.

संकिलेस-विसोहीणं वड्डमाण-हायमाणलक्खणेण भेदो ण विरुज्झदि त्ति चे ण, वड्डि-हाणि-धम्ममाणं परिणामत्तादो जीवदन्वावट्ठाणाणं परिणामंतरेसु असंभवाणं परिणामलक्खणत्त-विरोहादो । ण च कसायवड्डी संकिलेसलक्खणं, ट्टिदिवंधउड्डीए अण्णहाणुववत्तीदो, विसोहिअट्ठाए वड्डमाणकसायस्स वि संकिलेसत्तप्पसंगादो । ण च विसोहिअट्ठाए कसाय-उड्डी णत्थि त्ति वोत्तुं जुत्तं, सादादीणं भुजगारवंधाभात्तप्पसंगा । ण च असाद-सादवंधाणं संकिलेस-विसोहीओ मोत्तूण अण्णकारणमत्थि, अणुवलंभा । ण कसायउड्डी असादबंध-

शंका—वर्धमान स्थितिको संक्लेशका तथा हायमान स्थितिको विशुद्धिका लक्षण मान लेनेसे भेद विरोधको नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, परिणाम स्वरूप होनेसे जीव-द्रव्यमें अवस्थानको प्राप्त और परिणामान्तरांमें असंभव ऐसे वृद्धि और हानि, इन दोनों धर्मोंके परिणाम-लक्षणत्वका विरोध है ।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका मत यह है कि जघन्यसे उत्कृष्टकी ओर स्थिति-बंधके योग्य परिणामको संक्लेश और उत्कृष्टसे जघन्यकी ओर स्थितिवंधके योग्य परिणामको विशुद्धि कहते हैं, इस प्रकार वर्धमान स्थितिवंधको संक्लेश तथा हीयमान स्थितिवंधको विशुद्धिका लक्षण मान लेनेसे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता । किन्तु धवलाकारने इस मतका इस प्रकार निराकरण किया है कि स्थितियोंकी वृद्धि और हानि स्वयं जीवके परिणाम हैं जो क्रमशः संक्लेश और विशुद्धिरूप परिणामकी वृद्धि और हानिसे उत्पन्न होते हैं । और एक परिणाम दूसरे परिणामका लक्षण नहीं बन सकता । अतएव वे संक्लेश और विशुद्धिके लक्षण नहीं माने जा सकते । स्थितियोंकी वृद्धि और हानि तथा संक्लेश और विशुद्धिकी वृद्धि और हानिमें कार्य-कारण सम्बन्ध अवश्य है, पर लक्षण-लक्ष्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता ।

कषायकी वृद्धि भी संक्लेशका लक्षण नहीं है, क्योंकि, अन्यथा स्थितिवंधकी वृद्धि बन नहीं सकती है, तथा, विशुद्धिके कालमें वर्धमान कषायवाले जीवके भी संक्लेशत्वका प्रसंग आता है । और, विशुद्धिके कालमें कषायोंकी वृद्धि नहीं होती है, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, वैसा मानने पर साता आदिके भुजाकारबंधके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा । तथा, असाता और साता, इन दोनोंके बन्धका संक्लेश और विशुद्धि, इन दोनोंको छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, वैसा कोई कारण पाया नहीं जाता है । कषायोंकी वृद्धि केवल असाताके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, उसके,

कारणं, तक्काले सादस्स वि बंधुवलंभा । ण हाणी, तिस्से वि साहारणत्तादो । किं च विसोहीओ उक्कस्सट्ठिदिम्हि थोवा होदूण गणणाए वड्डुमाणाओ आगच्छंति जाव जहण-ट्ठिदि त्ति । संकिलेसा पुण जहणट्ठिदिम्हि थोवा होदूण उवरि पक्खेउत्तरक्रमेण वड्डुमाणां गच्छंति जा उक्कस्सट्ठिदि त्ति । तदो संकिलेसेहिंतो विसोहीओ पुथभूदाओ त्ति दट्ठच्चाओ । तदो ट्ठिदमेदं सादबंधजोग्गपरिणामो विसोहि त्ति ।

पंचण्हं णाणावरणीयाणं चटुण्हं दंसणावरणीयाणं लोभसंज-  
लणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहणणओ ट्ठिदिवंधो अंतोमुहुत्तं ॥ ३ ॥

अर्थात् कपायोंकी वृद्धिके कालमें साताका बन्ध भी पाया जाता है। इसी प्रकार कपायोंकी हानि केवल साताके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, वह भी साधारण है, अर्थात् कपायोकी हानिके कालमें असाताका भी बन्ध पाया जाता है।

विशेषार्थ—पूर्वमें थोड़ी प्रकृतियोंका बन्ध होकर पश्चात् अधिक प्रकृतियोंके बन्ध होनेको भुजाकार बन्ध कहते हैं। जैसे उपशांतकपाय गुणस्थानमें केवल एक सातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है। वहांसे दशवें सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें आने पर आयु और मोहको छोड़कर शेष छह मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। दशवेंसे नवमें व आठवें गुणस्थानमें आने पर आयुको छोड़कर शेष सात मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। आठवें गुणस्थानसे नीचे आने पर आठों ही प्रकृतियोंका बन्ध संभव हो जाता है। यह भुजाकार बन्ध है। यहां पर भुजाकार बन्धके उक्त स्थानोंमें विशुद्धि होने पर भी कपायोंकी वृद्धि है और इसीसे वे भुजाकार बन्धस्थान संभव होते हैं। कपायोंकी वृद्धि होने पर भी वहां सातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है। तथा कपायोंकी हानि होने पर भी छठवें गुणस्थान तक असाताका बन्ध होता रहता है। अतः कपाय-वृद्धिको संक्लेशका लक्षण नहीं माना जा सकता।

दूसरी बात यह है कि विशुद्धियां उत्कृष्ट स्थितिमें अल्प होकर गणनाकी अपेक्षा बढ़ती हुई जघन्य स्थिति तक चली आती हैं। किन्तु संक्लेश जघन्य स्थितिमें अल्प होकर ऊपर प्रक्षेप-उत्तर क्रमसे, अर्थात् सदश प्रचयरूपसे, बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थिति तक चले जाते हैं। इसलिए संक्लेशोंसे विशुद्धियां पृथग्भूत होती हैं, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। अतएव यह स्थित हुआ कि साताके बन्धयोग्य परिणामका नाम विशुद्धि है।

पांचों ज्ञानावरणीय, चक्षुदर्शनावरणादि चारों दर्शनावरणीय, लोभसंज्वलन और पांचों अन्तराय, इन कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३ ॥

“ ”

१ तत्र काले सभवंतो विशुद्धिकपायपरिणामा असंख्यातलोकमात्राः सन्ति । ते च तत्प्रथमसमयमादिं कृत्वा उपर्युपरि सर्वत्र सदृशप्रचयवृद्ध्या वर्धन्ते । गो. क. ८९९. टीका.

२ शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ त. सू. ८, २०. मिष्णशुहुत्त तु ठिदी जहणणयं सेसपचण्हं ॥ ग्ने. क. १३९.

कुदो ? कसायखवयस्स चरिमसमयबंधत्तादो । एत्थ गुणहाणीओ णत्थि, पल्लिदो-  
वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तट्टिदीए विणा गुणहाणीए असंभवादो ।

## अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ४ ॥

आवाधाकंडएण असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तेण अप्पिदट्टिदिग्धि भागे  
हिदे आवाधा आगच्छदि त्ति पुच्चमसइं परूविदं । संपहि अंतोमुहुत्तमेत्तट्टिदीए आवाहा-  
कंडयादो असंखेज्जगुणहीणाए कधमावाधा उवलब्भदे ? ण एस दोसो, सग-सगजादि-  
पडिवद्धावाधाकंडएहि सग-सगट्टिदीसु ओवट्टिदासु सग-सगआवाधासमुप्पत्तीदो । ण च  
सव्वजादीसु आवाधाकंडयाणं सरिसत्तं, संखेज्जवस्सट्टिदिवंधेसु अंतोमुहुत्तमेत्तआवाधो-  
वट्टिदेसु संखेज्जसमयमेत्तआवाधाकंडयदंसणादो । तदो संखेज्जरूवेहि जहण्णट्टिदिग्धि  
भागे हिदे संखेज्जावलयमेत्ता णिसेगट्टिदीदो<sup>१</sup> संखेज्जगुणहीणा जहण्णावाधा होदि

क्योंकि, कपायोंके क्षपण करनेवाले जीवके ( दशवें गुणस्थानके ) अन्तिम  
समयमें इस जघन्य स्थितिका बन्ध होता है । यहांपर अर्थात् इस जघन्य स्थितिमें  
गुणहानियां नहीं होती हैं, क्योंकि, पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिके बिना  
गुणहानिका होना असंभव है ।

पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मोंका जघन्य आवाधाकाल अन्त-  
मुहूर्त है ॥ ४ ॥

शंका—पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र आवाधाकांडकसे विवक्षित  
स्थितिमें भाग देने पर आवाधा आजाती है, यह बात पहले अनेक बार प्ररूपण की गई  
है । अब, आवाधाकांडकसे असंख्यात गुणित हीन अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिकी आवाधा  
कैसे उपलब्ध होती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अपनी अपनी जातियोंमें प्रतिबद्ध  
आवाधाकांडकोंके द्वारा अपनी अपनी स्थितियोंके अपवर्त्तित करनेपर अपनी अपनी,  
अर्थात् विवक्षित प्रकृतियोंकी, आवाधा उत्पन्न होती है । तथा, सर्व जातिवाली  
प्रकृतियोंमें आवाधाकांडकोंके सदृशता नहीं है, क्योंकि, संख्यात वर्षवाले स्थितिबन्धोंमें  
अन्तर्मुहूर्तमात्र आवाधासे अपवर्तन करनेपर संख्यात समयमात्र आवाधाकांडक उत्पन्न  
होते हुए देखे जाते हैं । इसलिये संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर निषेक-  
स्थितिसे संख्यातगुणित हीन संख्यात आवलिमात्र जघन्य आवाधा होती है, यह अर्थ

१ प्रतिष्ठा 'सरीत्त' इति पाठः ।

२ अ-आ प्रत्योः 'भेत्ताणि सगट्टिदीदो' इति पाठः ।



त्ति घेत्तव्वं ।

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ५ ॥

सुगममेदं ।

पंचदंसणावरणीय-असादावेदणीयाणं जहण्णगो ट्टिदिवंधो  
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण  
ऊणया ॥ ६ ॥

तं जहा — सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिट्टिदिवंधमिच्छत्तस्स जदि एत्थ एक्क-  
सागरोवममेत्तो उक्कस्सो ट्टिदिवंधो लब्भदि तो तीससागरोवम (-कोडाकोडि-) मेत्तुक्कस्स-  
ट्टिदिवंधदंसणावरणादीणं किं ट्टिदिवंधं लभामो त्ति फलगुणिदमिच्छं पमाणेणोवट्टिदे  
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा आगच्छंति' । पुणो तत्थ आवलियाए असंखेज्जदि-  
भागमेत्तेण आवाधद्वणविसेसेण रूवाहिएण एगमावाधाकंडयं गुणिय रूऊणं कादूण

ग्रहण करना चाहिए ।

पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मोंके आवाधाकालसे हीन जघन्य  
कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निपेक होता है ॥ ५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

निद्रानिद्रादि पांच दर्शनावरणीय और असादावेदनीय, इन कर्म-प्रकृतियोंका  
जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके तीन बटे सात  
भागप्रमाण है ॥ ६ ॥

यह इस प्रकार है — यहांपर अर्थात् एकेन्द्रिय जीवोंमें सत्तर कोडाकोड़ी  
सागरोपमके स्थितिवन्धवाले मिथ्यात्वकर्मका यदि एक सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थिति-  
वन्ध प्राप्त होता है, तो तीस कोडाकोड़ी सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थितिवन्धवाले दर्शना-  
वरणीयादि कर्मोंका क्या स्थितिवन्ध प्राप्त होगा, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे  
गुणित कर प्रमाणराशिसे अपवर्तन करनेपर एक सागरोपमके सात भागोंमेंसे तीन भाग

आते हैं । उदाहरण —  $\frac{30 \times 1}{70} = \frac{3}{7}$

पुनः उसमें एक रूपसे अधिक, आवलीके असंख्यातवें भागमात्र आवाधास्थान-  
विशेषके द्वारा एक आवाधाकांडकको गुणा करके, और उसमेंसे एक कम करके प्राप्त

३ जदि सत्तरिस्स एचियमेत्त किं होदि तीसियादीणं । इदि सपाते सेसाणं इगिविगलेसु उमयठिदी ॥  
गो. क १४५.

लद्धवीचारट्टाणाणि अवणिदे जहण्णओ ट्टिदिबंधो होदि' । सेसं सुगमं ।

**अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ७ ॥**

तं जधा— एगेणावाधाकंडएण समऊणजहण्णट्टिदिमिह भागे हिदे लद्धं रूचाहियं जहण्णावाधा होदि । किमट्टं जहण्णट्टिदी समऊणं करिय आवाधाकंडएण भागो घेप्पदे ? ण, पुवं समऊणावाधाकंडएण विणा जहण्णत्तमुवगदत्तादो ।

**आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ८ ॥**

सुगममेदं ।

**सादावेदणीयस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो वारस मुहुत्ताणि' ॥९॥**

हुए वीचारस्थानोंको उक्त राशिमेंसे घटानेपर जघन्य स्थितिवन्ध होता है ।

उदाहरण—मान लो उत्कृष्ट स्थिति = ६४, आवाधा = १६; आवाधाकांडक =  $\frac{६४}{२} = ३२$ ; आवाधाके स्थानोका विशेष = ४ ( देखो उत्कृष्टस्थितिचूलिका, सूत्र ५ की टीका ) । अतएव जघन्य स्थिति होगी—  $(३२ + १) \times ४ - १ = १२९$  वीचारस्थान,  $६४ - १२९ = ६५$  जघन्य स्थितिवंध ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

पूर्व सूत्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कर्म-प्रकृतियोंका जघन्य आवाधाकाल अन्त-मुहूर्त है ॥ ७ ॥

वह इस प्रकार है— एक आवाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जो राशि लब्ध हो, उसमें एक जोड़नेपर जघन्य आवाधा होती है ।

उदाहरण—'मान लो जघन्य स्थिति = ४५; आवाधाकांडक = ४ । अतएव  $(४५ - १) - ४ + १ = ४१$  जघन्य आवाधा ।

शंका—जघन्य स्थितिको एक समय कम करके उसमें आवाधाकांडकके द्वारा भाग किसलिए देते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पहले एक समय कम आवाधाकांडकके बिना जघन्यता मानी गई है ।

पूर्व सूत्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कर्मोंके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कर्म-निपेक होता है ॥ ८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

**सादावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध चारह मुहूर्त है ॥ ९ ॥**

१ जेड्ढावाहोवट्टियजेड्ढ आवाहकडय तेण । आवाहवियप्पहदेणेगूणेण्णजेड्ढमवरट्टिदी ॥ गो क. १४७.

२ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ त. सू. ८, १८. वारस य वेयणीये ॥ गो. क. १३९.

कुदो ? सुहुमसांपराइयचरिमसमयवंधादो । तीसियस्स दंसणावरणीयस्स अंतो-  
मुहुत्तमेत्तद्धिदिं बंधमाणो सुहुमसांपराइओ तीसियवेदणीयभेदस्स सादावेदणीयस्स पण्णा-  
रससागरोवमकोडाकोडीउक्कस्सट्टिदिअस्स कथं वारसमुहुत्तियं जहण्णाट्टिदिं बंधदे ? ण,  
दंसणावरणादो सुहस्स सादावेदणीयस्स विसोधीदो सुहु ट्टिदिवंधोवट्टणाभावा ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ १० ॥

कुदो ? संखेज्जरूवेहि वारसमुहुत्तेसु<sup>१</sup> ओवट्टिदेसु अंतोमुहुत्तुवलंभादो ।

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ११ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छत्तस्स जहण्णगो ट्टिदिबंधो सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा  
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ॥ १२ ॥

क्योंकि, सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती क्षपक संयतके अन्तिम समयमें यह  
जघन्य बंध होता है ।

शंका—तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले दर्शनावरणीय  
कर्मकी अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्य स्थितिको बांधनेवाला सूक्ष्मसांपराय संयत तीस कोड़ा-  
कोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले वेदनीयकर्मके भेदस्वरूप पन्द्रह कोड़ाकोड़ी  
सागरोपमप्रमित उत्कृष्ट स्थितिवाले सातावेदनीयकर्मकी वारह मुहूर्तवाली जघन्य  
स्थितिको कैसे बांधता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, दर्शनावरणीय कर्मकी अपेक्षा शुभ प्रकृतिरूप साता-  
वेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा स्थितिवन्धकी अधिक अपवर्तनाका अभाव है । अर्थात्  
सातावेदनीय पुण्य प्रकृति है, अतएव विशुद्धिके द्वारा उसकी स्थितिका घात अधिक नहीं  
होता है । किन्तु दर्शनावरणीय पाप प्रकृति है, अतएव विशुद्धिसे उसकी स्थितिका  
अधिक घात होता है ।

सातावेदनीय कर्मका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ १० ॥

क्योंकि, संख्यात रूपोंसे वारह मुहूर्तोंके अपवर्तन करनेपर अन्तर्मुहूर्तकी प्राप्ति  
होती है ।

सातावेदनीय कर्मके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उसका  
कर्म-निपेक होता है ॥ ११ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पर्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन  
सागरोपमके सात बटे सात भागप्रमाण है ॥ १२ ॥

आवलियाए असंखेज्जदिभागेण वादरेइंदियपज्जत्ताणमाबाधट्टाणविसेसेण रूवा-  
हिएण एगमावाधाकंडयं गुणिय रूऊणं कादूण सागरोवमम्हि सोहिदे मिच्छत्तजहण्ण-  
ट्टिदिसमुप्पत्तीदो । वादरेइंदियअपज्जत्तएसु सुहुमेइंदियपज्जत्तापज्जत्तेसु वा मिच्छत्तस्स  
जहण्णओ ट्टिदिवंधो किण्ण होदीदि चे ण, एदेसु वीचारट्टाणाणं बहुत्ताभावा ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १३ ॥

कुदो ? समऊणजहण्णट्टिदिम्हि आवाधाकंडएण भागे हिदे लद्धरूवाहियस्स  
जहण्णावाधत्तब्भुवगमादो ।

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ १४ ॥

सुगममेदं ।

वारसण्हं कसायाणं जहण्णओ ट्टिदिवंधो सागरोवमस्स चत्तारि  
सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ॥ १५ ॥

किमट्ठं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सागरोवमचत्तारिसत्तभागाणमूणत्तं

क्योंकि, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके आवाधास्थानविशेषस्वरूप एक रूप  
अधिक, आवलीके असंख्यातवें भागसे एक आवाधाकांडकको गुणा करके उसमेंसे एक  
कम करके सागरोपममेंसे घटा देनेपर मिथ्यात्वकर्मकी जघन्य स्थिति उत्पन्न होती है ।

शंका—वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें, अथवा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और  
अपर्याप्तक जीवोंमें, मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें, अथवा सूक्ष्म  
एकेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंमें, वीचारस्थानोंकी बहुलताका अभाव है ।

मिथ्यात्वकर्मका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्गृहृत है ॥ १३ ॥

क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिमें आवाधाकांडकसे भाग देनेपर जो  
राशि लब्ध हो, उसमें एक रूप अधिक करनेपर उत्पन्न राशिको जघन्य आवाधाकाल  
माना है ।

मिथ्यात्वकर्मके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्म-स्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक  
होता है ॥ १४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनन्तानुबन्धी आदि वारह कषायोंका जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके  
असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके चार बटे सात भागप्रमाण है ॥ १५ ॥

शंका—सागरोपमके चार बटे सात भागोंको पल्योपमके असंख्यातवें भागसे

उच्चदे ? ण, वादरेइंदियपज्जत्तएसु वीचारद्वानाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं  
चेव वेदणासुत्तमिह णिदिद्वत्तादो ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ १६ ॥

कुदो ? आवाधाकांडएण ओवद्विदसमऊणजहण्णद्विदिमिह समयाधियमिह जहण्णा-  
वाधुवलंभादो । सेसं सुगमं ।

आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ॥ १७ ॥

एदं पि सुगमं ।

क्रोधसंजलण-माणसंजलण-मायसंजलणाणं जहण्णओ द्विदि-  
बन्धो वे मासा मासं पक्खं ॥ १८ ॥

जधासंखेण क्रोधसंजलणस्स जहण्णओ द्विदिवंधो वे मासा, माणस्स मासो,  
मायाए पक्खो त्ति घेत्तव्वो । किमइं पुध पुध संजलणसदुच्चारणं कीरदे ?

हीन करना किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वेदनासूत्रमें वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें  
वीचारस्थान पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र ही निर्दिष्ट किये गये हैं । ( और उत्कृष्ट  
स्थितिमेंसे वीचारस्थानोंको घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है । )

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपार्योंका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥१६॥

क्योंकि, आवाधाकांडके द्वारा एक समय कम जघन्य स्थितिको अपवर्तन करके  
पुनः उसमें एक समय अधिक करनेपर जघन्य आवाधाकी उपलब्धि होती है। शेष सूत्रार्थ  
सुगम है ।

उक्त बारह कपार्योंके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका  
कर्म-निषेक होता है ॥ १७ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और मायासंज्वलन, इन तीनोंका जघन्य स्थिति-  
बन्ध क्रमशः दो मास, एक मास और एक पक्ष है ॥ १८ ॥

यथासंख्य, अर्थात् संख्याके क्रमानुसार, क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध दो  
मास, मानसंज्वलनका एक मास और मायासंज्वलनका एक पक्ष होता है, ऐसा अर्थ  
ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—क्रोध आदि पदोंके साथ पृथक् पृथक् संज्वलनशब्दका उच्चारण किस-  
लिए किया है ?

ण, भिण्णट्टाणेसु वंधवोच्छेदपदंसणट्ठं पुध पुध तस्सुच्चारणादो, पज्जवट्टियणए अवलं-  
विज्जमाणे तिण्णमेगत्तविरोधादो वा पुध पुधुच्चारणं कीरदे ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ १९ ॥

संखेज्जरूवेहिं जहण्णट्टिदिमिह भागे हिदे जहण्णावाधुवलंभादो ।

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ २० ॥

सुगममेदं ।

पुरिसवेदस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो अट्ट वस्साणि' ॥ २१ ॥

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ २२ ॥

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ २३ ॥

एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

समाधान — नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न स्थानोंमें इन तीनों संज्वलन कषायोंका वंध-व्युच्छेद वतलानेके लिए पृथक् पृथक् उसका, अर्थात् संज्वलनशब्दका, उच्चारण किया है । ( विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० ४५ का विशेषार्थ ) । अथवा पर्यायार्थिक नयके अवलंबन किये जानेपर तीनों कषायोंके एकताका विरोध है, अर्थात् तीनों एक नहीं हो सकते, इसलिए क्रोध आदि पदोंके साथ संज्वलनशब्दका पृथक् पृथक् उच्चारण किया है ।

क्रोधादि तीनों संज्वलनकषायोंका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ १९ ॥

क्योंकि, संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमें भाग देनेपर जघन्य आवाधा प्राप्त होती है ।

क्रोधादि तीनों संज्वलनकषायोंके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ २० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध आठ वर्ष है ॥ २१ ॥

आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २२ ॥

आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उसका कर्म-निषेक होता है ॥ २३ ॥

ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

इत्थिवेद-णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-  
 गइ-मणुसगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि--  
 ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्टाणाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं  
 छण्हं संघडणाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-  
 पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थ-  
 विहायगदि-अप्पसत्थविहायगदि-तस-थावर--वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-  
 पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर--दुस्सर-  
 आदेज्ज-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं जहण्णगो द्विदि-  
 बंधो सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण  
 ऊणया ॥ २४ ॥

णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादिआदीणं जहण्णओ द्विदिवंधो  
 पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरोवमस्स वे-सत्तभागमेत्तो होदु णाम, एदासिं  
 वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्तुक्कस्सद्विदिदंसणादो । किंतु इत्थिवेद-हस्स-रदि-थिर सुभ-

स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यग्गति,  
 मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पंचेन्द्रिय-  
 जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग,  
 छहों संहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानु-  
 पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, अप्रशस्त-  
 विहायोगति, त्रस, थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर,  
 अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशःकीर्त्ति,  
 निर्माण और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातर्वे  
 भागसे कम सागरोपमके दो बटे सात भाग है ॥ २४ ॥

शंका—नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पंचेन्द्रियजाति आदि  
 प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे कम सागरोपमके दो बटे  
 सात भागमात्र भले ही रहा आवे, क्योंकि, इन प्रकृतियोंकी वीस कोडाकोड़ी सागरो-  
 पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है । किन्तु स्त्रीवेद, हास्य, रति, स्थिर शुभ, सुभग,

सुभग-सुस्सरादीणं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूण-सागरोवमवेसत्तभागमेत्तजहण्ण-ट्टिदिवंधो ण घड्ढे, एदासिं वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्तुक्कस्सट्टिदीए अभावादो ? ण, जदि वि एदासिमप्पणो उक्कस्सट्टिदी वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्ता णत्थि, तो वि मूलपयडिउक्कस्सट्टिदिअणुसारेण ओहट्टुमाणणं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूण-सागरोवमवेसत्तभागमेत्तजहण्णट्टिदिवंधाविरोहा । ण च इत्थिवेद-हस्स-रदीयो कसाय-बंधाणुसारिणीया, णोकसायस्स तदणुसरणविरोहा । एसा जहण्णट्टिदी वादरेइंदियपज्जत्तएसु

और सुस्वर आदि प्रकृतियोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो वटे सात भागमात्र जघन्य स्थितिवन्ध नहीं घटित होता है, क्योंकि, इन खीवेदादि प्रकृतियोंकी वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका अभाव है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, यद्यपि इन खीवेद आदिकी अपनी उत्कृष्ट स्थिति वीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण नहीं है, तो भी मूल प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके अनुसार न्हासको प्राप्त होती हुई इन प्रकृतियोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो वटे, सात भागमात्र जघन्यस्थितिके बंधनेमें कोई विरोध नहीं है । तथा, खीवेद, हास्य और रति, ये प्रकृतियां कपायोंके बन्धका अनुसरण करनेवाली नहीं हैं, क्योंकि, नोकपायके कपाय-बन्धके अनुसरणका विरोध है ।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका अभिप्राय यह है कि इस सूत्रमें जिन प्रकृतियोंकी एक ही प्रमाणवाली जघन्य स्थिति बतलाई गई है उनमेंसे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यचगति, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, तैजस और कार्मण-शरीर, हुंडकसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, सृपाटिकासंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उक्कास, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-गति, त्रस, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, निर्माण और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका तो उत्कृष्ट स्थितिवन्ध २० कोड़ाकोड़ी सागर बतलाया गया है, इसलिए इनका एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थितिवन्ध  $20 \times \frac{1}{2} = 10$  कोड़ाकोड़ी सागरोपम और जघन्य स्थितिवन्ध उसमेंसे वीचार-स्थानोंका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग कम करनेसे प्राप्त हो जायगा । किन्तु सूत्रोक्त अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तो २० कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे हीन है । जैसे— द्वितीय, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलितसंहनन, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका १८ कोड़ाकोड़ी सागर, कुब्जकसंस्थान, और अर्धनाराचसंहननका १६ कोड़ाकोड़ी सागर, खीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका १५ कोड़ाकोड़ी सागर, स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका १४, न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान और वज्रनाराचसंहननका १२, तथा हास्य, रति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेयका १० कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पाये जानेसे नियमानुसार उनका जघन्य स्थिति बन्ध भी



सव्वविसुद्धेसु घेत्तव्वा, अण्णत्थ सव्वजहण्णट्ठिदिवंधस्स अणुवलंभादो । किं कारणं ? जादिविसोहीओ आवेक्खिय ट्ठिदिवंधस्स जहण्णत्तसंभवादो ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ २५ ॥

आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ॥ २६ ॥

सुगमाणि दो वि सुत्ताणि ।

सूत्रोक्त एकरूप न होकर क्रमशः पत्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{1}{6}$  और  $\frac{1}{7}$  कोड़ाकोड़ी सागरोपम होना चाहिये ? इस शंकाका ध्वलाकारने यह समाधान किया है कि उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति वरावर २० कोड़ाकोड़ी सागरोपम न होने पर भी उनकी मूलप्रकृतिकी अपेक्षा सामान्यरूपसे उत्कृष्टस्थिति २० कोड़ाकोड़ी सागरोपम मानी गई है, और उसी मूलप्रकृति सामान्यकी अपेक्षा नपुंसकवेदादि और स्त्रीवेदादिकी जघन्यस्थिति एकसी मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता । यहांपर पुनः यह दूसरी शंका उठ खड़ी हुई कि यदि मूलप्रकृतिके सामान्यकी अपेक्षा नामकर्मकी उक्त उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्यस्थिति एकसी ग्रहण की गई सो तो ठीक है, पर स्त्रीवेद, हास्य और रति तो चारित्रमोहनीयके भेदरूप नोकपाय है, और इसलिए उन्हें कपायोंका अनुसरण करना चाहिये । कपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति ४० कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । अतएव उक्त इन नोकपायोंकी सूत्रोक्त जघन्य स्थिति सिद्ध नहीं होती । इसका ध्वलाकारने यह समाधान किया है कि नोकपाय कपायोंका अनुसरण नहीं करते । प्रकृतिसमुत्कीर्तन चूलिकामें कहा जा चुका है कि “स्थितियोंकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कपायोंसे नोकपायोंके अल्पता पाई जाती है।” (देखो इसी भागका पृ. ४६.) ।

यह सूत्रोक्त जघन्यस्थिति सर्वविशुद्ध वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, अन्यत्र सर्वजघन्य स्थितिवन्ध पाया नहीं जाता है ।

शंका—वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय अन्यत्र सर्वजघन्य स्थितिवन्ध नहीं पाये जानेका क्या कारण है ?

समाधान—विशिष्ट जातियोंकी विशुद्धियोंको देखकर ही स्थितिवन्धके जघन्यता संभव है । इसलिए वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय उसका अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं है ।

पूर्व सूत्रोक्त स्त्रीवेदादि प्रकृतियोंका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २५ ॥

उक्त प्रकृतियोंके आवाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्मनिषेक होता है ॥ २६ ॥

ये दोनों सूत्र सुगम हैं ।

णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो दसवाससह-  
स्साणि' ॥ २७ ॥

सुगममेदं ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ २८ ॥

पुव्वकोडितिभागे वि भुज्जमाणाउए संते' देव-णेरइयदसवाससहस्सआउट्टिदिबंध-  
संभवादो पुव्वकोडितिभागो आबाधा त्ति किण्ण परूविदो ? ण, एवं संते जहण्णट्टिदीए  
अभावप्पसंगादो ।

आबाधा ॥ २९ ॥

कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ३० ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो खुद्दाभव-  
ग्गहणं<sup>३</sup> ॥ ३१ ॥

नारकायु और देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध दश हजार वर्ष है ॥ २७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नारकायु और देवायुका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ २८ ॥

शंका — भुज्यमान आयुमें पूर्वकोटीका त्रिभाग अवशिष्ट रहने पर भी देव और  
नारकसम्बन्धी दश हजार वर्षकी जघन्य आयुस्थितिका बन्ध संभव है, फिर 'पूर्व-  
कोटिका त्रिभाग आबाधा है' ऐसा सूत्रमें क्यों नहीं प्ररूपण किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर जघन्य स्थितिके अभावका प्रसंग  
आता है। अर्थात् पूर्वकोटिका त्रिभागमात्र आबाधाकाल जघन्य आयुस्थिति-बन्धके  
साथ संभव तो है, पर जघन्य कर्मस्थितिका प्रमाण लानेके लिये तो जघन्य आबाधाकाल-  
ही ग्रहण करना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं ।

आबाधाकालमें नारकायु और देवायुकी कर्मस्थिति बाधा-रहित है ॥ २९ ॥

नारकायु और देवायुकी कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ३० ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ ३१ ॥

१ ××× वासदससहस्साणि । सुरणिरयाउआणण जहण्णओ होदि ट्टिदिबंधो ॥ गो. क. १४२.

२ प्रतिषु 'सिंते' इति पाठ ।

३ मिण्णमुहुत्तो णरतिरियाऊण ॥ गो. क. १४२.

सुगममेदं ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ३२ ॥

कुदो ? असंखेपद्वादो उवरिमआवाधाणं जहण्णट्टिदीए सह विरोधादो ।

आबाधा ॥ ३३ ॥

कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ३४ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णिरयगदि-देवगदि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-णिरय-  
गदि-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीणामाणं जहण्णगो ट्टिदिवंधो सागरोवम-  
सहस्सस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया ॥३५॥

कुदो ? सव्वविसुद्धेण असण्णिपंचिदिएण वज्झमाणत्तादो । एदस्स परूवणट्ठं  
एत्थुवज्जुज्जंतं किंचि अत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा- एइदिएसु मिच्छत्तस्सुक्कस्स-  
ट्टिदिवंधो एगं सागरोवमं । कसायाणं सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा । णाणदंसणा-  
वरणंतराइय-वेदणीयाणं तिण्णि सत्तभागा । णाम-गोद-णोकसायाणं वे सत्तभागा । १ । ६ ।

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यगायु और मनुष्यायुका जघन्य आवाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३२ ॥

क्योंकि, असंखेपाद्वा कालसे ऊपरकी आवाधाओंका जघन्य स्थितिके साथ विरोध है ।

आवाधाकालमें तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्मस्थिति बाधा-रहित है ॥ ३३ ॥

तिर्यगायु और मनुष्यायुकी कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निपेक होता है ॥ ३४ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, नरकगतिप्रा-  
योग्यानुपूर्वी और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध पल्लयोपमके  
संख्यातर्वे भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग है ॥ ३५ ॥

क्योंकि, यह जघन्य स्थिति सर्वविशुद्ध असंशी पंचेन्द्रिय जीवके द्वारा बांधी जाती  
है । इसी जघन्य स्थितिवन्धके प्ररूपण करनेके लिए यहांपर उपयोगी कुछ अर्थकी प्ररूपणा  
करते हैं । वह इस प्रकार है— एकेन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक  
सागरोपम (१) है । कपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरोपमके चार बटे सात भाग  
(४) है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति-  
वन्ध एक सागरोपमके तीन बटे सात भाग (३) है । नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकषायोंका

३।३। एवं वेइंदियादीणमसण्णिपंचिंदियपज्जवसाणाणमुक्कस्सट्टिदिवंधा वत्तव्वा। २५।  
 १७°। ५५। ५७। एदे वीइंदियाणं । ५०। २७°। १५°। १७°। एदे तीइंदियाणं  
 । १००। ४७°। ३७°। २७°। एदे चदुरिंदियाणं । १०००। ४७°°। ३७°°।  
 २७°°। एदे असण्णिपंचिंदियाणमुक्कस्सट्टिदिवंधा' ।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरोपमके दो बटे सात भाग (३) है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीवोंसे आदि लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहना चाहिए। द्वीन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पच्चीस (२५) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सौ बटे सात (१७°) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पचहत्तर बटे सात (५५) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पचास बटे सात (५७) सागरोपम है। ये द्वीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं। त्रीन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पचास (५०) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दो सौ बटे सात (२७°) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका डेढ़ सौ बटे सात (१५°) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सौ बटे सात (१७°) सागरोपम है। ये त्रीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं। चतुरिन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सौ (१००) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चार सौ बटे सात (४७°) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीन सौ बटे सात (३७°) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दो सौ बटे सात (२७°) सागरोपम है। ये चतुरिन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक हजार (१०००) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चार हजार बटे सात (४७°°) सागरोपम है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीन हजार बटे सात (३७°°) सागरोपम है। नामकर्म, गोत्रकर्म और नोकपायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दो हजार बटे सात (२७°°) सागरोपम है। ये असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध हैं।

..

१ एयं पणकदि पण सयं सहस्स च मिच्छन्नरवेधो । इगिन्निगलाण अवर पक्खसंखुणसंखुणं ॥ जदि सत्तरिस्स एयियमेत्त किं होदि तीसियादीणं । इदि सपाते सेसाण इगिन्निगलेसु उमयठिदी ॥ गो. क. १४४-१४५.

इस उपर्युक्त कथनका कोष्टक इस प्रकार है—

स्थितिबन्ध	कर्मोंके नाम	एकेन्द्रिय	द्वीन्द्रिय	त्रीन्द्रिय	चतुरिन्द्रिय	असंज्ञी पंचेन्द्रिय
उत्कृष्ट	मिथ्यात्व	१ सागरो- पम	२५ साग.	५० साग	१०० साग.	१००० सागरोपम
”	सोलह कषाय	४ ८ ”	१०० ८ ”	२०० ८ ”	४०० ८ ”	४००० ८ ”
”	ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अन्तराय	३ ८ ”	७५ ८ ”	१५० ८ ”	३०० ८ ”	३००० ८ ”
”	नामकर्म गोत्रकर्म लोकषाय	२ ८ ”	५० ८ ”	१०० ८ ”	२०० ८ ”	२००० ८ ”

अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पत्यका असंख्यातवां भाग कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको एकेन्द्रिय जीव बांधते हैं। द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पत्यका संख्यातवां भाग कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको बांधते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंका उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्ध सूत्रोंमें पृथक् पृथक् दिखाया गया है। उसका कोष्टक इस प्रकार है—

संज्ञी पंचेन्द्रिय	मिथ्यात्वकर्म दर्शनमोहनीय	चारित्र-मोहनीय	ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अन्तराय	नामकर्म गोत्रकर्म	आयुर्कर्म
उत्कृष्ट	७० कोड़ाकोड़ी सागरो.	४० कोड़ा सागरो.	३० कोड़ा सागरो.	२० कोड़ा सागरो.	३३ सागरोपम
जघन्य	अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त	१२ अन्त. वेदनीयकी १ ” शेष कर्मोंकी	८ अन्तर्मुहूर्त	अन्तर्मुहूर्त

एइंदिएसु वीचारट्टाणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, आवाधाट्टाणाणि आवलियाए असंखेज्जदिभागो । बीइंदियादिसु वीचारट्टाणाणि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, आवाधाट्टाणाणि आवलियाए संखेज्जदिभागो । वेउव्वियच्छक्कं च णामकम्मं, तेण सागरोवमसहस्सवेसत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणा तस्स जहण्णाट्टिदिवंधो होदि ।

अंतोमुहुत्तमावाधा ॥ ३६ ॥

आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेगो ॥ ३७ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

आहारसरीर-आहारसरीर-अंगोवंग-तित्थयरणामाणं जहण्णगो  
ट्टिदिवंधो अंतोकोडाकोडीओ' ॥ ३८ ॥

कुदो ? अपुव्वकरणचरिमसमयादो सत्तमभागमोदिण्णस्स अपुव्वकरणखवगस्स वंधादो ।

एकेन्द्रिय जीवोंमें वीचारस्थान पल्योपमके असंख्यातवें भाग हैं, और आवाधा-स्थान आवलीके असंख्यातवें भाग हैं । द्वीन्द्रियादि जीवोंमें वीचारस्थान पल्योपमके संख्यातवे भाग हैं, और आवाधास्थान आवलीके संख्यातवें भाग हैं । वैक्रियिकपट्ट, अर्थात् नरकगति आदि सूत्रोक्त छहों प्रकृतियां नामकर्मकी हैं, इसलिए पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग (२ ° ° °) उस वैक्रियिक-पट्टका जघन्य स्थितिवन्ध होता है ।

पूर्व सूत्रोक्त नरकगति आदि छहों प्रकृतियोंका जघन्य आवाधाकाल अन्त-मुहूर्त है ॥ ३६ ॥

उक्त प्रकृतियोंके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ३७ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

आहारकशरीर, आहारकशरीर-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३८ ॥

क्योंकि, अपूर्वकरणके चरम समयसे लेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए अपूर्व-करण क्षपकके इन तीनों प्रकृतियोंका वन्ध होता है ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ३९ ॥

आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ४० ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

जसगित्ति-उच्चागोदाणं जहण्णगो ट्टिदिबंधो अट्ट मुहुत्ताणि'

॥ ४१ ॥

कुदो ? चरिमसमयसकसायबंधादो ।

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ४२ ॥

आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्मणिसेओ ॥ ४३ ॥

एदाणि दो वि सुगमाणि ।

एत्थ जहण्णुक्कस्सपदेसबंधो अणुभागबंधो च किण्ण परूविदो ? ण, पयडि-

आहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग और तीर्थकर नामकर्मका जघन्य आबाधा-काल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ३९ ॥

उक्त कर्मोंके आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४० ॥

यह दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

यशःकीर्ति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध आठ मुहूर्त है ॥ ४१ ॥

क्योंकि, चरम समयवर्ती सकपायी जीवके इन दोनों कर्मोंका वन्ध होता है ।

यशःकीर्ति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तर्मुहूर्त है ॥ ४२ ॥

उक्त कर्मोंके आबाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४३ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

शंका— यहांपर, अर्थात् जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कहते समय या उनके पश्चात्, जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तथा अनुभागवन्ध क्यों नहीं प्ररूपण किया ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्धके अविनाभावी प्रकृति-

ट्टिदिवंधेसु अणुभाग-पदेसाधिणाभावेसु परूविदेसु तप्परूवणासिद्धीदो । तं जहा — सण्णि-  
पंचिदियधुवट्टिदिं अंतोकोडाकोडिं सग-सगकम्मपडिभाइयमप्पप्पणो उक्कस्सट्टिदिमिह  
सोहिदे ट्टिदिवंधट्टाणविसेसो होदि । तत्थ एगरूवं पक्खित्ते ट्टिदिवंधट्टाणाणि हवंति ।  
एक्केक्कस्स ट्टिदिवंधट्टाणस्स असंखेज्जा लोगा ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि जहाकमेण  
विसेसाहियाणि । विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा । तेसिं पडिभागो पल्लिदोवमस्स  
असंखेज्जदिभागो । कुदो ऐदेसिमत्थित्तं णव्वदे ? जहण्णक्कस्सट्टिदीहिंतो सिद्धट्टिदि-  
बंधट्टाणणहाणुववत्तीदो । ण च कारणमंतरेण कज्जस्सुप्पत्ती कहिं पि होदि, अण-  
वट्टाणादो । ताणि च ट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणाणि जहण्णट्टाणादो जावप्पप्पणो उक्कस्सट्टाणं  
ताव अणंतभागवट्टी असंखेज्जभागवट्टी संखेज्जभागवट्टी संखेज्जगुणवट्टी असंखेज्जगुण-  
वट्टी अणंतगुणवट्टी त्ति छत्विधाए वट्टीए ट्टिदाणि । अणंतभागवट्टिकंडयं<sup>१</sup> गंतूण एगा  
असंखेज्जभागवट्टी होदि । असंखेज्जभागवट्टिकंडयं गंतूण एगा संखेज्जभागवट्टी होदि ।

बन्ध और स्थितिवन्धके प्ररूपण किये जानेपर उनकी प्ररूपणा स्वतः सिद्ध है । वह  
इस प्रकार है— अपने अपने कर्मके प्रतिभागीरूप अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण संज्ञी पंचेन्द्रिय  
जीवोंकी ध्रुवस्थितिको अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे घटानेपर स्थितिवन्धका स्थान-  
विशेष होता है । उसमें एक रूप और मिलानेपर स्थितिवन्धके स्थान हो जाते हैं । एक  
एक स्थितिवन्धस्थानके असंख्यात लोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान होते हैं, जो  
कि यथाक्रमसे विशेष विशेष अधिक हैं । इस विशेषका प्रमाण असंख्यात लोक है ।  
उनका प्रतिभाग पल्लोपमका असंख्यातवां भाग है ।

शंका— इन स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान— जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियोंसे प्राप्त या सिद्ध होनेवाले स्थिति-  
वन्धस्थानोंकी अन्यथानुपपत्तिसे स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता  
है । कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति कहीं पर भी होती नहीं है, क्योंकि, यदि ऐसा न  
माना जाय तो अनवस्थादोष प्राप्त होगा ।

वे स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान जघन्य स्थानसे लेकर अपने अपने उत्कृष्ट  
स्थान तक अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि,  
असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इस छह प्रकारकी वृद्धिसे अवस्थित हैं ।  
अनन्तभागवृद्धिकांडक जाकर, अर्थात् सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागमात्र वार अनन्त-  
भागवृद्धि हो जानेपर, एक वार असंख्यातभागवृद्धि होती है । असंख्यातभागवृद्धि-  
कांडक जाकर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है । संख्यातभागवृद्धिकांडक जाकर

१ अवरट्टिदिवंधज्झवसाणट्टाणा असखलोगमिदा । अहियकमा उक्कस्सट्टिदिपरिणामो त्ति णियमेण ॥  
गो. क. ९४७. २ कांडक अगुलासख्यातभागमात्रवार । गो. जी., म प्र. टी ३२९. कांडक च समय  
परिमाषयाङ्गुलमात्रक्षेत्रासख्येयभागगताकाशप्रदेशराशिसख्याप्रमाणमभिधीयते । कर्मप्र. पृ ९०.



संखेज्जभागवद्धिकंडयं गंतूण एगा संखेज्जगुणवद्धी होदि । संखेज्जगुणवद्धिकंडयं गंतूण एगा असंखेज्जगुणवद्धी होदि । असंखेज्जगुणवद्धिकंडयं गंतूण एगा अणंतगुणवद्धी होदि । एदमेगं छट्ठाणं । एरिसाणि असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाणि होंति । सव्वट्ठिदि-बंधट्ठाणाणं एकेक्कट्ठिदिवंधज्झवसाणट्ठाणस्स हेट्ठा छवद्धिकमेण असंखेज्जलोगमेत्ताणि अणुभागबंधज्झवसाणट्ठाणाणि होंति । ताणि च जहण्णकसाउदयअणुभागबंधज्झवसाणट्ठाणप्पहुडि उवरिं जाव जहण्णट्ठिदि-उक्कस्सकसाउदयट्ठाणअणुभागबंधज्झवसाणट्ठाणाणि ति विसेसाहियाणि । विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा । तस्स पडिभागो वि असंखेज्जा लोगा । एदेसिमत्थित्तं कुदो णव्वदे ? कसायउदयट्ठाणादो अणुभागेण विणा अलद्धप्प-सरूवादो । तदो सिद्धा पयडि-ट्ठिदिवंधादो अणुभागबंधम्स सिद्धी ।

कथं पदेसबंधस्स तदो सिद्धी ? उच्चदे- ठिदिवंधे णिसेयविरयणा परूविदा ।

एक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है । संख्यातगुणवृद्धिकांडक जाकर एक वार असंख्यात-गुणवृद्धि होती है । असंख्यातगुणवृद्धिकांडक जाकर एक वार अनन्तगुणवृद्धि होती है । ( यहां सर्वत्र कांडकसे अभिप्राय सूच्यंगुलके असंख्यातवै भागमात्र वारोंसे है । ) यह एक षड्वृद्धिरूप स्थान है । इस प्रकारके असंख्यात लोकमात्र षड्वृद्धिरूप स्थान उन स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानोंके होते हैं ।

सर्व स्थितिवंधोंसम्बन्धी एक एक स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानके नीचे उपर्युक्त षड्वृद्धिके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र अनुभागबंधाध्यवसायस्थान होते हैं । वे अनुभागबंधाध्यवसायस्थान जघन्य कपायोदयसम्बन्धी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे लेकर ऊपर जघन्यस्थितिके उत्कृष्ट कपायोदयस्थानसम्बन्धी अनुभागवन्धाध्यवसाय-स्थान तक विशेष विशेष अधिक हैं । यद्वांपर विशेषका प्रमाण असंख्यात लोक है । तथा उसका प्रतिभाग भी असंख्यात लोक है ।

शंका—इन अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ?

समाधान—अनुभागके विना जिनका आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसे कषायोंके उदयस्थानोंसे अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता है ।

इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि प्रकृतिवन्ध और स्थितिवन्धसे अनुभागवन्धकी सिद्धि होती है ।

शंका—प्रकृतिवन्ध और स्थितिवन्धसे प्रदेशवन्धकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान—कहते हैं—स्थितिवन्धमें निपेकोंकी रचना प्ररूपण की गई है ।

१ लोगाणमसखपमा जहण्णउट्ठिम्मि तम्मिह छट्ठाणा । ट्ठिदिवंधज्झवसाणट्ठाणाण होंति सत्तण्हं ॥ गो क १५२

२ अणुसागाण वधज्झवसाणमसखलोगाणुणिदमदो ॥ गो. क २६०

३ थोवाणि कसाउदये अज्झवसाणाणि सव्वडहरम्मि । विइयाइ विसेसाहियाणि जाव उक्कोसग ठाणं ॥ ५३ ॥ कर्मप्र. पृ. ११८.

ण सा पदेसेहि विणा संभवदि, विरोहादो । तदो तत्तो चेव पदेसबंधो वि सिद्धो । पदेसबंधादो जोगट्टाणाणि<sup>१</sup> सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि<sup>२</sup> जहण्णट्टाणादो अवट्टिद-पक्खेवेण सेडीए असंखेज्जदिभागपडिभागिणण विसेसाहियाणि जाउक्कस्सजोगट्टाणेत्ति दुगुण-दुगुणगुणहाणिअट्टाणेहि सहियाणि सिद्धाणि हवंति । कुदो ? जोगेण विणा पदेस-बंधाणुववत्तीदो । अधवा अणुभागबंधादो पदेसबंधो तक्कारणजोगट्टाणाणि च सिद्धाणि हवंति । कुदो ? पदेसेहि विणा अणुभागाणुववत्तीदो । ते च कम्मपदेसा जहण्णवग्गणाए बहुआ, तत्तो उवरि वग्गणं पडि विसेसहीणा अणंतभागेण । भागहारस्स अट्टं गंतूण दुगुणहीणा । एवं णेदव्वं जाव चरिमवग्गणेत्ति । एवं चत्तारि य बंधा परूविदा होंति ।

संतोदय-उदीरणाओ किण्ण परूविदाओ ? ण, बंधपरूवणादो तासिं पि परूवणा-सिद्धीदो । तं जहा— बंधो चेव बंधविदियसमयप्पहुडि संतकम्मं उच्चदि जाव णिल्लेवण-

वह निपेक रचना प्रदेशोंके विना संभव नहीं है, क्योंकि, प्रदेशोंके विना निपेक-रचना माननेमें विरोध आता है । इसलिए निपेक-रचनासे ही प्रदेशबन्ध भी सिद्ध होता है ।

प्रदेशबन्धसे योगस्थान सिद्ध होते हैं । वे योगस्थान जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र है, और जघन्य योगस्थानसे लेकर जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रतिभागरूप अवस्थित प्रक्षेपके द्वारा विशेष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योगस्थान तक दुगुने दुगुने गुणहानि आयामसे सहित सिद्ध होते हैं, क्योंकि, योगके विना प्रदेशबन्ध नहीं हो सकता है ।

अथवा, अनुभागबन्धसे प्रदेशबन्ध और उसके कारणभूत योगस्थान सिद्ध होते हैं, क्योंकि, प्रदेशोंके विना अनुभागबन्ध नहीं हो सकता है । वे कर्म-प्रदेश जघन्य वर्गणामें बहुत होते हैं, उससे ऊपर प्रत्येक वर्गणके प्रति विशेष हीन, अर्थात् अनन्तवें भागसे हीन होते जाते हैं । और भागहारके आधे प्रमाण दूर जाकर दुगुने हीन, अर्थात् आधे, रह जाते हैं । इस प्रकार यह क्रम अन्तिम वर्गणा तक ले जाना चाहिये ।

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध और स्थितिबन्धके द्वारा यहां चारों ही बन्ध प्ररूपित हो जाते हैं ।

शंका — यहांपर, सत्त्व, उदय और उदीरणा, इन तीनोंका प्ररूपण क्यों नहीं किया ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, बन्धकी प्ररूपणासे उनकी, अर्थात् सत्त्व, उदय और उदीरणाकी, भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है । वह इस प्रकार है— बन्ध ही बंधनेके दूसरे समयसे लेकर निर्लेपन अर्थात् क्षयण होनेके अन्तिम समय तक सत्कर्म या सत्त्व

१ जोगा पयडि-पदेसा । गो. क. २५७.

२ सेडिअसखेज्जदिमा जोगट्टाणाणि होंति सव्वाणि । गो. क. २५८.

चरिमसमओ त्ति । सो चेव बंधो बंधावलियादिककंतो ओकड्ढेदूण उदए संखुम्भमाणो' उदीरणा होदि । सो चेव दुसमयाधियंबंधावलियाए ड्ढिदिकखएण उदए पदमाणो उदयसण्णिदो होदि त्ति ।

एककेक्किस्से पयडीए पयडिवंधो अणुभागबंधो ड्ढिदिवंधो पदेसबंधो चेदि चउव्विहो बंधो । तत्थ एककेक्को चउव्विहो उक्कस्सो अणुक्कस्सो जहण्णो अजहण्णो त्ति । एदेहि सोलसेहि सव्वबंधपयडीओ गुणिदे असीदीए ऊणवेसहस्सबंधवियप्पा होंति ( १९२० ) । एवमुदओदीरण-सत्ताणं पि भेदा परूवेदव्वा । तेसिं पमाणमेदं २३६८ । २३६८ । २३६८ । तेसिं सव्वसमासो ९०२४ । सव्वेदमिह परूविदे —

सत्तमी चूलिया समत्ता होदि ।

कहलाता है। वही वन्ध बंधावलीके, अर्थात् बंधनेकी आवलीके, व्यतीत होनेपर अपकर्षण कर जब उदयमे संक्षुभ्यमान किया जाता है, तब वह उदीरणा कहलाता है। वही वन्ध दो समय अधिक बंधावलीके व्यतीत हो जानेपर स्थितिके, अर्थात् निपेकस्थितिके, क्षयसे उदयमें पतमान, अर्थात् गिरता हुआ, 'उदय' इस संज्ञावाला होता है। इस प्रकार वन्धकी प्ररूपणासे सत्त्व, उदय और उदीरणाकी भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है।

एक एक प्रकृतिका प्रकृतिवन्ध, अनुभागवन्ध, स्थितिबन्ध और प्रदेशवन्ध, इस प्रकार चार तरहका वन्ध होता है। उनमें वह एक एक वन्ध भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यके भेद से चार प्रकारका होता है। इन सोलह भेदोंके द्वारा सर्व वन्धप्रकृतियोंको गुणित करनेपर ( १२० × १६ = १९२० ) अस्सी कम दो हजार वन्धके भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार उदय, उदीरणा और सत्ताके भी भेद प्ररूपण करना चाहिए। उनका प्रमाण यह है—

उदयके विकल्प ( १४८ × १६ = ) २३६८.

उदीरणाके ,, ( १४८ × १६ = ) २३६८.

सत्ताके ,, ( १४८ × १६ = ) २३६८.

इन सबका जोड़ ( १९२० + २३६८ + २३६८ + २३६८ = ) ९०२४ होता है।

इस सबके प्ररूपण करनेपर—

सातवीं चूलिका समाप्त होती है ।

१ प्रतिषु 'सत्तुम्भमाणो' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'दुसमयाविय-' इति पाठः ।

३ पयडिड्ढिदिअणुभागपपदेसबंधो त्ति चड्ढिविहो बंधो । उक्कस्समणुक्कस्स जहण्णमजहण्णग ति पुथ ॥  
गो. क. ६९.

## अङ्गुली चूलिया

एवदिकालट्टिदिएहि' कम्मेहि सम्मत्तं ण लहदि ॥ १ ॥

एदं देसामासियसुत्तं, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णट्टिदिवंधे उक्कस्सट्टिदिवंधे जहण्णुक्कस्सट्टिदिसंतकम्मेसु जहण्णुक्कस्सअणुभागसंतकम्मेसु जहण्णुक्कस्सपदेससंतकम्मेसु च संतेसु सम्मत्तं ण पडिवज्जदि त्ति घेत्तव्वं' ।

लभदि त्ति विभासा ॥ २ ॥

जे पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसे बंधंतो तेहि' पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसेहि संत-सरूवेण हंतोहि उदीरिज्जमाणेहि सम्मत्तं पडिवज्जदि तेसिं परूवणा कीरदि त्ति पड्ज्जासुत्तमेयं ।

एदेसिं चेव सव्वकम्माणं जावे अंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधदि तावे पढमसम्मत्तं लभदि ॥ ३ ॥

इतने कालप्रमाण स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा जीव सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है ॥ १ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, इसलिये इन (पूर्व दो चूलिकाओंमें उक्त) कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्ध होनेपर, उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति-मत्कर्म अर्थात् स्थितिसत्त्व होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागसत्त्व होनेपर, तथा जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होनेपर जीव सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

प्रथम चूलिकाका प्रथम सूत्र पठित 'लभदि' यह जो पद है, उसकी व्याख्या की जाती है ॥ २ ॥

जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंको बांधता हुआ, उन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके सत्त्वस्वरूप होते हुए, और उदीरणा किये जाते हुए यह जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, उनकी प्ररूपणा की जाती है, इस प्रकार यह प्रतिष्ठा लूत्र है ।

इन ही सर्व कर्मोंकी जब अन्तःकोडाकोड़ी स्थितिको बांधता है, तब यह जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

१ प्रतिपु ' एवदिकाले ट्टिदीएहि ' इति पाठः ।

२ उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थितिकेषु च प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवति । स. सि. २, ३. जेट्ठवरट्टिदिवंधे जेट्ठवरट्टिदितियाण सचे य । ण य पडिवज्जदि पदमुवसमसम्म गिच्छजीरो हु ॥ लब्धि. ८.

३ प्रतिपु ' वेहि ' इति पाठः ।

पढमसम्मत्तलंभजोग्गो जीवो जेण उवयारेण पढमसम्मत्तं लंभदि त्ति परूविदो । अत्थदो पुण एत्थ ण लंभदि, तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पत्तीदो । एदेण खओवसमलद्धी विसोहिलद्धी देसणलद्धी पाओग्गलद्धि त्ति चत्तारि लद्धीओ परूविदाओ । पुव्वसंचिदकम्ममलपडलस्स अणुभागफह्याणि जदा विसोहीए पडिसमयमणंतगुणहीणाणि होदूणुदीरिज्जंति तदा खओवसमलद्धी होदि' । पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण उदीरिदअणुभागफह्यजणिदजीवपरिणामो सादादिसुहकम्मबंधणिमित्तो असादादिसुहकम्मबंधविरुद्धो विसोही णाम । तिस्से उवलंभो विसोहिलद्धी णाम' । छद्दव्वणवपदत्थोवदेसो देसणा णाम । तीए देसणाए परिणदआइरियादीणमुवलंभो, देसिदत्थस्स गहण-धारण-विचारणसत्तीए समागमो अ देसणलद्धी णाम' । सव्वकम्माणमुक्कस्सट्ठिदिमुक्कस्साणु-भागं च घादिय अंतोकोडाकोडीट्ठिदिमिह वेट्टाणाणुभागे च अवट्टाणं पाओग्गलद्धी णाम' ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है, यह वात उपचारसे प्ररूपण की गई है । परन्तु यथार्थसे यहांपर, अर्थात् उक्त प्रकारकी कर्मस्थिति होनेपर, नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि, त्रिकरण, अर्थात् अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है । इस सूत्रके द्वारा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यलब्धि, ये चारों लब्धियां प्ररूपण की गई है । पूर्व संचित कर्मोंके मलरूप पटलके अनुभागस्पर्धक जिस समय विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणहीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त किये जाते हैं, उस समय क्षयोपशमलब्धि होती है । प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन क्रमसे उदीरित अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न हुआ, साता आदि शुभ कर्मोंके बन्धका निमित्तभूत और असाता आदि अशुभ कर्मोंके बंधका विरोधी जो जीवका परिणाम है, उसे विशुद्धि कहते हैं । उसकी प्राप्ति का नाम विशुद्धिलब्धि है । छह द्रव्यों और नौ पदार्थोंके उपदेशका नाम देशना है । उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलब्धिको और उपदिष्ट अर्थके ग्रहण, धारण तथा विचारणकी शक्तिके समागमको देशनालब्धि कहते हैं । सर्व कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागको घात करके अन्तःकोडाकोडी स्थितिमें, और द्विःस्थानीय अनुभागमें अवस्थान करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते हैं ।

१ कम्ममलपडलसत्ती पडिसमयमणतगुणविहीणकमा । होदूणुदीरिदि जदा तदा खओवसमलद्धी दु ॥ लब्धि. ४.

२ आदिमलद्धिमवो जो भावो जीवस्स सादपहुदीणं । सत्थाण पयडीण वधणजोगो विसुद्धलद्धी सो ॥ लब्धि. ५.

३ छद्दव्वणवपयत्थोवदेसयरसुरिपहुदिलाहो जो । देसिदपदत्थधारणलाहो वा तदियलद्धी दु ॥ लब्धि. ६.

४ अतोकोडाकोडी विट्टाणे ठिदिरसाण ज करण । पाउग्गलद्धिणामा मव्वामव्वेसु सामण्णा ॥ लब्धि. ७.

कुदो ? एदेसु संतेसु करणजोग्गभाउवलंभादो । सुत्ते काललद्धी चैव परुविदा, तम्हि एदासिं लद्धीणं कधं संभवो ? ण, पडिसमयमणंतगुणहीणअणुभागुदीरणाए अणंतगुण-कमेण वड्डमाणविसोहीए आइरियोवदेसोवलंमस्स य तत्थेव संभवादो । एदाओ चत्तारि वि लद्धीओ भवियाभवियमिच्छाइद्धीणं साहारणाओ, दोसु वि एदाणं संभवादो । उत्तं च-

खयउवसमिय-विसोही देसण-पाओग्ग-करणलद्धी य ।

चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होइ सम्मत्ते' ॥ १ ॥

क्योंकि, इन अवस्थाओंके होनेपर करण, अर्थात् पांचवीं करणलब्धिके योग्य भाव पाये जाते हैं ।

विशेषार्थ—यहांपर अनुभागको घात करके द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान कहा है उसका अभिप्राय यह है कि घातिया कर्मोंकी अनुभागशक्ति लता, दारु, अस्थि और शैलके समान चार प्रकारकी होती है । अघातिया कर्मोंमें दो विभाग हैं, पुण्यप्रकृतिरूप और पापप्रकृतिरूप । पुण्यरूप अघातिया कर्मोंकी अनुभागशक्ति गुड़, खांड, शकर और अमृतके समान होती है, और पापरूप अघातिया कर्मोंकी अनुभाग-शक्ति नीम, कांजीर, विष और हालाहलके समान हीनाधिकता लिए होती है । ( देखो गो. क. गाथा १८०-१८४ ) प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीव प्रायोग्यलब्धिके द्वारा घातिया कर्मोंके अनुभागको घटाकर लता और दारु, इन दो स्थानोंमें, तथा अघातिया कर्मोंकी पापरूप प्रकृतियोंके अनुभागको नीम और कांजीर, इन दो स्थानोंमें अवस्थित करता है । इसीको द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान कहते हैं ।

शंका—सूत्रमे केवल एक काललब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें इन शेष लब्धियोंका होना कैसे संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, प्रतिसमय अनन्तगुणहीन अनुभागकी उदीरणाका, अनन्तगुणितक्रम द्वारा वर्धमान विशुद्धिका और आचार्यके उपदेशकी प्राप्तिका उसीं एक काललब्धिमें होना संभव है । अर्थात् उक्त चारों लब्धियोंकी प्राप्ति काललब्धिके ही आधीन है, अतः वे चारों लब्धियां काललब्धिमें अन्तर्निहित हो जाती हैं ।

ये प्रारंभकी चारों ही लब्धियां भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीवोंके साधारण हैं, क्योंकि, दोनों ही प्रकारके जीवोंमें इन चारों लब्धियोंका होना संभव है । कहा भी है—

क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि, ये पांच लब्धियां होती हैं । इनमेंसे पहली चार तो सामान्य हैं, अर्थात् भव्य और अभव्य, दोनों प्रकारके जीवोंके होती हैं । किन्तु करणलब्धि सम्यक्त्व होनेके समय होती है ॥ १ ॥

एवमभव्वजीवजोग्गपरिणामे द्विदिअणुभागाणं खंडयघादं बहुवारं करिय गुरुव-  
देसवलेण तेण विणा वा अभव्वजीवजोग्गविसोहीओ वोलिय भव्वजीवजोग्गविसोहीए  
अधापवत्तकरणसण्णिदाए भविओ जीवो परिणमइ', तस्स जीवस्स लक्खणजाणावणट्ट-  
मुत्तरसुत्तं भणदि—

सो पुण पंचिंदिओ सण्णी मिच्छाइट्ठी पज्जत्तओ सब्ब-  
विसुद्धो ॥ ४ ॥

जो सो सम्मत्तं पडिवज्जंतओ एइंदिओ वीइंदिओ तीइंदिओ चउरिंदियो वा ण  
होदि, तत्थ सम्मत्तग्गहणपरिणामाभावा । तदो पंचिंदिओ चेव । तत्थ वि असण्णी ण  
होदि, तेसु मणेण विणा विसिद्धणाणाणुप्पत्तीदो । तदो सो सण्णी चेव । सासणसम्माइट्ठी  
सम्मामिच्छाइट्ठी वेदगसम्माइट्ठी वा पढमसम्सत्तं ण पडिवज्जदि, एदेसिं तेण पज्जाएण  
परिणमणसत्तीए अभावादो । उवसमसेडिं चडमाणवेदगसम्माइट्ठिणो उवसमसम्मत्तं पडि-

इस प्रकार अभव्य जीवोंके योग्य परिणामके होने पर स्थिति और अनुभागोंके  
कांडकघातको वह वार करके गुरुपदेशके बलसे, अथवा उसके विना भी, अभव्य जीवोंके  
योग्य विशुद्धियोंको व्यतीत करके भव्य जीवोंके योग्य अधःप्रवृत्तकरण संज्ञावाली  
विशुद्धिमें जो भव्य जीव परिणत होता है, उस जीवका लक्षण बतलानेके लिए आचार्य  
उत्तर सूत्र कहते हैं—

वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्या-  
दृष्टि, पर्याप्त और सर्व-विशुद्ध होता है ॥ ४ ॥

जो सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला जीव है, वह एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय  
अथवा चतुरिन्द्रिय नहीं होता है, क्योंकि, उनमें सम्यक्त्वको ग्रहण करने योग्य परिणाम  
नहीं पाये जाते हैं । इसलिए वह पंचेन्द्रिय ही होता है । पंचेन्द्रियोंमें भी वह असंज्ञी  
नहीं होता है, क्योंकि, असंज्ञी जीवोंमें मनके विना विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती  
है । इसलिए वह संज्ञी ही होता है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अथवा  
वेदकसम्यग्दृष्टि जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, इन जीवोंके  
उस प्रथमोपशमसम्यक्त्वरूप पर्यायके द्वारा परिणमन होनेकी शक्तिका अभाव है ।  
उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले वेदगसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले

१ ततो अमव्वजोग्ग परिणाम वोलिज्जण भव्वो हु । करणं करोदि कमसो अधापवत्त अपुव्वमणियट्ठि ॥  
लब्धिः ३३.

२ चदुगादिमिच्छो सण्णी पुण्णो गम्भजविसुद्धसागारो । पदमुवसमं स गिण्हदि पचमवरलद्धिचरिमग्धि ॥  
लब्धि. २.

वज्जंता अत्थि, किंतु ण तस्स पढमसम्मत्तववएसो । कुदो ? सम्मत्तादो तस्सुप्पत्तीए । तदो तेण मिच्छाइट्ठिणो चैव होदव्वं । सो वि पज्जत्तो चैव, अपज्जत्ते पढमसम्मत्तुप्पत्तिविरोहादो ।

सो देवो वा णेरइओ वा तिरिक्खो वा मणुसो वा । इत्थिवेदो पुरिसवेदो णउंसय-वेदो वा । मणजोगी वचिजोगी कायजोगी वा । क्रोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई वा, किंतु हायमाणकसाओ । असंजदो । मदि-सुदसागारुवजुत्तो । तत्थ अणा-गारुवजोगो णत्थि, तस्स वज्झत्थे पउत्तीए अभावादो । छण्णं लेस्साणमण्णदरलेस्सो, किंतु हायमाणअसुहलेस्सो वड्डमाणसुहलेस्सो । भव्वो । आहारी । णाणावरणीयस्स पंच-पयडिसंतकम्मिओ । दंसणावरणीयस्स णवपयडिसंतकम्मिओ । वेदणीयस्स दुवे पयडीओ संतकम्मिओ । मोहणीयस्स सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेहि विणा छव्वीसपयडीणं संतकम्मिगो, सम्मत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीससंतकम्मिगो, मोहणीयस्स अट्टावीससंतकम्मिओ

होते हैं, किन्तु उस सम्यक्त्वका 'प्रथमोपशमसम्यक्त्व' यह नाम नहीं है, क्योंकि, उस उपशमश्रेणीवाले उपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति सम्यक्त्वसे होती है । इसलिए प्रथमोप-शमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही होना चाहिए । वह भी पर्याप्तक ही होना चाहिए, क्योंकि, अपर्याप्त जीवमें प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेका विरोध है ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख वह जीव देव, अथवा नारकी, अथवा तिर्यंच, अथवा मनुष्य होना चाहिए । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी अथवा नपुंसकवेदी हो । मनोयोगी, वचन-योगी अथवा काययोगी हो, अर्थात् तीनों योगोंमेंसे किसी एक योगमें वर्तमान हो । क्रोध-कपायी, मानकपायी, मायाकपायी अथवा लोभकपायी हो, अर्थात् चारों कषायोंमेंसे किसी एक कषायसे उपयुक्त हो । किन्तु हीयमान कषायवाला होना चाहिए । असंयत हो । मति-श्रुतज्ञानरूप साकारोपयोगसे उपयुक्त हो । प्रथमोपशमसम्यक्त्व उत्पन्न होनेके समय अना-कार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि, अनाकार उपयोगकी बाह्य अर्थमें प्रवृत्तिका अभाव है । कृष्णादि छहों लेख्याओंमेंसे किसी एक लेख्यावाला हो, किन्तु यदि अशुभलेख्या हो तो हीयमान होना चाहिए, और यदि शुभलेख्या हो तो वर्धमान होना चाहिए । भव्य हो । आहारक हो । ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियोंका सत्कर्मिक, अर्थात् सत्तावाला हो । दर्शनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । वेदनीय कर्मकी दो प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । मोहनीयकर्मकी सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति, इन दोके विना छव्वीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा सम्यक्त्वप्रकृतिके विना मोहनीय-कर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा मोहनीयकर्मकी अट्टाईस प्रकृति-



वा । जदि बद्धाउओ आउअस्स दुविहसंतकम्मिओ । अह अवद्धाउओ आउअस्स एक-संतकम्मिओ । चत्तारिगदि, पंचजादि, आहारसरीरं वज्ज चत्तारि सरीर, ( चत्तारि वंधण ) चत्तारि संघाद, छसंघाण, आहारंगोवंगेण विणा दोण्णि अंगोवंग, छसंघडण, वण्ण-गंध-रस-फास, चत्तारि आणुपुव्वी, अगुरुलहुग, उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव, दोविहायगदि, तस-थावर-वादर-सुहुम-पत्तेय-साहारण-पज्जत्तापज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणमिदि णामस्स बाहत्तरिपयडिसंतकम्मिओ । गोदस्स दोपयडिसंतकम्मिओ । अंतराइयस्स पंचपयडिसंत-कम्मिओ' । आउगवज्जाणं कम्माणमंतोकोडाकोडीट्टिदिसंतकम्मिगो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादावेदणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णव-णोकसाय-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-एइंदिय-वेइंदिय-तेइंदिय-चदुरिं-दियजादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-अप्पसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-पाओग्गाणुपुव्वी-उवघाद-अप्पसत्थविहायगदि-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-अथिर-

तियोंकी सत्तावाला हो । यदि वह बद्धायुष्क हो तो आयुर्कर्मकी भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु, इन दो प्रकारके आयुर्कर्मोंकी सत्तावाला हो । अथवा, यदि अवद्धायुष्क हो तो एक आयुर्कर्मकी सत्तावाला हो । चारों गतियां, पांचों जातियां, आहारकशरीरको छोड़कर चार शरीर, ( आहारकबंधनको छोड़कर चार बंधन ) आहारकसंघातको छोड़कर चार संघात, छहों संस्थान, आहारकशरीर-अंगोपांगके विना शेष दो शरीर-अंगोपांग, छहों संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चारों आनुपूर्वियां, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दोनों विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीर्त्ति, अयशःकीर्त्ति और निर्माण, नाम-कर्मकी इन वहत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । गोत्रकर्मकी दोनों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । अन्तराय कर्मकी पांचों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिसत्त्ववाला हो ।

पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धी आदि सोलह कषाय, हास्य आदि नवों नोकषाय, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, प्रथम संस्थानके सिवाय शेष पांच संस्थान, प्रथम संहननके सिवाय शेष पांच संहनन, अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ,

१ इ ति आउ तित्थहारवउक्का सम्मणेण हीणा वा । मिस्सेणूणा वा वि य सत्त्वे पयडी ह्वे सत्त ॥  
लघ्वि. ३१.

असुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णीचागोद-पंचंतराइयाणं विट्ठाणियअणुभाग-संतकम्मिगो, एदासिमप्पसत्थपयडीणमणुभागस्स ति-चदुट्ठाणाणं विसोहीए घादसंभवादो ।

सादावेदणीय-मणुसगदि-देवगदि-पंचिंदियजादि ओरालिय-वेउच्चिय-तेजा-कम्म-इयसरीर तेसिं चैव वंधण-संघाद समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउच्चियसरीरअंगोवंग-वज्ज-रिसहवहरणारायणसरीरसंघडण-पसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगदि-देवगदिपाओग्गाणु-पुव्वी-अगुरुगलहुग-परघादुस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थविहायगदि-तस-वादर-पज्जत्त-पंचेय-सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोदाणं चदुट्ठाणाणुभाग-संतकम्मिओ । कुदो ? एदासिं पसत्थपयडीणं विसोधीदो अणुभागस्स घादाभावा, स्रमयं पाडि विसोहिवट्ठीदो अणंतगुणकमेण एदासिमणुभागबंधस्स वड्ढिंसणादो च ।

जासिं पयडीणं संतकम्ममत्थि, तासिमजहण्णअणुक्कस्सपदेससंतकम्मिगो । तीसु महादंडएसु उत्तपयडीणं वंधओ, अवसेसाणमबंधओ । तीसु महादंडगोसु उत्तपयडीण-

दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंके द्विस्थानीय, अर्थात् नीम और कांजीर, इन दो स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, क्योंकि, इन अप्रशस्त प्रकृतियोंके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका विशुद्धिके द्वारा घात संभव है ।

सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, इन्हीं चारों शरीरोंके चार वन्धननामकर्म, चार संघातनामकर्म, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वज्ररूपभवज्रनाराचशरीरसंहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण और उच्चगोत्र, इन प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय, अर्थात् गुड़, खांड, शकर और अमृत, इन चार स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, क्योंकि, इन प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका विशुद्धिसे घात नहीं होता है, किन्तु प्रतिसमय विशुद्धिके वढ़नेसे अनन्तगुणित क्रमद्वारा इन उपर्युक्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्धकी वृद्धि देखी जाती है ।

जिन प्रकृतियोंका उसके सत्त्व है, उनके अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशकी सत्तावाला हो । तीनों महादंडकोंमें कही गई प्रकृतियोंका बांधनेवाला हो, उनसे अवशिष्ट प्रकृतियोंका बांधनेवाला न हो । तीनों महादंडकोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका

१ प्रतिष्ठा ' चट्ठाणिय ' इति पाठ ।

२ एदेहिं विहीणाण तिण्णि महादहएसु उत्ताणं । एकट्ठिपमाणाणमणुक्कस्सपदेसबंधण कुणइ ॥ लब्धि २६ .

मंतोकोडाकोडिद्विदीए बंधओ । तसि महादंडएसु उत्तअप्पसत्थपयडीणं वेद्वाणियअणु-  
 भागबंधओ । तत्थ उत्तपसत्थपयडीणं चदुद्वाणियअणुभागस्स बंधगो' । पंच णाणावरणीय-  
 छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाए तिरिक्खगदि-  
 मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-  
 रस-फास-तिरिक्खगदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्ची अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-  
 उज्जोव-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाण-  
 मणुक्कस्सपदेसबंधओ । णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-त्थीणगिद्धि-मिच्छत्त-अणंताणुबंधिकोष-  
 माण-माया-लोभ-देवगदि-वेउव्वियसरीर-समचउरससरीरसंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वज्ज-  
 रिसहसंधङ्ग-देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची-पसत्थविहायगदि-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णाचा-  
 गोदाणमुक्कस्सपदेसबंधओ वा अणुक्कस्सपदेसबंधओ वा । पंचण्हं णाणावरणीयाणं  
 वेदओ । चवखुदंसणावरणीयमचवखुदंसणावरणीयमोहिदंसणावरणीय-केवलदंसणावरणीय-  
 मिदि चदुण्हं दंसणावरणीयाणं वेदगो, णिद्वा-पयलाणं एक्कदरेण सह पंचण्हं वा वेदगो ।

बांधनेवाला हो । तीनों महादंडकोंमें उक्त अप्रशस्त प्रकृतियोंके द्विस्थानीय अनुभागका  
 बांधनेवाला हो । उन्हीं तीनों महादंडकोंमें उक्त प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनु-  
 भागका बांधनेवाला हो । पांच ज्ञानावरणीय, स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर  
 शेष छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, अनन्तानुवन्धी-चतुष्कको छोड़कर शेष बारह  
 कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति,  
 औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस,  
 स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात,  
 उच्छ्वास, उद्योत, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, यशःकीर्त्ति, निर्माण,  
 उच्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबंधवाला हो । निद्रा-  
 निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ,  
 देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वज्र-  
 ऋषभसंहनन, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और  
 नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला हो, अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध  
 करनेवाला हो । पांचों ज्ञानावरणीय प्रकृतियोंका वेदक, अर्थात् उदयवाला हो । चक्षु-  
 दर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केवलदर्शनावरणीय,  
 इन चार दर्शनावरणीय प्रकृतियोंका वेदक हो, अथवा निद्रा और प्रचला, इन दोनोंमेंसे  
 किसी एकके साथ पांच दर्शनावरणीय-प्रकृतियोंका वेदक हो । सातावेदनीय और

१ सत्याणमसत्याण चउविद्वाणं रस च बंधदि हु । पडिसमयमण्णेण य शुणमजियक्कम तु रसवधे ॥  
 लङ्गि. ३८.

सादासादाणमण्णदरस्स वेदगो । मोहणीयस्स देसण्हं णवण्हमडुण्हं वा वेदगो । काओ दस पयडीओ ? मिच्छत्तं अणंताणुबंधिचदुक्काणमेक्कदरं अपच्चक्खाणावरणचदुक्काणमेक्कदरं पच्चक्खाणावरणचदुक्काणमेक्कदरं संजलणचदुक्काणमेक्कदरं तिण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्सरदि-अरदिसोग-दोजुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा चेदि । काओ णव पयडीओ ? भय-दुगुंछासु अण्णदरुदएण विणा । भय-दुगुंछाणमुदएण विणा अडु हवंति । चदुण्हमाउ-गाणमण्णदरस्स वेदगो ।

जदि णेरइओ, णिरयगदि-पंचिंदियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-हुंडसंठाण-वेउच्चियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-अप्प-

असातावेदनीय, इन दोनोंमेंसे किसी एकका वेदक हो । मोहनीयकर्मकी दश, नौ, अथवा आठ प्रकृतियोंका वेदक हो ।

शंका—मोहनीयकर्मकी वे दश प्रकृतियां कौनसी हैं ?

समाधान—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक, अप्रत्याख्यानवरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानवरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक; संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे कोई एक; स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इन तीनों वेदोंमेंसे कोई एक, हास्य-रति और अरति-शोक, इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक, भय और जुगुप्सा, ये मोहनीयकर्मकी वे दश प्रकृतियां हैं जिनका उक्त जीव वेदक होता है ।

शंका—मोहनीयकर्मकी वे नौ प्रकृतियां कौनसी हैं, जिनका वेदक प्रथमोपशम-सम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव होता है ?

समाधान—उपर्युक्त दश प्रकृतियोंमेंसे भय और जुगुप्सा, इन दोनोंमेंसे किसी एकके उदयके विना शेष नौ प्रकृतियां ऐसी जानना चाहिए जिनका उक्त जीव वेदक होता है ।

उपर्युक्त दश प्रकृतियोंमेंसे भय और जुगुप्सा, इन दोनोंके उदयके विना शेष आठ प्रकृतियां होती हैं, जिनका कि उदय प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ।

चारों आयुकर्मोंमेंसे किसी एकका वेदक हो ।

यदि वह जीव नारकी है, तो नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजस-शरीर, कामर्णशरीर, हुंडसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,

सत्त्वविहायगदि-तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं वेदगो ।

जदि तिरिक्खो, तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छ-संठाणाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जेवं सिया । दोविहायगदीणमेक्कदरस्स, तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुहाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं वेदगो ।

जदि मणुसो, मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छसंठा-णाणमेक्कदरस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलघुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरस्स तस-वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुभासुभाणं सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरस्स णिमिणणामस्स

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्तविहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्त्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है ।

यदि वह जीव तिर्यंच है, तो तिर्यंगति पंचेन्द्रियजानि, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है । उद्योत प्रकृतिका कदाचित् वेदक होता है, कदाचित् नहीं । दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है ।

यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, छहों संस्थानोंमेंसे कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, यशःकीर्त्ति और अयशःकीर्त्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक,

णीचुच्चागोदाणमेक्कदरस्स पंचण्हमंतराइयाणं च वेदगो ।

जदि देवो, देवगदि-पंचिदियजादि-वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससरीर-संठाण-वेउच्चियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगदि-तस-वादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर<sup>१</sup>-आदेज्ज-जस-गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयाणं वेदगो, उत्तसेससव्वपयडीणमवेदगो ।

जासिं पयडीणमुदओ अत्थि तासिं पयडीणमेक्कस्से ट्टिदीए ट्टिदिक्खएण उदयं पविट्ठाए वेदगो, सेसाणं ट्टिदीणमवेदगो । जासिं पयडीणमप्पसत्थाणमुदओ अत्थि तासिं वेट्ठाणियअणुभागस्स वेदगो । पसत्थाणं पयडीणमुदइल्लाणं चदुट्ठाणियअणुभागस्स वेदगो । उदइल्लाणं पयडीणमजहण्णाणुक्कस्सपदेसाणं वेदगो । जासिं पयडीणं वेदगो तासिं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणमुदीरगो ।

उदय-उदीरणाणं को विसेसो ? उच्चदे- जे कम्मक्खंधा ओकहुक्कहुणादिपओगेण विणा ट्टिदिक्खयं पाविदूण अप्पणो फलं देति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओ त्ति सण्णा ।

निर्माणनाम, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इन दोनोंमेंसे कोई एक, और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है ।

यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्यायोगति, व्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्त्ति, निर्माण, उच्च-गोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है । ऊपर कही गई प्रकृतियोंके सिवाय शेष सर्व प्रकृतियोंका अवेदक होता है ।

प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उन प्रकृतियोंकी स्थितिके क्षयसे उदयमें प्रविष्ट एक स्थितिका वह वेदक होता है । शेष स्थितियोंका अवेदक होता है । उक्त जीवके जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका उदय होता है, उनके निंव और कांजीर रूप द्विस्थानीय अनुभागका वह वेदक होता है । उदयमें आई हुई प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका वेदक होता है । उदयमें आई हुई प्रकृतियोंके अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका वेदक होता है । जिन प्रकृतियोंका वेदक होता है, उनके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता है ।

शंका—उदय और उदीरणामें क्या भेद है ?

समाधान—कहते हैं— जो कर्म स्कन्ध अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगके विना स्थिति-क्षयको प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'उदय' यह

जे कम्मक्खंधा महंतेसु द्विदि-अणुभागेषु अवट्टिदा ओक्कड्डिदूण फलदाइणो कीरंति, तेसिमुदीरणा त्ति सण्णा, अपक्कपाचनस्य उदीरणाव्यपदेशात् । उदय-उदीरणादिलक्खणाइं सुत्ते अणुवदिट्ठाइं कधमेत्थ परूविज्जंति ? ण एस दोसो, एदस्स देसामासियत्तादो । जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण उत्तासेसलक्खणाणि एदेण उत्ताणि' चेव ।

'सव्वविसुद्धो' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे । तं जधा— एत्थ पढमसम्मत्तं पडिवज्जंतस्स अधापवत्तकरण-अपुव्वकरण-अणियट्ठीकरणभेदेण तिविहाओ विसोहीओ होंति । तत्थ अधापवत्तकरणसण्णिविसोहीणं लक्खणं उच्चदे । तं जधा— अंतोमुहुत्तमेत्त-समयपंतिमुद्धायारेण ठएदूण डुविय तेसिं समयाणं पाओग्गपरिणामपरूवणं कस्सामो— पढमसमयपाओग्गपरिणामा असंखेज्जा लोगा, अधापवत्तकरणविदियसमयपाओग्गा वि परिणामा असंखेज्जा लोगा । एवं समयं पडि अधापवत्तपरिणामाणं पमाणपरूवणं कादव्वं जाव अधापवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति । पढमसमयपरिणामेहितो विदिय-

संज्ञा है । जो महान् स्थिति ओर अनुभागोंमें अवस्थित कर्म स्कन्ध अपकर्षण करके फल देनेवाले किये जाते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'उदीरणा' यह संज्ञा है, क्योंकि, अपक्क कर्म-स्कन्धके पाचन करनेको उदीरणा कहा गया है ।

शंका — सूत्रमें अनुपदिष्ट उदय और उदीरणा आदिके लक्षण यहाँ क्यों निरूपण किये जा रहे हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह सूत्र देशामर्शक है । चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए कहे गये लक्षणोंके सिवाय अन्य समस्त लक्षण इसके द्वारा कहे ही गये हैं ।

अब सूत्रोक्त 'सर्वविशुद्ध' इस पदका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है— यहाँपर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी विशुद्धियां होती हैं । उनमें पहले अधःप्रवृत्तकरण संज्ञावाली विशुद्धियोंका लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार है— अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयोंकी पंक्तिको ऊर्ध्व आकारसे स्थापित करके उन समयोंके प्रायोग्य परिणामोंका प्ररूपण करते हैं— अधःप्रवृत्तकरणमें प्रथम समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं । द्वितीय समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण हैं । इस प्रकार समय समयके प्रति अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणका निरूपण अधःप्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक करना चाहिए । अधःप्रवृत्तकरणके

समयपाओग्गपरिणामा विसेसाहिया । विसेसो पुण अंतोमुहुत्तपडिभागिओ' । विदिय-समयपरिणामेहिंतो तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया । एवं णेयव्वं जाव अधापवत्त-करणद्वाए चरिमसमओ त्ति ।

एदिस्से अद्वाए<sup>१</sup> संखेज्जदिभागो णिव्वग्गणकंडयं णाम<sup>२</sup> । तम्हि णिव्वग्गण-कंडए जेतिया समय तत्तियमेत्तं खंडाणि सव्वसमयपरिणामपंत्तीओ कादव्वाओ । तत्थ सव्वसमयपरिणामपंतीसु पढमखंडं थोवं । विदियखंडं विसेसाहियं । तत्तो तदिय-खंडयं विसेसाहियं । एवं णेयव्वं जाव चरिमखंडं ति । एक्केक्कस्स आयामो असंखेज्जा लोगा । एत्थतणविसेसो अंतोमुहुत्तपडिभागिओ', तेण एसो वि असंखेज्जलोगमेत्तो चेव ।

प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंसे द्वितीय समयके योग्य परिणाम विशेष अधिक होते हैं। वह विशेष अन्तर्मुहूर्त प्रतिभागी है, अर्थात् प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जितना प्रमाण आता है, उतने प्रमाणसे अधिक हैं। अधः-प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी परिणामोंसे तृतीय समयके परिणाम विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार यह क्रम अधःप्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए।

इस अधःप्रवृत्तकरणकालके संख्यातवें भागमात्र निर्वर्गणाकांडक होता है। (वर्गणा नाम समयोंकी समानताका है। उस समानतासे रहित उपरितन समयवर्ती परिणामोंके खंडोंके कांडक या पर्वको निर्वर्गणाकांडक कहते हैं।) उस निर्वर्गणाकांडकमें जितने समय होते हैं, उतने मात्र खंड सर्व समयवर्ती परिणामोंकी पंक्तियोंके करना चाहिए। उन सर्व समयसम्बन्धी परिणामोंकी पंक्तियोंमें प्रथम खंड सबसे कम है। द्वितीय खंड विशेष अधिक है। उससे तृतीय खंड विशेष अधिक है। इस प्रकार यह क्रम अन्तिम खंड तक ले जाना चाहिए। एक एक खंडके परिणामोंका आयाम असंख्यात लोकप्रमाण है। इन खंडोंमें जो विशेष प्रमाण अधिक है, वह अन्तर्मुहूर्त-प्रतिभागी है, इसलिए यह विशेष भी असंख्यात लोकमात्र ही है।

१ आदिमकरणद्वाए पडिसमयमसखलोगपरिणामा । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअतो हु पडिभागो ॥ लब्धि. ४२.

२ अ-आ प्रत्योः 'पडिसे अद्वाए' क प्रती 'पडिसेहद्वाए' इति पाठ ।

३ पढमसमयअधापवत्तकरणस्स जाणि परिणामट्टाणाणि ताणि अतोमुहुत्तस्स जत्तिया समय तत्तियमेत्ताणि खंडाणि कायव्वाणि । किं पमाणमेदमतोमुहुत्तमिदि पुच्छिदे सगद्वाए सखेज्जदिभागमेत्त । तमेव णिव्वग्गणकडयमिदि एत्थ घेत्तव्व । विवविखयसमयपरिणामाण जत्तो परमण्णकट्टिवोच्छेदो तं णिव्वग्गणकडयमिदि भण्णदे । जयध. अ. प. ९४६. ताए अधापवत्तद्वाए सखेज्जभागमेत्त तु । अणुकट्टीए अद्वा णिव्वग्गणकडयं त तु ॥ वर्गणा समय-सादृश्य । ततो निक्कान्ता उपर्युपरि समयवर्त्तिपरिणामखंडा तेषा कांडक पर्व निर्वर्गणकांडक ॥ लब्धि. टी ४३

४ पडिसमयगपरिणामा णिव्वग्गणसमयमेत्तखडकमा । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअतो हु पडिभागो ॥ पडिसखडगपरिणामा पत्तियमसखलोगमेत्ता हु । लोयाणमसखेज्जा छट्टाणाणि विसेसे णि ॥ लब्धि. ४४-४५.



अधापवत्तकरणपढमसमयअंतोमुहुत्तमेत्तपरिणामखंडेसु जं पढमखंडं तं विद्यादिसमयाण-  
मंतोमुहुत्तमेत्तखंडेसु केण वि सरिसं ण होदि । विदियखंडं पुण विदियसमयपढमपरिणाम-  
खंडेण सरिसं, तदियखंडं तदियसमयपढमपरिणामखंडेण सरिसं, चउत्थखंडं चउत्थ-  
समयपढमपरिणामखंडेण सरिसं । एवं णेयव्वं जाव पढमसमयस्स णिव्वग्गणकंडयमेत्त-  
परिणामखंडेसु जं चरिमखंडं तं णिव्वग्गणकंडयमेत्तमुवरि चडिदूण द्विदसमयस्स  
णिव्वग्गणकंडयमेत्तपरिणामखंडाणं पढमखंडेण सरिसं । एवं विद्यादिसमयणिव्वग्गण-  
कंडयमेत्तपरिणामखंडाणमणुकट्टी कादव्वा' ।

अधःप्रवृत्तकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी अन्तर्मुहूर्तमात्र परिणाम खंडोंमें जो प्रथम खंड है, वह द्वितीयादि समयोंके अन्तर्मुहूर्तमात्र खंडोंमें किसीके भी सदृश नहीं है । किन्तु द्वितीय खंड दूसरे समयके प्रथम परिणामखंडके साथ सदृश है, तृतीय खंड तीसरे समयके प्रथम परिणामखंडके सदृश है, चतुर्थ खंड चौथे समयके प्रथम परिणामखंडके सदृश है । इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना चाहिए जब तक कि प्रथम समयके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणामखंडोंमें जो अन्तिम खंड है वह निर्वर्गणाकांडकमात्र समय ऊपर चढ़ करके स्थित समयके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणामखंडोंके प्रथम खंडके साथ सदृश प्राप्त होता है । इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंके निर्वर्गणाकांडकमात्र परिणाम-  
खंडोंकी अनुकृष्टि, अर्थात् अधस्तन समयवर्ती परिणामखंडोंकी उपरितन समयवर्ती परिणतखंडोंके साथ समान परिणामोंकी तिर्यक् रचना, करना चाहिए ।

अंकसंदृष्टिकी अपेक्षा वह अनुकृष्टि रचना इस प्रकार है—

२२२	२१८	२१४	२१०	२०६	२०२	१९८	१९४	१९०	१८६	१८२	१७८	१७४	१७०	१६६	१६२	समय
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	प्रथम खंड
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	द्वितीय खंड
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	तृतीय खंड
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	चतुर्थ खंड
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	सर्वधन
च. निर्वर्गणाकां.   त. निर्वर्गणाकां.   द्वि. निर्वर्गणाकां.   प्रथम निर्वर्गणाकांडक																

१ अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ ति ताव पादेकमेकैकम्मि समये असखेज्जलोगमेत्ताणि  
परिणामट्टाणाणि छ्वाडिकमेणावडिदाणि द्विदिबधोसरणादाणि कारणभूदाणि अत्थि तेसिं परिवाडीए विरचिदाण  
पुणरुत्तापुणरुत्तमात्रगवेसणा अणुकट्टीणाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वात्तुचिन्तनमित्यनर्थान्तरम् । जयध.  
अ. प. ९४६. अनुकृष्टिर्नाम अधस्तनसमयपरिणामखंडानां उपरितनसमयपरिणामखंडैः सादृश्यं भवति । गो. जी  
जी प्र ४९ टी.

एवं कदे दुचरिमादिहेट्टिमसमयाणं पढमखंडाणि मोत्तूण तेसिं विदियादिपरिणामखंडाणि पुणरुत्ताणि जादाणि, चरिमसमयसव्वपरिणामखंडाणि अपुणरुत्ताणि, सव्वसमयाणं पढमपरिणामखंडेहि सह सरिसत्ताभावा' ।

एदासिं विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिदि सण्णा । कुदो ? उवरिमपरिणामा अध हेट्टा हेट्टिमपरिणामेसु पवत्तंति त्ति अधापवत्तसण्णा' । कथं परिणामाणं करणसण्णा ? ण एस दोसो, असि-वासीणं व साहयतमभावविवक्खाए परिणामाणं करणत्तुवलंभादो' । मिच्छादिट्टिआदीणं ट्टिदिवंधादिपरिणामा वि हेट्टिमा उवरिमेसु, उवरिमा हेट्टिमेसु अणुहरंति, तेसिं अधापवत्तसण्णा किण्ण कदा ? ण, इट्टत्तादो ।

ऐसा करनेपर द्विचरमादि अधस्तन समयोंके प्रथम खंडोंको छोड़कर उनके द्वितीयादि परिणामखंड पुनरुक्त, अर्थात् सदृश, हो जाते हैं, और अन्तिम समयके सभी परिणामखंड अपुनरुक्त, अर्थात् असदृश, रहते हैं, क्योंकि, सभी समयोंके प्रथम परिणामखंडोंके साथ सदृशताका अभाव है ।

इन उपर्युक्त अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी 'अधःप्रवृत्तकरण' यह संज्ञा है, क्योंकि, उपरितन समयवर्ती परिणाम अधः, अर्थात् अधस्तन, समयवर्ती परिणामोंमें समानताको प्राप्त होते हैं इसलिए अधःप्रवृत्त यह संज्ञा सार्थक है ।

शंका—परिणामोंकी 'करण' यह संज्ञा कैसे हुई ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, असि (तलवार) और वासि (वसूला) के समान साधकतमभावकी विवक्षामें परिणामोंके करणपना पाया जाता है ।

शंका—मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंके अधस्तन स्थितिवंधादि परिणाम उपरिम परिणामोंमें, और उपरिम स्थितिवंधादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते हैं, अर्थात् परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके परिणामोंकी 'अधःप्रवृत्त' यह संज्ञा क्यों नहीं की ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट है । अर्थात् मिथ्यादृष्टि आदिकोंके अधस्तन और उपरितन समयवर्ती परिणामोंकी पायी जानेवाली समानतामें अधःप्रवृत्तकरणका व्यवहार स्वीकार किया गया है ।

१ पढमे चरिमे समये पढम चरिम च खडमसरित्थ । सेसा सरिसा सव्वे अट्टुव्वकादिअतगया ॥ चरिमे सव्वे खडा दुचरिमसमओ त्ति अवरखडाए । असरिसखडाणोली अधापवत्तमिह करणम्मि ॥ लब्धि ४६-४७.

२ जम्हा हेट्टिममावा उवरिममावेहिं सरिसगा हुति । तम्हा पढमं करण अधापवत्तो त्ति णिदिट्टं ॥ लब्धि. २५.

३ येन परिणामविशेषेण दर्शनमोहोपशमादिर्विवक्षितो भाव क्रियते निष्पाद्यते स परिणामविशेषेण करणमित्युच्यते । जयध. अ प. ९४६.

कधमेदं णव्वदे ? अंतदीवयअधापवत्तणामादो ।

एदासिं विसोहीणं तिच्च-मंददाए अप्पाबहुगं उच्चदे- पढमसमयजहणिया विसोही थोवा । विदियसमयजहणिया विसोही अणंतगुणा । तदियसमयजहणिया विसोही अणंतगुणा । एवं णेयच्चं जाव अंतोमुहुत्तमेत्तणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण- विसोहि ति । तत्तो णियत्तिदूण पढमसमयउक्कस्सिया विसोही तदो अणंतगुणा । पुच्च- परुविदजहणविसोहीदो उवरिमसमयजहणविसोही अणंतगुणा । तदो विदियसमय- उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । तदो- पुच्चुत्तजहणविसोहीदो उवरिमसमयजहण- विसोही अणंतगुणा । तदो तदियसमयउक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । इदरत्थ जहणिया विसोही अणंतगुणा । तदो इदरत्थ उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एदेण कमेण णेयच्चं जाव अधापवत्तकरणस्स चरिमसमयजहणविसोहि ति । तत्तो णिव्वग्गणकंडयमेत्तं ओसरिदूण द्विदहेडिमसमयस्स उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । तदो उवरिमसमये उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवमुक्कस्सियाओ चैव विसोहीओ णिरंतरं अणंतगुण-

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?


समाधान—क्योंकि, अधःप्रवृत्त यह नाम अन्तदीपक है, इसलिए प्रथमोपशम-सम्यक्त्व होनेके पूर्व तक मिथ्यादृष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामोंमें जो सदृशता पाई जाती है, उसकी अधःप्रवृत्त संज्ञाका सूचक है ।

अब इन अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी तीव्र-मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं— प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धि सबसे कम है । उससे द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । उससे तृतीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । इस प्रकार यह क्रम अन्तर्मुहूर्तमात्र निर्वर्गणाकांडकके अन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि तक ले जाना चाहिए । वहांसे लौटकर प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि उससे अनन्तगुणित है । पूर्व प्ररूपित, अर्थात् प्रथम निर्वर्गणाकांडकके अन्तिम समयसम्बन्धी, जघन्य विशुद्धिसे उपरिम समयकी, अर्थात् द्वितीय निर्वर्गणाकांडकके प्रथम समयकी, जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । उससे दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । पुनः पूर्वोक्त जघन्य विशुद्धिसे उपरिम समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । पुनः पूर्वोक्त जघन्य विशुद्धिसे उपरिम समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । उससे चौथे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । इस क्रमसे यह अल्पबहुत्व अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । उससे निर्वर्गणाकांडकमात्र दूर जाकर स्थित अधस्तन समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । उससे उपरिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । इसी प्रकार उत्कृष्ट ही विशुद्धियोंको निरन्तर अनन्त-

कमेण णेदब्बाओ जाव अधापवत्तकरणस्स चरिमसमयउक्कस्सविसोहि त्ति' । एवमधा-  
पवत्तकरणस्स लक्खणं परूविदं ।

गुणित क्रमसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण निरूपण किया ।

**विशेषार्थ—**अधःप्रवृत्तकरणके स्वरूपको और उसमें बतलाए गये अल्पबहुत्वको इस प्रकार समझना चाहिए— दो जीव एक साथ अधःकरणपरिणामको प्राप्त हुए । उनमें एक तो सर्वजघन्य विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ, और दूसरा सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमें परिणामोंकी विशुद्धि सबसे मन्द या अल्प है । इससे दूसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । इससे तीसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अधःप्रवृत्तकरणका संख्यातवां भाग, अर्थात् निर्वर्गणाकांडकका अन्तिम समय, न प्राप्त हो जाय । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवें भागको प्राप्त प्रथम जीवके जो विशुद्धि होगी, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके प्रथम समयमें होगी, जो कि उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ था । इस दूसरे जीवके प्रथम समयमें जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस प्रथम जीवके होती है जो कि एक निर्वर्गणाकांडक या अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवें भागसे ऊपर जाकर दूसरे निर्वर्गणाकांडकके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धिसे वर्तमान है । इस प्रथम जीवके इस स्थानपर जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि दूसरे जीवके दूसरे समयमें होगी । इससे अनन्तगुणी विशुद्धि प्रथम जीवके एक समय ऊपर चढ़ने पर होगी । इस प्रकार इन दोनों जीवोंको आश्रय करके यह अनन्तगुणित विशुद्धिका क्रम अधःप्रवृत्तकरणके चरम-समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । उससे ऊपर उत्कृष्ट विशुद्धिके स्थान अनन्तगुणित क्रमसे होते हैं । इस प्रकार इस प्रथम करणमें विद्यमान जीवके परिणामोंकी विशुद्धि उत्तरोत्तर समयोंमें अनन्तगुणित क्रमसे बढ़ती जाती है । इसकी संदष्टि इस प्रकार है—



१ अधःप्रवृत्तकरणकाले निर्वर्गणाकांडकसमयमात्राः प्रतिसमयप्रथमखड्जजघन्यपरिणामाः उपर्युपर्यनन्त-  
गुणितक्रमा गच्छन्ति । ततः प्रथमनिर्वर्गणाकांडकचरमसमयप्रथमखड्जजघन्यपरिणामात् प्रथमसमयचरमखड्जोत्कृष्ट-

संपहि अपुव्वकरणस्स लक्खणं वत्तइस्सामो । तं जधा- अपुव्वकरणद्दा' अंतो-  
मुहुत्तमेत्ता होदि त्ति अंतोमुहुत्तमेत्तसमयाणं पढमं रचना कायच्चा । तत्थ पढमसमय-  
पाओग्गविसोहीणं पमाणमसंखेज्जा लोगा । विदियसमयपाओग्गविसोहीणं पमाणम-  
संखेज्जा लोगा । एवं णेयव्वं जाव चरिमसमओ त्ति । पढमसमयविसोहीहितो विदिय-  
समयविसोहीओ विसेसाहियाओ । एवं णेदव्वं जाव चरिमसमओ त्ति । विसेसो पुण  
अंतोमुहुत्तपडिभागिओ' ।

अब अपूर्वकरणका लक्षण कहेंगे । वह इस प्रकार है— अपूर्वकरणका काल  
अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है, इसलिए अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयोंकी पहले रचना करना चाहिए ।  
उसमें प्रथम समयके योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । दूसरे समयके  
योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरणके अन्तिम  
समय तक ले जाना चाहिए । प्रथम समयकी विशुद्धियोंसे दूसरे समयकी विशुद्धियां  
विशेष अधिक होती हैं । इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक ले जाना  
चाहिए । यहां पर विशेष अन्तर्मुहूर्तका प्रतिभागी है ।

परिणामोऽनन्तशुण । ततो द्वितीयकांडकप्रथमसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामोऽनन्तशुणः । तत प्रथमकांडकद्वितीय  
समयचरमखंडोत्कृष्टपरिणामोऽनन्तशुण । ततो द्वितीयकांडकद्वितीयसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामोऽनन्तशुण । एवं  
जघन्यादुत्कृष्टोऽनन्तशुण । उत्कृष्टाज्जघन्योऽनन्तशुणोऽहिगत्या गच्छति यावच्चरमकांडकचरमसमयप्रथमखंडजघन्य-  
परिणाम प्राप्नोति । तस्माच्चरमकांडकप्रथमसमयचरमखंडोत्कृष्टपरिणामोऽनन्तशुण । तस्मात्प्रतिसमयचरमखंडोत्कृष्ट-  
परिणामपत्तिरनन्तशुणितक्रमा गच्छति यावच्चरमकांडकचरमसमयचरमखंडोत्कृष्टपरिणाम प्राप्नोति । सर्वत्र जघन्य-  
परिणामादुत्कृष्टपरिणाम असंख्यातलोकमात्रवारानन्तशुणित । उत्कृष्टपरिणामाज्जघन्यपरिणामः एकवारमनन्तशुणित  
इति विशेषो ज्ञातव्यः । लब्धि ४८, टीका । मदविसोही पढमस्स सखमागाहि पढमसमयम्मि । उक्कस्स उप्पिमहो  
एक्केक्कं दोण्ह जीवाणं ॥ १० ॥ मदविसोहीस्वादि- इह कल्पनया द्वौ पुरुषौ युगपत् करणप्रतिपन्नौ विवक्ष्येते ।  
तत्रैकः सर्वजघन्यया श्रेण्या प्रतिपन्न , अपरस्तु सर्वोत्कृष्टया विशोधिःश्रेण्या । तत्र प्रथमस्य जीवस्य प्रथमसमये मन्दा  
सर्वजघन्या विशोधिः सर्वस्तोका । ततो द्वितीयसमये जघन्या विशोधिरनन्तशुणा । ततोऽपि तृतीयसमये जघन्या  
विशोधिरनन्तशुणा । एव तावद्वाच्य यावद्यथाप्रवृत्तकरणस्य सख्येयो भागो गतो भवति । ततः प्रथमसमये द्वितीयस्य  
जीवस्योत्कृष्ट विशोधिस्थानमनन्तशुण वक्तव्य । ततोऽपि यतो जघन्यस्थानाभिवृत्तस्तस्योपरितनी जघन्या विशोधिरनन्त-  
शुणा । ततोऽपि द्वितीये समये उत्कृष्टा विशोधिरनन्तशुणा । तत उपरि जघन्या विशोधिरनन्तशुणा । एवमुपर्यधश्चैकैक  
विशोधिस्थानमनन्तशुणतया द्वयोर्जीवयोस्तावन्नेय यावच्चरमसमये जघन्या विशोधि । तत आचरमात् चरममिव्याप्य  
यान्यनुक्तानि स्थानानि उत्कृष्टानि विशोधिस्थानानि तानि क्रमेण निरन्तरमनन्तशुणानि वक्तव्यानि । तदेव समाप्त  
यथाप्रवृत्तकरणम् । कर्मप्र. प. २५७.

१ प्रतिषु ' अपुव्वकरणद्दाए ' इति पाठः ।

२ पढम व विदियकरण पडिसमयमसखलोगपरिणामा । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअंतो हु पडिभागो ॥

एदेसिं करणाणं तिब्ब-मंददाए अप्पावहुगं उच्चदे । तं जधा— अपुव्वकरणस्स पढमसमयजहण्णविसोही थोवा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । विदिय-समयजहण्णिया विसोही अणंतगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । तदिय-समयजहण्णिया विसोही अणंतगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवं णेयव्वं जाव अपुव्वकरणचरिमसमओ त्ति । करणं परिणामो, अपुव्वाणि च ताणि करणाणि च अपुव्वकरणाणि, असमाणपरिणामा त्ति जं उच्चं होदि' । एवमपुव्वकरणस्स लक्खणं परूविदं ।

इदाणिमणियट्टीकरणस्स लक्खणं उच्चदे । तं जधा— अणियट्टीकरणद्धा अंतो-मुहुच्चमेत्ता होदि त्ति तिस्से अद्दाए समया रचेदव्वा । एत्थ समयं पडि एक्केक्को चेव परिणामो होदि', एक्कम्हि समए जहण्णुक्कस्सपरिणामभेदाभावा ।

एदासिं विसोहीणं तिब्ब-मंददाए अप्पावहुगं उच्चदे— पढमसमयविसोही थोवा ।

इन करणोंकी, अर्थात् अपूर्वकरणकालके विभिन्न समयवर्ती परिणामोंकी, तीव्र-मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है— अपूर्वकरणकी प्रथम समयसम्बन्धी जघन्य विशुद्धि सबसे कम है । वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । वहां पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । द्वितीय समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे तृतीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है । वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । करण नाम परिणामका है । अपूर्व जो करण होते हैं उन्हें अपूर्वकरण कहते हैं, जिनका कि अर्थ असमान परिणाम कहा गया है । इस प्रकार अपूर्वकरणका लक्षण निरूपण किया ।

अब अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहते हैं । वह इस प्रकार है— अनिवृत्तिकरणका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है, इसलिए उसके कालके समयोंकी रचना करना चाहिए । यहांपर, अर्थात् अनिवृत्तिकरणमें, एक एक समयके प्रति एक एक ही परिणाम होता है, क्योंकि, यहां एक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेदका अभाव है ।

अब अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंकी तीव्र-मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं— प्रथम समयसम्बन्धी विशुद्धि सबसे कम है । उससे द्वितीय समयकी विशुद्धि

१ समए समए मिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणो हु । लब्धि. ३६. जम्हा उवरिममावा हेट्टिमभावोहिं णत्थि सरिसत्त । तम्हा विदिय करण अपुव्वकरणेत्ति णिदिद्ध ॥ लब्धि. ५१.

२ अणियट्टी वि तहं वि य पडिसमय एक्कपरिणामो ॥ लब्धि ३६. होंति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेक्कपरिणामा । गो. जी. ५७.

विदियसमयविसोही अणंतगुणा । ततो तदियसमयविसोही अजहणुक्कस्सा अणंतगुणा । एवं णेयव्वं जाव अणियट्ठीकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति । एगसमए वडुंताणं जीवाणं परिणामेहि ण विज्जेदे णियट्ठी णिव्विच्ची जत्थ ते अणियट्ठीपरिणामा' । एवमणियट्ठीकरणस्स लक्खणं गदं ।

एदाहि विसोहीहि परिणदो जीवो जाणि कज्जाणि करेदि तप्पदुप्पायणड्डमुत्तर-सुत्तं भणादि—

एदेसिं चेव सव्वकम्माणं जाधे अंतोकोडाकोडिट्ठिदिं ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि ॥५॥

अधाप्रवृत्तकरणे ताव द्विदिसंखंडगो वा अणुभागखंडगो वा गुणमेडी वा गुणसंक्रमो वा णत्थि' । कुदो ? एदेसिं परिणामाणं पुव्वुत्तचउच्चिहकज्जुप्पायणसत्तीए अभावादो । केवलमणंतगुणाए विसोहीए पडिसमयं विसुज्जंतो अप्पसत्थाणं कम्माणं वेड्डाणियमणुभागं समयं पडि अणंतगुणहीणं वंधदि, पसत्थाणं कम्माणमणुभागं चदुड्डाणियं समयं पडि

अनन्तगुणित है । उससे तृतीय समयकी विशुद्धि अजघन्योत्कृष्ट अनन्तगुणित है । इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए ।

एक समयमें वर्तमान जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा निवृत्ति या विभिन्नता जहां पर नहीं होती है वे परिणाम अनिवृत्तिकरण कहलाते हैं । इस प्रकार अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहा ।

इन उपर्युक्त तीन प्रकारकी विशुद्धियोंसे परिणत जीव जिन कार्योंको करता है, उनका प्रतिपादन करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं —

जिस समय इन ही सर्व कर्मोंकी संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन अन्तः-कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है, उस समय यह जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है ॥ ५ ॥

अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी और गुण-संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि, इन अधःप्रवृत्त परिणामोंके पूर्वोक्त चतुर्विध कार्योंके उत्पादन करनेकी शक्तिका अभाव है । केवल अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कर्मोंके द्विःस्थानीय, अर्थात् निम्न और कांजीररूप अनुभागको समय समयके प्रति अनन्तगुणित हीन वांघता है, और प्रशस्त कर्मोंके गुड़,

१ एक्कमिह कालसमये संठाणादीहिं जह णिव्वंति । ण णिव्वंति तहा वि य परिणामेहिं मिहो जेहि ॥ गो. जी. ५६.

२ गुणवेदी गुणसक्रम ठिदिरसखंडं व णत्थि पढममिह । पडिसमयमणंतगुणं विसोहिव्वट्ठीहिं वडुदि हु ॥ छधि. ३७.

अणंतगुणं बंधदि' । एत्थ द्विदिवंधकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । पुण्णे पुण्णे' द्विदिवंधे पल्लिदो-  
वमस्स संखेज्जदिभागेणूणियमण्णं द्विदिं बंधदि । एवं संखेज्जसहस्सवारं द्विदिवंधोसरणेसु  
कदेसु अधापवत्तकरणद्धा समप्पदि' ।

अधापवत्तकरणपढमसमयद्विदिवंधादो चरिमसमयद्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।  
एत्थेव पढमसम्मत्त-संजमासंजमाभिमुहस्स द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो, पढमसम्मत्त-  
संजमाभिमुहस्स अधापवत्तकरणचरिमसमयद्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो' । सुत्ते संखेज्जेहि  
सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं द्विदिं बंधदि त्ति तिसु वि करणेसु सामण्णेण भणिदं, एसो  
विसेसो सुत्ते अणिद्विद्वो कधं णव्वदे ? आइरियपरंपरागदुवदेसादो । एवमधापवत्तकरणस्स  
कज्जपरूवणं कदं ।

खांड आदिरूप चतुःस्थानीय अनुभागको प्रतिसमय अनन्तगुणित बांधता है ।

यहां, अर्थात् अधःप्रवृत्तकरणकालमें, स्थितिवन्धका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है । एक  
एक स्थितिवन्धकालके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन अन्य स्थितिको  
बांधता है । ( विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० १३५ का विशेषार्थ ) । इस प्रकार  
संख्यात सहस्र वार स्थितिवन्धापसरणोंके करने पर अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त  
हो जाता है ।

अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिवन्धसे उसीका अन्तिम समय-  
सम्बन्धी स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है । यहां पर ही, अर्थात् अधःप्रवृत्तकरणके  
चरम समयमें, प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख जीवके जो स्थितिवन्ध होता है, उससे प्रथम-  
सम्यक्त्वसहित संयमासंयमके अभिमुख जीवका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता  
है । इससे प्रथमसम्यक्त्वसहित सकलसंयमके अभिमुख जीवका अधःप्रवृत्तकरणके  
अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ।

शंका—सूत्रमें, 'संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन स्थितिको बांधता है' यह  
वाक्य तीनों ही करणोंमें सामान्यसे कहा है, फिर सूत्रमें अनिर्दिष्ट यह उपर्युक्त विशेष  
कैसे जाना जाता है ?

समाधान—सूत्रमें अनिर्दिष्ट वह उपर्युक्त कथन आचार्य-परम्पराके द्वारा आये  
हुए उपदेशसे जाना जाता है ।

इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके कार्योंका निरूपण किया ।

१ सत्याणमसत्याण चउविट्ठाण रस च वधदि हु । पडिसमयमणतेण य गुणमजियकम तु रसवधे ॥ लब्धि. ३८.

२ प्रतिपु 'पुणो पुणो' इति पाठ ।

३ पढस्स संखमाग मुहुत्ततेण उपरदे वधे । सखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तस्मि ओसरणा ॥ लब्धि ३९.

४ आदिमकरणद्धाए पढमद्विदिवधदो दु चरिमग्धि । सखेज्जगुणविहीणो द्विदिवधो होइ णियमेण ॥  
तच्चरिमे द्विदिवधो आदिमसम्भेण देससयलजम । पडिवज्जमाणगस्स वि सखेज्जगुणेण हीणकमो ॥ लब्धि. ४० ४१.



अपुञ्चकरणस्स पढमो द्विदिखंडओ जहणगो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सओ सागरोवमपुधत्तमेत्तो आगाइदो' । अधापवत्तकरणचरिमसमयद्विदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणओ द्विदिवंधो ताधे चैव आढत्तो आयुगवज्जाणं सच्चकम्माणं द्विदिखंडओ होदि' । द्विदिवंधो पुण वज्झमाणपयडीणं चैव । अपुञ्चकरणपढमसमए चैव गुणसेडी वि आढत्ता । तं जधा— उदयपयडीणमुदयावलियवाहिरा-द्विद्विदीणं पदेसग्गमोकङ्कणभागहारेण खंडिदेयखंडं असंखेज्जलोगेण भाजिदेगभागं घेत्तूण उदए बहुगं देदि' । विदियसमए विसेसहीणं देदि । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं देदि जाव उदयावलियचरिमसमओ त्ति । विसेसो पुण वेगुणहाणिपडिभागिओ' । एस कमो उदयपयडीणं चैव, ण सेसाणं, तेसिमुदयावलियव्भंतरे पडमाणपदेसग्गाभावा ।

उदइल्लाणमणुदइल्लाणं च पयडीणं पदेसग्गमुदयावलियवाहिरद्विदीसु द्विदमोकङ्कण-

अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिखंड पल्योपमका संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट स्थितिखंड सागरोपमपृथक्त्वमात्र ग्रहण किया है । अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयवाले स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिवन्ध उस कालमें, अर्थात् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें, ही आरम्भ किया । यह स्थितिखंड आयुकर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोंका होता है । किन्तु स्थितिवन्ध बंधनेवाली प्रकृतियोंका ही होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणी भी प्रारम्भ की । वह इस प्रकार है— उदयमें आई हुई प्रकृतियोंकी उदयावलीसे वाहिर स्थित स्थितियोंके प्रदेशाग्रको अपकर्षणभागहारके द्वारा खंडित करके एक खंडको असंख्यात लोकसे भाजित करके एक भागको ग्रहण कर उदयमें बहुत प्रदेशाग्रको देता है । दूसरे समयमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । (यहां सर्वत्र भागहारका प्रमाण पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ।) इस प्रकार उदयावलीके अन्तिम समय तक विशेष हीन देता हुआ चला जाता है । यहां विशेषका प्रमाण दो गुणहानिका प्रतिभागी है । यह क्रम उदयमें आई हुई प्रकृतियोंका ही है, शेष प्रकृतियोंका नहीं, क्योंकि, उनके उदयावलीके भीतर आनेवाले प्रदेशाग्रोंका अभाव है ।

उदयमें आई हुई और उदयमें नहीं आई हुई प्रकृतियोंके प्रदेशाग्रको तथा उदयावलीके वाहिरकी स्थितियोंमें स्थित प्रदेशाग्रको अपकर्षण भागहारके द्वारा खंडित

१ पढम अवरवरद्विदिखंड पडस्स सखमाग तु । सायरपुधत्तमेत्त इदि सखसहस्सखल्लाणि ॥ लब्धि. ७७.

२ आउगवज्जाणं ठिदिघादो पढमाडु चरिमठिदिसत्तो । ठिदिवंधो य अपुञ्चो होदि हु संखेज्जगुणहीणो ॥ लब्धि. ७८.

३ उदयाणमावलिम्हि य उभयाण वाहिरम्मि खिवणट्ट । लोयाणमसंखेज्जो कमसो उक्कट्टणो हारो ॥ उक्कट्टिदइगिमागे पट्टासखेण भाजिदे तत्थ । बहुमागमिद दच्च उवरिक्कठिदीसु णिविखवदि ॥ सेसग्गमागे भजिदे असखल्लेण तत्थ बहुमागं । गुणसेदीए सिंचदि सेसेग च उदयम्हि ॥ लब्धि ६८-७०.

४ प्रतिष्ठा ' पडिमागीदो ' इति पाठः ।

भागहारेण खंडिदेगखंडं घेत्तूण उदयावलियवाहिरट्टिदिमिह असंखेज्जसमयपवद्धे देदि' । तदो उवरिमट्टिदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि । तदियट्टिदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि । एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए णेदव्वं जाव गुणसेडीचरिमसमओ त्ति । तदो उवरिमाणंतराए ठिदीए असंखेज्जगुणहीणं दव्वं देदि । तदुवरिमट्टिदीए विसेसहीणं देदि' । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं चैव पदेसग्गं णिरंतरं देदि जाव अप्पणो उक्कीरिदट्टिदिमावलियकालेण अपत्तो त्ति । णवरि उदयावलियवाहिरट्टिदिमसंखेज्जालोगेण खंडिदेगखंडं समऊणाव-  
लियाए वे त्तिभागे अइच्छाविय समयाहियतिभागे णिक्खिद्वि पुव्वं व विसेसहीणकमेण । तदो उवरिमट्टिदीए एसो चैव णिक्खेवो' । णवरि अइच्छावणा' समउत्तरा होदि । एवं

करके एक खंडको ग्रहण कर ( पल्योपमके असंख्यातवें भागरूप भागहारसे भाजित कर उसका एक भाग उदयावलीके भीतर गोपुच्छाकारसे देता है, और बहुभागरूप ) असंख्यात समयप्रवद्धोंको उदयावलीके वाहिरकी स्थितिमें देता है । इससे ऊपरकी स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रवद्धोंको देता है । तृतीय स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रवद्धोंको देता है । इस प्रकार यह क्रम असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा गुणश्रेणीके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन द्रव्यको देता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें विशेष हीन द्रव्यको देता है । इस प्रकार विशेष-हीन विशेष-हीन ही प्रदेशाग्रको निरन्तर तब तक देता है, जब तक कि अपनी अपनी उत्कीरित स्थितिको आवलीमात्र कालके द्वारा प्राप्त न हो जाय । विशेष बात यह है कि उदयावलीसे वाहिरकी स्थितिको असंख्यात लोकसे खंडित कर एक खंडको, एक समय कम आवलीके दो त्रिभागोंको (३) अतिस्थापन करके, एक समय अधिक आवलीके त्रिभागमें पूर्वके समान विशेष हीनक्रमसे निक्षिप्त करता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें यह ही निक्षेप है । केवल विशेषता यह है कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है । इस प्रकार यह क्रम तब तक ले जाना

१ अपुव्वकरणपढमसमए दिवडुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ओक्कुक्कुणमागहारेण खड्ढेयूण तत्थेयखड्ढमेत्तदव्व-  
मोक्कट्टिय तत्थासखेज्जलोगपडिभागिय दव्वमुदयावलयव्वतरे गोवुच्छायारेण णिसिंचिय पुणो सेसव्वहुभागदव्वमुदया-  
वलयवाहिरे णिक्खिद्वमाणो उदयावलयवाहिराणतरट्टिदीए असंखेज्जसमयपवद्धमेत्तदव्व णिसिंचिदे । जयध. अ प. ९५.

२ उदयात्रलिस्स दव्व आवलिमज्जिदे दु होदि मज्झघण । रूऊणद्धाणद्धेणूणेण णिसेयहारेण ॥ मज्झिम-  
घणमव्वहारेदे पचय पचय णिसेयहारेण । गुणिदे आदिणिसेय विसेसहीणे कम तत्तो ॥ उक्कट्टिदिमिह देदि दु  
अमखसमयपवद्धमादिमिह । मखातीतगुणकममखहीण त्रिसेसहीणक्रम ॥ लब्धि. ७२-७३.

३-४ अपक्कट्टद्रव्यस्य निक्षेपस्थान निक्षेपः, निक्षिप्यतेऽस्मिन्निति निर्वचनात् । तेनातिक्रम्यमाण स्थान-  
मतिस्थापन, अतिस्थाप्यते अतिक्रम्यतेऽस्मिन्निति अतिस्थापनम् । लब्धिः ५६. टीकां.

ण्येयव्वं जाव अइच्छावणा आवलियमेत्ता जादा त्ति । तदे उवरिमणिकखेवो चैव वड्ढदि जाव उक्कस्सणिकखेवं पत्तो त्ति' ।

चाहिए, जब तक कि अतिस्थापना पूर्ण आवलीप्रमाण होती है । उससे ऊपर उपरिम निक्षेप ही उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है ।

विशेषार्थ—अपकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्रव्य जिन निपेकोंमें मिलाते हैं, वे निपेक निक्षेपरूप कहलाते हैं । उक्त द्रव्य जिन निपेकोंमें नहीं मिलाया जाता है, वे निपेक अतिस्थापनारूप कहलाते हैं । निक्षेप और अतिस्थापनाका क्रम यह है कि उदयावलीमेंसे एक कम कर शेषमें तीनका भाग ढीजिए । एक रूप सहित प्रारंभका त्रिभाग तो निक्षेपरूप है, अर्थात् वह अपकृष्ट द्रव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभागमें मिलाया जाता है, और अन्तके दो भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात् उनमें वह अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता है । उदाहरणार्थ—उदयावली या प्रथमावलीके एकसे लेकर सोलह निपेक कल्पना कीजिए और सत्तरहसे लेकर बत्तीस तकके निपेक दूसरी आवलीके कल्पना कीजिए । इस कल्पनाके अनुसार दूसरी आवलीके सत्तरहवें निपेकका द्रव्य अपकर्षण करके नीचे उदयावलीमें देना है, तो उक्त क्रमके अनुसार १६ मेंसे एक कम करनेपर १५ रहे । उसका त्रिभाग ५ हुआ । उसमें १ के मित्त्तानपर ६ होते हैं । सो इन प्रारंभके ६ समयोंके निपेकोंमें उक्त अपकृष्ट द्रव्यका निक्षेप होगा । इसीलिए वे निपेक स्थापना या निक्षेपरूप कहे जाते हैं । बाकीके ७ से लेकर १६ तकके जो प्रथमावलीके निपेक हैं उनमें उस द्रव्यका निक्षेप नहीं होगा । इसीलिए वे अतिस्थापनारूप कहे जाते हैं । यह जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापनाका स्वरूप है । इससे ऊपर दूसरी आवलीके दूसरे निपेकका अपकर्षण किया, तब इसके नीचे एक समय अधिक आवलीमात्र सर्व निपेक है, उनमें निक्षेप तो एक समय कम आवलीका त्रिभाग-मात्र ही रहेगा । किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण पहलेसे एतद् समय अधिक हो जावेगा । पुनः उसी दूसरी आवलीके तीसरे निपेकको अपकर्षण कर नीचे दिया, तब भी निक्षेपका प्रमाण वही रहेगा, किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक हो जावेगी । पुनः उसी दूसरी आवलीके चौथे निपेकको अपकर्षण कर नीचे देनेपर भी निक्षेपका प्रमाण तो पूर्वोक्त ही रहेगा, किन्तु अतिस्थापनामें एक समय अधिक हो जावेगा । इस प्रकार ऊपर ऊपरके निपेकोंको अपकर्षण कर नीचे देनेपर निक्षेपका प्रमाण तब तक वही रहेगा जब तक कि अतिस्थापनाका प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आवलीप्रमाण काल न हो जावे ।

१ णिकखेवमट्ठिवावणमवर समउणआवलित्तिभाग । तेणूणावलित्तेत्त त्तिदियात्तलियादिमणियेणे ॥ एत्तो समउणावलित्तिभागमेत्तो तु त खु णिकखेवो । उवरि आवलित्तिजय सगट्ठिदी होदि णिकखेवो ॥ उक्कस्सट्ठिदित्रयो समयजुदावल्लिदुणेण परिहीणो । उक्कट्ठिदिम्मि चरिमे ट्ठिदिम्मि उक्कस्सणिकखेवां ॥ उट्ठि ५६-५८. उक्कस्सओ पुण णिकखेवो केत्तिओ ? जत्तिया उक्कस्सिया कम्मट्ठिदी उक्कस्सियाए आवाहाए समयुत्तरावलियाए च उणा तत्तिओ उक्कस्सओ णिकखेवो । जयध. अ. प. ५९९.

जासिं द्विदीणं पदेसग्गस्स उदयावलियव्भंतरे चैव णिक्खेवो तासिं पदेसग्गस्स ओकड्डुणभागहारो असंखेज्जा लोगा' । एवमुवरिसव्वसमएसु कीरमाणगुणसेडीणमेसो चैव अत्थो वत्तव्वो । णवरि पढमसमए ओकड्डिदपदेसग्गादो विदियसमए असंखेज्जगुणं पदेसग्गमोकड्डिदि, विदियसमयपदेसादो तदियसमए असंखेज्जगुणमोकड्डिदि । एवं सव्वसमएसु णेयव्वं । पढमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो विदियसमए द्विदिं पडि दिज्जमाणपदेसग्गमसंखेज्जगुण । एवं सव्वसमयाणं पि दिज्जमाणक्कमो वत्तव्वो' ।

तम्हि चैव अपुव्वकरणपढमसमए अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा

जय अतिस्थापना आवलीमात्र हो जाती है, तब उससे ऊपर निक्षेपका ही प्रमाण एक एक समयकी अधिकतासे तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त न हो जावे । यद्यपि यहां धवलाकारने उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण नहीं बतलाया, तथापि जयधवला और लब्धिसार आदि ग्रन्थोमे उसका प्रमाण एक समय अधिक दो आवलीसे हीन उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण बतलाया गया है । एक समय अधिक दो आवलीसे हीन करनेका कारण यह है कि विवक्षित कर्मके बन्ध होनेके पश्चात् एक आवली तक तो उद्वीरणा हो नहीं सकती है, इसलिए वह एक अचलावलीकाल तो आवाधाकालमें गया । और अन्तिम आवली अतिस्थापनारूप है, अतः उसका भी द्रव्य अपकर्षण नहीं किया जा सकता । तथा अन्तिम निषेकका द्रव्य अपकर्षण कर नीचे निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे ग्रहण नहीं किया । इस प्रकार एक समय अधिक दो आवलीसे हीन शेष समस्त उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण जानना चाहिए । यह प्रमाण अव्याघात स्थितिका है । व्याघात स्थितिका क्रम भिन्न है ।

जिन स्थितियोंके प्रदेशाग्रका उदयावलीके भीतर ही निक्षेप होता है, उन स्थितियोंके प्रदेशाग्रका अपकर्षण भागहार असंख्यात लोकप्रमाण है । इस प्रकार ऊपरके सर्व समयोंमें की जानेवाली गुणश्रेणियोंका यह ही अर्थ कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि प्रथम समयमे अपकर्षण किये गये प्रदेशाग्रसे द्वितीय समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको अपकर्षित करना है, द्वितीय समयके प्रदेशाग्रसे तौसरे समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको अपकर्षित करता है । इस प्रकार यह क्रम सर्व समयोंमे ले जाना चाहिए । प्रथम समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रसे द्वितीय समयमें स्थितिके प्रति दिया जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार सर्व समयोंके भी दिये जानेवाले प्रदेशाग्रोंका क्रम कहना चाहिए ।

उस ही अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागका अनन्त बहुभाग

१ उदयाणमात्रलिम्हि य उभयाण वाहिरिम्मि खिवणड्ड । लोयाणमसंखेज्जो कमसो उक्कट्टणो हारो ॥  
लब्धि. ६८.

२ पडिसमय उक्कट्टदि असखणियक्कमेण सिंचदि य । इदि गुणसेदीकरणं आउगवज्जाण कम्माण ॥  
लब्धि. ७४.

घादेदुमादत्ता<sup>१</sup> । एत्थ अणुभागखंडयमाहप्पजाणावणट्टमप्पावहुगं उच्चदे । तं जहा-  
अणुभागस्स एकम्मिह पदेसगुणहाणिट्टाणंतरे जे अणुभागफद्दया ते थोवा । अइच्छावणा<sup>२</sup>  
अणंतगुणा । णिक्खेवो अणंतगुणो<sup>३</sup> । अणुभागखंडयदीहत्तमणंतगुणं । एदमप्पावहुगं  
सव्वाणुभागखंडएसु दड्ढवं । गुणसेट्ठिणिक्खेवो पुण अपुव्वकरणद्धादो अणियट्ठीकरणद्धादो  
च विसेसाहिओ<sup>४</sup> । ट्ठिदिवंधकालो ट्ठिदिवंधयउत्कीरणकालो च दो वि सव्वत्थ सरिसा<sup>५</sup>  
विसेसहीणा । एगट्ठिदिवंधयकालव्भंतरे अणुभागखंडयसहस्साणि णिवदंति, तक्कालादो  
संखेज्जगुणहीणअणुभागखंडयउत्कीरणद्धत्तादो<sup>६</sup> । णवरि ट्ठिदिवंधयचरिमफालीए पडमाण-

घातना प्रारम्भ करता है । यहाँपर अनुभागकांडकका माहात्म्य बतलानेके लिए अल्प-  
बहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है— अनुभागके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें जो  
अनुभागसम्बन्धी स्पर्धक है, वे सबसे कम हैं । उनसे अतिस्थापना अनन्तगुणी है ।  
उससे निक्षेप अनन्तगुणा है । उससे अनुभागकांडककी दीर्घता अनन्तगुणी है । यह  
अल्पबहुत्व सभी अनुभागखंडोंमें जानना चाहिए । किन्तु गुणश्रेणीनिक्षेप अपूर्वकरणके  
कालसे और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक होता है । स्थितिवंधका काल और  
स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, ये दोनों ही सर्वत्र सदृश और विशेषहीन होते हैं । एक  
स्थितिवंधकालके भीतर हजारों अनुभागकांडक होते हैं, क्योंकि, स्थितिकांडकके कालसे  
संख्यातगुणा हीन अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल होता है । विशेषता केवल यह है कि

१ असुहाण पयडीण अणतमागा रसस्स खडाणि । सुहपयडीण णियमा णत्थि ति रसस्स खडाणि ॥  
लुब्धि ८०.

२ उवरिमअणुभागफद्दयाणि ओक्खेमाणो जत्तियाणि अणुभागफद्दयाणि जहण्णेणाइच्छाविय हेट्ठिमफद्दय-  
सरूवेणोक्खइ ताणि जहण्णाइच्छावणाविसयाणि अणतगुणाणि ति जहवुत्त होइ । जयध. अ. प ९५१ । रसगद-  
पदेसगुणहाणिट्टाणगफड्डूयाणि थोवाणि । अइत्थावणिक्खेवे रसउट्ठेणतगुणियकमा ॥ लुब्धि. ८१.

३ णिक्खेवफद्दयाणि अणंतगुणाणि एव भणिदे कडयस्स हेट्ठा जहण्णाइच्छावणमेत्तफद्दयाणि  
मोत्तूण सेसहेट्ठिमसव्वफद्दयाण गहण कायव्व । एदाणि जहण्णाइच्छावणाफद्दएहिंतो अणतगुणाणि ति भणिद होइ ।  
जयध. अ. प. ९५२.

४ अपुव्वकरणस्स चेव पडमसमए आउगवज्जाण कम्माण गुणसेट्ठिणिक्खेवो अणियट्ठीअद्धादो  
करणद्धादो च विसेसाहिओ । जयध. अ. प ९५२. गुणसेदीदीहत्तमपुव्वदुगादो दु साहिय होदि ।  
लुब्धि. ५५.

५ तम्मि ट्ठिदिवंधयद्धा ट्ठिदिवंधगद्धा च तुल्ला । जयध. अ. प. ९५२. ट्ठिदिवंधट्ठिदिवंधउत्कीरणकाला  
समा होति । लुब्धि. ५४.

६ एकम्मिह ट्ठिदिवंधय अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि । किं कारण ? ट्ठिदिवंधयउत्की-  
रणद्धादो अणुभागखंडयउत्कीरणद्धाए संखेज्जगुणहीणत्तादो । जयध. अ. प. ९५२. एक्केट्ठिदिवंधयणिवडणट्ठिदि-  
वंधओसरणकाले । संखेज्जसहस्साणि य णिवदति रसस्स खडाणि ॥ लुब्धि. ७९.

काले चैव सञ्चत्थ द्विदिवंधो समप्पदि, द्विदिखंडयउक्कीरणकालेण समाणबंधगद्धत्तादो । तम्हि चैव समए चरिमाणुभागखंडयचरिमफाली वि पददि<sup>१</sup>, अणुभागखंडयउक्कीरणद्वाए ओव्वट्टिद्विदिवंधकालम्हि विगलरूवाभावादो । एवं बहूहि द्विदिखंडयसहस्सेहि अदिक्कंतेहि अपुव्वकरणद्वा समप्पदि<sup>२</sup> । णवरि अपुव्वकरणस्स पढमसमयद्विदिसंत-द्विदिवंधेहिंतो अपुव्वकरणस्स चरिमसमयद्विदिसंत-द्विदिवंधाणं दीहत्तं संखेज्जगुणहीणं होदि<sup>३</sup> । अपुव्वकरणपढमसमयअणुभागसंतादो चरिमसमये अप्पसत्थपयडीणमणुभागसंतकम्ममणंतगुणहीणं, पसत्थाणमणंतगुणं होदि<sup>४</sup> । एवमपुव्वपरिणामकज्जपरूवणा कदा ।

तदणंतरउवरिमसमए अणियट्टीकरणं पारभदि । ताधे चैव अण्णो द्विदिखंडओ,

स्थितिकांडककी चरम फालीके पतनकालमें ही सर्वत्र स्थितिवन्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि, स्थितिकांडकके उत्कीरणकालके साथ स्थितिवन्धका काल समान होता है । उस ही समयमें अन्तिम अनुभागकांडककी अन्तिम फाली भी नष्ट होती है, क्योंकि, अनुभागकांडकके उत्कीरणकालसे अपवर्तन किये गये स्थितिवन्धके कालमें विकलरूपता, अर्थात् चिभिन्नता, नहीं हो सकती है । इस प्रकार अनेक सहस्र स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है । यहां विशेषता यह है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिवन्ध, इन दोनोंसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थितिवन्ध, इन दोनोंकी दीर्घता संख्यातगुणी हीन होती है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभागसत्त्वसे अन्तिम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्वकर्म अनन्तगुणा हीन होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा अधिक होता है । इस प्रकार अपूर्वकरण परिणामोंके कार्योंका निरूपण किया ।

उक्त अपूर्वकरणका काल समाप्त होनेके अनन्तर आगेके समयमें अनिवृत्तिकरणको प्रारम्भ करता है । उसी समयमें ही अन्य स्थितिखंड, अन्य अनुभागखंड और

१ ठिद्विखट्ठगे समत्ते अणुभागखडय च द्विदिदधगद्धा च समत्ताणि भवन्ति । जयध. अ प. ९५१.

२ एव ठिद्विखडयसहस्सेहिं बहुएहिं गधेहिं अपुव्वकरणद्वा समत्ता भवदि । जयध अ प. ९५२

३ णवरि पढमद्विदिखडयादो विदियद्विदिखडयं विसेसहीणं सखेज्जदिभागेण । एवमणतराणतरादो विसेसहीणं णेदत्र जाव चरिमद्विदिखडय ति । ××× अपुव्वकरणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मादो चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । किं कारण ? अपुव्वकरणपढमसमए पुव्वणिरूद्धतोकोडाकोडीमेत्तसागरोवमाण सखेज्जे भागे अपुव्वरणविसोहिणिवधणद्विदिखडयसहस्सेहिं घादेहिं सखेज्जदिभागमेत्तस्सेव द्विदिसंतकम्मस्म परिमेदिदत्तादो । जयध. अ प. ९५२. आरगवज्जाण ठिदिघादो पढमाद्दु चरिमठिदिसतो । ठिदिबधो य अपुव्वो होद्दु हु सखेज्जगुणहीणो ॥ लब्धि. ७८.

४ पढमापुव्वरसादो चरिमे समये पञ्चद्वाराण । रससत्तमणतगुणं अणंतगुणहीणयं होदि । लब्धि. ८२.

अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो द्विदिवंधो च आढत्तो' । पुव्वोकड्ढिदपदेसग्गादो असंखेज्ज-  
गुणं पदेसमोकड्ढिदूण अपुव्वकरणो व्व गलिदसेसं गुणसेडिं करेदि' । सुत्ते द्विदिवंधो-  
सरणमेव परूविदं, ठिदि-अणुभाग-पदेसघादा ण परूविदा, तेसिं परूवणा ण एत्थ जुज्झदि  
त्ति ? ण, तालपलंबसुत्तं व तस्स देसामासियत्तादो । एवं द्विदिवंध-द्विदिखंडय-अणुभाग-  
खंडयसहस्सेसु गदेसु अणियट्ठीअट्ठाए चरिमसमयं पावदि ।

सपहि केवचिरेण कालेणेत्ति पुच्छाए अत्थं परूवयंतो अणियट्ठीपरिणामाणं कज्ज-  
विसेसपटुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तं भणदि-

**पढमसम्मत्तमुप्पादंतो अंतोमुहुत्तमोहट्ठेदि ॥ ६ ॥**

अन्य स्थितिवन्धको आरम्भ करता है । पूर्वमं अपकर्षित प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणित  
प्रदेशका अपकर्षणकर अपूर्वकरणके समान गलितावशेष गुणश्रेणीको करता है ।

विशेषार्थ—गुणश्रेणी प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें जो गुणश्रेणी-आयामका  
प्रमाण था उसमें एक एक समयके वीतनेपर उसके द्वितीयादि समयोंमें गुणश्रेणी आयाम  
क्रमसे एक एक निपेक घटता हुआ अवशेष रहता है, इसलिए उसे गलितावशेष गुण-  
श्रेणी आयाम कहते हैं । यद्यपि यहांपर गुणश्रेणीका प्रारम्भ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे  
हुआ था और तबसे यहांतक बराबर गुणश्रेणी जारी है, तथापि उसके आयामका प्रमाण  
क्रमशः एक एक समयप्रमाण गलित या कम होता जा रहा है । इससे यह गलितावशेष  
गुणश्रेणी कहलाती है । ( देखो लब्धिसार वचनिका पृ. २२ )

शंका—सूत्रमें केवल स्थितिवन्धापसरण ही कहा है, स्थितिघात, अनुभागघात  
और प्रदेशघात नहीं कहे हैं, इसलिए उनकी प्ररूपणा यहांपर युक्तिसंगत या योग्य  
नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तालप्रलम्बसूत्रके समान यह सूत्र देशामर्शक है ।  
अतएव स्थितिघात आदिकी प्ररूपणा घटित हो जाती है ।

इस प्रकार सहस्रो स्थितिवन्ध, स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघातोंके  
व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता है ।

अब ' कितने कालके द्वारा ' इस पृच्छासूत्रके अर्थको प्ररूपण करते हुए आचार्य  
अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी परिणामोंके कार्य-विशेष बतलानेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव अन्त-  
मुहूर्त काल तक हटाता है, अर्थात् अन्तरकरण करता है ॥ ६ ॥

१ अणियट्ठिस्स पढमसमए अण्णं द्विदिसडयं अण्णो द्विदिवंधो अण्णमणुभागखंडय । जयध अ. प. ९५२.  
विदिय व तदियकरण पडिसमय एक एकपरिणामो । अण्ण ठिदिसखडे अण्ण ठिदिवधमाणुवह ॥ लब्धि ८३.

२ गलिदवसेसे उदयावाल्लिवाहिरदो इ गिक्खेवो ॥ लब्धि. ५५.

एदं सुत्तमंतरकरणं' परूवेदि । कस्स अंतरं कीरदि ? मिच्छत्तस्स, अणादिय-  
मिच्छाङ्गिणा अधियारादो । अण्णहा पुण जमत्थि दंसणमोहणीयं तस्स सव्वस्स अंतरं  
कीरदि । कम्हि अंतरं करेदि ? अणियट्ठीअद्दाए संखेज्जे भागे गंतूणं । अंतरकरणस्स

यह सूत्र अन्तरकरणका प्ररूपण करता है ।

शंका — प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीव किसका अन्तर करता है ?

समाधान—मिथ्यात्वकर्मका अन्तर करता है, क्योंकि, यहांपर अनादि मिथ्या-  
दृष्टि जीवका अधिकार है । अन्यथा पुनः जो ( तीन भेदरूप ) दर्शनमोहनीय कर्म है,  
उस सबका अन्तर करता है ।

विशेषार्थ—विचक्षित कर्मोंकी अधस्तन और उपरिम स्थितियोंको छोड़कर  
मध्यवर्ती अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितियोंके निपेकोंका परिणामविशेषके द्वारा अभाव करनेको  
अन्तरकरण कहते हैं । प्रकृतमे अनादि मिथ्यादृष्टिके प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका  
अधिकार है । अतएव सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः अधःकरण और अपूर्वकरणका  
काल समाप्त करके जब अनिवृत्तिकरण कालका भी संख्यात बहुभाग व्यतीत कर चुकता  
है, उस समय मिथ्यात्वकर्मका अन्तर्मुहूर्त काल तक अन्तरकरण करता है, अर्थात् अन्तर-  
करण प्रारंभ करनेके समयसे पूर्व उदयमे आनेवाले मिथ्यात्वकर्मकी अन्तर्मुहूर्तप्रमित  
स्थितिको उल्लंघन कर उससे ऊपरकी अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितिके निपेकोका उत्कीरण कर  
कुछ कर्मप्रदेशोंको प्रथमस्थितिमें क्षेपण करता है और कुछको द्वितीयस्थितिमें । अन्तर-  
करणसे नीचेकी अन्तर्मुहूर्तप्रमित स्थितिको प्रथमस्थिति कहते हैं और अन्तरकरणसे  
ऊपरकी स्थितिको द्वितीयस्थिति कहते हैं । इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायामसम्बन्धी  
कर्मप्रदेशोंको ऊपर नीचेकी स्थितियोंमें तब तक देता रहता है जब तक कि अन्तरायाम-  
सम्बन्धी समस्त निपेकोंका अभाव नहीं हो जाता है । यह क्रिया एक अन्तर्मुहूर्तकाल तक  
जारी रहती है । जब अन्तरायामके समस्त निपेक ऊपर वा नीचेकी स्थितियोंमें दे दिये जाते  
हैं और अन्तरकाल मिथ्यात्वस्थितिके कर्मनिपेकोसे सर्वथा शून्य हो जाता है, तब 'अन्तर  
कर दिया गया' ऐसा समझना चाहिए । तभी उक्त जीव मिथ्यात्वकर्मके तीन भाग  
करता है ।

शंका — किसमें, अर्थात् कहांपर या किस करणके कालमें, अन्तर करता है ?

समाधान—अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यात भाग जाकर अन्तर करता है ।

१ निमंतरकरण णाम ? त्रिविखयऋम्माण हेट्ठिमोत्रिमिट्ठिदीओ मोत्तूण मज्जे अतोप्पहुत्तमेत्ताण ट्ठिदीण  
परिणामत्रिमंसेण णिमंसेणममावीकरणमतरकरणमिदि मण्णदे ॥ जयध. अ. प. ९५३. अन्तरकरण नामोदयक्षणा-  
दुपरि मिथ्यात्वस्थितिमन्तर्मुहूर्तमानामतिक्रम्योपरितर्नां च विन्ममथित्वा मध्येऽन्तर्मुहूर्तमान तत्प्रदेशवेद्यदलिकाभाव-  
करण । कर्मप्र. पत्र २६०.

२ एव ट्ठिदिखड्यसहस्सेहि अणियट्ठिअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अतर करेदि । जयध. अ. प. ९५२.



पढमसमए अण्णं ढ्ढिदिखंडयं अण्णमणुभागखंडयं च आगाएदि, अण्णं ढ्ढिदिबंधं च आढवेदि' । जत्तिओ ढ्ढिदिबंधकालो तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेढीणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्जदिभागं खंडेदि । गुणसेढीसीसयादो' संखेज्जगुणाओ उवरिमढ्ढिदीओ खंडेदि', अंतरं तत्थुक्किण्णपदेसग्गं विदियढ्ढिदीए' आवाधूणियाए वंधे उक्कह्दि, पढमढ्ढिदीए' च देदि, अंतरंढ्ढिदीसु हंढ गियमा ण देदि त्ति' । एवमंतरमुक्कीरमाणमुक्किण्णं ।

अन्तरकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकको आरम्भ करता है, तथा अन्य स्थितिवन्ध आरम्भ करता है । जितना स्थितिवन्धका काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणीनिक्षेपके अग्राग्रसे, अर्थात् गुणश्रेणीशीर्षसे लेकर नीचे संख्यातवै भाग प्रदेशाग्रको खंडित करता है । गुणश्रेणी-शीर्षसे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंको खंडित करता है, तथा अन्तरके लिए वहांपर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशाग्रको ( लेकर ) बन्धमें, अर्थात् उस समय बंधनेवाले मिथ्यात्वकर्ममें, उसकी आवाधाकाल हीन द्वितीयस्थितिमें स्थापित करता है और प्रथम-स्थितिमें देता है, किन्तु अन्तरकालसम्बन्धी स्थितियोंमें निश्चयतः नर्द्दा देना है । इस प्रकार किया जानेवाला अन्तर किया गया, अर्थात् अन्तरकरणका कार्य सम्पन्न हुआ ।

१ संखेज्जदिसे सेसे दयणमोहस्स अतर कुणह् । अण्ण ढ्ढिदिसखड अण्ण ढ्ढिदिवधणं तत्थ ॥ लब्धि ८४.

२ प्रतिषु ' गुणसेढीविसयादो ' इति पाठ ।

३ जा तस्मिह ढ्ढिदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण करेमाणो गुणसेढीणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्जदिभागं खंडेदि । एदेण सुत्तेण अतरकरण करेमाणस्स कालपमाणमतरद्धमागाइढ्ढिदीण पमाणवहाण पढमढ्ढिदिदीहत्त च परुविद होइ । ××× एत्थ गुणसेढीणिक्खेवो ति वुने जो अपुच्चकरणस्स पढम-समए अणियद्धिक्करणद्धाहितो विसेसाहियायामेण णिक्खित्तो गलिदसेसरुवणंति कालमागदो तस्स गहण कायच्च । तस्स अग्गगमिदि मणिदे गुणसेढीसीसयस्स गहण कायच्च । तत्तोप्पहुडि हेट्ठा संखेज्जदिमाग खंडेदि त्ति मणिदे सयलस्स गुणसेढीआयामस्स त्कालदीसमाणस्स संखेज्जदिमागभूदो जो अणियद्धिअच्छिदो उवरिमो विसेसाहिय-णिक्खेवो त सन्नमतरद्धमागाएदि त्ति मणिद होइ । किमेतिय चैव अतरदाहत्त ? ण, ' गुणसेढीसीसयादो उवरि अण्णाओ वि संखेज्जगुणाओ ढ्ढिदीओ धेत्तूणंतरं करेदि । ××× तदो अणियद्धिअढ्ढासेसस्स संखेज्जमागेत्तकालेण अतर करेमाणो अतरकरणद्धादो संखेज्जगुण मिच्छतस्स पढमढ्ढिदि परिसेसिय पुणो अणियद्धि-करणद्धादो उवरिमविसेसाहियगुणसेढीणिक्खेवेण सह तत्तो संखेज्जगुणाओ अण्णाओ वि ढ्ढिदीओ धेत्तूणतरमेसो करेदि त्ति सिद्धो सुत्तस्स समुदायत्थो । जयथ अ प ९५३.

४-५ अन्तरकरणच्चाधस्तनी स्थिति प्रथमा स्थितिरित्युच्यते । उपरितनी तु द्वितीया । कर्मप्र. पृ २६०.

६ एयद्धिदिखड्ढुक्कीरणकाले अतरस्स णिप्पत्ती । अतोमुहुत्तमेत्त अंतरकरणस्स अद्धाण ॥ गुणसेढीए सीस त्तो संखगुण उवरिमढ्ढिदि च । हेट्ठवरीस्मि य आवाहुज्झिय बधम्मिह सधुहीदि । लब्धि. ८५-८५.

तदो पडुडि उवसामओ त्ति भण्णदि । जदि एवं तो पुच्चमुवसामयत्तस्स<sup>१</sup> अभावो पावेदि<sup>२</sup> ? पुच्चं पि उवसामओ चैव, किंतु मज्झदीवयं कादूण सिस्सपडिवोहणहुं एसो दंसण-मोहणीयउवसामओ त्ति जइवसहेण भणिदं । तदो णेदं वयणं तीदभागस्स उवसामयत्त-पडिसेहयं । पढमट्टिदीदो विदियट्टिदीदो च तत्र आगाल-पडिआगाला<sup>३</sup> जाव आवलिया पडिआवलिया<sup>४</sup> च सेसा त्ति । तदो पडुडि मिच्छत्तस्स गुणसेडी णत्थि, उदायावलियवाहिरे

अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह जीव ' उपशामक ' कहलाता है ।

शंका—यदि ऐसा है, अर्थात् अन्तरकरण समाप्त होनेके पश्चात् वह जीव ' उपशामक ' कहलाता है, तो इससे पूर्व, अर्थात् अधःकरणादि परिणामोंके प्रारम्भ होनेसे लेकर अन्तरकरण होने तक, उस जीवके उपशामकपनेका अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान—अन्तरकरण समाप्त होनेके पूर्व भी वह जीव उपशामक ही था, किन्तु मध्यदीपक करके शिष्योंके प्रतिबोधनार्थ ' यह दर्शनमोहनीयकर्मका उपशामक है ' इस प्रकार यतिवृषभाचार्यने ( अपनी कसायपाहुडचूर्णिके उपशमना अधिकारमें ) कहा है । इसलिए यह वचन अतीत भागके उपशामकताका प्रतिषेध नहीं करता है ।

प्रथमस्थितिसे और द्वितीयस्थितिसे तब तक आगाल और प्रत्यागाल होते रहते हैं, जब तक कि आवली और प्रत्यावलीमात्र काल शेष रह जाता है ।

विशेषार्थ—प्रथमस्थिति और द्वितीयस्थितिकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है । अपकर्षणके निमित्तसे द्वितीयस्थितिके कर्म-प्रदेशोंका प्रथमस्थितिमें आना आगाल कहलाता है । उत्कर्षणके निमित्तसे प्रथमस्थितिके कर्म-प्रदेशोंका द्वितीयस्थितिमें जाना प्रत्यागाल कहलाता है । 'आवली' ऐसा सामान्यसे कहने पर भी प्रकरणदश उसका अर्थ उदयावली लेना चाहिए । तथा, उदयावलीसे ऊपरके आवलीप्रमाण कालको द्वितीयावली या प्रत्यावली कहते हैं । जब अन्तरकरण करनेके पश्चात् मिथ्यात्वकी स्थिति आवलि-प्रत्यावलीमात्र रह जाती है, तब आगाल-प्रत्यागालरूप कार्य बन्द हो जाते हैं ।

इसके पश्चात्, अर्थात् आवलि-प्रत्यावलीमात्र काल शेष रहनेके समयसे लेकर, मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी नहीं होती है, क्योंकि, उस समयमें उदयावलीसे बाहिर कर्म-

१ प्रतिपु ' -सामयत्तरिस ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु ' पावेदि ' इति पाठ ।

३ आगालमागालो, विदियट्टिदिपदेसाण पढमट्टिदीए ओकड्डणावसेणागमणमिदि वुत्त होइ । प्रत्यागलन प्रत्यागालेः, पढमट्टिदिपदेसाणं विदियट्टिदीए उक्कड्डणावसेण गमणमिदि भणिद होइ । तदो पढम-विदियट्टिदि-पदेसाणमुक्कड्डणोक्कड्डणावसेण परोप्परविसयसकमो आगाल पडिआगालो त्ति घेत्तव्वो । जयध. अ. प. ९५४.

४ आवलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया घेत्तव्वा । पडिआवलिया त्ति पदेण वि उदयावलियादो उवरिम-विदियावलिया गहेयव्वा । जयध. अ. प. ९५४.

णिक्खेवाभावा'। सेसाणं आयुगवज्जाणं गुणसेडी अत्थि। पडिआवलियादो चेव उदीरणा। पडिआवलियाए सेसाए मिच्छत्तस्स उदीरणा णत्थि। तदो चरिमसमयमिच्छाइट्ठी जादो। अधवा णेदेण सुत्तेण अंतरघादो चेव परूविदो, किंतु द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेठिकमेण पदेसघादो अंतरद्विदीणं घादो च परूविदो। पुब्बिच्छसुत्तं पि ण देसा-मासियं, द्विदिवंधोसरणाए एकस्से चेव परूवणादो। लब्भदि त्ति जं पदं तस्स अत्थो समत्तो।

‘कदि भाए वा करेदि मिच्छत्तं’ एदिस्से पुच्छाए अत्थपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—  
ओहट्टेदूण मिच्छत्तं तिणिण भागं करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मा-  
मिच्छत्तं ॥ ७ ॥

एदेण सुत्तेण मिच्छत्तपढमद्विदिं गालिय सम्मत्तं पडिवणणपढमसमयप्पहुडि उवरिमकालम्मि जो वावारो सो परूविदो। ओहट्टेदूणेत्ति पुब्बं द्विदि-अणुभाग-पदेसेहि

प्रदेशोंका निक्षेप नहीं होता है। किन्तु आयुकर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोंकी गुण-श्रेणी होती रहती है। उस समय प्रत्यावलीसे ही मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा होती रहती है। किन्तु प्रत्यावलीके शेष रह जानेपर मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा नहीं होती है। तब यह जीव चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ कहलाता है।

अथवा, इस सूत्रके द्वारा केवल अन्तरघात ही नहीं प्ररूपण किया गया है, किन्तु स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणीके क्रमसे प्रदेशघात और अन्तर-स्थितियोंका घात भी प्ररूपण किया गया है। तथा, इससे पहलेका सूत्र भी देशामर्शक नहीं है, क्योंकि वह केवल एक स्थितिवन्धापसरणका ही प्ररूपण करता है।

इस प्रकार ‘सम्यक्त्वको प्राप्त करता है’ यह जो पद है उसका अर्थ समाप्त हुआ।

अब ‘मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है’ इस प्रश्नका अर्थ प्ररूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

अन्तरकरण करके मिथ्यात्वकर्मके तीन भाग करता है—सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ ७ ॥

इस सूत्रके द्वारा मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिको गलाकर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर उपरिम कालमें जो व्यापार, अर्थात् कार्य-विशेष, होता है, वह प्ररूपण किया गया है। ‘अन्तरकरण करके’ इस पदके द्वारा पहलेसे ही स्थिति,

१ अंतरकडपदमादो पडिसमयमसखगुणिदमृवसमादि। गुणसकमेण दसणमोहणिय जाव पढमठिदी ॥ पढमद्विदियावलिपडिआवलिसेसेसु णत्थि आगाला। पडिआगाला मिच्छत्तस्स य गुणसेठिकरण पि ॥ लब्धि. ८७-८८.

पत्तघादं मिच्छत्तं अणुभागेण पुणो वि घादिय तिण्णि भागे करेदि । कुदो ? 'मिच्छत्ताणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो, तत्तो सम्मत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो' त्ति पाहुडसुत्ते णिदिद्वत्तादो । ण च उवसमसम्मत्तकालवभतेरे अणंताणुबंधी-विमंजोयणकिरियाए विणा मिच्छत्तस्स द्विदिघादो वा अणुभागघादो वा अत्थि, तथोवदेमाभावा । तेण ओहट्टेदुणेत्ति उत्ते खंडयघादेण विणा मिच्छत्ताणुभागं घादिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तअणुभागायारेण परिणामिय पढमसम्मत्तं पडिवण्णपढमसमए चैव तिण्णि कम्मंसे उप्पादेदि' ।

पढमसमयउवसमसम्माइद्धी मिच्छत्तादो पदेसगं घेत्तूण सम्मामिच्छत्ते बहुगं देदि, तत्तो अमंखेज्जगुणहीणं सम्मत्ते देदि । पढमसमए सम्मामिच्छत्ते दिण्णपदेसेहितो विटियमए सम्मत्ते अमंखेज्जगुणे देदि । तम्हि चैव समए सम्मत्तम्हि छुद्धपदेसेहितो सम्मामिच्छत्ते अमंखेज्जगुणे देदि । एवं अतोमुहुत्तकाल गुणसेडीए सम्मत्त-सम्मा-

अनुभाग और प्रदेशोंकी अपेक्षा घातको प्राप्त मिथ्यात्वकर्मको अनुभागके द्वारा पुनरपि घात कर उनके तीन भाग करता है, यह प्ररूपित किया गया है । इसका कारण यह है कि 'मिथ्यात्वकर्मके अनुभागसे सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है, और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके अनुभागसे सम्यक्त्वप्रकृतिका अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता है,' ऐसा प्राभृतल्ल अर्थात् कपायप्राभृतके चूर्णिसूत्रोंमें निर्देश किया गया है । तथा, उपशमसम्यक्त्वमन्वन्धी कालके भीतर अनन्तानुबंधीकपायकी विसंयोजनरूप क्रियाके विना मिथ्यात्वकर्मका स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात नहीं होता है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है । इसलिए 'अन्तरकरण करके' ऐसा कहने पर कांडकघातके विना मिथ्यात्वकर्मके अनुभागको घात कर, और उसे सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके अनुभागरूप आकारसे परिणामकर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही मिथ्यात्वरूप एक कर्मके तीन कर्मांश, अर्थात् भद्र या खंड उत्पन्न करता है ।

प्रथम समयवर्ती उपशमसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वसे प्रदेशाग्र अर्थात् उदीरणाको प्राप्त कर्म-प्रदेशोंको लेकर उनका बहुभाग सम्यग्मिथ्यात्वमें देता है, और उससे असंख्यातगुणा हीन कर्म-प्रदेशाग्र सम्यक्त्वप्रकृतिमें देता है । प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें दिये गये प्रदेशोत्पत्ते, अर्थात् उनकी अपेक्षा, द्वितीय समयमें सम्यक्त्वप्रकृतिमें असंख्यातगुणित प्रदेशोंको देता है । और उसी ही समयमें, अर्थात् दूसरे ही समयमें, सम्यक्त्वप्रकृतिमें दिये गये प्रदेशोंकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वमें असंख्यातगुणित प्रदेशोंको देता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक गुणश्रेणीके द्वारा सम्यक्त्व और सम्य-

१ अतरपढम पत्ते उवसमणामो हु तत्थ मिच्छत्त । ठिदिरसखडेण विणा उवइट्टादूण कुणदि तदा ॥ मिच्छत्तगिस्ससम्मत्तरूपेण य तत्तिधा य दद्यादो । सर्त्तादो य असखाणतेण य हांति भजियक्का ॥ लब्धि, ८९-९०.

मिच्छत्ताणि आऊरेदि जाव गुणसंकमचरिमसमओ त्ति । तेण परं अंगुलस्स असंखेज्जदि-  
भागपडिभागिओ विज्झादसंकमो होदि' । जाव गुणसंकमो ताव आयुगवज्जाणं कम्माणं  
ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी च अत्थि ।

एत्थ पणुवीसपडिगो दंडओ कादव्वो' । तं जधा— चरिमस्स अणुभाग-  
खंडयस्स उक्कीरणद्धा थोवा । अपुव्वकरणस्स पढमसमए अणुभागखंडय-  
उक्कीरणद्धा विसेसाहिया । अणियट्टिस्स चरिमट्टिदिवंधगद्धा चरिमट्टिदिवंधय-  
उक्कीरणद्धा च दो वि तुल्ला संखेज्जगुणा' । अंतरकरणद्धा तत्थतणट्टिदिवंधगद्धा  
ट्टिदिवंधयउक्कीरणद्धा च तिण्णि' वि तुल्ला विसेसाहिया । अपुव्वकरणस्स पढम-  
ट्टिदिवंधयस्स उक्कीरणद्धा ट्टिदिवंधगद्धा च दो वि तुल्ला विसेसाहिया । गुणसंकमेण  
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पूरणकालो संखेज्जगुणो । पढमसमयउवसामयस्स गुणसेडी-

गिमथ्यात्व कर्मको पूरित करता है जब तक कि गुणसंकमणकालका अन्तिम समय प्राप्त  
होता है । इस गुणसंकमणके पश्चात् सूच्यंगुलके असंख्यातके भागका प्रतिभागी, अर्थात्  
सूच्यंगुलके असंख्यातके भाग प्रमाणवाला, विध्यातसंकमण होता है । जब तक गुणसंक-  
मण होता है, तब तक आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिघात, अनुभागघात और  
गुणश्रेणी होती रहती है ।

इस प्रकरणमें यह पच्चीस प्रतिक या पदवाला अल्पवहुत्व-दंडक कहने योग्य है ।  
यह इस प्रकार है—

चरम, अर्थात् मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले,  
अनुभागकांडके उत्कीरणका काल ( यद्यपि अन्तर्मुहूर्तमात्र है, तथापि आगे कहे जाने-  
वाले कालोंकी अपेक्षा) अल्प है (१) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले अनु-  
भागकांडके उत्कीरणका काल विशेष अधिक है (२) । इससे अनिवृत्तिकरणके अन्तिम  
समयमें संभव स्थितिवंधका काल और अन्तिम स्थितिकांडके उत्कीरणका काल, ये दोनों  
परस्पर समान होते हुए भी संख्यातगुणित हैं (३-४) । इससे अन्तरकरणका काल, वहां-  
पर संभव स्थितिवन्धका काल, तथा स्थितिकांडके उत्कीरणका काल, ये तीनों परस्पर  
समान होते हुए भी विशेष अधिक हैं (५-७) ? इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होने-  
वाले स्थितिकांडका उत्कीरणकाल और स्थितिवंधका काल, ये दोनों परस्पर समान होते  
हुए भी विशेष अधिक हैं (७-८) । इससे गुणसंकमणके द्वारा सम्यक्त्व और सम्य-  
गिमथ्यात्वके पूरनेका काल संख्यातगुणा है (९) । इससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका

१ पढमादो गुणसंकमचरिमो त्ति य सम्म मिससम्मिस्से । अहिगदिणाऽसखगुणो विज्झादो सक्को  
तत्तो ॥ लब्धि. ९१.

२ विदियकरणादिमादो गुणसंकमपूरणस्स कालो त्ति । वोच्छं सखडुक्कीरणकालादीणमप्पवहु ॥ लब्धि. ९२.

३ अतिमसखडुक्कीरणकालादो इ पढमवो अहिओ । तत्तो सखेज्जगुणो चरिमट्टिदिवंधहदिकालो ॥  
लब्धि. ९३.

४ अ-आप्रलो. 'गिरि', कप्रतौ 'रिगि', मप्रतौ 'तिण्हि' इति पाठः ।

सीसयं संखेज्जगुणं । पढमट्टिदी संखेज्जगुणा । उवसामगद्धा' विसेसाहिया' । विसेसो पुण वे आवलियाओ समऊणाओ । अणियट्टिअद्धा संखेज्जगुणा । अपुव्वद्धा संखेज्जगुणा' । गुणसेडीणिकखेवो विसेसाहियो । उवसंतद्धा संखेज्जगुणा' । अंतरं संखेज्जगुणं । जहणियावाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाधा संखेज्जगुणा' । अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहणणओ ट्टिदिखंडओ असंखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिखंडओ संखेज्जगुणो । जहणणगो ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । जहणणयं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । उक्कस्सयं संखेज्जगुणं' ।

गुणश्रेणीशीर्ष संख्यातगुणा है (१०) । इससे प्रथमस्थिति संख्यातगुणी है (११) । इससे उपशामकाद्धा, अर्थात् दर्शनमोहके उपशमानेका काल, विशेष अधिक है (१२) । वह विशेष एक समय कम दो आवलीमात्र है । इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है (१३) । इससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है (१४) । इससे गुणश्रेणीका निक्षेप, अर्थात् आयाम, विशेष अधिक है (१५) । इससे उपशान्ताद्धा, अर्थात् उपशमसम्यक्त्वका काल, संख्यातगुणा है (१६) । इससे अन्तर, अर्थात् अन्तरसम्बन्धी आयाम, संख्यातगुणा है (१७) । इससे जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है (१८) । उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है (१९) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो जघन्य स्थितिखंड है, वह असंख्यातगुणा है (२०) । इससे ( अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो ) उत्कृष्ट स्थितिखंड है, वह संख्यातगुणा है (२१) । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (२२) । इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें संभव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (२३) । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२४) । इससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२५) ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त अल्पबहुत्वमें पांचवें और छठवें स्थानके साथ ही स्थिति-

१ का उवसामगद्धा नाम ? जम्हि अद्धाविसेसे दंसणमोहणीयपुव्वसतावण्णं होदूण चिट्ठइ सा उवसामगद्धा त्ति मण्णदे, उवसमसम्माइट्टिकालो त्ति मणिद होइ । जयध. अ प. ९४६.

२ तत्तो पढमो अहियो पूरणगुणसेडिसेसपढमठिदी । संखेण य गुणियक्कमा उवसमगद्धा विसेसहिया ॥ लब्धि. ९४.

३ जन्मि काले मिच्छत्तपुव्वसतमावेणच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उवसंतद्धा त्ति मण्णदे । जयध. अ. प. ९५६.

४ एसा जहणणावाहा कथ गहेयव्वा ? मिच्छत्तस्स ताव चरिमसमयमिच्छादिट्ठिणा णवकनधविसए गहेयव्वा । तत्तो अण्णत्थ मिच्छत्तस्स सव्वजहणणावाहाण्वलमादो । सेसकम्माण पुण गुणसकम्चरिमसमयणवकनध-जहणणावाहा धेत्तव्वा । जयध. अ प ९५६.

५ अणियट्टियसखगुणे णियट्टिए सेदियायद सिद्ध । उवसतद्धा अतर अवरावरवाह सखगुणिकमा ॥ लब्धि. ९५.

६ पढमापुव्वजहण्ण ठिदिखडमसखम ग्ण तस्स । वरमवरट्टिदिसत्ता एदे य सखगुणियक्कमा ॥ लब्धि. ९६.

दंसणमोहणीयं कम्मं उवसामेदि ॥ ८ ॥

एदेण पुव्वुत्तपयारेण दंसणमोहणीयं उवसामेदि त्ति पुव्वुत्तथो चैव एदेण सुत्तेण संभालिदो ।

उवसामेंतो कम्हि उवसामेदि, चदुसु वि गदीसु उवसामेदि ।  
चदुसु वि गदीसु उवसामेंतो पंचिंदिएसु उवसामेदि, णो एइंदिय-  
विगलिंदियेसु । पंचिंदिएसु उवसामेंतो सण्णीसु उवसामेदि, णो  
असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेंतो गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेदि, णो  
सम्मूच्छिमेसु । गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेंतो पज्जत्तएसु उवसामेदि,  
णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्तएसु उवसामेंतो संखेज्जवस्साउगेषु वि  
उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेषु वि ॥ ९ ॥

सुगममेदं । एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

कांडकउत्कीरणकालका भी निर्देश किया गया है । किन्तु लब्धिसारमें यहां स्थिति-  
कांडकउत्कीरणकालका उल्लेख नहीं है । और उसके न होने पर ही पच्चीस स्थान ठीक  
बैठते हैं । अतएव उक्त पाठका विषय विचारणीय है ।

मिथ्यात्वके तीन भाग करनेके पश्चात् दर्शनमोहनीय कर्मको उपशमाता  
है ॥ ८ ॥

इस पूर्वोक्त प्रकारसे दर्शनमोहनीयको उपशमाता है, इस प्रकार पहले कहा  
गया अर्थ ही इस सूत्रके द्वारा स्मरण कराया गया है ।

दर्शनमोहनीय कर्मको उपशमाता हुआ यह जीव कहां उपशमाता है ? चारों  
ही गतियोंमें उपशमाता है । चारों ही गतियोंमें उपशमाता हुआ पंचेन्द्रियोंमें उपश-  
माता है, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें नहीं उपशमाता है । पंचेन्द्रियोंमें उपशमाता  
हुआ संज्ञियोंमें उपशमाता है, असंज्ञियोंमें नहीं । संज्ञियोंमें उपशमाता हुआ गर्भोप-  
क्रान्तिकोंमें, अर्थात् गर्भज जीवोंमें, उपशमाता है, सम्मूर्च्छिमाओंमें नहीं । गर्भोपक्रा-  
न्तिकोंमें उपशमाता हुआ पर्याप्तकोंमें उपशमाता है, अपर्याप्तकोंमें नहीं । पर्याप्तकोंमें  
उपशमाता हुआ संख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और असंख्यात  
वर्षकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है ॥ ९ ॥

यह सूत्र सुगम है । इस विषयमें ये निम्न गाथाएं उपयोगी हैं—

दसणमोहस्सुवसामओ दु चट्टुसु वि गदीसु बोद्धव्वो ।  
 पचिदिओ य'सण्णी णियमा सो होदि पज्जत्तो' ॥ २ ॥  
 सव्वणिरय-भवणेसु य समुद्द-दीव-गुह<sup>१</sup>-जोइस-विमाणे ।  
 अहिजोग्ग-अणहिजोग्ग उवसामो होदि णायव्वो ॥ ३ ॥  
 उवसामगो य सव्वो णिन्वाघादो तहा णिरासाणो ।  
 उवसते भजियव्वो णिरासणो चेव खीणग्घि<sup>३</sup> ॥ ४ ॥  
 सायारे पट्टवओ णिट्टवओ मज्झिमो य भयणिज्जो ।  
 जोगे अण्णदरम्मि दु जहण्णए तेउलेस्साए<sup>५</sup> ॥ ५ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमें जानना चाहिए । वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता है । २ ।

इन्द्रक, श्रेणीवद्ध आदि सर्व नरकोंमें, सर्व प्रकारके भवनवासी देवोंमें, सर्व समुद्रों और द्वीपोंमें, गुह अर्थात् समस्त व्यन्तर देवोंमें, समस्त ज्योतिष्क देवोंमें, सौधर्मकल्पसे लेकर नव त्रैवेयक विमान तक विमानवासी देवोंमें, आभियोग्य, अर्थात् वाहनादिकुत्सित कर्ममें नियुक्त वाहन देवोंमें, उनसे भिन्न कित्त्विषिक आदि अनुत्तम, तथा पारिषद् आदि उत्तम देवोंमें दर्शनमोहनीय कर्मका उपशम होता है ॥ ३ ॥

दर्शनमोहका उपशामक सर्व ही जीव निर्व्याघात, अर्थात् उपसर्गादिकके आने-पर भी विच्छेद और मरणसे रहित, होता है । तथा निरासान, अर्थात् सासादनगुण-स्थानको नहीं प्राप्त होता है । उपशान्त, अर्थात् उपशमसम्यक्त्व होनेके पश्चात् भजितव्य है, अर्थात् सासादनपरिणामको कदाचित् प्राप्त होता भी है और कदाचित् नहीं भी प्राप्त होता है । उपशमसम्यक्त्वका काल क्षीण अर्थात् समाप्त हो जानेपर मिथ्यात्व आदि किसी एक दर्शनमोहनीयप्रकृतिका उदय आनेसे मिथ्यात्व आदि भावोंको प्राप्त होता है । अथवा, दर्शनमोहनीयकर्मके क्षीण हो जानेपर निरासान, अर्थात् सासादन-परिणामसे सर्वथा रहित, होता है ॥ ४ ॥

साकार अर्थात् ज्ञानोपयोगकी अवस्थामें ही जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला, होता है । किन्तु निष्ठापक, अर्थात् उसे सम्पन्न करने-वाला, मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है, अर्थात् वह साकारोपयोगी भी हो सकता है और अनाकारोपयोगी भी हो सकता है । मनोयोग आदि तीनों योगोंमेंसे किसी भी एक योगमें वर्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर सकता है । तथा तेजोलेइयाके जघन्य अंशमें वर्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥

१ जयध. अ प ९५७.

२ प्रतिपु ' गह ' इति पाठ ।

३ जयध अ. प ९५८ लब्धि ९९

४ जयध अ प. ९५८. लब्धि १०१. जइवि सुट्टु मदविसोर्हाए परिणमिय दसणमोहणीयपुवसामेदु-मादवेइ तो वि तस्स तेउलेस्सापरिणामो चेव तप्पाओगो होइ, णो हेट्टिमलेस्सापरिणामो, तस्स सम्मत्तुप्पत्तिकारण-करणपरिणामेहिं विरुद्धसरूवत्तादो ति मणिद होइ । एदेण तिरिक्ख-मणुस्सेसु किण्ह-णील-काउलेस्साण सम्मत्तुप्पत्ति-



मिच्छत्तवेदणीय कम्मं उवसामगस्स बोद्धव्वं ।  
 उवसंते आसाणे तेण परं होइ भयणिज्जं' ॥ ६ ॥  
 सव्वग्धिं द्विदिविसेसे उवसता तिण्णिं होति कम्मसा ।  
 एक्कग्धिं य अणुभागे णियमा सव्वे द्विदिविसेसा' ॥ ७ ॥  
 मिच्छत्तपच्चओ खलु वंधो उवसामयस्स बोद्धव्वो ।  
 उवसंते आसाणे तेण परं होदि भयणिज्जो' ॥ ८ ॥

उपशामकके जब तक अन्तर प्रवेश नहीं होता है तब तक मिथ्यात्ववेदनीय कर्मका उदय जानना चाहिए । दर्शनमोहनीयके उपशान्त होनेपर, अर्थात् उपशमसम्यक्त्वके कालमें, और सासादनकालमें मिथ्यात्वकर्मका उदय नहीं रहता है । किन्तु उपशमसम्यक्त्वका काल समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका उदय भजनीय है, अर्थात् किसीके उसका उदय होता भी है और किसीके नहीं भी होता है ॥ ६ ॥

तीनों कर्मोंका, अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीनों कर्म, दर्शनमोहनीयकी उपशान्त अवस्थामें सर्व स्थितिविशेषोंके साथ उपशान्त रहते हैं, अर्थात् उन तीनों कर्मोंके एक भी स्थितिका उस समय उदय नहीं रहता है । तथा एक ही अनुभागमें उन तीनों कर्मोंके सभी स्थितिविशेष अवस्थित रहते हैं, अर्थात् अन्तरसे बाहिरी अनन्तरवर्ती जघन्य स्थितिविशेषमें जो अनुभाग होता है, वही अनुभाग उससे ऊपरके समस्त स्थितिविशेषोंमें भी होता है, उससे भिन्न प्रकारका नहीं ॥ ७ ॥

उपशामकके प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक मिथ्यात्वप्रत्ययक, अर्थात् मिथ्यात्वके निमित्तसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका, बंध जानना चाहिए । (यद्यपि यहां पर असंयम, कषाय आदि अन्य भी बंधके कारण विद्यमान हैं, तथापि उनकी यहां विवक्षा नहीं की गई है, किन्तु प्रधानतासे मिथ्यात्व कर्मकी ही विवक्षाकी गई है ।) दर्शनमोहकी उपशान्त अवस्थामें और सासादनसम्यक्त्वकी अवस्थामें मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता है । इसके पश्चात् मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है, अर्थात् मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके तन्निमित्तक बन्ध होता है, और अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवोंके तन्निमित्तक बन्ध नहीं होता है ॥ ८ ॥

काले पडिसेहो वदो, विसोहिकाले असुहत्तिलेस्सापरिणामस्स समवाणुववत्तीदो । देवेषु पुण जहारिहं सुहत्तिलेस्सा-  
 तियपरिणामो चेव, तेण तत्थ वियहिचारो । णेरइएसु वि अवट्टिदकिण्ह-णील-काउलेस्सापरिणामेसु सुहत्तिलेस्साणम-  
 समवो चेवेति ण तत्थेदं सुत्त पयट्ठेदे । तदो तिरिक्ख-मणुमत्रिमयमेवेद सुत्तमिदि गह्येव्व । जयध. अ प ९५९ ।  
 यद्यपि तिर्यग्मनुष्यो वा मन्दाविशुद्धिस्तथापि तेजोलेश्याया जघन्यांशे वर्तमान एव प्रथमोपशमसम्यक्त्वप्रारंभको  
 भवति । नरकगतौ नियताशुभलेश्यात्वेऽपि कषायाणां मन्दाशुभागोदयवशेन तत्त्वार्थश्रद्धानाशुणकारणपरिणामरूप-  
 विशुद्धि-विशेषसंभवस्याविरोधात् । देवगतौ सर्वोऽपि शुभलेश्य एव प्रथमोपशमसम्यक्त्वप्रारंभको भवति । लुब्धि. १०१. टी.

१ जयध. अ. प. ९५९.

२ जयध. अ. प. ९५९. तत्र 'सव्वग्धिं द्विदिविसेसे' इति स्थाने 'सव्वेहिं द्विदिविसेसेहिं' इति पाठः ।

३ जयध. अ. प. ९६०.

अतोमुहुत्तमद्द सव्वोवसमेण होइ उवसतो ।

तेण परं उदओ खलु तिण्णेक्कदरस्स कम्मस्स' ॥ ९ ॥

सम्माभिच्छाइट्ठी दंसणमोहस्स वंधगो भणित्थो ।

वेदगसम्माइट्ठी खइओ व अवंधगो होदि' ॥ १० ॥

सम्मत्तपढमलंभो सव्वोवसमेण तह वियट्ठेण ।

भजिदव्वो य अभिक्खं सव्वोवसमेण देसेण' ॥ ११ ॥

अन्तर्मुहूर्त काल तक सर्वोपशमसे, अर्थात् दर्शनमोहनीयके सभी भेदोंके उपशमसे, जीव उपशान्त अर्थात् उपशमसम्यग्दृष्टि रहता है। इसके पश्चात् नियमसे उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन तीन कर्मोंमेंसे किसी एक कर्मका उदय होता है ॥ ९ ॥

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शनमोहनीय कर्मका अवन्धक, अर्थात् वन्ध नहीं करनेवाला, कहा गया है। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, तथा 'च' शब्दसे उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी दर्शनमोहनीय कर्मका अवन्धक होता है ॥ १० ॥

अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वका प्रथम वार लाभ सर्वोपशमसे होता है। इसी प्रकार विप्रकृष्ट जीवके, अर्थात् जिसने पहले कभी सम्यक्त्वको प्राप्त किया था, किन्तु पश्चात् मिथ्यात्वको प्राप्त होकर और वहां सम्यक्त्वप्रकृति एवं सम्यग्मिथ्यात्व-कर्मकी उठेलना कर बहुत काल तक मिथ्यात्व-सहित परिभ्रमण कर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त किया है ऐसे जीवके, प्रथमोपशमसम्यक्त्वका लाभ भी सर्वोपशमसे होता है। किन्तु जो जीव सम्यक्त्वसे गिरकर अभीक्षण अर्थात् जल्दी ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको ग्रहण करता है वह सर्वोपशम और देशोपशमसे भजनीय है। ( मिथ्यात्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, इन तीन कर्मोंके उदयाभावको सर्वोपशम कहते हैं। तथा सम्यक्त्वप्रकृतिसम्बन्धी देशघाती स्पर्धकोंके उदयको देशोपशम कहते हैं ) ॥ ११ ॥

१ जयध. अ. प. ९६०. किन्तु तत्र ' तेण पर उदओ ' इति अस्य स्थाने ' तत्तो परमुदयो ' इति पाठः । लब्धि १०२.

२ जयध. अ. प. ९६०. किन्तु तत्र ' खइओ व ' इति अस्य स्थाने ' खीणो वि ' इति पाठः ।

३ जयध. अ. प. ९६०. तत्थ सव्वोवसमो णाम तिण्ह कम्माणमुदयामावो । सम्मत्तदेसघादिफदयाण-मुदओ देसोवसमो ति भण्णदे । जयध. अ. प. ९६१.

सम्मत्तपढमलंभस्सणंतं पच्छदो य मिच्छत्तं ।  
 लंभस्स अपढमस्स दु भजिदव्वं पच्छदो होदि' ॥ १२ ॥  
 कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संक्मेण भजिदव्वो ।  
 एयं जस्स दु कम्मं ण य संक्रमणेण सो भज्जो' ॥ १३ ॥  
 सम्माइट्ठी सदहदि पवयणं णियमसा दु उवइट्ठं ।  
 सदहदि असव्भावं अजाणमाणो गुरुणिओगा' ॥ १४ ॥  
 मिच्छाइट्ठी णियमा उवइट्ठं पवयणं ण सदहदि ।  
 सदहदि असव्भावं उवइट्ठं वा अणुवइट्ठं' ॥ १५ ॥

अनादि मिथ्यादृष्टि, जीवके जो सम्यक्त्वका प्रथम वार लाभ होता है उसके अनन्तर पश्चात् मिथ्यात्वका उदय होता है । किन्तु सादि मिथ्यादृष्टि जीवके जो सम्यक्त्वका अप्रथम, अर्थात् दूसरी, तीसरी आदि वार लाभ होता है, उसके अनन्तर पश्चात् समयमें मिथ्यात्व भजितव्य है, अर्थात् वह कदाचित् मिथ्यादृष्टि होकर वेदक अथवा उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है और कदाचित् सम्यग्मिथ्यादृष्टि होकर वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

जिस जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति, ये तीन कर्म सत्तामें होते हैं, अथवा 'तु' शब्दसे मिथ्यात्व या सम्यक्त्वप्रकृतिके विना शेष दो कर्म सत्तामें होते हैं, वह नियमसे संक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य है, अर्थात् कदाचित् दर्शनमोहका संक्रमण करनेवाला होता है और कदाचित् नहीं भी होता है । जिस जीवके एक ही कर्म सत्तामें होता है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, अर्थात् वह नियमसे दर्शनमोहका असंक्रामक ही होता है ॥ १३ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो नियमसे श्रद्धान करता ही है, किन्तु कदाचित् अज्ञानवश सदभूत अर्थको स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे असदभूत अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है ॥ १४ ॥

मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सर्वज्ञद्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान नहीं करता है । किन्तु असर्वज्ञोंके द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भावका, अर्थात् पदार्थके विपरीत स्वरूपका, श्रद्धान करता है ॥ १५ ॥

१ जयध. अ. प. ९६१. किन्तु ' भजिदव्व ' इति अस्य स्थाने ' भजियव्वो ' इति पाठ ।

२ जयध. अ. प. ९६१. तत्र अतिमचरणे तु ' सक्रमणे सो ण भजियव्वो ' इति पाठः ।

३ जयध. अ. प. ९६१. विलोक्यतां षट्ख. १, १, १२ गाथा ११० । गो. जी. २७.

४ जयध. अ. प. ९६२ । लब्धि. १०९ । गो. जी. १८.

सम्मामिच्छाइड्डी सागारो वा तहा अणागारो ।

तह वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होदि बोद्धव्वो' ॥ १६ ॥

“ कदि भागे वा करेदि मिच्छत्तं ’ एदस्स सुत्तस्स अत्थो समत्तो ।

उवसामणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले ॥ १० ॥

एदस्स पुच्छासुत्तस्स विभासा पुव्वं परूविदा, खेत्तणियमो णत्थि त्ति । कस्स व मूले त्ति उत्ते एत्थ वि णत्थि णियमो, सच्चत्थ सम्मत्तग्गहणसंभवादो ।

दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढवेत्तो कम्मि आढवेदि, अट्टाइज्जेसु दीव-समुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्मि जिणा केवली तित्थयरा तम्मि आढवेदि' ॥ ११ ॥

दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स खवणपदेसं पुच्छिदस्स सिस्सस्स तप्पदेसपरूवणट्ठमेदं

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी होता है। किन्तु व्यंजनावग्रहमें, अर्थात् विचारपूर्वक अर्थको ग्रहण करनेकी अवस्थामें, साकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ १६ ॥

‘ मिथ्यात्वकर्मको कितने भागरूप करता है ’ इस सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ ।

दर्शनमोहकी उपशामना किन किन क्षेत्रोंमें और किसके पासमें होती है? ॥ १० ॥

इस पृच्छासूत्रकी विभाषा पहले प्ररूपण की जा चुकी है कि इस विषयमें क्षेत्रका कोई नियम नहीं है। ‘ किसके पासमें दर्शनमोहकी उपशामना होती है, ’ ऐसा कहने पर इस विषयमें भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र सम्यक्त्वका ग्रहण संभव है।

दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कहाँ-पर आरम्भ करता है? अट्टाई द्वीप समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह कर्मभूमियोंमें जहाँ जिस कालमें जिन, केवली और तीर्थकर होते हैं वहाँ उस कालमें आरम्भ करता है ॥ ११ ॥

दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेके प्रदेशको पूछनेवाले शिष्यके क्षपण-प्रदेश

--

१ जयध. अ. प. ९६२. किन्तु तत्र ‘ तह ’ स्थाने ‘ अथ ’ इति पाठ । वजणोग्गहम्मि दु विचारपूर्व-कार्यग्रहणावस्थायामित्यर्थ. व्यंजनशब्दस्यार्थविचारवाचिनो ग्रहणात् । जयध अ. प. ९६२.

२ आ-क-प्रत्यो ‘ कम्माणमेत्थ खइओ ’ इति अधिकः पाठः ।

३ दंसणमोहखवणापट्टवगो कम्मभूमिजो मणुसो । तित्थयरपायमूले केवलिसुदकेवली मूले ॥ लब्धि. १२०.

सुत्तमागयं । अड्डाइज्जेसु दीव-समुद्देसु त्ति भणिदे जंबूदीवो धादइसंडो पोक्खरद्वमिदि अड्डाइज्जा दीवा धेत्तव्वा । एदेसु चेव दीवेषु दंसणमोहणीयक्खमस्स खवणमाढवेदि त्ति, णो सेसदीवेषु । कुदो ? सेसदीवद्विदंजीवाणं तक्खवणसत्तीए अभावादो । लवण-कालो-दइसण्णिदेसु दोसु समुद्देसु दंसणमोहणीयं कम्मं खवेंति, णो सेससमुद्देसु, तत्थ सहकारि-कारणाभावा । अड्डादिज्जसद्देण समुदो क्किण्ण विसेसिदो ? ण एस दोसो ' जहासंभवं विसेसण-विसेसियभावो ' त्ति णायादो संभवाभावा अड्डाइज्जसंखाए ण समुदो विसेसिज्जेद । ण च अड्डादिज्जदीवाणं मज्जे अड्डादिज्जसमुदा अत्थि, विरोहादो । ण च अड्डाइज्ज-दीवेहिंतो वज्जसमुद्दे दंसणमोहणीयक्खवणं संभवदि, उवरि उच्चमाण—' जम्हि जिणा तित्थयरा ' त्ति विसेसणेण पडिसिद्धत्तादो । ण माणुसुत्तरगिरिपरभाए जिणा तित्थयरा अत्थि, विरोहादो । अड्डाइज्जदीव-समुद्दद्विदसच्चर्जिवेषु दंसणमोहक्खवणे पसंगे तप्पडिसे-

वतलानेके लिए यह सूत्र आया है । ' अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंमें ' ऐसा कहने पर ' जम्बूद्वीप, धातकीखंड और पुष्करार्ध, ये अढ़ाई द्वीप ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इन अढ़ाई द्वीपोंमें ही दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपणको आरम्भ करता है, शेष द्वीपोंमें नहीं । इसका कारण यह है कि शेष द्वीपोंमें स्थित जीवोंके दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेकी शक्तिका अभाव होता है । लवण और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोंमें जीव दर्शन-मोहनीय कर्मका क्षपण करते हैं, शेष समुद्रोंमें नहीं, क्योंकि, उनमें दर्शनमोहके क्षपण करनेके सहकारी कारणोंका अभाव है ।

शंका—' अढ़ाई ' इस विशेषण शब्दके द्वारा समुद्रको विशिष्ट क्यों नहीं किया ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ' यथासंभव विशेषण-विशेष्यभाव होता है ' इस न्यायके अनुसार तीसरे अर्थ समुद्रकी संभावनाका अभाव होनेसे ' अढ़ाई ' इस संख्याके द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया है । और न अढ़ाई द्वीपोंके मध्यमें अढ़ाई समुद्र है, क्योंकि, वैसा मानने पर विरोध आता है । तथा, अढ़ाई द्वीपोंसे बाहिरी समुद्रमें दर्शनमोहनीय कर्मका क्षपण संभव भी नहीं है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले ' जहां जिन, तीर्थकर संभव हैं ' इस विशेषणके द्वारा, उसका प्रतिषेध कर दिया गया है । मानुषोत्तर पर्वतके पर भागमें जिन और तीर्थकर नहीं होते हैं, क्योंकि, वहां उनका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है ।

अढ़ाई द्वीप और समुद्रोंमें स्थित सर्व जीवोंमें दर्शनमोहके क्षपणका प्रसंग

हडं पण्णारसकम्मभूमीसु त्ति भणिदे<sup>१</sup> भोगभूमीओ पडिसिद्धाओ । कम्मभूमीसु द्विदं-  
देव-मणुस-तिरिक्खाणं सव्वेसिं पि गहणं किण्ण पावेदि त्ति भणिदे ण पावेदि, कम्मभूमी-  
सुप्पण्णमणुस्साणमुवयारेण कम्मभूमिववदेसादो । तो वि तिरिक्खाणं गहणं पावेदि, तेसिं  
तत्थ वि उप्पत्तिसंभवादो ? ण, जेसिं तत्थेव उप्पत्ती, ण अण्णत्थ संभवो अत्थि, तेसिं  
चेव मणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववएसो; ण तिरिक्खाणं सयंपहपव्वदपरभागे उप्पज्जेण  
सव्वहिचाराणं । उत्तं च —

दसणमोहक्खवणापट्टवओ कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुसगदीए णिद्धवओ चाविं<sup>२</sup> सव्वत्थं ॥ १७ ॥

मणुसेसुप्पण्णा कथं समुद्देशु दंसणमोहक्खणं पट्टवेंति ? ण, विज्जादिवसेण तत्था-

प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करनेके लिए 'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें' यह पद कहा है, जिससे उक्त अड़ार्ह द्वीपोंमें स्थित भोगभूमियोंका प्रतिषेध कर दिया गया ।

शंका—'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें' ऐसा सामान्य पद कहने पर कर्मभूमियोंमें स्थित देव, मनुष्य और तिर्यच, इन सभीका ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान — नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी उपचारसे 'कर्मभूमि' यह संज्ञा की गई है ।

शंका—यदि कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंकी 'कर्मभूमि' यह संज्ञा है, तो भी तिर्यचोंका ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि, उनकी भी कर्मभूमियोंमें उत्पत्ति संभव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, जिनकी वहांपर ही उत्पत्ति होती है, और अन्यत्र उत्पत्ति संभव नहीं है, उन ही मनुष्योंके पन्द्रह कर्मभूमियोंका व्यपदेश किया गया है, न कि स्वयंप्रभ पर्वतके परभागमें उत्पन्न होनेसे व्यभिचारको प्राप्त तिर्यचोंके ।

कहा भी है—

कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही नियमसे दर्शन-मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला होता है । किन्तु उसका निष्ठापक, अर्थात् पूर्ण करनेवाला सर्वत्र अर्थात् चारों गतियोंमें होता है ॥ १७ ॥

शंका—मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीव समुद्रोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका कैसे प्रस्थापन करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, विद्या आदिके वशसे समुद्रोंमें आये हुये जीवोंके

१ प्रतिषु 'भणिद' इति पाठ ।

२ प्रतिषु 'द्विदि-' इति पाठः ।

३ प्रतिषु 'चारि' इति पाठः ।

४ जयध. अ. प ९६३.

गदाणं दंसणमोहक्खवणसंभवादो । दुस्सम-( दुस्समदुस्सम- )सुस्समासुस्समा-सुसमा-  
सुसमादुस्समाकालुप्पणमणुसाणं खवणणिवारणडुं ' जम्हि जिणा ' त्ति वयणं । जम्हि  
काले जिणा संभवन्ति तम्हि चैव खवणाए पडुवओ' होदि, ण अण्णकालेसु । देसजिणाणं  
पडिसेहडुं केवल्लिगहणं । जम्हि केवल्लणाणिणो अत्थि तत्थेव खवणा होदि, ण अण्णत्थि ।  
तित्थयरकम्मदुदयविरहिदकेवल्लिपडिसेहडुं तित्थयरगहणं । तित्थयरपादमूले दंसणमोहणीय-  
खवणं पडुवैत्ति, ण अण्णत्थेत्ति । अधत्ता जिणा त्ति उत्ते चोदसपुव्वहरा वेत्तव्वा, केवल्लि  
त्ति भणिदे केवल्लणाणिणो तित्थयरकम्मदुदयविरहिदा वेत्तव्वा, तित्थयरा त्ति उत्ते  
तित्थयरणामकम्मदुदयजणिदअट्टमहापाडिहेर-चोत्तिसदिसयसहियाणं' गहणं । एदाणं तिण्हं  
पि पादमूले दंसणमोहक्खवणं पडुवैत्ति त्ति । एत्थ जिणसदस्स आवत्तिं काळण जिणा दंसण-

दर्शनमोहका क्षपण होना संभव है ।

दुःषमा, ( दुःषमदुःषमा ), सुपमासुषमा, सुपमा और सुपमादुःषमा कालमें  
उत्पन्न हुए मनुष्योंके दर्शनमोहका क्षपण निषेध करनेके लिए ' जहां जिन होते हैं '  
यह वचन कहा है । जिस कालमें जिन संभव हैं उस ही कालमें दर्शनमोहकी क्षपणाका  
प्रस्थापक होता है, अन्य कालोंमें नहीं ।

विशेषार्थ—अधःकरणके प्रथम समयसे लेकर जब तक जीव मिथ्यात्व और  
मिश्रमोहनीय प्रकृतियोंके द्रव्यका अपवर्तन करके सम्यक्त्व प्रकृतिमें संक्रमण कराता  
है तब अन्तर्मुहूर्तकाल तक वह जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है ।

देशजिनोंका अर्थात् श्रुतकेवली, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानियोंका, प्रतिषेध  
करनेके लिए सूत्रमें 'केवली' इस पदका ग्रहण किया है । अर्थात् जिस कालमें केवलज्ञानी  
होते हैं, उसी कालमें दर्शनमोहकी क्षपणा होती है, अन्य कालोंमें नहीं । तीर्थकर नामकर्मके  
उदयसे रहित सामान्य केवलियोंके प्रतिषेधके लिए सूत्रमें ' तीर्थकर ' इस पदका ग्रहण  
किया है, अर्थात् तीर्थकरके पादमूलमें ही मनुष्य दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ  
करते हैं, अन्यत्र नहीं । अथवा ' जिन ' ऐसा कहनेपर चतुर्दश पूर्वधारियोंका ग्रहण  
करना चाहिए, 'केवली' ऐसा कहनेपर तीर्थकर नामकर्मके उदयसे रहित केवलज्ञानियोंका  
ग्रहण करना चाहिए, और ' तीर्थकर ' ऐसा कहनेपर तीर्थकर नामकर्मके उदयसे  
उत्पन्न हुए आठ महाप्रातिहार्य और चौतीस अतिशयोंसे सहित तीर्थकर केवलियोंका  
ग्रहण करना चाहिए । इन तीनोंके पादमूलमें कर्मभूमिज मनुष्य दर्शनमोहका क्षपण  
प्रारम्भ करते हैं, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए ।

यहांपर ' जिन ' शब्दकी आवृत्ति करके अर्थात् दुवारा ग्रहण करके, जिन

१ अथ प्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्य मिथ्यात्वमिश्रप्रकृत्यो- द्रव्यमपवर्त्य सम्यक्त्वप्रकृतौ सक्रम्यते यावत्ता-  
वदन्तर्मुहूर्तकाल दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापक इत्युच्यते । लब्धि. ११०. टीका.

२ प्रतिष्ठ - ' चोत्तिसदिसयहियाण ' इति पाठ. ।

मोहक्खवणं पडुवेंति त्ति वत्तव्वं, अण्णहा तइयपुढवीदो णिग्गयाणं कण्हादीणं तित्थयर-  
त्ताणुवत्तीदो त्ति केसिंचि वक्खाणं । एदेण वक्खाणाभिप्पाएण दुस्सम-अइदुस्सम-  
सुसमसुसम-सुसमकालेसुप्पणाणं चैव दंसणमोहणीयक्खवणा णत्थि, अवसेसदोसु वि  
कालेसुप्पणाणमत्थि । कुदो ? एइंदियादो आगंतूण तदियकालुप्पणवद्दणकुमारादीणं  
दंसणमोहक्खवणदंसणादो । एदं चैवेत्थ वक्खाणं पधाणं कादव्वं ।

णिट्ठवओ पुण चदुसु वि गदीसु णिट्ठवेदि' ॥ १२ ॥

कदकरणिज्जपढमसमयप्पहुडि' उवरि णिट्ठवगो उच्चदि । सो आउअवंधवसेण  
चदुसु वि गदीसु उप्पज्जिय दंसणमोहणीयक्खवणं समाणेदि, तासु तासु गदीसु उप्पत्तीए

दर्शनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए, अन्यथा तीसरी  
पृथिवीसे निकले हुए कृष्ण आदिकोंके तीर्थकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्ही  
आचार्योंका व्याख्यान है। इस व्याख्यानके अभिप्रायसे दुःपमा, अतिदुःपमा, सुषम-  
सुपमा और सुपमा कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती  
है, अवाशिष्ट दोनों कालोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शनमोहकी क्षपणा होती है। इसका  
कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर (इस अवसर्पिणीके) तीसरे कालमें उत्पन्न  
हुए वर्द्धनकुमार आदिकोंके दर्शनमोहकी क्षपणा देखी जाती है। यहांपर यह व्याख्यान  
ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ—पूर्वोक्त व्याख्यानका अभिप्राय यह है कि सामान्यतः तो जीव  
केवल उपर्युक्त दुपम-सुपम कालमें तीर्थकर, केवली या चतुर्दशपूर्वी जिन भगवान्के  
पादमूलमें ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं, किन्तु जो उसी भवमें  
तीर्थकर या जिन होनेवाले हैं वे तीर्थकरादिकी अनुपस्थितिमें तथा सुपम-दुपम  
कालमें भी दर्शनमोहका क्षपण करते हैं, उदाहरणार्थ कृष्णादि व वर्द्धनकुमार।

दर्शनमोहकी क्षपणाका निष्ठापक तो चारों ही गतियोंमें उसका निष्ठापन  
करता है ॥ १२ ॥

कृतकृत्यवेदक होनेके प्रथम समयसे लेकर ऊपरके समयमें दर्शनमोहकी क्षपणा  
करनेवाला जीव निष्ठापक कहलाता है। दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाला जीव  
कृतकृत्यवेदक होनेके पश्चात् आयु-बन्धके वशसे चारों भी गतियोंमें उत्पन्न होकर  
दर्शनमोहनीयकी क्षपणाको सम्पूर्ण करता है, क्योंकि, उन उन गतियोंमें उत्पात्तिके

१ पदख १, ५, ३ टीका.

२ णिट्ठवगो तट्ठाणे विमाणमोगावणीसु धम्मो य । क्कदकरणिज्जो चदुसु वि गदीसु उप्पज्जदे जम्हा ॥  
लब्धि. १११.

३ चरिमे फालि दिण्णे क्कदकरणिज्जेत्ति वेदगो होदि ॥ लब्धि. १४५.



कारणलेस्सापरिणामाणं तत्थ विरोहाभावा । दंसणमोहक्खवणविधी एत्थ किण्ण परूविदा ? ण, पढमसम्मत्तुप्पायणविधीदो तिण्णिक्करणादिकिरियाहि दंसणमोहक्खवणविधीए भेदाभावेण तत्तो चेव अवगमादो । तम्हा परूविदा चेव । अध क्रोइ विसेसो अत्थि सो' विक्खणादो अवगम्मदे ।

तदो दंसणमोहक्खवणगयविसेसपरूवणा कीरदे । तं जधा- तत्थ ताव दंसणमोहणीयं खवेतो पढममणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोएदि अधापवत्तापुव्व-अणियट्टिकरणाणि काऊणं । एदेसिं करणाणं लक्खणाणि जधा पढमसम्मत्तुप्पत्तीए तिण्हं करणाणं लक्खणाणि परूविदाणि तथा परूवेदव्वाणि । अधापवत्तकरणे ट्टिदिधादो अणुभागघादो गुणसेडी गुणसंक्रमो च णत्थि । केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झंतो गच्छदि जाव अधापवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति । णवरि अण्णं ट्टिदिं वंधंतो पुव्विच्छट्टिदिबंधादो पल्लिदो-

कारणभूत लेश्या-परिणामोंके वहां होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—अनिवृत्तिकरणके अन्त समयमें सम्यक्त्वमोहनीयकी अन्तिम फालिके द्रव्यको नीचेके निषेकोंमें क्षेपण करनेसे अन्तर्मुहूर्तकाल तक जीव कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होता है ।

शंका—दर्शनमोहके क्षपणकी विधि यहांपर क्यों नहीं कही ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पादन करनेवाली विधिसे तीनों करण आदि क्रियाओंके साथ दर्शनमोहकी क्षपण-विधिका कोई भेद नहीं है, इसलिए उससे ही दर्शनमोहकी क्षपण-विधिका ज्ञान हो जाता है । अत एव वह प्ररूपित की ही गई है । और जो कुछ विशेषता है वह भी व्याख्यानसे जान ली जाती है । इसलिए दर्शनमोहकी क्षपणासम्बन्धी विशेषताकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है—

दर्शनमोहनीयका क्षपण करता हुआ जीव सर्व प्रथम अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीन करणोंको करके अनन्तानुबन्धिचतुष्कका विसंयोजन करता है । इन करणोंके लक्षण जिस प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें तीनों करणोंके लक्षण कहे हैं, उसी प्रकार यहां प्ररूपण करना चाहिए । अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता है । केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अधःप्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक चला जाता है । केवल विशेषता यह है कि अन्य स्थितिको बांधता हुआ पहलेके स्थितिवन्धकी

१ प्रतिष्ठु ' सु ' इति पाठः ।

२ पुव्व तियरणविहिणा अण खु अणियट्टिकरणचरिमग्घि । उदयावलिवाहिरं टिदिं विसजो जदे णियमा ॥ लब्धि. ११२.

वमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणियं द्विदिं बंधदि । एदस्स करणस्स पढमद्विदिवंधादो चरिम-  
द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।

अपुव्वकरणपढमसमए पुव्वद्विदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेणूणो अण्णो  
द्विदिवंधो होदि । तम्हि चैव समए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तायामं सागरोवम-  
पुधत्तायामं वा आउगवज्जाणं कम्माणं ठिदिखंडयमाढवेदि । अप्पसत्थाणं कम्माणं अणु-  
भागस्स अणंताभागमेत्तमणुभागखंडयं च तत्थेव आढवेदि । तत्थेव अणंताणुबंधीणं  
गुणसंकमं पि आढवेदि । तं जधा— पढमसमए पुव्वं संकामिददव्वादो असंखेज्जगुणं  
संकामेदि । विदियसमए तत्तो असंखेज्जगुणं संकामेदि । एवं णेदव्वं जाव सव्वसंकम-  
पढमसमओ त्ति । उदयावलियवाहिरद्विदिद्विदपदेसग्गमोक्कड्डुणभागहारेण खंडिदेयखंडं  
घेत्तूण उदयावलियवाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं गलिदसेसं गुणसेडिं करोदि जाव  
अपुव्व-अणियद्वीअद्वाहितो विसेसाहियमद्वाणं गच्छदि त्ति । तदो उवरिमाणंतराए द्विदीए

---

अपेक्षा पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन स्थितिको बांधता है । इस अधःप्रवृत्तकरणके  
प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिवन्धसे अन्तिम समयमें होनेवाला स्थितिवन्ध संख्यात-  
गुणा हीन होता है ।

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें पूर्व स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन  
अन्य स्थितिवन्ध होता है । उसी समयमें आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके पल्यो-  
पमके संख्यातवें भागमात्र आयामवाले अथवा सागरोपमपृथक्त्व आयामवाले स्थिति-  
कांडकको आरम्भ करता है । तथा उसी समयमें अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त बहु-  
भागमात्र अनुभागकांडकको आरम्भ करता है । उसी समयमें अनन्तानुबन्धी  
कपायोंका गुणसंक्रमण भी आरम्भ करता है । वह इस प्रकार है— प्रथम समयमें पहले  
संक्रमण किए गये द्रव्यसे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है । दूसरे समयमें  
उससे असंख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है । इस प्रकार यह क्रम सर्वसंक्रमण  
होनेके प्रथम समय तक ले जाना चाहिए । उदयावलीसे वाहिरकी स्थितिमें स्थित  
प्रदेशाग्रको अपकर्षणभागद्वारासे खंडित कर उसमेंसे एक खंडको ग्रहणकर उदयावलीसे  
वाहिर आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंकी गलितशेष गुणश्रेणीको तब तक करता है जब  
तक कि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालोंसे विशेष अधिक काल व्यतीत होता  
है । इससे उपरिम अनन्तर-स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है । इससे

१ असुहाण पयडीण अणतमागा रसस्स खंडाणि । सुहपयडीण गियमा षन्धित्ति रसस्स खडाणि ॥  
लब्धि. ८०. २ प्रतिपु ' हि ' इति पाठ ।

३ गुणसेदीदीहत्तमपुव्वदुगादो दु साहिय होदि । गलिदवसेसे उदयावलिवाहिरदो दु णिक्खेवो ॥ लब्धि.  
५५. उक्कद्विदम्हि देदि हु असखसमयप्पवधमादिम्हि । सखातीदगुणकममसखहीण विसेसहीणकम ॥ पडिसमय उक्कद्विदि  
असंखगुणियकमेण सचदि य । इदि गुणसेदीकरण आउगवज्जाण कम्माण ॥ लब्धि. ७३-७४.

असंखेज्जगुणहीणं देदि' । उवरि सव्वत्थ विसेसहीणं चैव देदि जाव अपप्पणो अइच्छा-  
वणावलियमपत्तमिदि । एवं सव्विस्से अपुव्वकरणद्वाए गुणसेठीकरणविधी वत्तव्वा ।  
णवरि पढमसमए ओकड्ढिदपदेसेहिंतो विदियसमए असंखेज्जगुणे ओकड्ढिदि । तत्तो  
असंखेज्जगुणे तदियसमए ओकड्ढिदि । एवं णेयव्वं जाव अणियट्ठीकरणचरिमसमओ  
त्ति । पढमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो विदियसमए गुणसेठीए दिज्जमाणपदेसग्गम-  
संखेज्जगुणं । एवं णेदव्वं जाव अणियट्ठीकरणचरिमसमओ त्ति । एत्थ द्विदिवंथकालो  
द्विदिवंथकालो च एगकालिया दो वि सरिसा अंतोमुहुत्तमेत्ता, तत्थतण-  
अणुभागखंडयउत्कीरणद्वादो संखेज्जगुणा । एवं णेदव्वं जाव द्विदि-अणुभागखंडयाणं  
अपच्छिमघादो त्ति । णवरि पढमद्विदिअणुभागखंडयउत्कीरणद्वाहिंतो विदियद्विदि-अणु-  
भागखंडयउत्कीरणद्वाओ विसेसहीणाओ । एवमणंतरहेद्विमाहिंतो अणंतरउवरिमाओ सव्वत्थ  
विसेसहीणाओ । एवमणेण विहाणेण अपुव्वकरणद्वा समत्ता । एत्थ अपुव्वकरणपढम-

ऊपर सर्व स्थितियोंमें विशेष हीन ही देता है जब तक कि अपने अपने अतिस्थापनावलीको नहीं प्राप्त होता है । इस प्रकार सम्पूर्ण अपूर्वकरणके कालमें गुणश्रेणी करनेकी विधि कहना चाहिए । केवल विशेषता यह है कि प्रथम समयमें अपकर्षित प्रदेशोंसे दूसरे समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशोंका अपकर्षण करता है । उससे असंख्यातगुणित प्रदेशोंको तीसरे समयमें अपकर्षित करता है । इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । प्रथम समयमें दिए जानेवाले प्रदेशाग्रसे द्वितीय समयमें गुणश्रेणीके द्वारा दिए जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणित होता है । इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । यहांपर स्थितियन्धका काल और स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये एक साथ चलनेवाले दोनों काल, सदृश और अन्तर्मुहूर्तमात्र हैं, तो भी यहांपर होनेवाले अनुभागकांडकके उत्कीरणकालसे संख्यातगुणित हैं । इस प्रकार यह क्रम स्थितिकांडक और अनुभागकांडकके अन्तिम घात तक ले जाना चाहिए । विशेष बात यह है कि प्रथमस्थितिकांडकोत्कीरणकाल और अनुभागकांडकोत्कीरणकालोंसे द्वितीय स्थितिकांडकोत्कीरणकाल और अनुभागकांडकोत्कीरणकाल विशेष हीन होते हैं । इस प्रकार अनन्तर-अधस्तन स्थितिकांडकों और अनुभागकांडकोंके उत्कीरणकालोंसे अनन्तर-उपरिम स्थितिकांडकों और अनुभागकांडकोंके उत्कीरणकाल सर्वत्र विशेष हीन होते हैं । इस प्रकार उपर्युक्त विधानसे अपूर्वकरणका काल समाप्त हुआ । यहांपर अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति-

१ प्रतिषु ' जदि ' इति पाठ ।

२ प्रतिषु ' -समओ ' इति पाठ ।

ट्टिदिसंतादो ट्टिदिवंधादो च चरिमट्टिदिसंत-ट्टिदिवंधा संखेज्जगुणहीणा । अणुभागसंत-  
कम्मादो पुण अणुभागसंतकम्ममणंतगुणहीणं ।

अणियट्टीकरणपढमसमए अण्णो ट्टिदिवंधो, अण्णो ट्टिदिखंडओ, अण्णो अणु-  
भागखंडओ, अण्णा च गुणसेडी एकसराहेण आढत्ता । एवमणियट्टीअट्टाए संखेज्जेसु  
भागेषु गदेषु विसेसघादेण घादिज्जमाणअणंताणुबंधिचउक्कट्टिदिसंतकम्ममसण्णिट्टिदि-  
बंधसमाणं जादं । तदो ट्टिदिखंडयसहस्सेसु चदुरिंदियट्टिदिवंधसमाणं जादं । एवं  
तीइंदिय-त्रीइंदिय-एइंदियबंधसमाणं होदूण पलिदोवमपमाणं ट्टिदिसंतकम्मं जादं । तदो  
अणंताणुबंधीचदुक्कट्टिदिखंडयपमाणं वि' ट्टिदिसंतस्स संखेज्जा भागा । सेसाणं कम्माणं  
ट्टिदिखंडगो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव । एवं ट्टिदिखंडयसहस्सेसु गदेषु  
दूरावक्किट्टीसण्णिदे' ट्टिदिसंतकम्मे अवसेसे तदो प्पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे हणदि ।

सत्त्वसे और स्थितिवन्धसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व और स्थिति-  
वन्ध संख्यातगुणित हीन होते हैं । किन्तु अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अनुभाग-  
सत्त्वसे अपूर्वकरणका अन्तिम समयसम्बन्धी अनुभागसत्त्व अनन्तगुणित हीन होता है ।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिकांडक, अन्य  
अनुभागकांडक और अन्य गुणश्रेणी एक साथ आरम्भ की । इस प्रकार अनिवृत्तिकरण-  
कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर विशेष घातसे घात किया जाता हुआ अनन्तानु-  
वन्धी-चतुष्कका स्थितिसत्त्व असंखी पंचेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान हो गया । इसके  
पश्चात् सहस्रों स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर अनन्तानुवन्धी-चतुष्कका स्थितिसत्त्व  
चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके समान हो गया । इस प्रकार क्रमशः त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय  
और एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान होकर पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व हो गया ।  
तब अनन्तानुवन्धी-चतुष्कके स्थितिकांडकका प्रमाण भी स्थितिसत्त्वके संख्यात  
बहुभाग होता है, और शेष कर्मोंका स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग ही है ।  
इस प्रकार सहस्रों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होने पर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थिति-  
सत्त्वके अवशेष रहने पर वहांसे शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता है ।

विशेषार्थ — अनिवृत्तिकरणके कालमें स्थितिकाण्डकघातके द्वारा अनन्तानुवन्धी व  
दर्शनमोहनीय कर्मोंके स्थितिसत्त्वके चार पर्व या विभाग होते हैं । पहले पर्वमें पृथक्त्व  
लाख सागर, दूसरेंमें पल्यमात्र, तीसरेंमें पल्यके संख्यातसे लेकर असंख्यातवें भाग और

१ प्रतिपु ' -चदुक्कट्टिदि वि खडयपमाणं ' इति पाठ ।

२ का दूरापकृष्टिर्नामेति चेदुच्यते-पल्ये उत्कृष्टसख्यातेन भक्ते यल्लब्धं तस्मादेकैरुहान्या जघन्यपरिमिता-  
सख्यातेन भक्ते पल्ये यल्लब्धं तस्मादेकोत्तरवृद्ध्या यानन्तो विकल्पास्तावन्तो दूरापकृष्टिभेदाः । तेषु कश्चिदेव विकल्पो ।  
जिनदृष्टभावोऽस्मिन्नवसरे दूरापकृष्टिसहितो वेदितव्यः । लब्धि १२० टीका.

एवमुवरि सच्चत्थ सेसट्टिदिसंतकम्मस्स असंखेज्जभागमेत्तो चेव ट्टिदिखंडगो पददि' । तदो चरिमट्टिदिखंडयं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागायामं अंतोमुहुत्तमेत्तुक्कीरणकालेण छिंदंतो अणियट्टीकरणचरिमसमए उदयावलियवाहिरसच्चट्टिदिसंतकम्मं परसरूत्रेण संकामिय अंतोमुहुत्तकाले अदिककंते दंसणमोहणीयक्खवणं पट्टवेदि' ।

दंसणमोहणीयक्खवणपरिणामा वि अधापवत्तापुव्व-अणियट्टीभेदेण तिविहा होंति । एदेसिं लक्खणं जधा सम्मत्तुप्पत्तीए उत्तं तथा वत्तव्वं । अधापवत्तकरणे णत्थि ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी गुणसंकमो वा । केवलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झंतो अप्पसत्थपयडीणमणुभागमणंतगुणहीणं पसत्थाणमणंतगुणं ट्टिदिवंधादो अण्णं ट्टिदिवंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणयं वंधंतो गच्छदि जाव अधापवत्तकरणचरिमसमओ त्ति ।

चौथेमें उच्छिष्टावलि मात्र स्थितिसत्त्व शेष रहता है । इनमेंसे तीसरे पर्व अर्थात् संख्यातवसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग तक स्थितिसत्त्वके शेष रहनेको ही दूरापकृष्टि स्थितिसत्त्व कहते हैं ।

इस प्रकार ऊपर सर्वत्र शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यातवें भागमात्र ही स्थितिकांडकका पतन होता है । तत्पश्चात् पत्योपमके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकांडकको अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कीरणकालके द्वारा छेदन करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें उदयावलीसे वाह्य सर्व स्थितिसत्त्वको परस्वरूपसे संकमित कर अन्तर्मुहूर्तकालके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयका क्षपण प्रारम्भ करता है ।

दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेवाले परिणाम भी अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । इनका लक्षण जैसा सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें कहा है, वैसा कहना चाहिए । अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रमण नहीं होता है । केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित हीन, प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागको अनन्तगुणित और पूर्व स्थितिवन्धसे पत्योपमके संख्यातवे भागसे हीन अन्य स्थितिवन्धको बांधता हुआ अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जाता है ।

१ अणियट्टीअद्दाए अणस्स चचारि होंति पच्चाणि । सायरलक्खपुधत्त पल्ल दूरावकिट्टि उच्छिट्ट ॥ पल्लस्स संखभागो सखा मागा असखगा मागा । ठिदिखडा होंति कमे अणस्स पच्चाडु पव्वो त्ति ॥ अणियट्टी-सखेज्जामागेसु गदेसु अणगठिदिसतो । उदधिसहस्सं ततो वियले य सम तु पल्लादी ॥ लब्धि. ११३-११५.

२ अतोमुहुत्तकाल विस्समिय पुणो वि तिकरण करिय । अणियट्टीए मिच्छ मिस्स सम्म कमेण णासेइ ॥ लब्धि. ११७.

अपुव्वकरणपढमसमए जहण्णदिट्ठिसंतकम्मएण उवट्ठिदस्स ट्ठिदिखंडगं पलिदो-  
वमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण उवट्ठिदस्स सागरोवमपुधत्तमेतो ट्ठिदिखंडगो ।  
पुव्वट्ठिदिवंधादो जाओ ओसरिदाओ ट्ठिदीओ ताओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।  
अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणंता भागा अणुभागसंतकम्मस्स । गुणसेडी  
उदयावलियादो वाहिरा गल्लिदसेसा । विदियसमए एसो चैव ट्ठिदिखंडओ, सो चैव  
अणुभागखंडओ, सो चैव ट्ठिदिवंधो, गुणसेडी अण्णा । एवमंतोमुहुत्तं जाव अणुभाग-  
खंडओ पुण्णो । एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेषु अण्णं ट्ठिदिखंडयं ट्ठिदिवंधमणुभाग-  
खंडयं च पट्टवेदि । पढमट्ठिदिखंडगो बहुओ, त्रिदियट्ठिदिखंडगो विसेसहीणो, तदिय-  
ट्ठिदिखंडगो विसेसहीणो । एवं पढमादो ट्ठिदिखंडयादो अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जगुणहीणो  
त्रि ट्ठिदिखंडओ अत्थि । एदेण कमेण ट्ठिदिखंडयसहस्सेहि बहूहि गदेहि अपुव्वकरणद्वाए  
चरिमसमयम्हि चरिमाणुभागखंडयउक्कीरणकालो ट्ठिदिखंडयउक्कीरणकालो ट्ठिदिवंध-  
कालो च समगं समत्तो । चरिमसमयअपुव्वकरणे ट्ठिदिसंतकम्मं थोवं, पढमसमय-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित जीवका  
स्थितिकांडक पल्योपमका संख्यातवां भाग और उत्कृष्ट स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित  
जीवके सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडक होता है । पूर्व स्थितिवन्धसे अर्थात् अधः-  
प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र स्थितिवन्धसे  
जो स्थितियां अपसरण की गई हैं, वे पल्योपमके संख्यातवें भाग होती हैं । अप्रशस्त  
कर्मोंके अनुभागकांडकका प्रमाण अनुभागसत्त्वके अनन्त बहुभाग है । गुणश्रेणी उदया-  
वलीसे वाह्य गलितशेष प्रमाण है । अपूर्वकरणके दूसरे समयमें यह उपर्युक्त ही स्थिति-  
कांडक है, वही अनुभागकांडक है और वही स्थितिवन्ध है । किन्तु गुणश्रेणी अन्य होती  
है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक एक अनुभागकांडक पूर्ण होता है । इस क्रमसे सहस्रों  
अनुभागकांडकोंके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिकांडकों, अन्य स्थितिवन्धको और अन्य  
अनुभागकांडकोंको प्रारम्भ करता है । प्रथम स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, द्वितीय  
स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन होता है, तृतीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष  
हीन होता है । इस प्रकार प्रथम स्थितिकांडकसे संख्यातगुणित हीन भी स्थिति-  
कांडकका आयाम अपूर्वकरणके कालमें होता है । इस क्रमसे अनेकों सहस्र स्थिति-  
कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें अन्तिम अनुभागकांडकका  
उत्कीरणकाल, स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल, एक साथ  
समाप्त होता है । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्त्व अल्प है, और उसी

अपुव्वकरणे द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । द्विदिबंधो वि पढमसमयअपुव्वकरणे बहुओ,  
चरिमसमयअपुव्वकरणे संखेज्जगुणहीणो ।

अणियट्टीकरणं पविट्टपढमसमए अपुव्वो द्विदिखंडगो, अपुव्वो अणुभाग-  
खंडगो अपुव्वो द्विदिबंधो, तहा चैव गुणसेडी । अणियट्टीकरणस्स पढमसमए दंसण-  
मोहणीयं अप्पसत्थुवसामणाए' अणुवसंतं; सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुव-  
संताणि च ।

अणियट्टीकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयद्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्स-  
पुधत्तमंतोकोडीए, सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोडीए  
जादं । तदो द्विदिखंडयसहस्सेहि अणियट्टीअट्टाए संखेज्जेसु भागेषु गदेषु दंसण-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । स्थितिवत्त्व भी अपूर्वकरणके  
प्रथम समयमें बहुत है, और उससे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणित हीन है ।

अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयका अपूर्व स्थितिकांडक  
होता है, अपूर्व अनुभागकांडक होता है, और अपूर्व स्थितिवन्ध होता है, किन्तु गुणश्रेणी  
उसी प्रकारकी रहती है । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीय कर्म अप्रशस्तोप-  
शामनाके अर्थात् देशोपशामनाके द्वारा अनुपशान्त रहता है । शेष कर्म उपशान्त भी  
रहते हैं और अनुपशान्त भी रहते हैं ।

विशेषार्थ— कितने ही कर्मपरमाणुओंका वाह्य और अन्तरंग कारणके वशसे  
और कितने ही कर्मपरमाणुओंका उदीरणाके वशसे उदयमें नहीं आनेको अप्रशस्तोप-  
शामना कहते हैं । इसीका दूसरा नाम देशोपशामना भी है । दर्शनमोहसम्बन्धी यह  
अप्रशस्तोपशामना अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक वरावर चली आ रही थी । किन्तु  
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें ही यह नष्ट हो जाती है । किन्तु शेष कर्मोंकी  
अप्रशस्तोपशामना यथासंभव होती भी है और नहीं भी होती है, उसके लिए कोई  
एकान्त नियम नहीं है ।

अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व सागरोपम-  
लक्षपृथक्त्व, अर्थात् अन्तःकोटी तथा शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व सागरोपमकोटिलक्ष-  
पृथक्त्व, अर्थात् अन्तःकोड़ाकोड़ी हो जाता है । इसके पश्चात् सहस्रों स्थितिकांडकोंके  
द्वारा अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका

१ कर्मपरमाणु वृद्धतरंगकारणवशेण केतियाण पि उदीरणावशेण उदयाणागमणपट्टण्णा अप्पसत्थ-  
उवसामणा ति मण्णदे । जयध. अ. प. ९७०. देशोपशमनायाः X X X द्वे नामधेये । तद्यथा अणुपोपशमनाऽ-  
प्रशस्तोपशमना च । कर्म प्र पृ. २५५.

२ अणियट्टिकरणपढमे दंसणमोहरस सेसाणा ठिदी । सायरलक्खपुधत्तं कोडीलक्खगपुधत्तं च ॥  
लब्धि. ११८.

मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं असण्णिद्विदिवंधेण सरिसं जादं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण चउरिंदियद्विदिवंधेण समगं जादं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण द्विदिसंतकम्मं तीइंदियद्विदिवंधेण सरिसं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्विदिसंतकम्मं बीइंदियद्विदिवंधेण समगं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्विदिसंतकम्मं एइंदियद्विदिवंधेण समगं होदि । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहणीयद्विदिसंतकम्मं पलिदोवमद्विदिगं जादं<sup>१</sup> । जाव पलिदोवमद्विदिगं संतकम्मं ताव पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागो ठिदिखंडगो । पुणो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । तम्हि ठिदिखंडगे णिद्विदे तत्तो पहुडि सेसद्विदिसंतकम्मस्स संखेज्जे भागे आगाएदि । एवं द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागे द्विदिसंतकम्मे सेसे सेसस्स संखेज्जेसु भागेसु हदेसु<sup>२</sup> पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागम्मि अवट्टाणजोगे दूरावकिट्टिणाम<sup>३</sup> द्विदी

स्थितिसत्त्व असंज्ञी जीवोंके स्थितिवन्धके सदृश हो गया । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश हो गया । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व त्रीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व द्वीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक पल्योपमकी स्थितिवाला हो गया । जब तक दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व एक पल्योपमकी स्थितिवाला रहता है, तब तक स्थितिकांडकका प्रमाण पल्योपमका संख्यातवां भाग है । इसके पश्चात् पल्योपमके संख्यात बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है । उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उससे आगे शेष स्थितिसत्त्वके संख्यात बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है । इस प्रकार सदृशों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर और पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर तथा उस शेष भागके भी संख्यात बहु भाग विनष्ट हो जाने पर पल्योपमके असंख्यातवें भागमें अवस्थान योग्य दूरापकृष्टि नामकी स्थिति होती है । तत्पश्चात् शेष बचे हुए स्थितिसत्त्वके असंख्यात

१ अमणद्विदिसत्तादो पुधत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य । ठिदिखडये हवति हु चउतिविण्यवखपल्लठिदां ॥  
लब्धि. ११९.

२ क प्रतौ ' गदेसु ' इति पाठः ।

३ का दूरावकिट्टी णाम<sup>२</sup> वुच्चदे-जत्तो द्विदिसंतकम्मावसेसादो सखेज्जे भागे घेतूण ठिदिखंडए घादिज्जमाणे घादिदसेस णियमा पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागपमाणं होदूण चिद्वदि त सव्वपच्छिम पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागपमाण द्विदिसंतकम्म दूरावकिट्टि चि मण्णदे । किं कारणमेदस्स द्विदिविसेसस्स दूरावकिट्टिसण्णा जादा चि चे



होदि' । तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि । एत्तो पडुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे चैव आगाएदि जाव सम्मत्तद्धिदिसंतकम्मं संखेज्जदिवाससहस्समेत्तं ण पत्तं ति ।

एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगेसुं द्विदिखंडएसु गदेसु तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणा । तदो बहुमु द्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तमात्रलिय-वाहिरं सव्वमागाइदं' । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं मोत्तूण असंखेज्जा भागा आगाइदा । तम्हि द्विदिखंडए णिद्धिज्जमाणे णिद्धिदे मिच्छत्तस्स जहण्णगो दिद्धिसंकमो । जदि गुणिदकम्मंसिओ' तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, अण्णहा

वहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है । इससे आगे दर्शनमोहनीयकर्मके शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंको ही तब उक्त स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है जब तक कि सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं प्राप्त होता है ।

इस प्रकार पल्योपमके असंख्यातवें भागवाले स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उसके पश्चात् सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवद्धांकी उदीरणा प्रारम्भ होती है । पुनः बहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानेपर उदयावलीसे वाहिर स्थित सर्व मिथ्यात्वको घात करनेके लिए ग्रहण किया । तथा, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व-प्रकृति, इन दोनोंके पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभाग ग्रहण किए । समाप्त होने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है । यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है । उसी

पलिदोवमद्धिदिमतकम्मादो सडु दूरयरमोसारिय सव्वजहणपलिदोवमसंखेज्जमागपत्त्वेणावट्टाणादो । पल्योपमास्थिति-कर्मणोऽवस्ताद्दूरतरमपकृष्टत्वादतिकुशलाच्च दूरापकृष्टिरेपा स्थितिरित्युक्तं भवति । अथवा दूरतरमपकृष्टा तस्याः स्थितिकांडकमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रभृत्यमस्येयान् मागान् गृहीत्वा स्थितिकांडकप्रातमाचरतीत्यतो दूरापकृष्टिरिति यावत् । जयध. अ. प ९७१.

१ पल्लद्धिदो उवरिं संखेज्जसहस्समेत्तठिदिखडे । दूरावकिट्टिमण्णिदठिदिसत्तं होदि णियमेण ॥ लघ्वि. १२०

२ अ-आप्रत्यो ' भागिदेसु ', कप्रतौ ' भगेदेसु ' इति पाठ ।

३ पल्लस्स संखभागं तस्स पमाणं तदो असंखेज्ज । भागपमाणे खडे सखेज्जसहस्सगेसु तीदेसु ॥ सम्मस्स असंखण समयपवद्धानुदीरणा होदि । तत्तो उवरिं तु पुणो बहुखडे मिच्छत्तच्छिट्ठ ॥ जत्थ असंखेज्जाण समय-पवद्धानुदीरणा तत्तो । पल्लासंखेज्जदिमो हारेणासखलोगमिदो ॥ लघ्वि १२१-१२३.

४ जो वायरतसकालेणूण कम्मट्ठिईं तु पुदवीए । वायर ( रि ) पञ्जत्तापञ्जत्तगदीहेयरद्धासु ॥ ७४ ॥ जोगत्तसाठकीसो बहुमो निच्चमवि आउवध च । जोगजहण्णेणुवरिद्धिदिहणिसेग बहु किच्चा ॥ ७५ ॥ वायरतसेसु

अणुक्कस्सओ । ताधे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कसयं पदेससंतकम्मं होदि । जदि गुणिद-  
खविदघोलमाणो' खविदकम्मंसिओ' वा तो अणुक्कस्सं । तदो आवलियाए दुसमज्जाए

समय उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है । यदि वह जीव  
गुणित-क्षपित-घोटमान अथवा क्षपित-कर्माशिक है, तो उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व  
होता है ।

विशेषार्थ—जो जीव अनेक भवोंमें उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोंका बन्ध  
करता रहा है उसे गुणितकर्माशिक कहते हैं । जो जीव उत्कृष्ट योगों सहित वादर  
पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त भवोंसे लेकर पूर्वकोटिगृथक्त्वसे अधिक दो  
हजार सागरोपमप्रमाण वादर त्रसकायमे परिभ्रमण करके जितने वार सातवी पृथिवीमें  
जाने योग्य होता है उतनी वार जाकर पश्चात् सप्तम पृथिवीमें नारक पर्यायिको धारण  
कर व शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट योगस्थानो व उत्कृष्ट कपायो सहित होता  
हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संचय करता है और अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुके शेष रहनेपर  
त्रिचरम और द्विचरम समयमें वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संकेशस्थानको तथा चरम और  
द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायिके  
अन्तिम समयमें संपूर्ण गुणितकर्माशिक होता है ।

जो जीव पत्यके असंख्यातवें भागसे हीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण  
काल तक सूक्ष्म निगोद पर्यायमे रहा और भव्य जीवके योग्य जघन्य कर्मप्रदेशसंचयपूर्वक  
सूक्ष्म निगोदसे निकलकर वादर पृथिवीकायिक हुआ और अन्तर्मुहूर्त कालमें निकलकर  
तथा सात माहमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पूर्वकोटि आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न, और  
विरतियोग्य त्रसोंमें हुआ तथा आठ वर्षमें संयमको प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्यायु  
पूर्ण कर पुनः देव, वादर पृथिवीकायिक व मनुष्योंमें अनेक वार उत्पन्न होता हुआ पत्यो-  
पमके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यान वार सरयक्त्व, उससे स्वल्पकालिक देश-

तकालमेव मंते य सत्तमखिईए । सच्चलहुं पञ्जतो जोगस्सायाहिओ वहुमो ॥ ७६ ॥ जोगजत्रमञ्जुवरिं सुहुत्त-  
मच्छित्तु जीवियवसणे । तिचरिमदुचरिममए पुरित्तु कसायउकस्स ॥ ७७ ॥ जोगकोस चरिम-दुचरिमे समए य  
चरिमसमयम्मि । संपुण्णगुणियकम्मो पगय तेणेह म'मित्ते ॥ ७८ ॥ सछोभणाए दोण्ह मोहाण वेयगस्स  
खणसेसे । उप्पाइय सम्मत्त भिच्छतगए तगतमाए ॥ ८२ ॥ कर्म प्र पत्र १८७-१८९

१ तानि परिणामयोगस्थानानि सर्वाण्यपि घोटमानयोगा एव स्युः, हानिवृद्धयवस्थानरूपेण परिणमनात् ।  
गो क २२'. टीका

२ पद्धासखियभागोणकम्मद्विइमच्छिओ निगोएए । सुहुमेस (स) भवियजोग जहण्णय कट्टु निगम्म ॥ ९४ ॥  
जोगेस (सु) सखवार सम्मत्त लभिय देसत्रिय च । अट्टुक्खुतो निरई सजोयणहा य तइयारे ॥ ९५ ॥ चउरुवसमित्तु  
मोह लहु खंवतो भवे खविद्यकम्मो ॥ ९६ ॥ हस्सगुणसकमद्वाए पूरयित्वा समीससम्मत्त । विरसमत्ता भिच्छत्त-  
ग्यस्सुव्वलणथोगो सिं ॥ १०० ॥ कर्म प्र प. १९४-१९६.

गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं । मिच्छत्ते पढमसमयसंकेते सम्मत्त सम्मा-  
मिच्छत्ताणं असंखेज्जा भागा सेसस्स आगाइदा । एवं संखेज्जेहि द्विदिखंडएहि गदेहि  
सम्मामिच्छत्तमावलियवाहिरसव्वमागाइदं । ताधे सम्मत्तमिह अट्ठवस्साणि मोत्तूण  
सव्वमागाइदं । संखेज्जाणि वाससहस्साणि मोत्तूण आगाइदमिदि भणंता वि अत्थि ।

एदमिह द्विदिखंडए णिद्विदे ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णओ द्विदिसंकमो ।  
जदि गुणिदकम्मंसिओ तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंत-  
कम्मं । एत्तो पाए अंतोमुहुत्तिओ द्विदिखंडगो । अपुच्चकरणस्स पढमसमयदो जाव

विरति, आठ वार विरतिको प्राप्त कर व आठ ही वार अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन व  
चार वार मोहनीयका उपशम कर शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता है, वह उत्कृष्ट क्षपित-  
कर्माशिक होता है ।

जो जीव उपर्युक्त प्रकारसे न गुणितकर्माशिक है और न क्षपितकर्माशिक है,  
किन्तु अनवस्थित रूपसे कर्मसंचय करता है वह गुणित-क्षपित-बोलामान है ।

प्रस्तुत प्रसंगमें आचार्य कहते हैं कि मोहनीयकी क्षपणाके क्रममें जब जीव  
मिथ्यात्वका स्थितिसंक्रमण करता है उस समय यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है  
तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण करता है, और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट सत्ता भी उसीके  
होती है । अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता भी  
अनुत्कृष्ट होती है ।

इसके पश्चात् दो समय कम आवलीप्रमाण मिथ्यात्वके समयप्रवद्धोके नष्ट होने-  
पर मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिसत्त्व होता है । सर्वसंक्रमणके द्वारा मिथ्यात्वके  
संक्रमण करनेपर प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन दोनों कर्मोंके घात  
करनेसे शेष बचे सत्त्वके असंख्यात बहुभागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण किया । इस प्रकार  
संख्यात स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उदयावलीसे बाह्य सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व  
सत्त्वको ग्रहण किया । उसी समय सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वमे आठ वर्षोंको छोड़कर शेष सर्व  
स्थितिसत्त्वको ग्रहण किया । सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वमे 'संख्यात हजार वर्षोंको छोड़कर  
शेष समस्त स्थितिसत्त्वको ग्रहण किया' इस प्रकारसे कहनेवाले भी कितने ही आचार्य  
हैं । अर्थात् कितने ही आचार्योंके मतसे उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ  
वर्ष नहीं, किन्तु संख्यात हजार वर्ष रहता है ।

इस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य  
स्थितिसंक्रमण होता है । यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश-  
संक्रमण होता है । ( अन्यथा अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है । ) उसी समय  
सम्यक्त्वप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है । यहांसे लेकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाणवाला  
स्थितिकांडक होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भाग-

चरिमट्टिदिखंडओ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगो त्ति एदम्हि काले जं पदेसग्गं ओकड्डुमाणो उदयावलियवाहिरसव्वरहस्सट्टिदीए देदि तं थोवं । समउत्तराए ट्टिदीए जं पदेसग्गं देदि तमसंखेज्जगुणं । दुसमउत्तराए ट्टिदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो गुणसेडीसीसयादो उवरिमाणंतराए ट्टिदीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं देदि । त्तो उवरि सव्वत्थ विसेसहीणं चैव देदि । जावे' अट्टवासियट्टिदिसंतकम्मं चेट्टिदं तदोप्पहुडि उवरि अंतोमुहुत्तिगं ट्टिदिखंडय-मागाएदि । सम्मत्तअणुभागस्स उदयावलयियपविसमाणअणुभागस्स उदयावलयियाहिर-अणुभागस्स य अणुसमयओवट्टणमणंतगुणहीणाए सेडीए करेदि । पलिदोवमस्स असंखे-ज्जदिभागियं चरिमट्टिदिखंडयचरिमफालिपदेसग्गमट्टवस्सम्मि णिक्खिवमाणो उदयादि-अवट्टिदगुणसेडिं करेदि" । तं जहा—

वाले अन्तिम स्थितिकांडक तक इस कालमें जिस प्रदेशाग्रका अपकर्षण करता हुआ उदयावलीसे वाहिरी और सबसे ह्रस्व स्थितिमें देता है, वह अल्प है। इससे एक समय अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशाग्रको देता है वह असंख्यातगुणित है। इससे दो समय अधिक स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। इस प्रकार गुणश्रेणीशीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। तत्पश्चात् गुणश्रेणीशीर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणितहीन प्रदेशाग्रको देता है। इससे ऊपर सर्वत्र, अर्थात् शेष समस्त स्थितियोंमें, विशेषहीन विशेषहीन ही प्रदेशाग्रको देता है। जिस समय सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण किया गया, उस समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाणवाले स्थितिकांडकको ग्रहण करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिसम्बन्धी उदयावलीमें प्रविश्यमान अनुभागकी और उदयावलीसे बाह्य अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना अनन्तगुणित हीन श्रेणीके द्वारा करता है। पल्योपमके असंख्यातवै भागवाले अन्तिम स्थितिकांडककी अन्तिम फालिके प्रदेशाग्रको सम्यक्त्वप्रकृतिके आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वके ऊपर निक्षिप्त करता हुआ उदयादिअवस्थित गुणश्रेणीको करता है। वह इस प्रकार है—

समये पट्टासखेज्जभागगे खडे । चरिमे पडिदे चेट्टुदि सम्मस्सडवस्सठिदिसंतो ॥ मिच्छस्स चरमफालिं भिस्से मिस्सस्स चरिमफालिं तु । सट्टुहदि हु सम्मचे ताहे तोसिं च वरदअ ॥ जदि होदि गुणिदकम्मो दव्वमणुक्कस्समण्णाहा तोसिं । अवरठिदी मिच्छडुगे उच्छिट्टे समयदुगसेमे ॥ लब्धि. १२४-१२७.

१ क-प्रतौ 'जावे' इति पाठः ।

२ आ-प्रतौ 'सम्मत्तमणुभागस्स' इति पाठ ।

३ अ-कप्रत्यो 'उदय-उदयावलयिय' इति पाठ ।

४ अ-कप्रत्यो '-आवट्टिदगुणसेडि' इति पाठः ।

५ मिस्सदुगचरिमफाली ऋचूणद्विवडुसमयपवट्टपमा । गुणमेदिं करिय तदो असखभागेण पुच्च व ॥ सेस

विसेसहीण अडवस्सुवरिमठिदीए सखुद्धे । चरिमाउलिं व सरिसी रयणा सजायदे एत्तो ॥ अडवस्सादो उवरिं उदयादि-अवट्टिद च गुणसेडी । अतोमुहुत्तिय ठिदिखड च य होदि समस्स ॥ विदियावलिस्स पदमे पदमस्संते च आदि-मणिसेये । तिट्टाणेणतगुणेगूणकमोवट्टण चरमे ॥ लब्धि. १२८-१३१.

उदए थोवं पदेसग्गं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडी-  
सीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवरिमाणंतरद्विदीए वि असंखेज्जगुणं देदि । तदो  
विसेसहीणं देदि । पुणो अणेण विधिणा सेसअड्डवस्समेत्तद्विदिसंतकम्ममि विसेसहीणं चव  
देदि । पुव्विच्छगोउच्छदव्वादो द्विदिं षडि संपडि दिज्जमाणदव्वमसंखेज्जगुणं । विदिय-  
समए उदयावलियवाहिरद्विदीसु द्विदपदेसग्गमोकड्डणभागहारेण खंडिदेयखंडं वेत्तणुदये  
थोवं देदि । उवरिमद्विदीए असंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव  
असंखेज्जगुणं चव देदि । तदो उवरिमाणंतराए द्विदीए असंखेज्जगुणं देदि । पुणो  
उवरि सव्वत्थ विसेसहीणं चव देदि । संपदि पुव्विच्छगुणसेडीसीसयादो संपदिगुणसेडि-  
सीसयदव्वमसंखेज्जगुणं होदि । विसेसाहियं चव दिस्समाणं होदि । कुदो ? विदिय-

उदयमें अर्थात् वर्तमान समयमें उदय आनेवाले निपेकमें, अल्प प्रदेशाग्रको देता  
है। उससे अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। इस प्रकार गुण-  
श्रेणीके शीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। इससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें  
भी असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। तत्पश्चात् विशेष हीन देता है। पुनः इसी  
विधिसे शेष आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वमे विशेष हीन ही देता है। पहलेके गोपुच्छरूप  
द्रव्यसे स्थितिके प्रति इस समय दिया जानेवाला द्रव्य (पूर्व द्रव्यकी अपेक्षा)  
अनन्तगुणित हीन होता है। द्वितीय समयमें उदयावलीसे वाहिरकी स्थितियोंमें स्थित  
प्रदेशाग्रको अपकर्षणभागहारसे खंडित कर उसमेंसे एक खंडको ग्रहण कर उदयमें  
अल्प प्रदेशाग्रको देता है, उससे ऊपरकी स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता  
है। इस प्रकार गुणश्रेणीके शीर्ष तक असंख्यातगुणित ही प्रदेशाग्रको देता है। उससे  
ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। पुनः उसके ऊपर सर्वत्र  
विशेषहीन ही प्रदेशाग्रको देता है। अब पहलेके गुणश्रेणीशीर्षसे साम्प्रतिक गुणश्रेणीके  
शीर्षका द्रव्य असंख्यातगुणित होता है। दृश्यमान द्रव्य विशेष अधिक ही होता है,

१ आ-प्रतौ 'सखेज्जगुणे' इति पाठ ।

२ आ कप्रसौः 'जदि', अप्रतौ 'देदि जदि' इति पाठः ।

३ अबवस्से उवरिमि वि दुचरिमखवस्स चरिमफालि ति । सखातीदगुणक्कम विसेसहीणक्कम देदि ॥  
अबवस्से सपहिय पुव्विच्छादो अमखमगुणिय । उवरिं पुण सपहिय अमखमख च भाग तु ॥ ठिदिखडाणुक्कीरण  
दुचरिमसमओ ति चरिमसमये च । उक्कद्विदफालीगददव्वाणि णिसिंचदे जम्हा ॥ अबवस्से सपहिय गुणसेडीसीसय  
असखगुण । पुव्विच्छादो णियमा उवरि विसेसाहिय दिस्स ॥ लब्धि १३१-१३५

४ दिज्जमाणमिदि भणिदे सव्वत्थ तक्कालमोक्कट्टियूण णिसिंचमाणदव्व घेत्तव्व । दीसमाणमिदि भणिदे  
चिराणसतम्मणेण सह सव्वदव्वसमूहो घेत्तव्वो । जयध अ प. ९७६. सर्वत्र तत्कालापत्कृष्टद्रव्यपुदयप्रथमसमया-  
त्प्रभृति निक्षिप्यमाण दीयमान, तेन सहित सर्वसत्त्वद्रव्यं दृश्यमानमिति राद्धान्तवचनात् । लब्धि १३३ टीका

समयओकड्ढिदद्वस्स अट्टवस्सेगड्ढिदिणिसित्तस्स अट्टवस्सेगड्ढिदिद्वं णिसेगभागहारेण खंडिदेगखंडमेत्तगोउच्छविसेसादो असंखेज्जगुणस्स अट्टवस्सेगड्ढिदिपदेसगं पेक्खिऊण असंखेज्जगुणहीणत्तादो । एस कमो जाव पढमड्ढिदिखंडयदुचरिमफालि त्ति ।

पुणो चरिमफालीए पदेसग्गे गुणसेडीआगारेण ड्ढिदे वि पुण्विछ्छगुणसेडीसीसय-पदेसग्गादो संपधियगुणसेडीसीसए दिस्समाणपदेसगं त्रिसेसाहियं' चेव, चरिमफालि-दव्वादो अट्टवस्सेगड्ढिदिपदेसग्गस्स संखेज्जदिभागमेत्तपदेसाणमागमदंसणादो' । एवं णेयव्वं जाव दुचरिमड्ढिदिखंडगो त्ति ।

सम्मत्तस्स चरिमड्ढिदिखंडगे णिड्ढिदे-जाओ ड्ढिदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ ताओ ड्ढिदीओ थोवाओ । दुचरिमड्ढिदिखंडयं संखेज्जगुणं । चरिमड्ढिदिखंडयं संखेज्जगुणं । सम्मत्तचरिमड्ढिदिमागाएंतो गुणसेडीए संखेज्जे भागे आगाएदि, अण्णाओ च उवरि संखेज्जगुणाओ ड्ढिदीओ । सम्मत्तस्स चरिमड्ढिदिखंडगे पढमसमयआगाइदे ओवड्ढिय-

क्योकि, आठ वर्षरूप एक स्थितिद्रव्यको निपेकभागहारसे खंडित कर एक खंडमात्र गोपुच्छविशेषसे असंख्यातगुणित तथा दूसरे समयमें अपकर्षण किया गया और आठ वर्षप्रमाण एक स्थितिनिपेक द्रव्य, आठ वर्षरूप एक स्थितिके प्रदेशाग्रको देखकर, अर्थात् उसकी अपेक्षा, असंख्यातगुणित हीन होता है। यह क्रम प्रथम स्थितिकांडककी द्विचरमफाली तक ले जाना चाहिए।

पुनः अन्तिम फालीके प्रदेशाग्रको गुणश्रेणीके आकारसे स्थापित करनेपर भी पहलेकी गुणश्रेणीके शीर्षसम्बन्धी प्रदेशाग्रसे इस समय गुणश्रेणीके दृश्यमान प्रदेशाग्र विशेष अधिक ही है, क्योकि, अन्तिम फालीके द्रव्यसे आठ वर्षरूप एक स्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रके संख्यातवें भागमात्र प्रदेशोंका आना देखा जाता है। इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थितिकांडक तक ले जाना चाहिए।

सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर जो स्थितियां सम्यक्त्व-प्रकृतिकी शेष वर्ची हैं, वे स्थितियां अल्प हैं। उनसे द्विचरम स्थितिकांडक संख्यात-गुणित है। उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तिम स्थितिको ग्रहण करता हुआ गुणश्रेणीके संख्यात भागोंको ग्रहण करता है, तथा इसके ऊपर संख्यातगुणित अन्य भी स्थितियोंको ग्रहण करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकांडकके प्रथम समयमें ग्रहण करनेपर अपवर्तन की गई स्थितियोंमेंसे जो

१ प्रतिपु ' विमोहिय ' इति पाठ ।

२ अट्टवसे य ठिदीदो चरिमेदरफालिपड्ढिदद्व खु । संखासखगुण तेषुवरिमदिस्समाणमहिय सीसे ॥  
लुधि. १३६.

माणसु' द्विदीसु जं पदेसग्गमुदए दिज्जदि तं थोवं, से काले असंखेज्जगुणं । ताव असंखेज्जगुणं जाव द्विदिखंडयस्स जहणियाए वि द्विदीए चरिमसमयं अपत्तं ति' । सा चेव द्विदी गुणसेडीसीसयं जादा' । जं संपहि गुणसेडीसीसयं ततो उवरिमाणंतराए द्विदीए असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं जाव हेट्ठा ण गुणसेडीसीसयं ताव । तदो उवरिमाणंतराए द्विदीए असंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं । एवं सेसासु वि द्विदीसु विसेसहीणं दिज्जदि । जं विदियसमए उक्कीरदि पदेसग्गं तं पि एदेणेव क्रमेण दिज्जदि । एवं ताव जाव द्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्वाए दुचरिमसमओ ति । द्विदिखंडयस्स चरिमसमए ओकड्डमाणो उदए पदेसग्गं थोवं, से काले असंखेज्जगुणं । एवं जाव गुणसेडीसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । गुणगारा वि दुचरिमाए द्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए द्विदीए पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गंमूलाणि । चरिमे द्विदिखंडए णिद्विदे कदकरणिज्जो

प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता है वह अल्प है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस क्रमसे तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है जब तक कि स्थितिकांडककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है । वह स्थिति ही गुणश्रेणीशीर्ष कहलाती है । जो इस समय गुणश्रेणीशीर्ष है, उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है । इसके पश्चात् विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है जब तक नीचे गुणश्रेणीशीर्ष नहीं प्राप्त होता है । उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय समयमें जिस प्रदेशाग्रको उत्कीर्ण करता है, उसे भी इस ही क्रमसे देता है । इस प्रकार यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थितिकांडकके उत्कीर्ण कालका द्विचरम समय प्राप्त होता है । स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्रव्यमेंसे उदयमें अल्प प्रदेशाग्रको देता है और अनन्तर कालमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार जब तक गुणश्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है, तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है । द्विचरम स्थितिके प्रदेशाग्रसे चरम स्थितिके प्रदेशाग्रके गुणकार भी पल्योपमके असंख्यात वर्गमूल हैं । अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर 'कृत-

१ अ-क्रप्रयो ' ओवद्विज्जमाणसु ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्यो. ' अप्पत्तात्ति ' इति पाठः ।

३ तत्काले दिस्स वज्जिय गुणमेडिसीसय एक्क । उवरिमिठिदीसु वट्टदि विसेसहीणकक्रमेणेन ॥ गुणसेडिसंखमागा ततो सखगुण उवरिमिठिदीओ । सम्मत्तचरिमखडो दुचरिमखडोदु सखगुणो ॥ सम्मत्तचरिमखडे दुचरिमफाले ति तिणिण पव्वाओ । सपहियपुव्वगुणसेडीसीसे सीसे य चग्गिमिहि ॥ लब्धि. १३८-१४०.

४ तत्थ असंखेज्जगुण असंखगुणहीणय विसेसूण । सखातीदगुणूणं विसेसहीणं च दत्तिकमो ॥ उक्कद्विद-  
बहुभागे पदमे सेसेक्कमागवहुभागे । विदिए पव्वे वि सेसिगंभाग तदिये जहो देदि ॥ उदयादिगल्लिदसेसा चरिमे

त्ति भण्णदि । कदकरणिज्जकालमंतरे तस्स मरणं पि होज्ज, काउ-तेउ-पम्म-सुक्क-लेस्साणमण्णदराए लेस्साए वि परिणामेज्ज, संकिलिस्सदु वा विसुज्झदु वा, तो वि असंखेज्जगुणाए सेडीए जाव समयाहियावलिया सेसा ताव असंखेज्जाणं समयपवद्धान-मुदीरणा, उक्कस्सिया वि उदीरणा उदयस्स असंखेज्जदिभागो' ।

पढमसमयअपुव्वकरणमार्दि कादूण जाव पढमसमयकदकरणिज्जो त्ति एदम्हि अंतरे अणुभागखंडय-ट्टिदिखंडयउक्कीरणद्धानं जहण्णुक्कस्सट्टिदिखंड-ट्टिदिसंतकम्माण-मण्णेसि च पदाणमप्पावहुगं वत्तइस्सामो' । तं जहा- सव्वत्थोवा जहण्णिया अणुभाग-खंडयउक्कीरणद्दा । सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया । ट्टिदिखंडयउक्कीरणद्दा ट्टिदि-बंधगद्दा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ताओ उक्कस्सियाओ दो

कृत्यवेदक' कहलाता है । कृतकृत्यवेदककालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, पद्म और शुक्र, इन लेख्याओंमेंसे किसी एक लेख्याके द्वारा भी परिणमित हो, संक्लेशको प्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी असंख्यातगुणित श्रेणीके द्वारा जब तक एक समय अधिक आवलीकाल शेष रहता है तब तक असंख्यात समयप्रवर्द्धोंकी उदीरणा होती रहती है । उत्कृष्ट भी उदीरणा उदयके असंख्यातवें भाग होती है ।

अब, प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणको आदि करके जब तक प्रथमसमयवर्ती कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि है, तब तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक और स्थितिकांडकके उत्कीरणकालोंके, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकांडक तथा स्थितिसत्त्वोंके एवं अन्य भी पदोंके अल्पवहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— जघन्य अनुभागकांडकका उत्कीरण-काल सबसे कम है । इससे चही उत्कृष्ट, अर्थात् उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरण-काल, विशेष अधिक है । इससे जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जघन्य स्थितिवन्धकाल, ये दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए संख्यातगुणित हैं । इनसे इन

खडे हवेज्ज गुणमेदी । फाडेदि चरिमफालिं अणियट्ठीकरणचरिमम्हि ॥ चरिम फालिं देदि हु पढमे पव्वे असख-गुणियकमा । अत्तिमसमयम्हि पुणो पट्ठासखेज्जमूलाणि ॥ लघि. १४१-१४४.

१ चरिमे फालिं दिण्णे कदकरणिज्जेत्ति वेदगो होदि । सो वा मरण पावह चउगहगमण च तट्ठाणे ॥ देवेसु देवमणुए सुरणरतिरिए चउग्गईसु पि । कदकरणिज्जोप्पत्ती कमेण अतोमुहुत्तेण ॥ करणपदमादु जाव य किदकिच्चु-वरिं मुहुत्तज्जतो नि । ण सुहाण परावत्ती सा धि कओदावर तु वरिं ॥ अणुममओवट्ठणयं कदकिज्जतो त्ति पुव्व-किरियादो । वट्ठदि उदीरण वा अमसमयप्पद्धान ॥ उदयवहिं उक्कट्टिय असखगुणमुदयभावलिम्हि खिवे । सर्वां विसेसहीण ऋदकिज्जो जाव अइथवण ॥ जदि सक्किलिस्सजुत्तो विसुद्धिसहिदो व तो वि पडिसमय । दव्वमसखेज्जगुण उक्कट्टि णथि गुणसेदी ॥ जदि वि असखेज्जाण समयपवद्धानुदीरणा तोवि ! उदयगुणसेदिठिदिए असखमागो हु पडिसमय ॥ लघि. १४५-१५१.

२ त्रिदियकरणादिमादो कदकरणिज्जस्स पढमसमओ त्ति । वोच्च रसखउक्कीरणकालादीणमप्पवहु ॥ लघि. १५२.



वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ' । कदकरणिज्जस्स अद्वा संखेज्जगुणा । सम्मत्तखवणद्वा संखेज्जगुणा । अणियट्ठीअद्वा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा । गुणसेडी-  
णिकखेवो विसेसाहियो' । सम्मत्तस्स दुचरिमट्ठिदिखंडओ संखेज्जगुणो । तस्सेव चरिम-  
ट्ठिदिखंडओ संखेज्जगुणो । अट्ठवस्सट्ठिदिसंतकम्मे सेसे जो' पढमो ट्ठिदिखंडगो सो'  
संखेज्जगुणो । जहणिया आवाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाधा संखेज्जगुणा ।  
अणुभागमणुसमयं ओहट्ठमाणस्स पढमसमए अट्ठवासट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं' ।  
सम्मत्तस्स चरिमट्ठिदिखंडओ असंखेज्जवस्सिसओ असंखेज्जगुणो । सम्मामिच्छत्तस्स  
चरिमट्ठिदिखंडओ विसेसाहियो । अट्ठवस्समेत्तेण मिच्छत्ते खविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं  
पढमट्ठिदिखंडओ असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं

दोनोंके उत्कृष्ट काल दोनों ही परस्पर तुल्य होते हुए विशेष अधिक हैं । इससे कृतकृत्य-  
वेदकका काल संख्यातगुणित है । इससे सम्यक्त्वप्रकृतिके क्षपणका काल संख्यात-  
गुणित है । इससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है । इससे अपूर्वकरणका काल  
संख्यातगुणित है । इससे गुणश्रेणीनिक्षेप विशेष अधिक है । इससे सम्यक्त्वप्रकृतिका  
द्विचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । इससे उसका ही अन्तिम स्थितिकांडक  
संख्यातगुणित है । इससे सम्यक्त्वप्रकृतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्वके शेष रहनेपर  
जो प्रथम स्थितिकांडक है वह संख्यातगुणित है । इससे जघन्य आवाधा संख्यात-  
गुणित है । इससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणित है । इससे अनुभागको प्रति समय  
अपवर्तन करनेवाले जीवके प्रथम समयमें आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित  
है । इससे सम्यक्त्वप्रकृतिका असंख्यातवर्षवाला अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यात-  
गुणित है । इससे सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है ।  
इससे आठ वर्षमात्रसे मिथ्यात्वके क्षपण करनेपर सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व-  
प्रकृति, इन दोनोंका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है । इससे मिथ्यात्वप्रकृतिकी  
सत्तावाले जीवके सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति, इन दोनोंका अन्तिम

१ रसठिदिखंडुकीरणअद्वा अवर वर च अवरवर । सच्चत्योव अहिय सखेज्जगुणं विसेसहियं ॥ लब्धि. १५३.

२ कदकरणसम्मखवणणियट्ठिअपुव्वइसखगुणिकम । ततो गुणसेदिसि य णिकखेओ साहियो होदि ॥  
लब्धि. १५४.

३ प्रतिष्ठु ' दो ' इति पाठ. ।

४ क-प्रतौ ' सो चेव ' इति पाठ. ।

५ सम्मट्ठुचरिमे चरिमे अट्ठवस्सस्सादिमे च ठिदिखडा । अवरवरावाहावि य अट्ठवस्स सखगुणियकमा ॥  
लब्धि. १५५.

चरिमट्टिदिखंडओ असंखेज्जगुणो<sup>१</sup> । मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडओ विसेसाहियो<sup>२</sup> । हेट्ठिमपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिसंतकम्मेण असंखेज्जगुणहाणिखंडयाणं पढमट्टिदिखंडओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणो । संखेज्जगुणहाणि-खंडयाणं चरिमट्टिदिखंडओ संखेज्जगुणो<sup>३</sup> । पलिदोवमसंतकम्मादो विदियो ठिदिखंडओ संखेज्जगुणो । जम्हिह ट्टिदिखंडए अवगए दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेत्तट्टिदिसंतकम्मं होदि सो ट्टिदिखंडओ संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणे पढमो जहण्णओ ट्टिदिखंडगो संखेज्जगुणो<sup>४</sup> । पलिदोवममेत्ते ट्टिदिसंतकम्मे जादे तदो पढमो ट्टिदिखंडओ संखेज्जगुणो । पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मं विसेसाहियं<sup>५</sup> । अपुव्वकरणे पढमस्स उक्कस्सट्टिदिखंडयस्स विसेसो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स अणियट्टीपढमसमए पविट्ठस्स ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्ज-

स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकृतिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है। इससे अधस्तन पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्वसे असंख्यात गुणहानिकांडकवाले मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन कर्मोंका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा है। इससे संख्यात गुणहानि कांडकवाले इन्हीं तीनों कर्मोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपमप्रमाण स्थिति-सत्त्वकी अपेक्षा इन्हीं तीनों कर्मोंका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे जिस स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयकर्मका पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व होता है, वह स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे अपूर्वकरणमें होनेवाला प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपममात्र स्थितिसत्त्वके होनेपर तत्पश्चात् होनेवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है। इससे अपूर्वकरणमें होनेवाले प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडकका विशेष संख्यातगुणित है। इससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके दर्शन-

१ मिच्छे खविदे सम्मद्दुगाण ताण च मिच्छमत हि । पढमतिमठिदिखडा असखगुणिदा हु इट्ठाणे ॥  
लब्धि. १५६.

२ मिच्छंतिमठिदिखडो पल्लासखेज्जभागमेत्तेण । हेट्ठिमठिदिप्पमाणेण्णमहियो होदि गियमेण ॥  
लब्धि. १५७.

३ दूरावकिट्टिपढम ठिदिखंड सखसगुण तिण्णं । दूरावकिट्टिहेदू ठिदिखंड सखसगुणियं ॥ लब्धि. १५८.

४ पलिदोवमसतादो विदियो पल्लस्स हेदुगो जो इ । अवरो अपुव्वपढमे ठिदिखडो सखगुणिदकमा ॥  
लब्धि. १५९.

५ पलिदोवमसंतादो पढमो ठिदिखंडओ इ सखगुणो । पलिदोवमठिदिसत होदि विसेसाहिय ततो ॥  
लब्धि. १६०.

शुणं । दंसणमोहणीयवज्जाणं' कम्माणं जहण्णओ द्विदिवंधो 'संखेज्जगुणो । तेसिं चैव उक्कस्सओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयवज्जाणं जहण्णद्विदिवंधो कम्मं संखेज्जगुणं । तेसिं चैवुक्कस्सद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं' ।

सम्मत्तं पडिवज्जंतो तदो सत्तकम्माणमंतोकोडाकोडिं ठवेदि  
णाणावरणीयं दंसणावरणीयं वेदणीयं मोहणीयं णामं गोदं अंतराइयं  
चेदि ॥ १३ ॥

सम्मत्तुप्पत्तीए परूविज्जमाणाए सत्तण्हं कम्माणं द्विदिवंधो द्विदिसंतकम्माणं पमाणं पुच्चं चैव परूविदं तदो तमेत्थ ण वत्तव्वं, पुणरुत्तदोसप्पसंगादो ? ण एस दोसो, सम्मत्तं पडिवज्जंतस्स द्विदिवंधो-द्विदिसंतकम्माणं पुच्चं परूविदपमाणं संभालिय चारित्तं पडिवज्जंतस्स द्विदिवंधो-द्विदिसंतकम्माणं पमाणपरूवणट्टमेदस्स परूवणादो । तदो इदि

मोहनीयकर्मका स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीय कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है।

उस सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन सात कर्मोंकी अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है ॥ १३ ॥

शंका—सम्यक्त्वोत्पत्तिकी प्ररूपणा करते समय सातों कर्मोंके स्थितिवन्धो और स्थितिसत्त्वोंका प्रमाण पहले ही प्ररूपण कर दिया गया है, इसलिये उसे यहांपर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके कर्मोंके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वका पूर्वप्ररूपित प्रमाण स्मरण कराकर चारित्रको प्राप्त करनेवाले जीवके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वका प्रमाण प्ररूपण करनेके लिए पुनः इसका प्ररूपण किया गया है।

१ प्रतिष्ठ ' -मोहणीय वज्जाण ' इति पाठ ।

२ विदियकरणस्स पदमे ठिदिखडविसेसय तु तदियस्स । करणस्स पदमसमये दंसणमोहस्स ठिदिसत्त ॥ दंसणमोहणाण वधो सतो य अवर वरगो य । सत्तेये शुणियरुमा तेत्तीसा एत्थ पदमखा ॥ लुब्धि. १६१-१६२.

३ प्रतिष्ठ ' सत्त- ' इति पाठ ।

उत्ते सव्वविसुद्धमिच्छाइट्ठिणा द्विदिवंधोसरण-द्विदिवंधयघादेहि घादिय द्दुवेदिद्विदिसंत-  
कम्माणं गहणं । तदो तत्तो एदेसिं सत्तण्हं कम्माणमंतोकोडाकोडिं संखेज्जगुणहीणं  
द्दुवेदि उप्पादेदि त्ति उत्तं होदि । एत्थ संखेज्जगुणहीणत्तं सुत्ते असंतं कुदो लब्भदे ?  
अज्झाहारादो । मिच्छाइट्ठिदिवंधं द्विदिसंतं च अपुव्व-अणियट्ठीकरणेहि घादिय  
संखेज्जगुणहीणं कादूण पढमसम्मत्तं पडिवज्जदि त्ति एदेण जाणाविदं । एत्थतणद्विदि-  
वंधादो द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं, विसोहिणा संतादो द्विदिवंधस्स भूओ घादोवदेसा ।

चारित्तं पडिवज्जंतो तदो सत्तकम्माणमंतोकोडाकोडिं द्विदिं  
द्दुवेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं वेदणीयं णामं गोदं अंतराइयं  
चेदि ॥ १४ ॥

सूत्रमें 'तदो' यह पद कहनेपर सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा स्थिति-  
बन्धापसरण और स्थितिकांडकघातसे घातकर स्थापित कर्मोंके स्थितिसत्त्वका ग्रहण  
करना चाहिए। उससे, अर्थात् सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा स्थापित स्थिति-  
सत्त्वसे, संख्यातगुणित हीन अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण इन सूत्रोक्त सात कर्मोंका स्थिति-  
सत्त्व स्थापित करता है, अर्थात् उत्पन्न करता है, यह अर्थ कहा गया है।

शंका—यहां सूत्रमें अविद्यमान संख्यात गुणहीनका भाव कहाँसे लब्ध  
होता है ?

समाधान—सूत्रमें अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहारसे उपलब्ध होता है।

मिथ्यादृष्टिके स्थितिवन्धको और स्थितिसत्त्वको अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण  
परिणामोंके द्वारा घात करके संख्यातगुणित हीन कर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त  
होता है, यह बात इस सूत्र-पदसे ज्ञापित की गई है। यहांपर होनेवाले स्थितिवन्धसे  
यहांपर होनेवाला स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित होता है, क्योंकि, विशुद्धिके द्वारा सत्त्वकी  
अपेक्षा स्थितिवन्धके बहुत घातका उपदेश पाया जाता है।

उस प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थिति-  
बन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रको प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दर्शना-  
वरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन सात कर्मोंकी अन्तः-  
कोडाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है ॥ १४ ॥

१ ' होदि । एत्थ.....असत ' इति पाठः प्रतिषु नास्ति । म-प्रतौ ' होदि । एत्थ संखेज्जगुणहीणं  
त्त सुत्तं असंत ' इति पाठ ।

तं चारित्तं दुविहं देसचारित्तं सयलचारित्तं चेदि । तत्थ देसचारित्तं पडिवज्ज-  
माणा मिच्छाइड्ढिणो दुविहा होंति वेदगसम्मत्तेण सहिदसंजमासंजमाभिमुहा उवसम-  
सम्मत्तेण सहिदसंजमासंजमाभिमुहा चेदि । संजमं पडिवज्जंता वि एवं चेव दुविहा  
होंति । एदेसु संजमासंजमं पडिवज्जमाणचरिमसमयमिच्छाइड्ढी तदो पढमसम्मत्ताभि-  
मुहं चरिमसमयमिच्छाइड्ढिवंधादो दिड्ढिसंतकम्मादो च सत्तण्हं कम्माणं अंतोकोडाकोडिं ड्ढिदिं  
ठवेदि । एदस्स भावत्थो— पढमसम्मत्ताभिमुहचरिमसमयमिच्छाइड्ढिड्ढिदिवंधादो ( ड्ढिदि-  
संतकम्मादो च ) संजमासंजमाभिमुहचरिमसमयमिच्छाइड्ढिड्ढिदि -(बंध-ड्ढिदि-) संतकम्मं  
संखेज्जगुणहीणं । कुदो ? पढमसम्मत्ततिकरणपरिणामेहिंतो अणंतगुणेहि पढमसम्मत्ताणु-  
विद्धसंजमासंजमपाओग्गतिकरणपरिणामेहिं पत्तघादत्तादो । वेदगसम्मत्तं संजमासंजमं च

वह चारित्र दो प्रकारका है—देशचारित्र और सकलचारित्र । उनमें देश-  
चारित्रको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव दो प्रकारके होते हैं—वेदकसम्यक्त्वसे सहित  
संयमासंयमके अभिमुख और उपशमसम्यक्त्वसे सहित संयमासंयमके अभिमुख । इसी  
प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव भी दो प्रकारके होते हैं । इनमें संयमा-  
संयमको प्राप्त होनेवाला चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि, उससे, अर्थात् प्रथमोपशम-  
सम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वकी  
अपेक्षा आयुकर्मको छोड़कर शेष सातों कर्मोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको  
स्थापित करता है । इस उपर्युक्त कथनका भावार्थ यह है—प्रथमोपशमसम्यक्त्वके  
अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थितिवन्धसे ( और स्थितिसत्त्वसे ) संयमासंयमके  
अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिका ( स्थितिवन्ध और ) स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित  
हीन होता है, क्योंकि, प्रथमोपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले तीनों करण-परिणामोंकी  
अपेक्षा अनन्तगुणित ऐसे प्रथमोपशमसम्यक्त्वसे संयुक्त संयमासंयमके योग्य तीनों  
करण-परिणामोंसे यह स्थितिघात प्राप्त हुआ है । वेदकसम्यक्त्वको और संयमासंयमको

१ दुविहा चरित्तलद्धी देसे सयले य देसचारित्त । मिच्छे अयदो सयलं ते वि य देसो य लच्चेइ ॥  
लब्धि. १६६.

२ आ-कप्रत्योः ' -चाभिमुहा ' इति पाठः ।

३ अंतोपुहुत्तकाले देसवदी होहिदि ति मिच्छे हु । सोसरणो सुव्वत्तो करणेहिं करेदि सगजोण ॥  
लब्धि. १६७.

४ सजमामंजममतोपुहुत्तेण लमिहिदि ति तदो प्पुहुडि सच्चो जीवो आउगवज्जाणं कम्माणं ड्ढिदिवंध-  
ड्ढिदिमतम्म च अंतोकोडाकोडीए करेदि ।.....एदस्स सुत्तस्सत्थो बुच्चदे— वेदगपाओग्गामिच्छाइड्ढी ताव संजमा-  
संजमं पडिवज्जमाणो पुव्वमेव अतोपुहुत्तमत्थि ति सत्थाणपाओग्गाए त्रिसोहीए पडिसमयमणतगुणाए त्रिसुद्धमाणो  
आउगवज्जाण सच्चोमिं कम्माणं ड्ढिदिवंध-ड्ढिदिसत्तकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । जयध अ प. ९८५.

जुगवं पडिवज्जंतस्स दो चेव करणाणि, तत्थ अणियट्ठीकरणस्स अभावादो । एदस्स अपुव्वकरणचरिमसमए वट्टमाणमिच्छाइट्ठिस्स ट्ठिदिसंतकम्मं पढमसम्मत्तोभिमुहअणियट्ठीकरणचरिमसमयट्ठिदमिच्छाइट्ठिदिसंतकम्मादो कधं संखेज्जगुणहीणं ? ण, ट्ठिदिसंतमोवट्ठियं<sup>१</sup> काऊण संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स संजमासंजमचरिममिच्छाइट्ठिस्स तदविरोधादो । तत्थतणअणियट्ठीकरणट्ठिदिघादादो वि एत्थतणअपुव्वकरणट्ठिदिघादस्स बहुवयरत्तादो वा । ण चेदमपुव्वकरणं पढमसमत्ताभिमुहमिच्छाइट्ठिअपुव्वकरणेण तुल्लं, सम्मत्तसंजमसंजमासंजमफलणं<sup>२</sup> तुल्लत्तविरोहा । ण चापुव्वकरणाणि सव्वअणियट्ठीकरणेहिंतो अणंतगुणहीणाणि त्ति वोत्तुं जुत्तं, तप्पदुप्पायणसुत्ताभावा । एदस्स पक्खस्स कुदो सिद्धी ? ' तदो अंतोकोडाकोडिट्ठिदिं<sup>३</sup> इवेदि ' त्ति सुत्तादो । ण चेदं पढमसम्मत्तसहिद-

युगपत् प्राप्त होनेवाले जीवके दो ही करण होते हैं, क्योंकि, वहांपर अनिवृत्तिकरण नहीं होता है ।

शंका—अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें वर्तमान इस उपर्युक्त मिथ्यादृष्टि जीवका स्थितिसत्त्व, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थित मिथ्यादृष्टिके स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणित हीन कैसे है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, स्थितिसत्त्वका अपवर्तन करके संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले संयमासंयमके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके संख्यातगुणित हीन स्थितिसत्त्वके होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा वहांके, अर्थात् प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थितिघातकी अपेक्षा यहांके, अर्थात् संयमासंयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके, अपूर्वकरणसे होनेवाला स्थितिघात बहुत अधिक होता है। तथा, यह अपूर्वकरण, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके अपूर्वकरणके साथ समान नहीं है, क्योंकि, सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयमरूप फलवाले विभिन्न परिणामोंके समानता होनेका विरोध है। तथा, सर्व अपूर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे अनन्तगुणित हीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, इस वातके प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है।

शंका—इस उपर्युक्त पक्षकी सिद्धि कैसे होती है ?

समाधान—' इस प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रको प्राप्त होनेवाला जीव अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है ' इस सूत्रसे उपर्युक्त ' संख्यातगुणित हीन स्थितिको स्थापित करता है, ' इस पक्षकी सिद्धि होती है।

१ मिच्छो देमचरित्त वेदगसम्भेण गेण्हमाणो हु । इकरणचरिमे गेण्हदि गुणसेटी णत्थि तक्करणे ॥  
क. १६९.

२ कप्रतो ' पढममयसम्मत्ता ' इति पाठ । ३ प्रतिषु ' ट्ठिदिसंतवट्ठिय ' इति पाठः ।

४ अ-ऋत्तोः ' सम्मत्तसजमासजमासजमफलण ' इति पाठः ।

देससंजममहिक्किच्च परूविदं, देससंजममेत्तस्स एत्थ अहियारादो । संजमासंजमं पडि-  
वज्जमाणस्स चरिमसमयमिच्छाइट्ठिस्स ट्ठिदिवंधादो सगट्ठिदिसंतकम्मं पेक्खिदूण  
संखेज्जगुणहीणादो संजमाभिमुहमिच्छाइट्ठिचरिमसमयट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं ।  
कुदो ? संजमासंजमफलअपुव्वकरणघादादो संजमफलअपुव्वकरणघादस्स अइवहुत्तादो ।  
संजमासंजमं पडिवज्जमाणमिच्छादिट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठीणं ट्ठिदिसंतकम्मं अपुव्वकरण-  
चरिमसमए समाणं हि होदि, समाणपरिणामेहि पत्तघादत्तादो । एवं संजमं पडिवज्ज-  
माणमिच्छाइट्ठि-असंजदसम्मादिट्ठि-संजदासंजदाणं पि वत्तव्वं ।

एदं देसामासियसुत्तं । कुदो ? एगदेसपदुप्पायणेण एत्थतणसयलत्थस्स  
सूचयत्तादो । तेणेत्थ ताव्व संजमासंजम पडिवज्जमाणविहाणं उच्चदे । तं जहा-  
पढमसम्मत्तं संजमासंजमं च अक्केमेण पडिवज्जमाणो वि तिण्णि वि करणाणि  
कुणदिं । तेसिं करणाणं लक्खणाणि जथा सम्मत्तुप्पत्तीए परूविदाणि तथा  
परूवेदव्वाणि । असंजदसम्मादिट्ठी अट्ठावीससंतकम्मियवेदगसम्मत्तपाओग्गमिच्छादिट्ठी

तथा यह वात प्रथमोपशमसम्यक्त्वसे सहित देशसंयमको अधिकृत करके  
नहीं कहीं गई है, क्योंकि, यहांपर देशसंयममात्रका अधिकार है । संयमासंयमको प्राप्त  
होनेवाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके अपने स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा संख्यातगुणित  
हीन स्थितिवन्धसे संयमके अभिमुख मिथ्यादृष्टिका अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व  
संख्यातगुणित हीन होता है, क्योंकि, संयमासंयमरूप फलवाले अपूर्वकरणके घातसे  
संयमरूप फलवाला अपूर्वकरणका घात बहुत अधिक होता है । संयमासंयमको प्राप्त  
होनेवाले मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्थितिसत्त्व अपूर्वकरणके अन्तिम  
समयमें समान ही होता है, क्योंकि, उक्त दोनों जीवोंके स्थितिसत्त्वका घात समान  
परिणामोंके द्वारा प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि,  
असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयतोंके स्थितिसत्त्वकी समानता भी कहना चाहिए ।

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, एक देशके प्रतिपादन द्वारा यहांपर संभव  
सकल अर्थोंका सूचक है । इसलिए यहांपर पहले संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवका  
विधान कहते हैं । वह इस प्रकार है—प्रथमोपशमसम्यक्त्वको और संयमासंयमको एक  
साथ प्राप्त होनेवाला जीव भी तीनों ही करणोंको करता है । उन करणोंके लक्षण जिस  
प्रकार सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें प्ररूपित किये हैं, उसी प्रकार यहांपर भी प्ररूपित करना  
चाहिए । असंयतसम्यग्दृष्टि अथवा मोहनीयकर्मकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला

१ प्रतिषु ' अतोकोडिं ठवेदि ' इति पाठः ।

२ मिच्छो देसचरित्त उव्वसमसम्भेण गिण्हमाणो हु । सम्मत्तुप्पत्तिं वा तिकरणचरिमहिं गेण्हदि इ ॥  
लन्धि. १६८.

वा जदि संजमासंजमं पडिवज्जदि तो दो चैव करणाणि, अणियट्ठीकरणस्स अभावादो । संजमासंजममंतोमुहुत्तेण लभिहिदि त्ति तदो पहुडि सच्चो जीवो आयुगवज्जाणं कम्माणं द्विदिवंधं द्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च चउट्टाणियं करेदि । असुहकम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च वेट्टाणियं करेदि । तदो अधापवत्तकरणणामाए अणंतगुणाए विसो-हीए विसुज्झदि । एत्थ णत्थि द्विदिखंडओ वा अणुभागखंडओ वा गुणसेडी वा । केवलं द्विदिवंधे पुण्णे पल्लिदोवमस्स सखेज्जदिभागहीणेण द्विदिवंधेण द्विदीओ बंधदि । जे सुहकम्मंसा ते अणुभागेहि अणंतगुणेहि बंधदि । जे असुहकम्मंसा ते अणंतगुणहीणेहि अणुभागेहि बंधदि' ।

विसोहीए तिच्च-मंदत्तं वत्तइस्सामो- अधापवत्तकरणस्स जदो पहुडि विसुद्धो तस्स पढमसमए जहणिया विसोही थोवा । विदियसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । तदियसमए जहणिया विसोही अणंतगुणा । एवमंतोमुहुत्तं जहणिया चैव विसोही अणंतगुणेण गच्छदि । तदो पढमसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । सेसअधापवत्त-

वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो उसके दो ही करण होते हैं। क्योंकि, उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। संयमासंयमको अन्तर्मुहूर्तकालसे प्राप्त करेगा, इस कारण वहांसे लेकर सर्व जीव आयुकर्मको छोड़कर शेष सातों कर्मोंके स्थितिवन्धको और स्थितिसत्त्वको अन्तःकोडाकोडीके प्रमाण करते हैं। शुभ कर्मोंके अनुभागवन्धको और अनुभागसत्त्वको चतुःस्थानीय करते हैं। तथा अशुभ कर्मोंके अनुभागवन्धको और अनुभागसत्त्वको द्विस्थानीय करते हैं। तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तनामा अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता है। यहांपर न स्थितिकांडकघात होता है, न अनुभागकांडकघात होता है और न गुणश्रेणी होती है। केवल स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवै भागसे हीन स्थितिवन्धके द्वारा स्थितियोंको बांधता है। जो शुभ कर्म-प्रकृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित अनुभागोंके साथ बांधता है। जो अशुभ कर्म-प्रकृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित हीन अनुभागोंके साथ बांधता है।

अब इसी जीवके विशुद्धिकी तीव्र-मन्दता कहते हैं—अधःप्रवृत्तकरणके जिस समयसे विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। इससे द्वितीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इससे तृतीय समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त तक जघन्य विशुद्धि ही अनन्तगुणितक्रमसे जाती है। तत्पश्चात् प्रथम समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित होती है। शेष अधः-

१ ठिदिसघादो णत्थि हु अधापवत्ताभिधानदेसस्स । पडिउट्टदे मुहुत्त संतेण हि तस्स करणदुगा ॥ देसे समए समए सुज्झतो संकिलिस्समाणो य । चउवट्टिहाणिदन्वादवट्टिदि कुणदि गुणसेदि ॥ लघि. १७३-१७४.



विसोहीणं जघ्ना दंसणमोहुवसांमगअधापवत्तकरणे विसोहीणमप्पावहुगं कयं, तथा चेव एत्थ वि कायव्वं । अपुव्वकरणविसोहीणं पि तथा चेव कायव्वं । अपुव्वकरणस्स पढम-समए जहण्णओ द्विदिसंखंडओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सगो द्विदिसंखंडओ सागरोवमपुधत्तं । अणुभागखंडगो असुहाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा । सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णत्थि । एत्थ पदेसग्गस्स गुणसेठीणिज्जरा वि णत्थि । कुदो ? जच्चंतरीभूदअपुव्वपरिणामादो । द्विदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिसंखंडयउक्कीरणकालो द्विदिवंधकालो च अण्णो अणुभागखंडयउक्कीरणकालो च समगं समप्पंति । तदो अण्णं द्विदिसंखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागियं अण्णं द्विदिवंधं अण्णमणुभागखंडयं च पट्टवेदि । एवं द्विदिसंखंडय-सहस्सेसु गदेसु अपुव्वकरणद्धा समत्ता होदि ।

तदो से काले पढमसमयसंजदासंजदो । तावे अपुव्वं द्विदिसंखंडयं अपुव्वमणु-भागखंडयं अपुव्वं द्विदिवंधं च पट्टवेदि । असंखेज्जसमयपवद्धे ओक्कड्डिदूण गुणसेठि-मुदयावलियवाहिरे रचेदि । से काले सो चेव ( ठिदिसंखंडओ, सो चेव ) अणुभाग-

प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अल्पबहुत्व जिस प्रकारसे दर्शनमोहके उपशम करने-वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमें किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए । उसी प्रकार अपूर्वकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकांडक पल्योपमका असंख्यातवां भाग है और उत्कृष्ट स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्त्व है । अनुभागकांडक अशुभ कर्मोंके अनुभागका अनन्त बहुभाग है । शुभ कर्मोंका अनुभागघात नहीं होता है । यहांपर प्रदेशाग्रकी गुणश्रेणी-निर्जरा भी नहीं होती है, क्योंकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात् भिन्न जातीय, अपूर्व-करण परिणाम होते हैं । यहांपर स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवै भागसे हीन होता है । सहस्रों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल, तथा अन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं । तत्पश्चात् पल्योपमके संख्यातवै भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य स्थितिवन्ध और अन्य अनुभागकांडकको आरम्भ करता है । इस प्रकार सहस्रों स्थिति-कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है ।

तत्पश्चात् अनन्तर कालमें वह प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत हो जाता है । उस समय वह अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिवन्धको आरम्भ करता है । असंख्यात समयप्रवद्धोंका अपकर्षण कर उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणीको रचता है । उसके अनन्तरकालमें वही पूर्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, वही ) अनुभाग-

खंडओ, सो चैव द्विदिवंधो । गुणसेडी असंखेज्जगुणा । गुणसेडीणिकखेवो तत्तिओ चैव, संजदासंजदम्मि अवट्टिदगुणसेडीणिकखेवं मुच्चा अण्णस्सासंभवादो । एवं जाव एगंताणु-वट्टिकालचरिमसमओ त्ति अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झंतो समए समए असंखेज्ज-गुणमसंखेज्जगुणं दव्वमोक्कड्डिदूण अवट्टिदगुणसेडिं करेदि । एवं द्विदिखंडएसु बहुएसु गदेसु तदो अधापवत्तसंजदासंजदो होदि' । अधापवत्तसंजदासंजदस्स अणुभागघादो द्विदिघादो वा णत्थि । जदि संजमासंजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो संतो पुणरवि अंतोमुहुत्तेण परिणामपच्चएण आणीदो संजमासंजमं पडिवज्जदि, दोण्हं करणाणम-भावादो तत्थ णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो वा । कुदो ? पुच्चं दोहि करणेहि घादिद-द्विदि-अणुभागणं वड्डीहि विणा संजमासंजमस्स पुणरागदत्तादो । जाव संजदासंजदो ताव समए समए गुणसेडिं करेदि । विसुज्झंतो असंखेज्जगुणं ( संखेज्जगुणं वा ) संखेज्जभागुत्तरं असंखेज्जभागुत्तरं वा दव्वमोक्कड्डिय अवट्टिदगुणसेडिं करेदि । संकिले-संतो एवं चैव गुणहोणं विसेसहीणं वा गुणसेडिं करेदि ।

कांडक होता है और वही स्थितिवन्ध होता है । केवल गुणश्रेणी असंख्यातगुणित होती है । गुणश्रेणीनिक्षेप भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमें अवस्थित गुणश्रेणी-निक्षेपको छोड़कर अन्यका होना असंभव है । इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तिम समय तक अनन्तगुणित विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता हुआ समय समयमें असंख्यात-गुणित असंख्यातगुणित द्रव्यका अपकर्षण करके अवस्थित गुणश्रेणीको करता है ।

विशेषार्थ—संयतासंयत होनेके प्रथम समयसे लेकर जो प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती है उसे एकान्तवृद्धि कहते हैं । इस एकान्तवृद्धिका काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है ।

इस प्रकार बहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर तब यह जीव अधःप्रवृत्त-संयतासंयत होता है । अधःप्रवृत्तसंयतासंयतके अनुभागघात अथवा स्थितिघात नहीं होता है । यदि परिणामोंके योगसे संयमासंयमसे निकला हुआ, अर्थात् गिरा हुआ, फिर भी अन्तर्मुहूर्तके द्वारा परिणामोंके योगसे लाया हुआ संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो अधःकरण ओर अपूर्वकरण, इन दोनों करणोंका अभाव होनेसे वहांपर न स्थिति-घात होता है और न अनुभागघात होता है, क्योंकि, पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थिति और अनुभागोंकी वृद्धिके विना वह संयमासंयमको पुनः प्राप्त हुआ है । जब तक वह संयतासंयत है, तब तक समय समयमें गुणश्रेणीको करता है । विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असंख्यातगुणित, ( संख्यातगुणित ), संख्यात भाग अथवा असंख्यात भाग अधिक द्रव्यको अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीको करता है । संक्लेशको प्राप्त होता हुआ वह इस ही प्रकार असंख्यातगुण हीन, संख्यातगुण हीन अथवा विशेष हीन गुणश्रेणीको करता है ।

संपहि अपुव्वकरणादो जाव संजदासंजदो<sup>१</sup> एगंताणुवट्टीए चरित्ताचरित्तलट्टीए वट्टुदि ताव एदम्मि काले ट्टिदिवंध-ट्टिदिसंतकम्म-ट्टिदिखंडयाणं जहण्णुक्कस्सियाणमा-  
वाहाणं जहण्णुक्कस्सियाणमुक्कीरणट्टाणं अण्णेसिं च पदाणं अप्पावहुगं वत्तइस्सामो<sup>२</sup> ।  
तं जधा- सव्वत्थोवा एगंताणुवट्टीए चरिमाणुभागखंडयउक्कीरणट्टा । अपुव्वकरण-  
पटमाणुभागखंडयउक्कीरणट्टा विसेसाहिया । एगंताणुवट्टीए चरिमट्टिदिखंडयउक्कीरणट्टा  
ट्टिदिवंधगट्टा च दो वि तुल्लाओ<sup>३</sup> संखेज्जगुणाओ । अपुव्वकरणपटमट्टिदिखंडयउक्की-  
रणट्टा ट्टिदिवंधगट्टा च दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । पटमसमयंसंजदासंजदप्पहुडि  
एगंतवट्टावट्टीए<sup>४</sup> चरित्ताचरित्तपज्जाएहि वट्टुदि ताव एसो वट्टिकालो संखेज्जगुणो ।  
अपुव्वकरणट्टा संखेज्जगुणा<sup>५</sup> । जहण्णिया संजमासंजमट्टा सम्मत्तट्टा मिच्छत्तट्टा

अव अपूर्वकरणसे लेकर जब तक संयतासंयत एकान्तानुवृद्धिके द्वारा संयमा-  
संयमलब्धिसे बढ़ता है तब तक इस मध्यवर्ती कालमें स्थितिवन्ध, स्थितिसत्त्व, स्थिति-  
कांडक, जघन्य और उत्कृष्ट आवाधाएं तथा जघन्य और उत्कृष्ट उत्कीरणकाल, इन  
पदोंका, तथा अन्य पदोंका अल्पवहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिके  
अन्तमें संभव अन्तिम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा है। उससे अपूर्व-  
करणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है। उससे एकान्तानु-  
वृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल,  
ये दोनों परस्पर तुल्य और संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम स्थिति-  
कांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष  
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे लेकर जब तक एकान्तवृद्धावृद्धिसे,  
अर्थात् उत्तरोत्तर प्रतिसमय अनन्तगुणित श्रेणीक्रमसे, संयमासंयमरूप पर्यायोंसे बढ़ता  
है तब तक यह एकान्तानुवृद्धिका काल संख्यातगुणा है। उससे अपूर्वकरणका काल  
संख्यातगुणा है। उससे जघन्य संयमासंयमका काल, जघन्य सम्यक्त्वप्रकृतिके

१ प्रतिपु 'सजदो' इति पाठ ।

२ विदियकरणाद् जाव य देससेयतवट्टिचरिमे ति । अप्पावहुग वोच्च सखडट्टाणपहुदीण ॥  
लब्धि. १७५.

३ अतिमरसखडुक्कीरणकालो दु पटमओ अहियो । चरिमट्टिदिखडुक्कीरणकालो सखगुणियो दु ॥  
लब्धि १७६.

४ अ आप्रलो: 'पटमसमय' इति पाठ. ।

५ वट्टावट्टी एव भणिदे तासु चैव सजमासंजमसजमलट्टीसु अलद्धपुव्वासु पडिलट्टासु तल्लामपटमसमय-  
प्पहुडिअतोप्पहुत्तकालम्भतरे पडिसमयमणतगुणाए सेदीए परिणामवट्टी गहेयन्वा, उवरि उवरि परिणामवट्टीए वट्टावट्टी-  
ववप्पावलवणादो । जयध अ प ९८४.

६ पटमट्टिदिखडुक्कीरणकालो साहियो ह्वे तत्तो । एयतवट्टिकालो अपुव्वकालो य सखगुणियकमा ॥  
लब्धि. १७७.

संजमद्धा असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धाओ एदाओ छप्पि अद्धाओ तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । पढमसमय (-संजदा-) संजदेण कदगुणसेडीणिक्खेवो संखेज्जगुणो' । एगंतवड्ढावड्ढीए चरिम-  
ट्टिदिवंधस्स आवाधा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणपढमट्टिदिवंधस्स आवाधा संखेज्जगुणा ।  
एगंतवड्ढावड्ढीए चरिमसमयट्टिदिवंधओ असंखेज्जगुणो । कुदो ? पलिदोवमस्स संखेज्जदि-  
भागत्तादो' । अपुव्वकरणस्स पढमो जहणणओ ट्टिदिवंधओ संखेज्जगुणो । पलिदोवमं  
संखेज्जगुणं । अपुव्वस्स पढमो उक्कस्सओ ट्टिदिवंधओ संखेज्जगुणो । एगंतवड्ढावड्ढीए  
चरिमट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणस्स पढमो ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । एगंताणु-  
वड्ढावड्ढीए चरिमसमयट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । पढमसमयअपुव्वकरणस्स ट्टिदिसंत-  
कम्मं संखेज्जगुणं' ।

एत्थ तिव्व-मंददाए सामित्तमप्पावहुगं च वत्तइस्सामो । तत्थ सामित्तं-

उदयका काल, जघन्य मिथ्यात्वके उदयका काल, जघन्य संयमका काल, जघन्य  
असंयमका काल, और जघन्य सम्यग्मिथ्यात्वके उदयका काल, ये छहों काल परस्पर  
तुल्य और संख्यातगुणित हैं । उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतके द्वारा की गई  
गुणश्रेणीका निक्षेप संख्यातगुणित है । उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तमें संभव चरम  
स्थितिवन्धकी आवाधा संख्यातगुणित है । उससे अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी  
स्थितिवन्धकी आवाधा संख्यातगुणित है । उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तिम समयका  
स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है, क्योंकि, वह पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता  
है । उससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है । उससे पल्योपम  
संख्यातगुणित है । उससे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातगुणित है ।  
उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । उससे  
अपूर्वकरणका प्रथम स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । उससे एकान्तानुवृद्धावृद्धिके अन्तिम-  
समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । उससे प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणका  
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है ।

यहांपर संयमासंयम लब्धिकी तीव्र-मन्दताका स्वामित्व और अल्पबहुत्व कहेंगे ।  
उसमें पहले स्वामित्व कहते हैं—

१ अत्रा मिच्छतियद्धा अविरद तह देससजमद्धा य । छप्पि समा सखगुणा तत्तो देसस्स गुणसेदी ॥  
लब्धि १७८.

२ चरिमावाहा तत्तो पढमान्नाहा य संखगुणियकमा । तत्तो असंखगुणियो चरिमट्टिदिवंधओ णियमा ।  
पटलस्स सखभाग चरिमट्टिदिवंधयं हवे जम्हा । तम्हा असखगुणिय चरिम ट्टिदिवंधय होइ ॥ लब्धि. १७९, १८०.

३ पढमे अवरो पत्तो पढमुक्कस्स च चरिमट्टिदिवंधो । पढमो चरिम पढमट्टिदिसंतं सखगुणियदकमा ॥  
लब्धि १८१.

उक्त्स्त्रिया लट्टी कस्स ? संजदासंजदस्स सच्चविसुद्धस्स से काले संजमगाहयस्स । जह-  
णिया लट्टी कस्स ? तप्पाओग्गसंक्रिलिद्धस्स' से काले मिच्छत्तं गाहयस्स' । अप्पावहुगं ।  
तं जहा—जहणिया संजमासंजमलट्टी थोवा' । उक्त्स्त्रिया संजमासंजमलट्टी अणंतगुणां ।

एत्तो संजमासंजमलट्टीए द्वाणाणि वत्तइस्सामो । तं जहा—जहणए संजमा-  
संजमलट्टिद्वाणे अणंताणि फहयाणि । तदो विदियलट्टिद्वाणं अणंतभागुत्तरं । एवं छद्वाण-  
पदिदाणं लट्टिद्वाणाणं पमाणमसंखेज्जा लोगां । आदीदो प्पहुडि तिरिक्ख-मणुस्स-  
संजदासंजदाणं पडिवादद्वाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि हवंति । तदो अंतरं होदूण  
तिरिक्ख-मणुस्ससंजदासंजदाणं पडिवज्जद्वाणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि हंति । तदो  
अंतरं होदूण तिरिक्ख-मणुस्ससंजदासंजदाणं अपडिवाद-पडिवज्जमाणद्वाणाणि असंखेज्ज-

शंका—उत्कष्ट संयमासंयम लब्धि किसके होती है ?

समाधान—सर्वत्रिशुद्ध और अनन्तर समयमें संयमको ग्रहण करनेवाले  
संयतासंयतके उत्कष्ट संयमासंयम लब्धि होती है ।

शंका—जघन्य संयमासंयम लब्धि किसके होती है ?

समाधान—जघन्य लब्धिके योग्य संक्लेशको प्राप्त और अनन्तर समयमें  
मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले संयतासंयतके जघन्य संयमासंयम लब्धि होती है ।

अब अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य संयमासंयम लब्धि अल्प  
होती है । उससे उत्कष्ट संयमासंयम लब्धि अनन्तगुणित है ।

अब इससे आगे संयमासंयम लब्धिके स्थानोंको कहेंगे । वह इस प्रकार है—  
जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थानमें अनन्त स्पर्धक होते हैं । उससे द्वितीय संयमासंयम  
लब्धिस्थान अनन्त भाग अधिक होता है । इस प्रकार पदस्थानपतित लब्धिस्थानोंका  
प्रमाण असंख्यात लोक है । आदिसे, अर्थात् जघन्य लब्धिस्थानसे, लेकर तिर्यच और  
मनुष्य संयतासंयतोंके प्रतिपात स्थान असंख्यात लोकमात्र होते हैं । तत्पश्चात् अन्तर  
होकर तिर्यच और मनुष्य संयतासंयतोंके प्रतिपद्यमान स्थान असंख्यात लोकमात्र होते  
हैं । तत्पश्चात् अन्तर होकर तिर्यच और मनुष्य संयतासंयतोंके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान

१ व-प्रतौ 'तप्पाओग्गस्स सक्किलिद्धस्स' इति पाठ ।

२ अत्रारदेसलट्टी से काले मिच्छसंजमुववणणे । अत्रा दु अणतगुणा उक्त्स्सा देसलट्टी इ ॥ लब्धि १८२.

३ प्रतियु 'दोवा' इति पाठः ।

४ अत्रे देसद्वाणे हंति अणताणि फहयाणि तदो । छद्वाणगदा सच्चे लोराणमसंखेज्जाणा ॥ लब्धि, १८३.



वज्रमाणद्वान्तविरोहादो । ण विदिएण वि पडिवज्जदि । एयं णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पडिवादद्वानाणि हंति । तदो अंतरमइच्छिदूण जहणं पडिवज्जमाणगस्स संजमासंजमलद्विद्वानं होदि । तदो णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि पडिवज्जमाणद्वानाणि हवंति । पुणो अंतरमुल्लंघिय अपडिवाद-अपडिवज्जमाणसंजमासंजमलद्विद्वानाणं जहणं लद्विद्वानं होदि । तदो णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि अपडिवाद-अपडिवज्जमाणदेससंजमलद्विद्वानाणि हंति' ।

एदेसिं तिच्च-मंददाए अप्पावहुगं वत्तइस्सामो । तं जधा- सव्वमंदाणुभागं जहणयं संजमासंजमलद्विद्वानं । मणुसस्स संजदासंजदस्स सव्वसंक्किलिद्वस्स मिच्छत्तं गच्छमाणस्स चरिमसमए जहणं देससंजमलद्विद्वानं तत्तियं चैव, दोण्हमेगत्तादो । तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादो पडिवदिय मिच्छत्तं गच्छमाणस्स सव्वसंक्किलिद्वस्स चरिमसमए जहणमपच्चक्खाणलद्विद्वानमणंतगुणं । कुदो ? मणुस्सजहणापच्चक्खाणपडिवादिद्वानादो छवड्डीए असंखेज्जलोगमेत्तमणुस्सापच्चक्खाणपडिवादद्वानाणि गंतूण

नहीं हो सकता । द्वितीय लब्धिस्थानसे भी संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है । इस प्रकार निरन्तर, अर्थात् तृतीय, चतुर्थ आदिको आदि लेकर अन्तर-रहित असंख्यात लोकमात्र प्रतिपातस्थान तिर्यंच और मनुष्य संयतासंयतोके होते हैं । तत्पश्चात् अन्तरका उल्लंघन कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य संयमासंयम लब्धिका स्थान होता है । इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमानस्थान होते हैं । पुनः अन्तरका उल्लंघन करके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लब्धिस्थानोंका सबसे जघन्य लब्धिस्थान होता है । इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लब्धिके स्थान होते हैं ।

अब इन लब्धिस्थानोंकी तीव्र-मन्दताका अल्पबहुत्व कहेंगे । वह इस प्रकार है— जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है । सर्वसंक्लिष्ट और मिथ्यात्वको जानेवाले संयतासंयत मनुष्यके अन्तिम समयमें संभव जघन्य देशसंयम लब्धिका स्थान उतना ही है, क्योंकि, दोनोंके एकता है । देशसंयमसे गिरकर मिथ्यात्वको जानेवाले और सर्वसंक्लिष्ट ऐसे तिर्यंचयोनिवाले जीवके अन्तिम समयमें जघन्य अप्रत्याख्यान ( संयमासंयम ) लब्धिस्थान उपर्युक्त मनुष्य संयतासंयतसम्बन्धी जघन्य लब्धिस्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपातिस्थानसे आगे षड्वृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र मनुष्यसम्बन्धी अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान जाकर इस तिर्यंच योनिवाले जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती है ।

१ णरतिरिये तिरियणरे अवरं अवरं वर वरं तिसु वि । लोयाणमसखेज्जा छट्टाणा हंति तम्मत्ते ॥ पडि-  
धाददुगवरवर मिच्छे अयदे अणुमयगजहण । मिच्छवरविदियसमये तत्तिरियवर तु सट्टाणे ॥ लब्धि. १८५-१८६.

एदस्सुप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स अपच्चक्खाणादो पडिवदिय तप्पाओग्गसंक्किलेसेण असंजमं गच्छमाणस्स चरिमसमए उक्कस्समपच्चक्खाणपडिवादट्टाणमणंतगुणं, तिरिक्खजहण्णपडिवादट्टाणादो छवड्डीए असंखेज्जलोगमेत्तट्टाणाणि गंतूण एदस्सुप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमादो पडिवदिय असंजमं गच्छमाणस्स उक्कस्सयं पडिवादलद्धिट्टाणमणंतगुणं, तिरिक्खउक्कस्सपडिवादलद्धिट्टाणादो छवड्डीए असंखेज्जलोगमेत्तट्टाणाणि गंतूण उप्पत्तीदो । मणुस्सस्स संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स सव्वविसुद्धस्स मिच्छा-इट्ठिस्स संजमासंजमपढमसमए वट्टमाणस्स जहण्णमपच्चक्खाणपडिवज्जमाणट्टाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ता छट्टाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सव्वविसुद्धस्स संजदासंजदपढमसमए वट्टमाणस्स जहण्णं देसविरदिलद्धिट्टाणमणंतगुणं । कुदो ? मणुस्सजहण्णअपच्चक्खाणपडिवज्जमाणट्टाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपडिवज्जमाणलद्धिट्टाणाणि गंतूण उप्पत्तीए । तिरिक्खजोणियस्स असंजमाणुविद्धवेदगसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसंजदासंजदस्स उक्कस्सलद्धिट्टाणमणंतगुणं । कारणं पुव्वं व परूवेदव्वं । मणुस्सस्स सव्वविसुद्धस्स असंजमाणु-

अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्प्रायोग्य संक्लेशके द्वारा असंयमको जानेवाले तिर्यग्योनीय जीवके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, तिर्यचके जघन्य प्रतिपातस्थानसे पडवृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमसे गिरकर असंयमको जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, तिर्यचसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थानसे आगे पडवृद्धिके द्वारा असंख्यात लोकमात्र पदस्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्यके (अन्तिम समयमें, तथा) संयमासंयमको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमानस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र पदस्थान अन्तरित करके इसकी उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वविशुद्ध और संयतासंयतके प्रथम समयमें वर्तमान ऐसे तिर्यग्योनीय जीवका जघन्य देशविरति लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमानस्थानसे असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमान लब्धिस्थान आगे जा करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। असंयमसे संयुक्त वेदकसम्यक्त्वसे पीछे आये हुये तिर्यग्योनीय और प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए। सर्वविशुद्ध, असंयमसे



विद्वस्स सम्मत्तपच्छायदस्स संजमासंजमपढमसमए वड्डमाणस्स उक्कस्सलद्धिद्वान-  
मणंतगुणं । मणुसस्स संजमासंजमं पडि अपडिवदमाण-अपडिवज्जमाणगस्स मिच्छत्त-  
पच्छायदस्स सच्चविसुद्धस्स संजदासंजदविदियसमए वड्डमाणस्स जहण्णलद्धिद्वानमणंत-  
गुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तलद्धिद्वानाणि अंतरिय समुप्पत्तीदो । तिरिक्खजोणियस्स  
सच्चविसुद्धस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स संजदासंजदविदियसमए वड्डमाणस्स जहण्णयं  
लद्धिद्वानमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तलद्धिद्वानाणि अंतरिय समुप्पत्तीदो ।  
तिरिक्खजोणियस्स अपडिवदमाण-अपडिवज्जमाणयस्स सच्चविसुद्धस्स सत्थाणसंजदा-  
संजदस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वानमणंतगुणं । मणुसस्स अपडिवदमाण-अपडिवज्जमाणयस्स  
सत्थाणसंजदासंजदस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वानमणंतगुणं ।

अनुविद्ध, सम्यक्त्वसे पीछे आये हुए और संयमासंयमके प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान पूर्वोक्त स्थानसे अनन्तगुणित है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्व-विशुद्ध, संयतासंयतके द्वितीय समयमें वर्तमान और संयमासंयमके प्रति अप्रतिपत्तमान-अप्रतिपद्यमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र पदस्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। सर्वविशुद्ध, मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, संयतासंयतके द्वितीय समयमें वर्तमान ऐसे तिर्यग्योनीय जीवका जघन्य लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र पदस्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। अप्रतिपत्तमान-अप्रतिपद्यमान, सर्वविशुद्ध, तिर्यग्योनीय स्वस्थान संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपर्युक्त लब्धिस्थानसे अनन्तगुणित है। अप्रतिपत्तमान-अप्रतिपद्यमान स्वस्थान-संयतासंयत मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता है।

१ प्रतिपु ' तिरिक्खजोणियस्स सच्चविसुद्धस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स संजदासंजदविदियसमए वड्डमाणस्स जहण्णयं लद्धिद्वानमणंतगुणं, असंखेज्जलोगमेत्तलद्धिद्वानाणि उवरि गंणुप्पत्तीदो । ' इत्यत्राधिक पाठः ।

२ प्रतिपु ' सत्थाण ' इति पाठः ।

सयलचारित्तं तिविहं खओवसमियं ओवसमियं खइयं चेदि । तत्थ खओवसम-  
चारित्तपडिवज्जणविहाणं उच्चदे । तं जहा- पढमसम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवज्ज-  
माणो तिण्णि वि करणाणि काऊणं पडिवज्जदि । तेसिं करणाणं लक्खणं जधा सम्मत्तु-  
प्पत्तीए भणिदं, तथा वत्तव्वं । जदि पुण अट्ठावीससंतकम्मिओ मिच्छादिट्ठी असंजद-  
सम्माइट्ठी संजदासंजदो वा संजमं पडिवज्जदि तो दो चेव करणाणि, अणियट्ठीकरणस्स  
अभावादो' । एदेसिं च करणाणं लक्खणं जधा संजमासंजमं पडिवज्जमाणयस्स करणाणं  
परुविदं तथा परुवेदव्वं, णत्थि एत्थ कोच्छि विसेसो । पढमसमयसंजमप्पहुडि अंतो-  
मुहुत्तद्धमणंतगुणाए चरित्तलद्धीए जीवो वड्ढदि । जाव चरित्तलद्धीए अंतवड्ढीए वड्ढदि  
ताव सो जीवो अपुव्वकरणसण्णिदो होदि । एअंतवड्ढीदो से काले चरित्तलद्धीए सिया  
वड्ढेज्ज, सिया हाएज्ज, सिया अवट्ठाएज्ज वा । संजमादो णिग्गदो असंजमं गंतूण जदि  
ट्ठिदिसंतकम्मेण अवट्ठिदेण पुणो संजमं पडिवज्जदि तस्स संजमं पडिवज्जमाणस्स

क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिकके भेदसे सकल चारित्र तीन प्रकारका  
है । उनमें क्षायोपशमिक चारित्रको प्राप्त करनेका विधान कहते हैं । वह इस प्रकार है—  
प्रथमोपशमसम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीव तीनों ही  
करणोंको करके ( संयमको ) प्राप्त होता है । उन करणोंका लक्षण जिस प्रकार सम्य-  
क्त्वकी उत्पत्तिमें कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए । यदि पुनः मोहकर्मकी अट्ठाईस  
प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत जीव संयमको  
प्राप्त करता है, तो दो ही करण होते हैं, क्योंकि, उसके अनिश्रुत्तिकरणका अभाव होता  
है । इन करणोंका लक्षण जिस प्रकार संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके करणोंका  
कहा है उसी प्रकार प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि, उनसे यहांपर कोई विशेषता नहीं  
है । प्रथमसमयसम्यन्धी संयमसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक यह जीव अनन्तगुणित  
चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है । जब तक यह चारित्रलब्धि एकान्तानुवृद्धिसे  
वढ़ती है, तब तक वह जीव अपूर्वकरण संक्षावाला रहता है । एकान्तानुवृद्धिके पश्चात्  
अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धिसे कदाचित् वृद्धिको प्राप्त हो सकता है, कदाचित्  
हानिको प्राप्त हो सकता है, और कदाचित् तदवस्थ भी रह सकता है । संयमसे निकल  
कर और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको  
प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अपूर्वकरणका अभाव होनेसे

१ सयलचारित्तं तिविहं खयउवसमि उवगम च खयिय च । सम्मत्तुप्पत्तिं वा उवसमसम्मेण गिण्हदो  
पढम ॥ लब्धि. १८७.

२ वेदगजोगो मिच्छो अविरद देसो य दाण्णि करणाणि । देसवद वा गिण्हदि गुणसेट्ठी णत्थि तकरणे ॥  
लब्धि. १८८.

अपुव्वकरणाभावादो णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो वा । असंजमं गंतूण वड्ढाविदठिदि-  
अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणेहि विणा तस्स संजमग्गहणाभावा ।

पढमसमयअपुव्वकरणमादिं कादूण जाव अधापवत्तसंजदो एदमिह काले इमेसिं  
पदाणमप्पावहुगं वत्तइस्सामो' । तं जहा- सव्वत्थोवा एयंताणुवड्ढीए चरिमाणुभाग-  
खंडयउक्कीरणद्वा । अपुव्वकरणस्स पढमाणुभागखंडयउक्कीरणद्वा विसेसाहिया ।  
एअंताणुवड्ढीए चरिमद्विदिखंडयउक्कीरणद्वा द्विदिवंधगद्वा च दो वि तुल्लाओ संखेज्ज-  
गुणाओ । पढमसमयअपुव्वकरणस्स द्विदिखंडयउक्कीरणद्वा द्विदिवंधगद्वा च विसेसा-  
हियाओ । पढमसमयसंजदमादिं कादूण जमिह काले एअंतवड्ढीए वड्ढि सो कालो  
संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा । जहणिया संजमद्वा संखेज्जगुणा । गुण-  
सेडीणिकखेवो संखेज्जगुणो । एअंताणुवड्ढीए चरिमद्विदिवंधस्स आवाधा संखेज्जगुणा ।  
पढमसमयअपुव्वकरणद्विदिवंधस्स आवाधा संखेज्जगुणा । एअंताणुवड्ढीए चरिमद्विदि-  
खंडओ असंखेज्जगुणो । अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहणणओ द्विदिखंडओ संखेज्जगुणो ।

न तो स्थितिघात होता है और न अनुभागघात होता है। किन्तु असंयमको जाकर स्थिति-  
सत्त्व और अनुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि, दोनों  
करणोंके बिना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता है।

प्रथमसमयवर्ती अपूर्वकरणसंयतको आदि करके जब तक वह अधःप्रवृत्तसंयत  
अर्थात् स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कालमें इन पदोंका अल्पवहुत्व  
कहेंगे। वह इस प्रकार है—एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम अनुभागकांडकसम्बन्धी उत्कीरण-  
काल सबसे कम है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल विशेष  
अधिक है। उससे एकान्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडकसम्बन्धी उत्कीरणकाल और  
स्थितिवन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुल्य संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी  
अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धका काल, ये दोनों विशेष  
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतको आदि करके जिस कालमें एकान्तवृद्धिसे बढ़ता  
है वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणित है। उससे  
जघन्य संयमकाल संख्यातगुणित है। उससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है। उससे  
एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम स्थितिवन्धकी आवाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमय-  
सम्बन्धी अपूर्वकरणके स्थितिवन्धकी आवाधा संख्यातगुणित है। उससे एकान्तानु-  
वृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें  
जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे पल्योपम संख्यातगुणित है। उससे

१ एत्तो उवरिं विरदे देसो वा होदि अपवहुगो ति । देसो ति य तट्टाणे विरदो ति य होदि वत्तच्चं ॥  
लघ्नि. १८९.

पलिदोवमं संखेज्जगुणं । पढमद्विदिविसेसो संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणस्स चरिमद्विदिवंधो संखेज्जगुणो । तस्सेव पढमद्विदिवंधो संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणस्स चरिमद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तस्सेव पढमद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

एत्थ जाणि संजमलद्विद्विहाणाणि ताणि तिविहाणि होंति । तं जहा- पडिवाद-  
द्विहाणाणि उप्पादद्विहाणाणि तव्वदिरित्तद्विहाणाणि त्ति' । तत्थ पडिवादद्विहाणं णाम जम्हि द्विहाणे  
मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छदि तं पडिवादद्विहाणं । उप्पादद्विहाणं  
णाम जम्हि द्विहाणे संजमं पडिवज्जदि तं उप्पादद्विहाणं णाम । सेससव्वाणि चेव चरित्त-  
द्विहाणाणि तव्वदिरित्तद्विहाणाणि णाम । एदेसिं लद्विद्विहाणाणमप्पावहुगं । तं जहा- सव्व-  
त्थोवाणि पडिवादद्विहाणाणि । कुदो ? मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छं-  
तस्स चरिमसमयसंजदस्स जहणपरिणाममादिं कादूण जा उक्कस्सपडिवादद्विहाणं ति सव्वेसिं  
गहणादो । उप्पादद्विहाणाणि असंखेज्जगुणाणि । कुदो ? पडिवादद्विहाणाणि अपडिवाद-अपडि-  
वज्जमाणद्विहाणाणि च मोत्तूण सेससव्वद्विहाणाणं गहणादो । तव्वदिरित्तद्विहाणाणि असंखेज्ज-

प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगुणित है । उससे अपूर्वकरणका अन्तिम स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । उससे उसका ही प्रथम स्थितिवन्ध संख्यातगुणित है । उससे अपूर्व-  
करणका अन्तिम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है । उससे उसका ही प्रथम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है ।

यहांपर जो संयमलब्धिके स्थान हैं, वे तीन प्रकारके होते हैं । वे इस प्रकार हैं—  
प्रतिपातस्थान, उत्पादस्थान और तद्व्यतिरिक्तस्थान । उनमें पहले प्रतिपातस्थानको  
कहते हैं—जिस स्थानपर जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा  
संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है । अब उत्पादस्थानको कहते हैं—  
जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है । इनके अतिरिक्त शेष  
सर्व ही चारित्रस्थानोंको तद्व्यतिरिक्त स्थान कहते हैं । अब इन संयमलब्धिस्थानोंका  
अल्पवहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है—प्रतिपातस्थान सबसे कम है, क्योंकि, मिथ्या-  
त्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको जानेवाले अन्तिमसमयवर्ती  
संयतके जघन्य परिणामको आदि करके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोंका  
ग्रहण किया गया है । प्रतिपातस्थानोंसे उत्पादस्थान असंख्यातगुणित है, क्योंकि,  
प्रतिपातस्थानोंको और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंको छोड़कर शेष सर्व स्थानोंका  
ग्रहण किया गया है । उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असंख्यातगुणित है, क्योंकि,

तत्थ य पडिवादगया पडिवज्जगया त्ति अशुसयगया त्ति । उवस्वरि लद्विद्विहाणा लोयाणमसख्खद्विहाणा ॥  
लब्धि. १९१.







अंतरिय उप्पणत्तादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं, उवरि असंखेज्जलोगमेत्त-  
छट्टाणाणि गंतूणुप्पत्तीदो । संजमासंजमं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमट्टाणमणंतगुणं,  
अणेयाणि छट्टाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं ।  
कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्स संजमं पडि-  
वज्जमाणस्स जहण्णसंजमट्टाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि  
गंतूणुप्पत्तीदो । ( अकम्मभूमियस्स संजमं पडिवज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमट्टाणमणंत-  
गुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । ) तस्सेव  
उक्कस्सयं संजमं पडिवज्जमाणस्स संजमट्टाणमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्ज-  
लोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । कम्मभूमियस्स संजमं पडिवज्जमाणस्स  
उक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं, असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो ।  
परिहारसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमट्टाणं छेदोवट्टावणसंजमाभिमुहस्स अणंतगुणं, बहूणि  
छट्टाणाणि अंतरिय समुच्चवादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं । कुदो ?  
असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि गंतूणुप्पत्तीदो । उवरि सामाइय-च्छेदोवट्टावणियाणं

छह स्थानोंका अन्तर करके उत्पन्न हुआ है । उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा  
है, क्योंकि ऊपर असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंका उल्लंघन करके उसकी उत्पत्ति  
होती है । संयमासंयमको प्राप्त होनेवालेका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि,  
अनेक छह स्थानोंका अन्तर करके उसकी उत्पत्ति होती है । उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान  
अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति  
होती है । संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिज ( आर्य ) मनुष्यका जघन्य संयमस्थान  
अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी  
उत्पत्ति होती है । ( संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मभूमिज, अर्थात् पांच म्लेच्छ  
खंडोंमें रहनेवाले, मनुष्यका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात  
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है । ) संयमको  
प्राप्त करनेवाले उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात  
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है । संयमको प्राप्त  
करनेवाले कर्मभूमिज ( आर्य ) मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि,  
असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है । छेदोपस्थापन-  
संयमके अभिमुख हुए परिहारविशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है,  
क्योंकि, बहुतसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है । उसका ही उत्कृष्ट  
संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी  
उत्पत्ति होती है । इसके ऊपर सामायिक-छेदोपस्थापनसंयतोंका उत्कृष्ट संयमस्थान



उक्कस्सयं संजमद्वानमणंतगुणं । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्तच्छद्वानाणि अंतरिय तत्तिय-  
मेत्ताणि चैव द्वानाणि गिरंतरमुवरि गंतूणुप्पत्तीदो । सुद्धममांपगइयसुद्धिसंजदस्स  
अणियद्वीगुणद्वानाभिमुहस्स जहण्णयं संजमद्वानमणंतगुणं । कुदो ? वद्वानि छद्वानाणि  
अंतरिय समुभवादो । तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वानमणंतगुणं, अणंतगुणविसोहीए समु-  
प्पत्तीदो । वीदरागस्स अजहण्णमणुक्कस्सं चरित्तलद्धिद्वानमणंतगुणं ।

संपधि<sup>१</sup> ओवसभियचारित्तप्पडिवज्जणविहाणं वुच्चदे<sup>२</sup> । तं जघा- जो वेदग-  
सम्माइद्वी जीवो सो ताव पुव्वमेव अणंताणुवंधी विसंजोएदि । तस्स जाणि करणाणि  
ताणि परूवेदव्वाणि । तं जघा- अधापवत्तकरणं अपुव्वकरणं अणियद्वीकरणं च ।  
अधापवत्तकरणे णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी वा । अपुव्वकरणे द्विदिघादो  
अणुभागघादो गुणसेडी गुणसंकमो च अत्थि । अणियद्वीकरणे वि एदाणि चैव, अंतर-  
करणं णत्थि । जो अणंताणुवंधी विसंजोएदि तस्स एसा ताव समासपरूवणा । तदो  
अणंताणुवंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तं अधापवत्तो होदूण पुणो पमत्तगुणं पडिवज्जिय  
असाद-अरदि-सोग-अजसगित्तिआदीणि कम्माणि अंतोमुहुत्तं वंधिय तदो दंसणमोहणीयमुव-

अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात लोकमात्र स्थानोंका अन्तर करके और उतनेमात्र स्थान  
निरन्तर ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अभिमुख  
हुए सूक्ष्मसाम्परायिकवशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि,  
बहुतसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है। उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान  
अनन्तगुणा है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति अनन्तगुणी विशुद्धिसे है। वीतरागका अजघन्या-  
नुत्कृष्ट चरित्रलब्धिस्थान अनन्तगुणा है।

अब औपशमिक चारित्रकी प्राप्तिके विधानको कहते हैं। वह इस प्रकार है—  
जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव है वह पूर्वमें ही अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करता  
है। उसके जो करण होते हैं उनका प्ररूपण करते हैं। वह इस प्रकार है—अधःप्रवृत्त-  
करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात  
अथवा गुणश्रेणी नहीं है। किन्तु अपूर्वकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और  
गुणसंक्रम हैं। ये ही कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी हैं, अन्तरकरण नहीं है। जो अनन्तानु-  
बन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करता है उसकी यह संक्षेपसे प्ररूपणा है। तत्पश्चात्  
अनन्तानुबन्धिचतुष्टयका विसंयोजन करके अन्तर्मुहूर्तकाल तक अधःप्रवृत्त अर्थात् स्वस्थान  
अप्रमत्त होकर पुनः प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त कर असाता, अरति, शोक और अयशकीर्त्ति  
आदिक ( प्रमत्त गुणस्थानमें बंधने योग्य तिरेसठ ) कर्मप्रकृतियोंको अन्तर्मुहूर्त तक बांध-

१ कप्रतौ ' सपथिय ' इति पाठ ।

२ आ-कप्रत्यो. ' उच्चदे ' इति पाठ ।

सामेदि' । जाणि अणंताणुब्रंधिविसंजोयणाए तिण्णि वि करणाणि परूविदाणि ताणि सच्चाणि इमस्स वि परूवेदच्चाणि । कथं ताणि चेव तिण्णि करणाणि पुध पुध कज्जुप्पायणाणि ? ण एस दोसो, लक्खणसमाणत्तेण एयत्तमावण्णाणं भिण्णकम्मविरोहित्तणेण भेदमुवगयाणं जीवपरिणामाणं पुध पुध कज्जुप्पायणे विरोहाभावा । तत्थ' द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेडी च अत्थि । जधा अणंताणुब्रंधीविसंजोयणाए गलिदसेसा अपुव्वकरणद्वादो अणियट्ठीकरणद्वादो च विसेसाहिया गुणसेडी कदा तथा एत्थ वि करेदि । द्विदि-अणुभाग-कंडयगहणक्कमो तेसिमुक्कीरणद्वाणं द्विदिवंधगद्वाणं कमो च दंसणमोहणीयक्खवणाए' जधा उत्तो तथा वत्तव्वो । णवरि एत्थ गुणसंकमो णत्थि, विज्झादो चेव, अप्पसत्थाणं अधापवत्तो वा' । अपुव्वकरणस्स पढमसमयद्विदिसंतकम्मादो तस्सेव चरिमसमयद्विदि-संतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । पढमसमयअणियट्ठीकरणस्स द्विदिसंतकम्मादो चरिमसमय-

कर पश्चात् दर्शनमोहनीयको उपशमाता है । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें जिन तीनों करणोंका प्ररूपण किया जा चुका है वे सब इसके भी कहे जाने चाहिये ।

शंका—वे ही तीन करण पृथक् पृथक् कार्योंके उत्पादक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, लक्षणकी समानतासे एकत्वको प्राप्त, परन्तु भिन्न कर्मोंके विरोधी होनेसे भेदको भी प्राप्त हुए जीवपरिणामोंके पृथक् पृथक् कार्यके उत्पादनमें कोई विरोध नहीं है । वहां स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणी भी है । जिस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें गलितावशेष गुणश्रेणी अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक की थी, उसी प्रकार यहांपर भी करता है । काण्डकोंका ग्रहणक्रम तथा उनके उत्कीरणकालों और स्थितिबन्ध-कालोंका क्रम जैसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें कहा गया है, वैसे यहां भी कहना चाहिये । विशेषता यह है कि यहां गुणसक्रमण नहीं है, केवल विध्यातसंक्रमण, अथवा अप्रशस्त प्रकृतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण है । अपूर्वकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्वसे उसका ही अन्तिमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा हीन है । प्रथमसमयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्वसे अन्तिमसमयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा हीन

१ उवसमचरिया हिमूहो वेदगसम्मो अण विजोयिता । अतोपुहुत्तकाल अधापवत्तो पमत्तो य ॥ तत्तो तियरणविहिणा दमणमोह सम खु उवसमदि । सम्मत्तुप्पत्ति वा अण्ण च गुणसेट्टिकरणविही ॥ लब्धि. २०३-२०४.

२ अ आपत्त्योः ' तद्विदि ' , कप्रती ' तं द्विदि ' इति पाठः ।

३ अ-रुप्रत्यो ' -क्खवणा व ' , आप्रती ' -क्खवणा ' इति पाठ ।

४ दसणमोहुवसमण तक्खवण वा हु होदि णवरिं तु । गुणसकमो ण विज्जदि विज्जद वाधापवत्तं च ॥ लब्धि. २०५.

द्विदिसंतक्रमं संखेज्जगुणहीणं । दंसणमोहणीयउवसामणअणियट्ठीअट्ठाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्वाणमुदीरणा ।

तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदिं । तं जधा— सम्मत्तस्स पढमद्विदिमंतोमुहुत्तमेत्तं मोत्तूण अंतरं करेदि, मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण-मुदयावलियं मोत्तूण अंतरं करेदिं । अंतरमिह उक्कीरिज्जमाणपदेसगं विदिय-द्विदिमिह ण संलुहदि, वंधाभावादो सच्चमाणेदूण सम्मत्तपढमद्विदिमिह णिक्खि-वदि । सम्मत्तपदेसगमप्पणो पढमद्विदिमिह चैव संलुहदि । मिच्छत्त-सम्मा-मिच्छत्त-सम्मत्ताणं विदियद्विदिपदेसगं ओकद्विदूण सम्मत्तपढमद्विदीए देदि, अणुक्कीरिज्जमाणासु द्विदीसु च देदिं । सम्मत्तपढमद्विदिसमाणासु द्विदीसु द्विद-

है। दर्शनमोहनीयके उपशमानेमें अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वप्रकृतिके असंख्यात समयप्रवर्द्धोंकी उदीरणा होती है।

इसके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल जाकर दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है। वह इस प्रकार है—सम्यक्त्वप्रकृतिकी अन्तर्मुहूर्तमात्र प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है तथा मिथ्यात्व व सम्यग्निमिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उदयावलीको छोड़कर अन्तर करता है। इस अन्तरकरणमें उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको द्वितीय स्थितिमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु बन्धका अभाव होनेसे सबको लाकर सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। सम्यक्त्वप्रकृतिके प्रदेशाग्रको अपनी प्रथमस्थितिमें ही स्थापित करता है। मिथ्यात्व, सम्यग्निमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके द्वितीयस्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें देता है, और अनुत्कीर्य-माण (द्वितीय स्थितिकी) स्थितियोंमें भी देता है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके

१ द्विदिसत्तमपुच्चदुगे संखेज्जगुण तु पढमदो चरिमं । उवसामण अणियट्ठीसखामागासु तीदासु ॥  
लघ्वि. २०६.

२ सम्मत्तस्स असंखेज्जा समयपवद्वाणुदीरणा होदि । तत्तो मुहुत्तमते दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ लघ्वि. २०७.

३ अंतोमुहुत्तमेत्तं आवलिमेत्तं च सम्मतियठाणं । मोत्तूण य पढमद्विदिं दंसणमोहतरं कुणइ ॥  
लघ्वि. २०८.

४ सम्मत्तपयद्विपढमद्विदिमिह संलुहदि दंसणतियाणं । उक्कीरियं तु दव्वं वंधामावाडु मिच्छस्स ॥  
लघ्वि. २०९.

५ विदियद्विदिस्स दव्वं उक्कट्टिय देदि सम्मपढममि । विदियद्विदिमिह तस्स अणुक्कीरिज्जंतमाणमिह ॥  
लघ्वि. २१०.

मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपदेसग्गं सम्मत्तपढमट्टिदीसु संकामेदि' । जाव अंतरदुचरिमफाली पददि ताव इमो कमो होदि । पुणो चरिमफालीए पदमाणाए मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमंतरट्टिदिपदेसग्गं सच्चं सम्मत्तपढमट्टिदीए संछुहदि' । एवं सम्मत्त-अंतरट्टिदिपदेसं पि अप्पणो पढमट्टिदीए चेव देदि । विदियट्टिदिपदेसग्गं पि ताव पदमट्टिदिमेदि जाव आवलिय-पडिआवलियाओ पढमट्टिदीए सेसाओ त्ति' । सम्मत्तस्स पढमट्टिदीए झीणाए मिच्छत्तपदेसग्गं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु गुणसंकमेण ( ण ) संकमदि । इमस्स विज्झाद-संकमो चेव' । पढमदाए सम्मत्तमुप्पादयमाणस्स जो गुणसंकमेण पूरणकालो तदो संखेज्जगुणं कालं इमो उवसंतदंसणमोहणीओ विसोहीए वड्ढदि' । तेण परं हायदि

समान स्थितियोंमें स्थित मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके प्रदेशाग्रको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितियोंमें संक्रमण कराता है। जब तक अन्तरकरणकालकी द्विचरम फालि प्राप्त होती है तब तक यही क्रम रहता है। पुनः अन्तिम फालिके प्राप्त होनेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके सब अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशाग्रको सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। इसी प्रकार सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तरस्थितिसम्बन्धी प्रदेशको भी अपनी प्रथमस्थितिमें ही देता है। द्वितीयस्थिति-सम्बन्धी प्रदेशाग्र भी तब तक प्रथम स्थितिको प्राप्त होता है, जब तक कि प्रथम स्थितिमें आवली और प्रत्यावली शेष रहती है। सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर मिथ्यात्वका प्रदेशाग्र गुणसंक्रमणसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं करता है। इसके केवल विध्यातसंक्रमण होता है। प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमणसे पूरणकाल है उससे संख्यातगुणे काल तक यह उपशान्तदर्शनमोहनीय जीव अर्थात् द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि (प्रतिसमय अनन्तगुणी) विशुद्धिसे वद्धता है। इसके पश्चात् अर्थात् एकान्तवृद्धिकालके पीछे वह द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि संक्लेश परिणामोंके वश विशुद्धिसे हीन होता है,

१ सम्मत्तपयडिपढमट्टिदीसु सरिमाण मिच्छमिस्साणं । ठिदिद्वं सम्मत्तं य सरिसणित्सेयमिद्दं सकमदि ॥  
लुब्धि. २११.

२ जावतरस्स दुचरिमफालिं पावे इमो कमो ताव । चरिमतिदसणदच्चं छुहेदि सम्मत्तं पढममिद्दं ॥  
लुब्धि. २१२.

३ विदियट्टिदिस्स दच्चं पढमट्टिदिमेदि जाव आवलिया । पडिआवलिया चिट्ठदि सम्मत्तादिमठिदी ताव ॥  
लुब्धि. २१३.

४ सम्मादिठिदिज्झीणे मिच्छत्तव्वाद्दु सम्मसमिस्से । गुणसंकमो ण णियमा विज्झादो संकमो होदि ॥  
लुब्धि. २१४.

५ सम्मत्तुप्तीः गुणसंकमपूरणस कालदो । संखेज्जगुणं कालं विसोहिद्वीहिं वड्ढदि ॥  
लुब्धि. २१५.

वद्धि अवद्वयदि वा ।

तदो उवसंतदंसणमोहणीओ असाद-अरदि-सोग-अजसकित्तिआदिपयडीणं बंध-परावत्तिसहस्सं कादूण कसायाणमुवसामणडुमधापवत्तकरणपरिणामेहि परिणमेदि' । एत्थ पुच्चं व णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसंकमो च । संजमगुणंमहिं मुच्चा अधा-पवत्तपरिणामाणिवंधणगुणसेडी वि णत्थि । णवरि विसोहीए अणंतगुणाए पडिसमयं वद्धि ।

अपुव्वकरणपढमसमए उवसंतदंसणमोहणीओ द्विदिखंडयमागाएंतो जहण्णेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमुक्कस्सेण सागरोवमपुधत्तमेत्तद्विदिखंडयमागाएदि । खीण-दंसणमोहणीयस्स पुण अपुव्वकरणपढमद्विदिखंडओ जहण्णओ उक्कस्सओ वि पलिदो-वमस्स संखेज्जदिभागो । द्विदिवंधेण जमोसरदि जहण्णेणुक्कस्सेण च सो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । असुहाणं कम्माणं अणंता भागा अणुभागखंडयपमाणं । अपुव्वकरण-पढमसमए द्विदिसंतकम्मं द्विदिवंधो च अंतोकोडाकोडीए । गुणसेडी पुण अपुव्व-करणद्वादो अणियट्ठीकरणद्वादो च विसेसाहिया । अपुव्वकरणपढमसमए गुणसेडी

संक्लेश परिणामोंकी हानि होनेसे विशुद्धिसे बढ़ता है, अथवा अवस्थित रहता है ।

इसके पश्चात् वहीं द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि असाता, अरति, शोक व अयशःकीर्ति आदि प्रकृतियोंकी सहस्रों वार बन्धपरावृत्तियोंको करके, अर्थात् अप्रमत्तसे प्रमत्त और प्रमत्तसे अप्रमत्त गुणस्थानमे जाकर, कपायोंके उपशमानेके लिये अधःप्रवृत्तकरण परिणामोंसे परिणमता है । यहां पूर्वके समान स्थितिघात, अनुभागघात और गुणसंक्रमण नहीं है । संयमगुणश्रेणीको छोड़कर अधःप्रवृत्तपरिणामनिबन्धन गुणश्रेणी भी नहीं है । विशेष यह है कि अनन्तगुणी विशुद्धिसे प्रतिसमय बढ़ता रहता है ।

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें उक्त द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि जीव स्थिति-कांडकको प्रारम्भ करता हुआ जघन्यसे पल्योपमके संख्यातवें भाग और उत्कर्षसे सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है । परन्तु क्षीणदर्शनमोहनीय अर्थात् क्षायिक सम्यग्दृष्टिके अपूर्वकरणका प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिकांडक जघन्य व उत्कृष्ट भी पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र रहता है । स्थितिवन्धसे जो अपसरण करता है वह जघन्य व उत्कर्षसे पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है । अशुभ कर्मोंके अनुभागकांडकका प्रमाण अनन्त बहुभाग होता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्त्व और स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडीमात्र है । किन्तु गुणश्रेणी अपूर्वकरणकालसे और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है ।

१ तेण पर हायदि वा वद्धि तच्चद्विदो विसुद्धीहिं । उवसतदमणतियो होदि पमत्तापमत्तेसु ॥ एव पमत्तामियर परावत्तिसहरसय तु कादूण । इगिवीसमोहणीय उवसमदि ण अणपयडीसु ॥ लब्धि. २१६-११७.

गलिदसेसा उदयावलियवाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं णिक्खित्ता । विदियसमए द्विदि-  
अणुभागखंडय-द्विदिवंधा ते चेव' । णवरि पढमसमए ओकड्ढिददव्वादो असंखेज्जगुणं  
दन्वमोकड्ढिदूण उदयावलियवाहिरद्विदिप्पहुडि गलिदसेसं गुणसेडिं करेदि । एवमंतोमुहुत्तं  
गंतूण पढमो अणुभागखंडगो पददि । एवमणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु तदो पढमो  
द्विदिखंडओ पढमो द्विदिवंधो अण्णेगो अणुभागखंडओ च जुगवं णिद्विदाओ । तदो से  
काले अण्णो द्विदिवंधो, अण्णो द्विदिखंडगो, अण्णो अणुभागखंडओ च आढत्तो' ।  
गुणसेडी पुण अपुव्वकरणद्वादो अणियट्ठीकरणद्वादो सुहुमसांपराइयअद्वादो च विसेसा-  
हिया होदूण जा पुव्वं कदा सा चेव एत्थ त्रि । णवरि गलिदसेसा । अणेण आदीदो  
प्पहुडि द्विदिखंडयपुधत्ते गदे णिद्दा-पयलाणं वंधवोच्छेदो भवदि । अपुव्वकरणद्वं सत्त  
खंडाणि कादूण पढमखंडे वोच्छिण्णा इदि उत्तं होदि । तदो अंतोमुहुत्ते गदे' पर-

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुको छोड़ शेष कर्मोंकी गुणश्रेणी उदयावलिसे बाह्यमें  
निक्षिप्त है। अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक और स्थिति-  
वन्ध वे ही हैं। विशेष यह है कि प्रथम समयमें अपरुष्ट द्रव्यस असंख्यातगुणे द्रव्यका  
अपकर्षण कर उदयावलिसे बाह्य स्थितिसे लेकर गलितशेष गुणश्रेणीको करता है। इस  
प्रकार अन्तर्मुहूर्त जाकर प्रथम अनुभागकाण्डक नष्ट होता है। इस प्रकार अनुभाग-  
काण्डकसहस्रोंके वीतनेपर तत्पश्चात् प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिवन्ध और  
एक अन्य अनुभागकांडक, ये एक साथ ही समाप्त होते हैं। तत्पश्चात् अनन्तर समयमें  
अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकका प्रारम्भ हुआ। परन्तु  
गुणश्रेणी अपूर्वकरणकालसे, अनिवृत्तिकरणकालसे और सूक्ष्मसाम्परायिककालसे विशेष  
अधिक होकर जो पूर्वमें की थी वही यहां भी है। विशेषता केवल यह है कि वह यहां  
गलितशेष है। इस क्रमसे आदिसे लेकर स्थितिकांडकपृथक्त्वके व्यतीत होनेपर निद्रा  
व प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके प्रथम खण्डमें  
निद्रा व प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति होती है, यह उपर्युक्त कथनका अभिप्राय है। तत्पश्चात्  
अन्तर्मुहूर्त व्यतीत होनेपर परभविक नामकर्मोंकी, वन्धव्युच्छित्ति होती है।

विशेषार्थ— नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका परभवसम्बन्धी देवगतिके साथ बंध  
होता है उन्हें परभविक नामकर्म कहा गया है। ऐसी प्रकृतियां कमसे कम सत्ताईस और  
अधिकसे अधिक तीस होती हैं—देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकको छोड़कर शेष  
चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक और आहारक आंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी,

१ प्रतिपु ' ते चे ' इति पाठ ।

२ अ आपत्तो: ' आधत्तो ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' अतोमुहुत्तगदेसु ' इति पाठः ।

भवियणामाणं' बंधवोच्छेदो, पंच-सत्तभागे गंतूणेत्ति उच्चं होदि । अपुव्वकरणद्वाए जम्हि णिद्दा-पयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो थोवो । परभवियणामाणं वोच्छिण्णकालो पंच-गुणो । अपुव्वकरणद्वा वे-सत्तभागाहिया । तदो अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमए द्विदि-खंडयमणुभागखंडयं द्विदिबंधो च समगं णिद्धिदा । तम्हि चेत्र समए हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं बंधो वोच्छिण्णो । हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणकम्माणमुदओ च तत्थेव वोच्छिण्णो ।

तदो से काले पढमसमयअणियट्ठी जादो । पढमसमयअणियट्ठिस्स द्विदिखंडओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । अपुव्वो द्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । अणुभागखंडगो सेसस्स अणंता भागा । असंखेज्जगुणाए सेडीए सेसे सेसे

वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर । इनमेंसे आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थकर, ये तीन प्रकृतियां जब नहीं बंधती तब शेष सत्ताईस ही बंधती हैं ।

अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे पांच भागोंके वीत जानेपर उक्त नामकर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है यह इसका अभिप्राय है । जिस अपूर्वकरणकालमें निद्रा-प्रचला प्रकृतियां बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं वह काल स्तोक है । इससे परभविक नामकर्मोंकी व्युच्छित्तिका काल पांचगुणा है । इससे अपूर्वकरणकाल दो बटे सात भाग ( ३ ) अधिक है । पश्चात् अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक और स्थितिबन्ध, ये एक साथ समाप्त हांते हैं । उसी समयमें ही हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, इन चार कर्मोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । और वहां ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, और जुगुप्सा, इन छह कर्मोंकी उदयव्युच्छित्ति भी होती है ।

इसके पश्चात् अनन्तर समयमें प्रथम समय अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती हुआ । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातर्वे भागप्रमाण है । अपूर्व अर्थात् नवान् स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातर्वे भागसे हीन होता है । अनुभागकांडक शेषके अनन्त बहुभागमात्र है । असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे शेष शेषमें

१ तदो णिद्दापयलावधविच्छेदविसयादो उवरि पुव्वुत्तेणेव कमेण द्विदि-अणुभागखंडयसहस्साणि अणुपाले-माणस्स हेट्ठिमद्धाणादो सखेज्जगुणमेत्ते अतोमुहुत्ते गदे ताधे परमत्रसवधेण वञ्जमाणान णामपयडीण देवगदि-पचिदियजादि-वेउव्वियाहार-तेजा-कथमइयसररीर-समचउरससठाण-वेउव्वियाहारसररीरगोवंग-देवगदिपाओगाणुपुव्वि-वण्ण-गध-रस-फास-अगुरुचउक-पसत्थविहायगदि तसादिचउक-धिर-सुम-सुमग सुस्सरादेव्ज-णिमिण-तित्थयरमणिणदाण-मुक्कस्सेण तीससखावहारियाण जहण्णदो सत्तवीससखाविसेसिदाण बंधवोच्छेदो जादो । जयध. अ. प. १००९. कूदो पुदेसि परभवियसण्णा ? परमवसंबधिदेवगदीए सह बधपाओगत्तादो । जयध. अ. प. १०७४.

गुणसेठीणिकखेवो । तिस्से चैव अणियट्ठीअद्दाए पढमसमए अप्पसत्थउवसामणाकरण-  
णिधत्तीकरण-णिकाचणाकरणाणि वोच्छिण्णाणि<sup>१</sup> । एदेसिं करणाणं लक्खणगाहा—

<sup>२</sup>उदए संकम-उदए चदुसु वि दादुं कमेण णो सक्क ।

उवसंतं च णिधत्तं णिकाचिदं चावि जं कम्मं ॥ १८ ॥

आयुगवज्जाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए, द्विदिबंधो अंतोकोडीए<sup>३</sup>  
सदसहस्सपुधत्तं । तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अणियट्ठीअद्दाए संखेज्जा भागा  
गदा । तदो अणियट्ठीअद्दाए संखेज्जेसु भागोसु गदेसु असण्णिद्विदिबंधेण समगो द्विदि-  
बंधो<sup>४</sup> । तदो ठिदिबंधपुधत्ते गदे चउरिंदियठिदिबंधसमगो ठिदिबंधो जादो । तदो ठिदि-  
बंधपुधत्ते गदे तीइंदियठिदिबंधेण समगो ठिदिबंधो । तदो द्विदिबंधपुधत्ते गदे वीइंदिय-

गुणश्रेणीका निक्षेप है अर्थात् गलितशेष गुणश्रेणी होती है। उसी अनिवृत्तिकरण-  
कालके प्रथम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका उपशामनाकरण, निधत्तिकरण और निका-  
चनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न होते हैं। इन करणोंके लक्षणोंको सूचित करनेवाली  
गाथा यह है—

जो कर्म उदयमें न दिया जा सके वह उपशान्त, जो संक्रमण व उदय दोनोंमें  
ही न दिया जा सके वह निधत्त, तथा जो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण व उदय, चारोंमें  
ही न दिया जा सके वह निकाचितकरण है ॥ १८ ॥

आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंका स्थितिसत्त्व अन्तःकोडाकोडीप्रमाण और  
स्थितिवन्ध अन्तःकोडीके भीतर लक्षपृथक्त्वमात्र होता है। पश्चात् स्थितिकांडक-  
सहस्रोंके व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग चले जाते हैं। तब  
अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर असंज्ञीके स्थितिवन्धके समान  
स्थितिवन्ध होता है। तदनन्तर स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीत जानेपर चतुरिन्द्रियके  
स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है। तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीतनेपर  
त्रीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है। पुनः स्थितिवन्धपृथक्त्वके व्यतीत

१ प्रतिपु ' णिव्वत्ती-' इति पाठः ।

२ अणियट्ठिस्स य पढमे अण्णट्ठिदिखडपहुदिमारवई । उवसामणा णिघत्ती णिकाचणा तत्थ वोच्छिण्णा ॥  
लघ्वि २२६.

३ गो. क. ४४०.

४ अतोकोडाकोडी अतोकोडी य सत्त बंध च । सत्तण्ह पयडीणं अणियट्ठीकरणपडमभिह ॥ लघ्वि. २२७.

५ ठिदिबधसहस्सगदे सखेज्जा बादरे गदा भागा । तत्थ असण्णिस्स ठिदीसरिसट्ठिदिबधण होवि ॥  
लघ्वि. २२८,



द्विदिवंधेण समगो द्विदिवंधो जादो । तदो द्विदिवंधपुधत्ते गदे एइंदियद्विदिवंधेण समगो द्विदिवंधो' । तदो द्विदिवंधपुधत्ते गदे णामागोदाणं पलिदोवमद्विदिगो बंधो जादो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च तावे दिवद्धुपलिदोवमद्विदिगो बंधो, मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विदिगो बंधो जादो' । एदम्हि ठिदिवंधे समत्ते णामा-गोदाणं पलिदोवमद्विदिगादो द्विदिवंधादो जमणं द्विदिवंधं वंधिहिदि सो द्विदिवंधो संखेज्ज-गुणहीणो । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो पुव्वद्विदिवंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदि-भागेण हीणो । एत्तो पहुडि णामा-गोदाणं द्विदिवंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो अण्णो द्विदिवंधो होदि । सेसाणं कम्माणं जाव पलिदोवमद्विदिगं बंधं ण पावदि ताव पुण्णे द्विदिवंधे जो अण्णो द्विदिवंधो सो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । एवं द्विदि-बंधसहस्सेसु गदेसु णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमद्विदिगो बंधो, मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवमद्विदिगो बंधो जादो । तदो जो अण्णो णाणा-वरणादिचउण्हं पि द्विदिवंधो सो पुव्वद्विदिवंधादो संखेज्जगुणहीणो । मोहणीयस्स

होनेपर हीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है । पुनः स्थितिवन्धपृथक्त्वके वीतनेपर एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्ध-पृथक्त्वके व्यतीत होनेपर नाम व गोत्र कर्मोंका पल्योपमस्थितिवाला बन्ध होता है । उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका ड्येढ़ पल्योपम-स्थितिवाला और मोहनीयका दो पल्योपमस्थितिवाला बन्ध होता है । इस स्थिति-वन्धके समाप्त होनेपर नाम-गोत्रोंके पल्योपमस्थितिवाले स्थितिवन्धसे, जो अन्य स्थिति-वन्ध बंधेगा वह स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध पूर्व स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवै भागसे हीन है । यहांसे लेकर नाम व गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिवन्ध होता है । शेष कर्मोंका जब तक पल्योपमस्थितिवाला बन्ध नहीं प्राप्त होता तब तक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध है वह पल्योपमके संख्यातवै भागसे हीन है । इस प्रकार स्थिति-वन्धसहस्रोंके वीतनेपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका पल्योपमस्थितिवाला बन्ध, तथा मोहनीयका त्रिभाग अधिक पल्योपमस्थितिवाला बन्ध होता है । तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि चारों प्रकृतियोंका भी जो अन्य स्थितिवन्ध है वह पूर्व स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन है । मोहनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवै

१ ठिदिबधपुधत्तगदे पत्तेय चदुर तिय वि एएदि । ठिदिबधसम होदि हु ठिदिबधमण्णकमेणेव ॥  
लब्धि. २२९

२ एइंदियद्विदिदो सखसहस्से गदे हु ठिदिबधो । पल्लेकदिबद्धुगे ठिदिबधो वीसियतियाणं ॥ लब्धि २३०.

ट्टिदिवंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । तदो ट्टिदिवंधपुधत्ते गदे मोहणीयस्स वि पलिदोवमट्टिदिगो ठिदिवंधो जादो । तदो जो अण्णो ट्टिदिवंधो सो आयुगवज्जाणं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो होदि ।

एत्थ ट्टिदिवंधस्स अप्पावहुगं उच्चदे । तं जहा- णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं ट्टिदिवंधो तुल्लो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । एदेण अप्पावहुगविधिणा बहुसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं ( पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्टिदिवंधो जादो, मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं ट्टिदिवंधो ) पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव । एत्थ अप्पावहुगं- णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । चट्ठुहं कम्माणं ट्टिदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । एदेण अप्पावहुगविधिणा बहुसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चउण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्टिदिवंधो जादो । तावे अप्पावहुगं- णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । चट्ठुहं कम्माणं ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । एदेण अप्पावहुगविधिणा बहुसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्टिदिवंधो जादो । ताधे अप्पावहुगं- णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । चउण्हं कम्माणं ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो ।

भागसे हीन है । पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके व्यतीत होनेपर मोहनीयका भी पल्योपम-स्थितिवाला बन्ध होने लगता है । तदनन्तर जो अन्य स्थितिवन्ध है वह आयुको छोड़कर शेष कर्मोंका पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है ।

अब यहां स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व कहा जाता है । वह इस प्रकार है—नाम व गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है । मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होता हुआ संख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर नाम-गोत्र प्रकृतियोंका (स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भाग हो गया, किन्तु मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध) पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही है । यहां अल्पबहुत्व इस प्रकार है—नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर चार कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो जाता है । तब अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है—नाम गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर तब मोहनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हो जाता है । उस समय अल्पबहुत्वका क्रम यह है—नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे बहुत

एदेण कमेण बहुसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो एक्कसराहेण मोहणीयद्विदिवंधो कम्म-  
चउक्कद्विदिवंधादो असंखेज्जगुणहीणो जादो' । तावे अप्पावहुगं- णामा-गोदाणं द्विदि-  
वंधो थोवो । मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । चउण्हं कम्माणं द्विदिवंधो तुल्लो  
असंखेज्जगुणो । जाव मोहणीयस्स द्विदिवंधो उवरि आसी ताव असंखेज्जगुणो चैव  
आसी, असंखेज्जगुणादो' चैव असंखेज्जगुणहीणो जादो । एदेण अप्पावहुगविहिणां  
बहुसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णामा गोदद्विदिवंधादो एक्कसराहेण मोहणीयद्विदिवंधो  
असंखेज्जगुणहीणो जादो' । तावे अप्पावहुगं- मोहणीयद्विदिवंधो थोवो । णामा-गोदाणं  
द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो' । चउण्हं कम्माणं द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । एदेण  
कमेण बहुसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु एक्कसराहेण वेदणीयद्विदिवंधादो णाणावरण-  
दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो त्रिसेसहीणो वा अहोदूण असंखेज्ज-  
गुणहीणो चैव जादो' । तावे अप्पावहुगं- मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । णामा-गोदाणं

स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर तव एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध उपर्युक्त चार  
कर्मोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है । तव अल्पवहुत्व ऐसा होता है—  
नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है । मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा  
है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । जब तक मोहनीयका स्थितिवन्ध  
ऊपर अर्थात् चार कर्मोंसे अधिक था तब तक चार कर्मोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा  
ही था । परन्तु अब वह कर्मचतुष्टयसे असंख्यातगुणा अधिक न होकर असंख्यातगुणा  
हीन हुआ है । इस अल्पवहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर नाम-  
गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन  
हो जाता है । उस समय अल्पवहुत्व ऐसा होता है—मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक है ।  
नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य  
असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर एक साथ वेदनीयके  
स्थितिवन्धसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा  
हीन अथवा विशेष हीन न होकर असंख्यातगुणा हीन ही हो जाता है । उस समय  
अल्पवहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक है । नाम-गोत्र प्रकृतियोंका

१ मोहगपल्लासखद्विदिवंधसहस्सेसु तीदिसु । मोहो तीसियहेट्ठा असखगुणहीणय होदि ॥ लब्धि. २३३.

२ प्रतिष्ठु ' आसखेज्जगुणादो ' इति पाठ ।

३ प्रतिष्ठु ' -द्विदिणा ' इति पाठ ।

४ तैत्तियमेत्ते वधे समतीदे वीसियाण हेट्ठावि । एक्कसराहो मोहो असखगुणहीणय होदि ॥ लब्धि. २३४.

५ अ-प्रतौ ' असखेज्जगुणहीणो जादो ' इति पाठ ।

६ तैत्तियमेत्ते वधे समतीदे वेयणीयहेट्ठाडु । तीसियघादितियाओ असखगुणहीणया होंति ॥ २३५ ॥

द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । एदेण अप्पावहुगविधिणा बहुएसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु एककसराहेण तिण्हं कम्माणं द्विदिवंधो णामा-गोदाणं द्विदिवंधादो असंखेज्जगुणहीणो जादो । वेदणीयद्विदिवंधो वि तत्तो विसेसाहिओ जादो । तावे अप्पावहुगं-मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ठिदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । वेदणीयद्विदिवंधो विसेसाहिओ ।

एदेण अप्पावहुगविधिणा संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि कादूण उवरि गच्छ-माणस्स वज्जमाणपयडीणं द्विदिवंधो पल्लिदेवमस्स असंखेज्जदिभामो चैव । तदो असंखेज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणा च जादो । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु मणपज्जनणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणमणुभागो वंधेण

स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । वेदनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इस अल्पवहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर एक साथ तीनों कर्मोंका स्थितिवन्ध नाम-गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध भी नाम-गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिवन्धसे विशेष अधिक हो जाता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है ।

इस अल्पवहुत्वविधिसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंको करके ऊपर जानेवाले जीवके वध्यमान प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवै भागमात्र ही रहता है । तब असंख्यात समयप्रवद्धोकी उदीरणा भी होती है । पुनः संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग वन्धसे देशघाती होता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धोंके वीतनेपर अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शनावरणणीय और लाभान्तराय, इनका अनुभाग वन्धसे देशघाती हो

१ तेत्थियमेत्ते वधे समतीदे वीसियाण हेट्ठाडु । तीसियघादितियाओ असखगुणहीणया होंति ॥ त्तकाले वेयणियं णामागोदादु साहियं होदि । इदि मोहतीसवीसियवेयणियाण कम्मो जादो ॥ लब्धि २३६-२३७ ।

२ तीदे वधसहस्से पल्लासखेज्जय तु ठिदिवंधो । तत्थ असखेज्जाण उदीरणा समयपवद्धान ॥ लब्धि. २३८ ।

देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणा-  
वरणीय-भोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु गदेसु  
चक्खुदंसणावरणीयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधेसु  
गदेसु आभिणिवोहिय-परिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि । तदो संखेज्जेसु  
द्विदिवंधेसु गदेसु वीरियंतराइयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी होदि । एदेसिं कम्माणं  
सन्वो अक्खवगो अणुवसामगो च सन्वो सन्वघादिअणुभागं बंधदि । एदेसु कम्मेसु  
बंधेण देसघादित्तं पत्तेसु द्विदिवंधो मोहणीए थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइएसु  
द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदेसु द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीए द्विदिवंधो  
विसेसाहिओ ।

तदो देसघादिकरणादो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं चारसण्हं  
कसायाणं णवण्हं णोकसायाणं च करेदि । णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं । जं  
संजुलणं वेदयदि, जं च वेदं वेदयदि, एदेसिं दोण्हं कम्माणं पढमद्विदीओ अंतोमुहुत्ति-

जाता है । तत्पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिवन्धोके वीतनेपर श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षु-  
दर्शनावरणीय, और भोगान्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है । तत्पश्चात्  
पुनः संख्यात स्थितिवन्धोके व्यतीत होनेपर चक्षुदर्शनावरणीयका अनुभाग बन्धसे  
देशघाती हो जाता है । पश्चात् पुनः संख्यात स्थितिवन्धोके वीतनेपर मतिज्ञानावरणीय  
और परिभोगान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है । पश्चात् पुनः संख्यात  
स्थितिवन्धोके वीतनेपर वीर्यान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है । सब  
अक्षपक और सब ही अनुपशामक इन कर्मोंके सर्वघाती अनुभागको बांधते हैं । इन  
कर्मोंके बन्धसे देशघातित्वको प्राप्त होनेपर मोहनीयमें स्थितिवन्ध स्तोक होता है । ज्ञाना-  
वरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनमें स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । नाम व  
गोत्रमें स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयमें स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
होता है ।

इसके पश्चात् देशघातिकरणसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर चारह  
कषाय और नव नोकपायोंका अन्तरकरण करता है । अन्य कर्मका अन्तरकरण नहीं है ।  
जो संज्वलन उदयको प्राप्त है और जो वेद उदयको प्राप्त है, इन ( संज्वलनचतुष्कमेसे उदय-  
प्राप्त कोई एक और वेदत्रयमेंसे उदयप्राप्त कोई एक ) दोनो कर्मोंकी प्रथम स्थितियोंको

१ ठिदिवंधसहस्सगदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिदुग । लान व पुणो वि सुद अचक्खु भोग पुणो चक्खु ॥  
पुणरवि मदिपरिभोग पुणरवि विरियं कमेण अणुभागो । वधेण देसघादी पछासल तु ठिदिवधे ॥ लब्धि- २३९-३४०.

२ अस्माद्देशघातिकरणप्रारम्भात्प्रागवस्थाया ससारावस्थायां च सर्वघातिस्पर्धकात्तुमागमेव बन्धातीत्यर्थः ।  
लब्धि. २३९-२४० टीका.

३ तो देसघातिकरणादुवरिं तु गदेसु तत्तियपदेसु । इगिनीसमोहणीयाणतरकरण करेदीदि ॥ लब्धि. २४१.

याओ ठवेदूण अंतरकरणं करेदि',। पढमट्टिदीदो संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ एदेसिं दोण्हं कम्ममाणमंतरट्टमागाइदाओ । सेसाणमेक्कारसण्हं कसायाणमट्टण्हं णोकसायाणं च उदयावलियं मोत्तूण अंतरं करेदि । उवरि अंतरं समट्टिदी, हेट्टा विसमट्टिदी' । जावे अंतरमुक्कीरिदुमाटत्तं ताधे अण्णो ट्टिदिवंधो, अण्णो ट्टिदिखंडओ, अण्णो अणुभागखंडओ च आटत्तो' । अणुभागखंडयसहस्सेसु' गदेसु अण्णो अणुभागखंडओ, सो च ट्टिदिखंडओ, सो च ट्टिदिवंधो, अंतरस्स उक्कीरणट्टा च समगं पुण्णाणि । अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा वज्झंति, वेदिज्जंति य, तेसिं कम्ममाणमंतरट्टिदीओ उक्कीरंतो तासिं ट्टिदीणं पदेसगं बंधपयडीणं पढमट्टिदीए च देदि', विदियट्टिदीए च देदि' । जे कम्मंसा ण

अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थापित कर अन्तरकरण करता है। अन्तरके लिये इन दोनों कर्मोंकी स्थितियां प्रथमस्थितियोंसे संख्यातगुणी ग्रहण की जाती हैं। शेष ग्यारह कपाय और आठ नोकपायोकी उदयावलीको छोड़कर अन्तर करता है। अन्तरसे ऊपरके उदय व अनुदयरूप सब कपायोंके निपेक सदृश हैं। परन्तु अन्तरके नीचे उदय व अनुदयरूप प्रकृतियोंके निपेक प्रथमस्थितिके विपम होनेसे परस्परमें समान नहीं हैं। जब उक्त निपेकोंको उत्कीर्ण करनेके लिये अन्तरका प्रारम्भ होता है तब अन्य स्थितिबन्ध, अन्य स्थितिकांडक और अन्य ही अनुभागकांडकका आरम्भ होता है। अनुभागकांडकसहस्रोंके वीतनेपर अन्य अनुभागकाण्डक तथा वही स्थितिकांडक, वही स्थितिबन्ध और अन्तरका उत्कीरणकाल, ये एक साथ पूर्णताको प्राप्त होते हैं। अन्तरको करनेवालेके जो कर्मांश बंधते हैं और उदयमें रहते हैं उन कर्मोंकी अन्तरस्थितियोंको उत्कीर्ण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशाग्रको बन्धप्रकृतियोंकी प्रथमस्थितिमें भी देता है और द्वितीयस्थितिमें भी देता है। जो कर्मांश न बंधते हैं और न उदयको ही प्राप्त हैं, उनके उत्कीर्ण

१ सजलणाण एक्क वेदाणेक्क उदेदि त दोण्ह । सेसाणं पढमट्टिदि ठवेदि अतोमुहुत्त आवलिय ॥ लब्धि ५४२.

२ उवरि सम उक्कीरइ हेट्टा विसम तु मट्टिमपमाण । तदुपरि पढमट्टिदीदो संखेज्जगुणं हवे णियमा ॥ लब्धि. २४३. उवरि समट्टिदि अतर हेट्टा विसमट्टिदि अतर । सव्वेसिमेव कसायाणोकसायाणमुदइच्छाणमणुदइच्छाण च अतर चरिमट्टिदी सरिसी चेव होई, विदियट्टिदीए पढमणिसियस्स सव्वत्थ सरिसमावेणावट्टाणदसणादो । तदो उवरि समट्टिदि अतरमिदि वुत्तं । हेट्टा वुण विसरिसमतर होई, अणुदइच्छाण सव्वेसिं पि सरिसत्ते वि उदइच्छाणमण्णदरवेदसजलणाणमतोमुहुत्तमेत्तपढमट्टिदीदो परदो अतरपढमट्टिदीए समवट्टाणदसणादो । तदो पढमट्टिदीए विसरिसत्तमास्सियूण हेट्टा विसमट्टिदियमतर होदि चि मणिद । जयध. अ प. १०१४.

३ अतरपढमे अण्णो ठिदिवंधो ठिदिसाण खडो य । एयट्टिदिखडुक्कीरणकाले अंतरसमत्ती ॥ लब्धि. २४४.

४ अ-प्रतौ 'अणुभागखडयससहस्सेसु' आप्रतौ 'अणुभागखडयसहस्सेसु' इति पाठः ।

५ आप्रतौ 'चदेदि' मप्रतौ 'चदेदि' इति पाठः ।

बज्झंति, ण वेदिज्जंति य, तेसिमुक्कीरिज्जमाणपदेसग्गं, सट्टाणे ण देदि, बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु च देदि' । जे कम्मंसा बज्झंति, ण वेदिज्जंति तेसि-मुक्कीरिज्जमाणपदेसग्गं बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु देदि । एदेण कमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किण्णं ।

तावे चेव मोहणीयस्स आणुपुञ्चीसंक्रमो, लोभस्स असंक्रमो, मोहणीयस्स एग-ट्टाणीओ बंधो, णउंसयवेदस्स पढमसमयउवसामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगट्टाणीओ उदओ, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सट्टिदीओ बंधो, एदाणि सत्त करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति' ।

जधा संसारावत्थाए आवलियादिककंतमुदीरिज्जदि तथा एत्थ छावलियादि-क्कमणेण विणा आवलियादिककंतं किण्ण उदीरिज्जदि ? ण एस दोसो, खवगुवसामयाणं अक्खवग-अणुवसामगेहि साधम्माभावा । जो जाए जाईए पडिवण्णो, सो ताए चेव

किये जानेवाले प्रदेशाग्रको स्वस्थानमें नहीं देता है, बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण की जानेवाली स्थितियोंमें देता है । जो कर्माश बंधते हैं किन्तु उदयको प्राप्त नहीं हैं, उनके उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको बध्यमान प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण न की जानेवाली स्थितियोंमें देता है । इस क्रमसे उत्कीर्ण किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण हो गया ।

तभी मोहनीयका आनुपूर्वीसंक्रमण (१) लोभका असंक्रमण (२) मोहनीयका एकस्थानीय (लतासमान) बन्ध (३) नपुंसकवेदका प्रथमसमयवर्ती उपशामक (४) छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय (लतासमान) उदय (६) मोहनीयका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला बन्ध (७), ये सात करण अन्तर कर चुकनेके पश्चात् प्रथम समयमें होते हैं ।

शंका—जिस प्रकार संसारावस्थामें आवलिमात्र कालका अतिक्रमण होनेपर उदीरणा होती है, उसी प्रकार यहां छह आवलियोंके अतिक्रमणके विना आवलिमात्र कालके वीतनेपर क्यों नहीं उदीरणा होती ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, क्षपक और उपशामकोंकी अक्षपक और अनुपशामकोंके साथ समानता नहीं है । जो धर्म जिस जातिमें प्राप्त है वह उसी

१ अ-आप्रत्यो ' चडेदि ' इति पाठ

२ सत्त करणाणि यतरकदपढमे होंति मोहणीयस्स । इगिठाणियवधुदओ ठिदिवधे संखवस्सं च ॥ अणु-पुञ्चीसंक्रमण लोहस्स असकम च सदस्स । पढमोवसामकरण छावलितीदिसुदीरणदा ॥ लब्धि २४८-२४९.

जाईए होदि त्ति वोत्तुं जुत्तं, ण अण्णत्थ, अणवत्थावत्तीदो । तदो एत्थ बंधंसमयप्पहुडि  
छसु आवलियासु आइच्छिदासु उदीरणा होदि त्ति घेत्तव्वं ।

अंतरादो पढमसमयकदादो पाएण णउंसयवेदस्स आउत्तकरणउवसामओ, सेसाणं  
कम्माणं ण किंचि उवसामेदिं । जं पढमसमए पदेसग्गमुवसामेदि तं थोवं ।  
जं विदियसमए उवसामेदि तं असंखेज्जगुणं । जं तदियसमए पदेसग्गमुवसामेदि  
तमसंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामेदि जाव उवसंतमिदि ।  
णउंसयवेदस्स पढमसमयउवसामयस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स  
उदीरणा थोवा, उदओ असंखेज्जगुणो । णउंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयडिं संकामिज्ज-  
माणयमसंखेज्जगुणं, उवसामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । (एवं) जाव चरिमसमयउवसंतोत्ति उव-

जातिमें होता है, इस प्रकार कहना उचित है । परन्तु एक जातिमें प्राप्त धर्म अन्यत्र  
होता है, इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर अनवस्था दोष  
आता है । इसी कारण यहां बन्धसमयसे लेकर छह आवलियोंका अतिक्रमण होनेपर  
ही उदीरणा होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

अन्तरकरणके पश्चात् प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणसंयत नपुंसकवेदका  
आवृत्तकरणउपशामक होता है, शेष कर्मोंका किंचित् भी उपशाम नहीं करता है । जिस  
प्रदेशाग्रको प्रथम समयमें उपशान्त करता है वह स्तोक है । जिसे द्वितीय समयमें  
उपशान्त करता है वह असंख्यातगुणा है । जिस प्रदेशाग्रको तृतीय समयमें उपशान्त  
करता है वह उससे असंख्यातगुणा है । इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणीसे उमशान्त  
होने तक उपशामाता है । नपुंसकवेदके प्रथमसमयवर्ती उपशामकके जिस किसी भी कर्मके  
प्रदेशाग्रकी उदीरणा स्तोक है । उससे उदय असंख्यातगुणा है । अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण  
कराये जानेवाले नपुंसकवेदका प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इससे उपशान्त कराया  
जानेवाला प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार उपशान्त होनेके अन्तिम समय तक

१ अ-आप्रत्योः 'खंध-' इति पाठ ।

२ किमाउत्तकरणं णाम ? आउत्तकरणमुज्जतकरण पारंमकरणाभिदि एयट्ठो । तात्पर्येण नपुंसकवेदमितः  
प्रभवत्युपशमयतीत्यर्थः । जयध. अ प १०१९.

३ अ-प्रतौ 'कम्माण किंचि' इति पाठः ।

४ अतरकदपदमादो पडिसमयमसंखगुणविहाणकमेणुवसामेदि हु सढ उवसत जाण ण च अण्ण ॥  
लब्धि. २५२.

५ सदादिमउवसमगे इड्डस्स उदीरणा य उदओ य । सदादो सकामिद उवसमियमसखगुणियकमा ॥  
लब्धि. २५३.



सामिज्जमाणयपदेसमाहप्पजाणावणडुमप्पावहुगं कायव्वं । जावे पाए मोहणीयस्स ट्ठिदि-  
 वंधो संखेज्जवस्सट्ठिदिओ जादो' ताधे पाए ट्ठिदिवंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो ट्ठिदिवंधो  
 संखेज्जगुणहीणो' । मोहणीयवज्जाणं पुण कम्मणं णउंसयवेदमुवसामेतस्स ट्ठिदिवंधे पुण्णे  
 पुण्णे अण्णो ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणहीणो । अंतरकरणकदपढमसमयादो पड्डिडि मोह-  
 णीयस्स णत्थि ट्ठिदिघादो अणुभागघादो वा' । कुदो ? उवसंतपदेसग्गस्स ट्ठिदि-अणु-  
 भागेहि चलाणाभावा । उवसंतुवसामिज्जमाणमोहपयडीओ मोत्तूण सेसाणं दो घादा  
 किण्ण होंति ? ण, पुच्चमुवसंतपयडि-ट्ठिदिसंतकम्मादो पच्छा उवसंतपयडि-ट्ठिदिसंत-  
 कम्मस्स संखेज्जगुणहीणत्तप्पसंगादो । एवं संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु णउंसयवेदो  
 उवसामिज्जमाणो उवसंतो' ।

उपशान्त किये जानेवाले प्रदेशका माहात्म्य जाननेके लिये उक्त प्रकार अल्पवहुत्व करना  
 चाहिये । जबसे लेकर मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यात वर्णमात्र स्थितिवाला होता  
 है तबसे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन  
 होता है । पुनः नपुंसकवेदका उपशम करनेवालेके मोहनीयके अतिरिक्त शेष कर्मोंके  
 प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन होता है । अन्त-  
 रकरण करनेके पश्चात् प्रथम समयसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात व अनुभागघात नहीं  
 है, क्योंकि, उपशान्त हुए प्रदेशाग्रके स्थिति व अनुभागसे चलन अर्थात् हानि-वृद्धिका  
 अभाव है ।

शंका—उपशान्त हुई व उपशमको प्राप्त होनेवाली मोहप्रकृतियोंको छोड़कर  
 शेष प्रकृतियोंके उक्त दो घात क्यों नहीं होते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेपर पूर्वमें उपशान्त हुई प्रकृतियोंके स्थिति-  
 सत्त्वसे पीछे उपशान्त होनेवाली प्रकृतियोंके स्थितिसत्त्वको संख्यातगुणी हीनताका  
 प्रसंग आवेगा ।

इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर उपशमको प्राप्त कराया  
 जानेवाला नपुंसकवेद उपशान्त हो जाता है ।

१ प्रतिषु ' जाधे ' इति पाठ ।

२ जत्तो पाये होदि हु ठिदिवंधो सखवस्समेत्त तु । तत्तो सखगुणूण वंधोसरणतु पयडीणं ॥  
 लब्धि. २५५.

३ अतरऋणादुत्तरिं ठिदिरसखडा ण मोहणीयस्स । ठिदिवंधोसरण पुण संखेज्जगुणेण हीणकम ॥  
 लब्धि २५४.

४ एव संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सगेसु तीदेसु । सद्धवसमदे तत्तो इत्थि च तहेव उवसमदि ॥ लब्धि. २५८.

णउंसयवेदे उवसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो, पुरिसवेदोदएण उवसमसेडिमा-  
रोहणादो । ताधे चैव अपुन्वो द्विदिखंडओ, अपुन्वो अणुभागखंडओ, अपुन्वो चरिम-  
द्विदिवंधो पत्थिदो । जेण कमेण<sup>१</sup> णउंसयवेदो उवसामिदो तेणेव कमेण इत्थिवेदं पि गुण-  
सेडीए उवसामेदि । एवं द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदं च<sup>२</sup> उवसामेदि । एवं द्विदिवंध-  
सहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदस्स उवसामगद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णाणावरण-दंसणावरण-  
अंतराइयाणं संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो होदि । जाधे संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो ताधे चैव  
एदासिं तिण्हं मूलपयडीणं केवलणाणावरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासि-  
मेगट्टाणिओ बंधो<sup>३</sup> । जत्तो<sup>४</sup> पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्स-  
द्विदिओ बंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो द्विदिवंधो सो संखेज्जगुणहीणो । तम्हि समए सव्व-  
कम्माणमप्पाचहुअं । तं जहा— सव्वत्थोवो मोहणीयस्स द्विदिवंधो । णाणावरण-दंसणा-  
वरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो ।  
वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु

नपुंसकवेदके उपशान्त हो जानेपर अनन्तर कालमें स्त्रीवेदका उपशामक होता है, क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे उपशमश्रेणीका आरोहण हुआ था । उसी समयमें अपूर्व स्थिति-कांडक, अपूर्व अनुभागकांडक और अपूर्व अन्तिम स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है । जिस क्रमसे नपुंसकवेदका उपशम किया था उसी क्रमसे स्त्रीवेदको भी गुणश्रेणीसे उपशमाता है । इस प्रकार स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर वह स्त्रीवेदको भी उपशमाता है । इस प्रकार स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर जब स्त्रीवेदके उपशामककालका संख्यातवां भाग बीत जाता है तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है । जिस समयमें संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है उसी समय ही इन तीन मूल प्रकृतियोंकी केवलज्ञानावरणको छोड़कर जो शेष उत्तर-प्रकृतियां हैं उनका एकस्थानिक अनुभागबन्ध होने लगता है । जहांसे लेकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध है उसके पूर्ण होनेपर जो अन्य बन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है । उस समयमें सब कर्मोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार है—मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । ज्ञानावरण, दर्शना-वरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम-गोत्रका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस क्रमसे संख्यात

१ प्रतिष्ठा ' कमेण ' इति पाठ ।

२ प्रतिष्ठा ' इत्थिवेदस्स ' इति पाठ ।

३ धीयद्धा सखेज्जदिभागेपगदे तिघादिठिठिद्वधो । सखतुव रसबधो केवलणाणेगठण तु ॥ लब्धि. २५९.

४ प्रतिष्ठा ' जथो ' इति पाठ ।

इत्थिवेदो उवसामिदो ।

इत्थिवेदे उवसंते से काले सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामओ' । ताथे चेव अण्णो द्विदिखंडओ अण्णो अणुभागखंडओ च आगाइदो, अण्णो च द्विदिवंधो पवट्ठो । एवं संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो गामा-गोद-वेदणीयाणं कम्मणं संखेज्जवरसद्विदिगो वंधो' । ताथे द्विदिवंधस्स अप्पावहुगं । तं जधा- सच्चत्थोवो मोहणीयस्स द्विदिवंधो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । गामा-गोदाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो त्रिसेसाहिओ । एदस्सिह द्विदिवंधे पुण्णे जो अण्णो द्विदिवंधो सो सच्चकम्मणं पि अप्पप्पणो द्विदिवंधादो संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उवसामिज्जमाणा उवसंता । णवरि पुरिसवेदस्स समरुणवेआवलियवद्वा अणुव-संता' । तस्समए पुरिसवेदस्स द्विदिवंधो सोलस वस्साणि । संजुलणाणं द्विदिवंधो वत्तीस

स्थितिवन्धसहस्रांके वीतनेपर खीवेदका उपशम हो चुकता है ।

खीवेदके उपशान्त होनेपर अनन्तर कालमें सात नोकपायोका उपशामक होता है । उसी समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य ही अनुभागकांडक ग्रहण किया जाता है, तथा अन्य ही स्थितिवन्ध वंधता है । इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रांके वीतनेपर जब सात नोकपायोके उपशामककालका संख्यातवां भाग वीत जाता है तब नाम, गोत्र व वेदनीय, इन कर्मोंका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला वन्ध होने लगता है । तब स्थितिवन्धका अल्पवहुत्व इस प्रकार होता है—मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । नाम व गोत्रका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह सब कर्मोंका ही अपने अपने स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है । इस क्रमसे स्थितिवन्धसहस्रांके वीतनेपर उपशान्त की जानेवाली सात नोकपायोका उपशम हो चुकता है । विशेष इतना है कि पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलिमात्र समयप्रवद्ध अभी अनुपशान्त है । उस समयमें पुरुषवेदका स्थितिवन्ध सोलह वर्ष, संज्वलनचतुष्टयका स्थितिवन्ध

१ थीउवसमिदणतरसमयादो सत्तणोक्सायाणं । उवसमगो तस्सद्धामखेज्जदिमे गदे तत्तो ॥ लब्धि. २६०.

२ णामदुग वेयणीयद्विदिवंधो सखवस्सय होदि । एव सत्तकसाया उवसता सेसमागते ॥ लब्धि. २६१.

३ णवरि य पुवेदस्स य णवक समरुणदोणिणआवलिय । मुच्चा सेस सच्चं उवसंते होदि तच्चरिमे ॥ लब्धि. २६२.

वस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिग्धो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' ।

पुरिसवेदस्स पढमट्टिदीए जाधे वे आवलियाओ सेसाओ ताधे आगाल-पडि-  
आगालो वोच्छिण्णो' । अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संछुभदि पुरिसवेदे,  
कोधसंजलणे संछुहदि, आणुपुव्वीसंक्रमत्तादो' । जो पढमसमयअवेदो तस्स पुरिसवेदस्स  
दुग्गमऊणदोआवलियासु वद्धा अणुवसंता, तेसिं पदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामि-  
ज्जदि । परपयडीए पुण अथापवत्तसंक्रमेण संक्रामिज्जदि' । पढमसमयअवेदेण संक्रा-  
मिज्जमाणपदेमग्गं बहुअं । से काले विसेसहीणं । एस कमो जाव सव्वमुवसंतं इदि । जोग-  
समयपवद्धमधिकिच्च एदं उत्तं, जोगापत्ताणं णाणासमयपवद्धाणं उत्तकमाणुववत्तीदो' ।

वर्त्तीस वर्ष, और शेष कर्मांका स्थितिग्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है ।

पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें जब दो आवलियां शेष रहती हैं तब आगाल व  
प्रत्यागालका व्युच्छेद हो जाता है । अन्तरकरणसमाप्तिसमयसे लेकर हास्यादिक छह  
नोकपायोंके प्रदेशाग्रको पुरुषवेदमें स्थापित नहीं करता है, किन्तु आनुपूर्वीसंक्रमण  
होनेसे संञ्चलनक्रोधमें स्थापित करता है । जो प्रथम समय अपगतवेदवाला है उसके  
पुरुषवेदके दो समय कम दो आवलिमात्र समयप्रवद्ध जो अनुपशान्त हैं उनके प्रदेशाग्रको  
वह असंख्यातगुणी श्रेणीद्वारा उपशान्त करता है । पुनः अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा परप्रकृति  
(संञ्चलनक्रोध) में संक्रमण करता है । प्रथम समय अपगतवेदीद्वारा संक्रमण कराया  
जानेवाला प्रदेशाग्र अनिचृत्तिकरणसम्बन्धी अवेदभागके प्रथम समयमें बहुत है । अनन्तर  
कालमें विशेष हीन है । यह विशेषहीनक्रम पूर्ण उपशान्त होनेतक जानना चाहिये ।  
योगसे प्राप्त समयप्रवद्धका अधिकार करके यह क्रम कहा गया है, क्योंकि, योगसे अप्राप्त  
नाना समयप्रवद्धोंके उक्त क्रम बन नहीं सकता ।

१ तच्चोरिमे पुत्रो सोलगग्गमाणि सजलणगाण । तद्दुगाण सेसाणं सखेज्जमहस्सवस्साणि ॥ लघि. २६३.

२ पुरिसस्स य पढमट्टिदी आवलिट्ठोसुव्वरिदाए आगाला । पडिआगाला छिण्णा पडिगावलियादुदीरणदा ॥  
लघि. २६४.

३ अतरकदाहु छण्णोस्सायदव्व ण पुरिसग्गे देदि । एदि तु सजलणस्स य कोधे अणुपुव्विसंक्रमदो ।  
लघि. २६५.

४ पुरिसस्स उत्तमग्गं अतएग्गणियक्रमेण उवसमदि । संक्रमदि हु हीणक्रमेणधापवत्तेण हरेण ॥  
लघि. २६६.

५ प्रतिपु ' एगममय - ' इति पाठ ।

६ चतु स्थानपतितहानि-वृद्धिपरिणतयोगगचितसमयप्रवद्धानां द्रव्यहीनाधिकमात्रमाश्रित्य तत्संक्रमण-  
प्रवृत्त्यापि चतु स्थानहानिवृद्धिक्रमस्य प्रवचनयुक्तया प्रवृत्तिर्दिशिता ॥ लघि. २६६ टीका.

पठमसमयअवेदस्स संजलणाणं द्विदिवंधो वत्तीस वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि ।  
 सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>१</sup> । पठमसमयअवेदो तिविहं कोह-  
 मुवसामेदि । सा चेव हेट्ठाणिया पठमट्ठिदी हवदि । द्विदिवंधे पुण्णे पुण्णे संजलणाण-  
 मण्णो द्विदिवंधो विसेसहीणो होदि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो ।  
 एदेण कमेण जाधे आवलिय-पडिआवलियाओ कोहसंजलणस्स सेसाओ ताधे विदिय-  
 ट्ठिदीदो आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो, पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोधसंज-  
 लणस्स । पडिआवलियाए<sup>२</sup> एकम्मिह समए सेसे कोहसंजलणस्स जहणिया द्विदि-उदीरणा ।  
 चउण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्स-  
 सहस्साणि<sup>३</sup> । पडिआवलिया उदयावलियं पविस्समाणा पविट्ठा<sup>४</sup> । ताधे चेव कोह-  
 संजलणे<sup>५</sup> दो आवलियबंधे दुसमरुणे मोत्तूण सेसतिविहकोहपएसा उवसामिज्जमाणा  
 उवसंता<sup>६</sup> । कोहसंजलणे दुविहो कोहो ताव संलुब्भदि जाव कोहसंजलणस्स पठमट्ठिदीए

प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदीके संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम  
 वत्तीस वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । प्रथम-  
 समयवर्ती अपगतवेदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इस तीन प्रकारके  
 क्रोधको उपशमाता है । वही अधस्तनस्थानिक प्रथमस्थिति है । प्रत्येक स्थितिवन्धके  
 पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुष्कका अन्य स्थितिवन्ध विशेष हीन होता है । शेष कर्मोंका  
 स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है । इस क्रमसे जब संज्वलनक्रोधकी आवली व  
 प्रत्यावली ही शेष रहती हैं तब द्वितीयस्थितिसे आगालप्रत्यागालोंकी व्युच्छित्ति  
 हो जाती है । तब प्रत्यावली अर्थात् द्वितीय आवलीसे ही उदीरणा होती है । प्रत्यावलीमें  
 एक समय शेष रहनेपर संज्वलनक्रोधकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है । इस समय  
 चार संज्वलनकषायोंका स्थितिवन्ध चार मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात  
 वर्षसहस्रमात्र होता है । प्रत्यावली उदयावलीमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी । उसी  
 समय दो समय कम दो आवलिमात्र संज्वलनक्रोधके समयप्रवर्द्धोंको छोड़कर उपशान्त  
 किये जानेवाले शेष तीन प्रकारके क्रोधप्रदेश उपशान्त हो चुकते हैं । संज्वलनक्रोधकी

१ पठमावेदे संजलणाणं अंतोमुहुत्तपरिहीणं । वस्साणं वत्तीसं सखसहसिसयरगाणं द्विदिवंधो ॥ लब्धि. २६७.

२ प्रतिपु 'पडिआवलिया' इति पाठः ।

३ पठमावेदो तिविहं कोह उवसामेदि पुच्चपठमठिदी । समयाहियआवलियं जाव य तक्कालद्विदिवंधो ॥  
 संजलणचउक्काणं मासचउक्कं तु सेसपयडीणं । वस्साणं सखेज्जसहस्साणि हवति गियमेण ॥ लब्धि. २६८-२६९.

४ अप्रतौ 'पविस्समाणा विट्ठा', अप्रतौ 'पविस्समाणा पविट्ठा' इति पाठः ।

५ अप्रतौ '-संजलणा', अप्रतौ '-संजलण-' इति पाठः ।

६ संज्वलनक्रोधस्य प्रथमस्थितौ उच्छिष्टावलिमात्रावशेषायापुपशमनावलिचरमसमये क्रोधत्रयद्रव्य सम-  
 योनद्वधावलिमात्रसमयप्रवर्द्धनवक्रोधं मृत्त्वा पूर्वोक्तविधानेन चरमफालिरूपेण निरवशेष स्वस्थाने एवोपशमयति ।  
 लब्धि. २७१ टीका.

तिणिण आवलियाओ सेसाओ त्ति । तिसु आवलियासु समऊणासु सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोधो कोधसंजुलणे' ण संलुब्भदि, माणसंजुलणे संलुब्भदि' । जाधे कोधसंजुलणस्स पढमट्टिदीए समऊणा आवलिया सेसा ताधे चेव कोधसंजुलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा' ।

माणसंजुलणस्स पढमसमयवेदगो पढमट्टिदिकारओ च । पढमट्टिदिं करेमाणो उदए पदेसगं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं' । एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए जादिं जाव पढमट्टिदीए चरिमसमओ त्ति । विदियट्टिदीए जा आदिट्टिदी तिससे असंखेज्जगुणहीणं देदि, तदो' विसेसहीणं देदि । एवं जाव अप्पप्पणो अइच्छावणावलियमपत्तमिदि' ।

प्रथमस्थितिमें तीन आवलियां शेष रहने तक दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान) क्रोधको संज्वलनक्रोधमें स्थापित करता है। एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर तबसे लेकर उक्त दोनों प्रकारके क्रोधको संज्वलनक्रोधमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु संज्वलनमानमें स्थापित करता है। जब संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम आवलिमात्र शेष रहती है तभी संज्वलनक्रोधका बन्ध व उदय व्युच्छिन्न हो जाता है।

उस समयम संज्वलनमानका प्रथम समय वेदक और प्रथम-स्थितिका कर्ता भी होता है। प्रथमस्थितिको करनेवाला उस कालमें उदयमें स्तोक प्रदेशाग्रको देता है। अनन्तर कालमें असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणीद्वारा प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक देता चला जाता है। द्वितीयस्थितिमें जो आदि स्थिति है उसमें असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है। तत्पश्चात् विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है। इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अति-स्थापनावली अप्राप्त है तब तक उक्त क्रमसे देता चला जाता है। जब संज्वलनक्रोधका

१ प्रतिपु 'दुविहो कोधसंजुलणे' इति पाठ ।

२ कोहदुग सजुलणगरोहे सउहदि जाव पढमठिदी । आवलितियं तु उवरिं संलुब्भदि दु माणसंजुलणे ॥ लब्धि. २७०.

३ कोहस्स पढमठिदी आवलमेसे तिकोहपुवसत । ण य णवक तत्थतिमवधुदया हीति कोहस्स ॥ लब्धि २७१.

४ से काले माणस्स य पढमट्टिदिकारवेदगो होदि । पढमट्टिदिमिं दव्व असखगुणियक्कमे देदि ॥ लब्धि २७२.

५ प्रतिपु 'जदि' इति पाठ ।

६ प्रतिपु 'कुदो' इति पाठः ।

७ पढमट्टिदिर्सासादो विदियादिमिंह य असखगुणहीण । तत्तो विसेसहीणं जाव अइच्छावणमपत्तं ॥ लब्धि. २७३.

जाधे कोधस्स वंधोदया वोच्छिण्णा ताधे पाए तिविहस्स माणस्स उवसामओ । ताधे संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा अतोमुहुत्तेण उणया, सेसाणं कम्माणं टिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । माणमंजलणस्स पढमट्टिदीए तिसु आवलियासु समउणासु सेसासु दुविहो माणो माणसंजुलणे ण संखुब्भदि, मायासंजलणे संखुब्भदि । पडिआव-  
लियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । पडिआवलियाए एककम्हि समए सेसे  
माणसंजलणस्स समउणदोआवलियमेत्तवंधे मोत्तूण सेसतिविहस्स माणस्स संतकम्ममुव-  
संतं । ताधे माण-माया-लोभसंजलणाणं दुमामट्टिदिओ वंधो । सेसाणं कम्माणं संखे-  
ज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>१</sup> ।

तदो से काले मायासंजलणमोक्कट्टिदूण मायामंजलणस्स पढमट्टिदिं करेदि<sup>२</sup> ।  
ताधे पाए तिविहाए मायाए उवसामओ । माया-लोहसंजलणाणं द्विदिवंधो वे मासा

बन्ध व उदय व्युच्छित्तिको प्राप्त हुआ था तभीसे तीन प्रकारके मानका उपशामक होता है । उस समय संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मासप्रमाण होता है, तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षमात्र होता है । संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान) मानन्ते संज्वलनमानमें नहीं स्थापित करता है, किन्तु संज्वलनमायामें स्थापित करता है । प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छित्तिको प्राप्त हो जाते हैं । प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहनेपर संज्वलनमानके एक समय कम दो आवलिमात्र समयप्रवद्धोंको छोड़कर शेष तीन प्रकारके मानका सत्य उपशमको प्राप्त हो चुकता है । तब संज्वलन मान, माया और लोभ, इनका दो मासप्रमाण स्थितिचाला बन्ध होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है ।

तत्पश्चात् अनन्तर कालमें संज्वलनमायाका अपकर्षण कर संज्वलनमायाकी प्रथमस्थितिको करता है । तबसे तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है । संज्वलन-

१ माणइयं सजलणगमाणे सट्टिदि जात्र पढमट्टिदी । आवलितिय तु उवरीं माणसजत्पणे य सट्टिदि ॥  
लघ्वि. २७५.

२ माणस्स य पढमट्टिदी आवलिसेसे तिसाणमुवसत । ण य णवक्क तदतिनवधुदया होति माणस्स ॥  
लघ्वि. २७६.

३ माणस्स य पढमट्टिदी सेसे समयाहिया तु आवलियं । तियसजलणगवंधो दुमास सेसाण चोहआलावो ॥  
लघ्वि. २७४.

४ से काले मायाए पढमट्टिदिकारवेदगो होदि । माणस्स य आलावो द्वस्स विमंजण तत्थ ॥  
लघ्वि. २७७.

अंतोमुहुत्तेण ऊणया । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिखंडयं' पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । जं तं माणसंतकम्मं उदयावलियाए समऊणाए तं मायाए थिउक्कसंकमेण' उदए विपच्चिहिदि' । जे माणस्स दोण्हमावलियाणं दुसमऊणाणं समयपवद्धा अणुवसंता, ते य गुणसेडीए उवसामिज्जमाणे दोहि आवलियाहि दुसमऊणाहि उवसामेदि' । जं प्रदेसगं मायाए संकमदि तं समयं पडि विसेसहीणाए सेडीए संकमदि । एसा परूवणा मायाए पढमसमयउवसामयस्स । एत्तो द्विदिखंडयसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो मायाए पढमद्विदीए तिसु आवलियासु समऊणासु सेसासु दुविहा माया मायासंजलणे ण संलुभदि, लोभसंजलणे संलुभदि' । पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो

माया और लोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तसे कम दो मासप्रमाण होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । शेष कर्मोंका स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र होता है । एक समय कम उदयावलिमात्र जो यह मानका सत्व है वह स्तिवुकसंकमणद्वारा मायाके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा । मानके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं वे भी गुणश्रेणीद्वारा उपशमको प्राप्त होते हुए दो समय कम दो आवलियोंसे उपशान्त हो चुकते हैं । जो प्रदेशात्र मायामें संक्रमण करता है वह प्रत्येक समयमे विशेष हीन श्रेणीके द्वारा संक्रमण करता है यह प्ररूपणा मायाके प्रथम समय उपशमककी है । यहांसे बहुत स्थितिकांडकसहस्र व्यतीत होते हैं । तब मायाकी प्रथमस्थितिमें एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर दो प्रकारकी माया ( अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान ) को संज्वलनमायामें नहीं स्थापित करता है, किन्तु संज्वलनलोभमें स्थापित करता है । प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल

१ प्रतिपु ' द्विदिवधो ' इति पाठ ।

२ पट्ठ १, ७, १६. मा ५, पृ. २१०. अनुदीर्णाया अनुदयप्राप्ताया सत्क यत्कर्मदलिक सजातीय-प्रकृतावुदयप्राप्ताया समानकालस्थितौ सक्रम्य चानुभवति यथा मनुजगतावुदयप्राप्तायां शेषगतित्रयमेकेन्द्रियजातौ, जातिचतुष्टयमित्यादि स स्तिवुकमक्रम. । कर्मप्रकृति पृ. १२५, गा. ७१. को त्थिवुकसकमो णाम ? उदयसरूवेण समद्विदीए जो संकमो सो त्थिवुकसकमो ति मण्णदे . जयध. अ. प १०२५

३ तदैव सज्वलनमानोच्छिष्टावलिनिषेका. थिउक्कसकमेण सज्वलनमायोदयावलिनिषेकेषु समस्थितिकेषु सक्रम्योदेष्यति ॥ लब्धि २७७ टीका.

४ सज्वलनमानस्य समयोनद्वयावलिमात्रा नवभवधसमयप्रवद्धाश्च तदैव समयोनद्वयावलिमात्रकालेनोप-शाम्यते ॥ लब्धि २७७-टीका

५ मायदुगं सजलणगमायाए ल्हदि जाव पढमठिदी । आवलितियं तु उवरिं सल्लहिदि हु. लोहसजलणे ॥ लब्धि. २७९.



वोच्छिण्णो । समययाहियावलियाए सेसाए मायाए चरिमसमयउवसामओ मोत्तूण दो-  
आवलियबंधे समऊणे । ताथे माया-लोहसंजलणणं द्विदिवंधो मासो, सेसाणं कम्माणं  
द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो से काले मायासंजुलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ।  
मायसंजुलणस्स पढमट्टिदीए जा समऊणा आवलिया सेसा सा थिउक्कसंक्रमेण लोभे  
विपच्चिहिदि ।

ताथे चेव लोभसंजलणमोकट्टिदूण लोभस्स पढमट्टिदिं करेदिं । एत्तो पाए  
जा लोभवेदगद्धा तिस्से लोभवेदगद्धाए वेत्तिभागपमाणं । ताथे लोभसंजलणस्स द्विदि-  
बंधो मासो अंतोमुहुत्तूणो । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो संखेजेहि  
द्विदिवंधसहस्सेहि गदेहि तिस्से लोभस्स पढमट्टिदीए अद्धं गदं । तदो तस्स अद्धस्स  
चरिमसमए लोभसंजलणस्स द्विदिवंधो दिवसपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो वस्स-  
सहस्सपुधत्तं ।

व प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर एक  
समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवर्द्धोंको छोड़कर शेष (तीन प्रकारकी) मायाका  
अन्तिम समयवर्ती उपशामक होता है । उस समय संज्वलन माया व लोभका  
स्थितिवन्ध एक मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात (सहस्र) वर्षमात्र होता  
है । तब उसी समयमें वन्ध व उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं । संज्वलनमायाकी प्रथम-  
स्थितिमें जो एक समय कम आवली शेष रही है वह स्तिबुकसंक्रमणद्वारा लोभमें  
विपाकको प्राप्त होगी ।

उसी समय लोभसंज्वलनका अपकर्षण कर लोभकी प्रथमस्थितिको करता है ।  
यहांसे लेकर जो लोभवेदककाल है उस लोभवेदककालके दो त्रिभागप्रमाण लोभकी  
प्रथमस्थिति की जाती है । उस समय संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम एक  
मासप्रमाण होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातसहस्र वर्षमात्र होता है । तत्पश्चात्  
संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके बीत जानेपर लोभकी उस प्रथमस्थितिका काल समाप्त  
होता है । तब उस कालके अन्तिम समयमें संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्व-  
प्रमाण होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध वर्षसहस्रपृथक्त्वमात्र होता है ।

१ मायाए पढमट्टिदी आवलिसेसे चिमायपुवसत । ण य णवरु तत्थतिमबंधुदया होति मायाए ॥  
लब्धि. २८०.

२ मायाए पढमट्टिदि सेसे समययाहियं तु आवलिय । मायालोहगवन्धो मास सेसाण कोहआलाओ ॥  
लब्धि. २७८ शेषकर्मणां क्रोधवदालाप कर्तव्यः पूर्वोक्ताल्पवहुत्वेन संख्यातवर्षसहस्रमात्रवर्षस्थितिरित्यर्थः ।  
लब्धि. २७८ टीका.

३ से काले लोहस्स य पढमट्टिदिकारवेदगो होदि ॥ लब्धि. २८१.

४ पढमट्टिदिअद्धते लोहस्स य होदि दिण्णुपुधत्त तु । वस्ससहस्सपुधत्त सेसाण होदि ठिदिनवो ॥  
लब्धि. २८२.

से काले विदिय-तिभागस्स पढमसमए लोभसंजलणअणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफह्यं तस्स हेड्डो अणुभागकिट्ठीओ करेदि । तासिं पमाणमेगफह्यवग्गणाणमणंत-भागो' । पढमसमए बहुआओ किट्ठीओ कदाओ । से काले अपुच्चाओ असंखेज्जगुण-हीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेज्जगुणहीणाओ । जं पदेसग्गं पढमसमए किट्ठीओ करेतेण' किट्ठीसु णिक्खित्तं तं थोवं । से काले असंखेज्ज-गुणं । एवं जाव चरिमसमओ त्ति असंखेज्जगुणं । पढमसमए जहण्णिगाए किट्ठीए पदेसग्गं बहुअं, विदियाए पदेसग्गं विसेसहीणं । एवं जाव चरिमाए किट्ठीए पदेसग्गं विसेसहीणं । विदियसमए जहण्णियाए किट्ठीए पदेसग्गं पढमसमयकदपढमकिट्ठीए पदेसग्गादो असंखेज्जगुणं, विदियाए विसेसहीणं । एवं जाव ओघुक्कस्सियाए' विसेस-हीणं । उवरि फह्यस्स आदिवग्गणाए अणंतगुणहीणं । उवरि सन्वत्थ विसेसहीणं । जघा विदियसमए तथा सेसेसु समएसु । तिव्व-मंददाए जहण्णिया किट्ठी थोवा, विदिय-किट्ठी अणंतगुणा, तदियकिट्ठी अणंतगुणा । एवमणंतगुणाए सेडीए गच्छदि जाव

अनन्तरकालमें द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें संज्वलनलोभके अनुभागसत्वका जो जघन्य स्पर्धक है उसके नीचे अनुभागकृष्टियोंको करता है। उन अनुभागकृष्टियोंका प्रमाण एक स्पर्धककी वर्गणाओंका अनन्तवां भाग है। प्रथम समयमें बहुत अनुभाग-कृष्टियां की जाती हैं। अनन्तर कालमें अपूर्व कृष्टियां असंख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणी हीन होती गई हैं। कृष्टियां करने-वाला प्रथम समयमें जिस प्रदेशाग्रको कृष्टियोंमें निश्चित करता है, वह स्तोक है। इसके अनन्तर समयमें वह असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार वह अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा होता जाता है। प्रथम समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत, द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष हीन, इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक प्रदेशाग्र विशेष हीन दिया जाता है। द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र प्रथम समयमें की गई प्रथम कृष्टिके प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणा, द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष हीन, इस प्रकार द्वितीय समयसम्यन्धी समस्त कृष्टियोंमें उक्त कृष्टि तक प्रदेशाग्र विशेष हीन दिया जाता है। ऊपर स्पर्धककी आदि वर्गणामें अनन्तगुणा हीन और इससे ऊपर सर्वत्र विशेष हीन है। जैसा क्रम द्वितीय समयमें है वैसा ही क्रम शेष समयोंमें भी है। तीव्रता व मन्दतासे जघन्य कृष्टि स्तोक है, द्वितीय कृष्टि अनंतगुणी है, तृतीय कृष्टि अनन्तगुणी है। इस

१ विदियद्धे लोमावरफडुयहेड्डा करेदि (साक्किं) । इगिफडुयवग्गणगदसखाणमणतमागमिद ॥ लब्धि. २८३.

२ प्रतिपु ' करतिण ' इति पाठ. ।

३ जयध. अ. पत्र १०२८.

चरिमकिट्टी ति । एसो विदियतिभागो किट्टीकरणद्वा गाम ।

किट्टीकरणद्वाए संखेज्जेसु भागेषु गदेषु लोभसंजुलणस्स अंतोमुहुत्तट्टिदिगो वंधो । तिण्हं कम्मणं ट्टिदिवंधो दिवसपुधत्तं । जाव किट्टीकरणद्वाए दुचरिमो ट्टिदिवंधो ताव गामा-गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्टिदिवंधो । किट्टीकरणद्वाए चरिमो ट्टिदिवंधो लोभसंजुलणस्स अंतोमुहुत्तओ । गाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमहो-रत्तस्संतो । गामा-गोद-वेदणीयाणं वेण्हं वस्साणमंतो । तिस्से किट्टीकरणद्वाए तिसु आवलियासु समऊणासु सेसासु दुविहो लोभो लोभसंजुलणे ण संकामिज्जदि, सत्याणे चैव उवसामिज्जदि । किट्टीकरणद्वाए आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिणो । पडिआवलियाए एक्कम्मिह समए सेसे लोभसंजुलणस्स जह-णिण्या ट्टिदिउदीरणा । ताधे चैव समऊणदोआवलियमेत्ता लोभसंजुलणस्स समय-

प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणी श्रेणीका क्रम चला जाता है । इस द्वितीय त्रिभागका नाम कृष्टिकरणकाल है ।

कृष्टिकरणकालके संख्यात भागोंके वीत जानेपर संज्वलनलोभका अन्तर्मुहूर्त स्थितिवाला बन्ध होता है । तीन कर्मोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्वमात्र होता है । जब तक कृष्टिकरणकालमें द्विचरम स्थितिवन्ध होता है तब तक नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । कृष्टिकरणकालमें संज्वलन-लोभका अन्तिम स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध कुछ कम अहोरात्रप्रमाण होता है । नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिवन्ध कुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है । उस कृष्टिकरणकालमें एक समय कम तीन आवलियां शेष रहनेपर दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमें सक्रमण नहीं करता, किन्तु स्वस्थानमें ही उपशान्त हो जाता है । कृष्टिकरणकालमें आवली और प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । प्रत्यावलीमें एक समय शेष रहनेपर संज्वलनलोभकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है । उस समयमें एक समय कम दो आवलिमात्र संज्वलनलोभके समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं, और सब ही कृष्टियां अनुप-

१ विदियद्धासखेज्जामागेषु गदेषु लोभठिदिवंधो । अतोमुहुत्तमेत्त दिवसपुधत्त तिघादीण ॥ लब्धि. २९१.

२ किट्टीकरणद्वाए जाव दुचरिम तु होदि ठिदिवंधो । वस्साणं सखेज्जसहस्साणि अघादिठिदिवंधो ॥ लब्धि. २९२.

३ किट्टीयद्वाचरिमे लोभस्सतोमुहुत्तियं वंधो । दिवसतो घादीण वेवस्सतो अघादीण ॥ लब्धि २९३

४ विदियद्धा परिसेसे समऊणावलितियेसु लोभद्वग । सट्टाणे उवसमदि हु ण देदि सजुलणलोहम्मि ॥ लब्धि. २९४.

५ सक्रमणावलौ गताया प्रथमस्थित्यावल्लिद्वयेज्जशिक्षे आगालप्रत्यागालौ व्युच्छिन्नौ, प्रत्यावल्लिचरम-समयपर्यन्तमुदीरणा वर्तते ॥ लब्धि. २९४ टीका

पडिवद्धा अणुवसंता, किट्ठीओ सव्वाओ चैव अणुवसंताओ । तव्वदिरित्तं लोभसंजुलणस्स पदेसग्गं सव्वमुत्तसंतं । दुव्विहो लोभो सव्वो चैव उव्वसंतो । एसो चैव चरिमसमय-वादरसांपराइगो' ।

तत्तो से काले पढमसमयसुहुमसांपराइगो जादो । तेण पढमसमयसुहुम-सांपराइएण अण्णा पढमट्ठिदी कदा । जा' पढमसमयलोभवेदगस्स पढमट्ठिदी, तिस्से पढमट्ठिदीए इमा सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठिदी दुभागो थोवूणओ' । पढमसमयसुहुम-सांपराइगो किट्ठीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । जाओ अपढम-अचरिमेसु समएसु अपुव्वाओ किट्ठीओ कदाओ ताओ सव्वाओ पढमसमए उदिण्णाओ । जाओ पढमसमए कदाओ किट्ठीओ तासिमग्गग्गादो असंखेज्जदिभागं मोत्तूण, जाओ चरिमसमए कदाओ किट्ठीओ तासिं च जहण्णयप्पहुडि असंखेज्जदिभागं मोत्तूण, सेसाओ सव्वाओ किट्ठीओ उदि-ण्णाओ' । ताधे चैव सव्वासु किट्ठीसु पदेसग्गमुव्वसामेदि गुणसेडीए । जे दोआवलियवद्धा

शान्त है । इनके अतिरिक्त संज्वलनलोभका सब प्रदेशाग्र उपशान्त हो चुकता है । दो प्रकारका सब ही लोभ उपशान्त हो जाता है । यह ही अन्तिमसमयवर्ती वादर-साम्परायिक ( अनिवृत्तिकरण ) है ।

इसके पश्चात् अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है । उस प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा अन्य प्रथमस्थिति की जाती है । प्रथम समय लोभवेदकके जो ( समस्त लोभवेदककालके दो त्रिभाग-मात्रसे कुछ अधिक ) प्रथमस्थिति थी उस प्रथमस्थितिके दो त्रिभागसे कुछ कम यह सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथमस्थिति होती है । प्रथम व अन्तिम समयको छोड़कर शेष समयोंमें जो अपूर्व कृष्टियां की हैं वे सब प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं । जो कृष्टियां प्रथम समयमें की गई हैं उनके उपरिम असंख्यातवें भागको छोड़कर, और जो कृष्टियां अन्तिम समयमें की गई हैं उनके जघन्यसे लेकर असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियां उदीर्ण हो जाती हैं । उसी समय सब कृष्टियोंके प्रदे-शाग्रको असंख्यातगुणित श्रेणीसे उपशान्त करता है । गुणश्रेणीमें जो दो समय

१ वादरलोमादिठिदी आवल्लिसेसे तिलोहपुव्वसत । णवक किट्ठिं मुच्चा सो चरिमो थूलसपराओ य ॥ लब्धि. २९५.

२ प्रतिपु ' जादा ' इति पाठ ।

३ से काले किट्ठिस्स य पढमट्ठिदिक्कावेदगो होदि । लोहगपढमठिदीवो अद्ध त्तिचूणय गत्थ ॥ २९६. जा पढमसमयलोभवेदगस्स पढमट्ठिदी सत्तिस्से एत्थतणलोभवेदगद्धाए सादिरियवेत्तिभागमेत्ता तिस्से थोवूणदु-भागमेत्तो इमो सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठिदिविण्णासो चि माणिद होदि ॥ जयध. अ. प. १०३०.

४ पढमे चरिमे समये कदकिट्ठीणग्गादो दु आदीदो । मुच्चा असखभाग उदेदि सुहुमादिमे सव्वे ॥ लब्धि. २९७.

दुसमऊणा ते वि उवसामेदि' । जा उदयावलिया छद्दिदा' सा थिउक्कसंक्रमेण किट्टीसु विपच्चिहिदि' । विदियसमए उदिण्णाणं किट्टीणमग्गगादो असंखेज्जदिभागं मुंचदि, हेट्टदो अपुव्वमसंखेज्जदिभागमाकुंददि' । एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइओ त्ति । चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणमंतोमुहुत्तिओ द्विदि-बंधो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो सोलस मुहुत्ता । वेदणीयस्स द्विदिवंधो चउवीसं मुहुत्ता । से काले सव्वं मोहणीयमुवसंतं ।

तदो पाए अंतोमुहुत्तमुवसंतकसायत्रीदरागो । सन्विस्से उवसंतद्वाए अवट्टिदपरिणामो । गुणसेडीणिकखेवो उवसंतद्वाए संखेज्जदिभागो' । ( केवल-

कम दो आवलीमात्र समयप्रवद्ध थे उन्हें भी उपशान्त करता है । जो उदया-वली बादरसाम्परायिकके द्वारा स्पर्धकगत की गई थी वह अब कृष्टिरूपसे परिणत होकर स्तिवुक संक्रमणके द्वारा परिपाकको प्राप्त है । द्वितीय समयमें उदीर्ण कृष्टियोंमेंसे उपरिम कृष्टिसे लेकर अधस्तन असंख्यातव भागको छोड़ता है, अर्थात् उतनी कृष्टियां उदयको प्राप्त नहीं होतीं । तथा अधस्तन अनुदयप्राप्त कृष्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र अपूर्व कृष्टियोंको ग्रहण करता है अर्थात् उतनी कृष्टियां उदयको प्राप्त होती हैं । इस प्रकार चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक होने तक करता है । चरम-समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका अन्त-मुहूर्तमात्र स्थितिवाला बन्ध होता है । नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध सोलह मुहूर्त-प्रमाण होता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध चौबीस मुहूर्तमात्र होता है । अनन्तर कालमें सब मोहनीयकर्म उपशान्त हो जाता है ।

तबसे लेकर अन्तमुहूर्त तक उपशान्तकपायवीतराग रहता है । समस्त उपशान्तकालमें अवस्थित परिणाम होता है । तथा ( ज्ञानावरणादि कर्मोंका ) गुणश्रेणीनिक्षेप उपशान्तकालके संख्यातवें भाग होता है । ( केवल

१ जयध. अ. प. १०३१. ये च समयोनद्धवात्रलिमात्रसञ्जलनलोभनवक्रवधमयप्रवद्धास्ते च सूक्ष्म-साम्परायप्रथमसमयादारम्य समय समय प्रत्यसंख्यातगुणितक्रमेणोपशान्यन्ते ॥ लब्धि. २९९ टीका,

२ प्रतिष्ठा ' जावे... छद्दिदा ताधे... ' इति पाठः ।

३ जा उदयावलिया छद्दिदा सा थियुक्कसंक्रमेण किट्टीसु विपच्चिहिदि । जा सा बादरमापराइएण पुव्व-मुच्चिद्धावलिआ छद्दिदा फदयगदा सा एण्हि किट्टिसरूवेण परिणमिय थियुक्कसंक्रमेण विपच्चिहिदि त्ति मणिद होदि । जयध. अ. प. १०३१.

४ आप्रतौ ' -माघददी ', अप्रतौ ' -माघददि ', कप्रतौ ' -माघादेदि ', मप्रतौ ' माघददि ' इति पाठः । विदियादिसु समयेसु हि छंदि पक्काअसखमाग तु । आकुददि हुअपुव्वा हेट्टा तु असंखमागं तु ॥ लब्धि. २९५. आकुच्चदि आस्पृशति वेदयत्यवष्टाय गृह्णातीत्यर्थः । जयध. अ. प. १०३१.

५ प्रतिष्ठा ' चवीस ' इति पाठ । अतोमुहुत्तमेत्त चादितियाण जहण्णद्विदिवधो । णामदुगवेयणीये सोलस चउवीस य मुहुत्ता ॥ लब्धि. ३००.

६ उवसतद्वा अतोमुहुत्तपमाणा । एदिस्से उवसंतद्वाए सखेज्जदिभागमेत्तायामो एदस्स गुणसेडीणिकखेवो

णाणावरण-केवलदंसणावरणीयाणमणुभागुदएण सच्चउवसंतद्धाए अवट्टिदवेदगो । णिहा-  
पयलाणं पि जाव वेदगो ताव अवट्टिदवेदगो । अंतराइयस्स अवट्टिद- ) वेदगो । सेसाणं  
लद्धिकम्मसाणं' अणुभागुदओ वड्डी वा हाणी वा अवट्टाणं वा । णामा-गोदाणि  
जाणि परिणामपच्चया' तेसिमवट्टिदवेदगो अणुभागेण । एवमुवसमियचारित्तपडिवज्जण-  
विहाणं भणिदं ।

एदं चोवसमियं चारित्तं ण मोक्खकारणं, अंतोमुहुत्तकालादो उवरि णिच्छएण  
मोहोदयणिवंधणत्तादो । कधमवट्टिदपरिणामो उवसंतकसाओ वीयराओ मोहे णिवदइ ?  
सहावदो । सो च उवसंतकसायस्स पडिवादो दुविहो, भवक्खयणिवंधणो उवसामणद्धा-  
खयणिवंधणो चेदि । तत्थ भवक्खएण पडिवदिदस्स सच्चाणि करणाणि देवेसुप्पण्ण-  
पढमसमए चैव उग्घाटिदाणि' । जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदयावलिं पवेसि-

ज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके सर्व उपशान्तकालमें अवस्थित अनुभागोदयका  
वेदक है। निद्रा और प्रचलाका भी जब तक वेदक है तब तक अवस्थित वेदक ही है।  
अन्तरायकी पांच प्रकृतियोंका भी अवस्थित वेदक ही है।) शेष लब्धिकर्मोशोंका अर्थात्  
चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण कर्मोंका, अनुभागोदय वृद्धि, हानि एवं अवस्थिति-  
स्वरूप है। नाम-गोत्र जो परिणामप्रत्यय है उनका अनुभागसे अवस्थितवेदक होता है।  
इस प्रकार औपशमिक चारित्रकी प्राप्तिका विधान कहा गया है। यह औपशमिक  
चारित्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्त्तकालसे ऊपर वह निश्चयतः मोहके  
उदयका कारण होता है।

शंका—अवस्थित परिणामवाला उपशान्तकपायवीतराग मोहमें कैसे गिरता है?

समाधान—स्वभावसे गिरता है।

उपशान्तकपायका वह प्रतिपात दो प्रकार है, भवक्षयनिवन्धन और उपशमन-  
कालक्षयनिवन्धन। इनमें भवक्षयसे प्रतिपातको प्राप्त हुए जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके  
प्रथम समयमें ही वन्ध, उदीरणा एवं संक्रमणादिरूप सब करण निज स्वरूपसे प्रवृत्त  
हो जाते हैं। जो कर्म उदीरणाको प्राप्त है वे उदयावलीमें प्रवेशित हैं जो उदीरणाको प्राप्त

णाणावरणादिक्कम्मपडिवद्धो होदि । जयध अ प. १०३२ सोऽयमुपशांतरूपाय प्रथमसमये आयुर्मोहनीयवर्जितानां  
ज्ञानावरणादिक्कर्मणां द्रव्य सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयापकृष्टगुणश्रेणिद्रव्यादस ह्यातगुणमपकृष्य स्वगुणस्थानकालस्य सख्या-  
तैरूमागमात्रे आयामे उदयावलिप्रथमसमयादारभ्य प्रक्षेपयोगेत्यादिगुणश्रेणिविधानेन निक्षिपति । लब्धि. ३०४ टीका.

१ जेसि खओवसमपरिणामो अत्थि ते लद्धिकम्मसा चि मण्णते, खओवसमलद्धी होदूण कम्मसाण  
लद्धिकम्मस्स ववएससिद्धीए विरोहामावादो । जयध अ प १०३३.

२ जयध अ. प १०३३. णामधुवोदयव्वास सुभगति गोदेक्क विग्घपणग च । केवल णिहाजुयलं चेदे  
परिणामपच्चया हांति ॥ लब्धि. ३०६.

३ उवसते पडिवदिदे भववखये देवपढमसमयन्दि । उग्घाटिदाणि सच्च वि करणाणि ह्वति णियमेण ॥  
लब्धि. ३०८.

दाणि । जाणि ण उदीरिज्जंति, ताणि वि ओकट्टिदूण आवलियवाहिरे गोवुच्छाए सेडीए णिक्खित्ताणि ।

उवसंतद्वाए खएण पडिवदणं वचइस्सामो । तं जहा— उवसंतो अट्टाखएण पदंतो लोभे चव पडिवददि, सुहूमसांपराइयगुणमगंतूण गुणंतरगमणाभावा । पढमसमयसुहूमसांपराइएण तिविहं लोभमोक्कट्टिदूण संजुलणस्स उदयादिगुणसेडीए कदाए जा तस्स किट्टीलोभवेदगद्धा तदो विसेसुत्तरकालो गुणसेडिणिकखेवो । दुविहस्स लोहस्स तत्तिओ चव णिकखेवो, णवरि उदयावलियाए णत्थि । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्मणं गुणसेडिणिकखेओ अणियट्टिअट्टादो अपुव्वकरणट्टादो च विसेसाहो । सेसे सेसे च णिकखेवो । तिविहस्स लोभस्स तत्तिओ तत्तिओ चव णिकखेवो । ताथे चव तिविहो लोभो एगसमएण पसत्थउवसामणाए अणुवसंतो । तावे तिण्हं घादिकम्मणमंतोमुहुत्तट्टिदिगो वंधो, णामा-गोदाणं ट्टिदिवंधो वत्तीस मुहुत्ता, वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो अडदालीस

नहीं हैं वे भी अपकर्षण करके उदयावलीके बाहर गोपुच्छाकार श्रेणीरूपसे निक्षिप्त होते हैं ।

उपशान्तकालके क्षयसे होनेवाले प्रतिपातको कहते हैं । वह इस प्रकार है— उपशान्तगुणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनेवाला उपशान्तकषाय जीव लोभमें अर्थात् सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है । प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके संज्वलनकी गुणश्रेणिके करनेपर जो उसका छष्टिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालवाला गुणश्रेणिनिक्षेप है । दो प्रकार अर्थात् अपत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभका भी उतना ही निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उदयावलीमें नहीं है । आयुको छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिवृत्तिकरणकाल और अपूर्वकरणकालसे विशेष अधिक है । शेष शेषमें निक्षेप है । तीन प्रकारके लोभका उतना उतना ही निक्षेप है । उसी समयमें ही तीन प्रकारका लोभ एक समयमें प्रशस्तउपशामनाको छोड़कर अनुपशान्त हो जाता है । उस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध अन्तर्मुहूर्त स्थितिवाला, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध वत्तीस मुहूर्त और वेदनीयका

१ सोदीरणण दव्वं वेदि ह् उदयावल्लिहि इरं तु । उदयावल्लिवाहिणो उगये वेदि सेदीये ॥ लट्ठि. ३०९.

२ दुविहस्स वि लोभस्स एवद्विओ चव गुणसेडिणिकखेवो होदि, किंनु उदयावल्लियवाहिरे चव णिक्खिप्पदे । किं कारण ? तस्सिमेद्विज्जमाणाणमुदयावल्लियन्मत्तरे णिकखेवांसंमवादो ति जाणावपड्ढमिदं सुपं—दुविहस्स लोभस्स तत्तिओ चव णिकखेवो, णवरि उदयावल्लियाए णत्थि । जयव व. प. २०४५.

मुहुत्ता' । से काले गुणसेडी असंखेज्जगुणहीणा । द्विदिवंधो सो चेव । अणुभागबंधो अप्पसत्थाणमणंतगुणो, पसत्थारुणं कम्मणमणंतगुणहीणो' ।

लोभं वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि परूवंति' । तं जहा- लोभवेदगद्धाए पढम-तिभागे किट्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । पढमसमए उदिण्णाओ किट्टीओ थोवाओ । विदियसमए उदिण्णाओ किट्टीओ विसेसाहियाओ । सव्विस्से सुहुमसांपराइयद्धाए विसेसाहियवद्धीए किट्टीणमुदओ ।

किट्टीणं वेदगद्धाए गदाए पढमसमयवादरसांपराइओ जादो । ताथे चेव मोहणीयस्स अणाणुपुव्वीसंकमो' । ताथे चेव दुविहो लोभो लोभसंजुलणे संखुहदि । ताथे चेव फद्दयगयलोभं वेदयदि । किट्टीओ सव्वाओ णट्टाओ' । णवरि जाओ उदयावलियवभंतराओ ताओ त्थिउक्कसंकमेण फद्दएसु विपच्चिहिति । पढमसमयवादरसांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तिओ । तिण्हं घादि-

स्थितिवन्ध अड्डतालांस मुहूर्तप्रमाण होता है । उस कालमें गुणश्रेणी असंख्यातगुणी हीन होती है । स्थितिवन्ध वही होता है । अनुभागवन्ध अप्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा और प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा हीन होता है ।

लोभका वेदन करनेवालेके ये आवास प्ररूपित किये जाते हैं । वह इस प्रकार है—लोभवेदककालके प्रथम त्रिभागमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उदयको प्राप्त होता है । प्रथम समयमें उदयप्राप्त कृष्टियां स्तोक हैं । द्वितीय समयमें उदयप्राप्त कृष्टियां विशेष अधिक हैं । इस प्रकार समयक्रमसे सब सूक्ष्मसाम्परायिककालमें विशेषाधिक वृद्धिसे कृष्टियोंका उदय होता है ।

कृष्टियोंके वेदककालके समाप्त होनेपर प्रथमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक हो जाता है । उस समयमें ही मोहनीयका आनुपूर्वीरहित संक्रमण होता है । उसी समय दो प्रकारके लोभको संज्वलनलोभमें स्थापित करता है । उसी समयमें ही स्पर्धकगत लोभका वेदन करता है । कृष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं । विशेष इतना है कि जो कृष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिवुक संक्रमणद्वारा स्पर्धकोंमें विपाकको प्राप्त होती हैं । प्रथमसमयवर्ती वादरसाम्परायिकके संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध देशोन दो अहोरात्रमात्र

१ ओदरसुहुमादीए वधो अतोमुहुत्त वचीस । अड्डदाल च मुहुत्ता तिघादिणामदुगवेयणीयाणं ॥ लब्धि. ३१३.

२ गुणसेडीसत्थेदरसवधो उवसमाद्दु विवरीयं । पढमुदओ किट्टीणमसखभागा विसेसअहियकमा ॥ लब्धि ३१४.

३ अ-कप्रत्यो 'आवासयाणि रूवंति' इति पाठ.

४ प्रतिपु 'अणाणुपुव्वीसकमो' इति पाठः ।

५ वादरपढमे किट्टी मोहस्स य आणुपुव्विसकमण । णट्ट ण च उच्छिद्धं फड्डयलोह तु वेदवदि ॥ लब्धि. ३१५.



कम्माणं द्विदिवंधो दो अहोरत्ताणि देस्सणाणि । वेदणीय-णामा-गोदाणं द्विदिवंधो चत्तारि वस्साणि देस्सणाणि' । एदम्हि द्विदिवंधे पुण्णे जो अण्णो वेदणीय-णामा-गोदाणं द्विदिवंधो सो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अहोरत्तपुधत्तिओ । लोभसंजलणस्स द्विदिवंधो पुव्वबंधादो विसेसाहिओ । लोभवेदगद्दाए विदियस्स तिभागस्स संखेज्जदिभागं गंतूण मोहणीयस्स द्विदिवंधो मुहुत्तपुधत्तो । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो अहोरत्तपुधत्तियादो द्विदिवंधादो वस्ससहस्सपुधत्तिओ जादो । एवं द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु लोभ-वेदगद्दा पुण्णा' ।

से काले तिविहं मायमोक्कट्टिदूण मायासंजलणस्स उदयादिगुणसेडी कदा' । दुविहाए मायाए आवलियवाहिरा गुणसेडी कदा । पढमसमयमायावेदगस्स गुणसेटीणिक्खेवो तिविहस्स लोभस्स तिविहाए मायाए च तुल्लो मायावेदगद्दादो

होता है । वेदनीय, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध देशोन चार वर्षप्रमाण होता है । इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो वेदनीय, नाम व गोत्र कर्मोंका अन्य स्थितिवन्ध है वह संख्यात वर्षप्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अहोरात्रपृथक्त्व-प्रमाण होता है । संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध पूर्व बन्धसे विशेष अधिक होता है । लोभ-वेदककालके द्वितीय त्रिभागके संख्यातवें भाग जाकर मोहनीयका स्थितिवन्ध मुहूर्त-पृथक्त्व तथा नाम, गोत्र व वेदनीयका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अहोरात्रपृथक्त्वरूप स्थितिवन्धसे वर्षसहस्रपृथक्त्व-मात्र हो जाता है । इस प्रकार स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर लोभवेदककाल पूर्ण होता है ।

अनन्तर कालमें तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण करके संज्वलनमायाकी तो उदयादि गुणश्रेणी की जाती है । तथा शेष दो प्रकारकी मायाकी उदया-वलिवाह्य गुणश्रेणी की जाती है । प्रथम समय मायावेदकके तीन प्रकारके लोभ और तीन प्रकारकी मायाका गुणश्रेणीनिक्षेप तुल्य एवं मायावेदककालसे विशेष अधिक है ।

१ औदरवादरपढमे लोहस्सतोमुहुत्तियो वधो । दुदिणंतो घादितिय चउवस्सतो अघादितिय ॥ लन्धि ३१६.

२ प्रतिष्ठु ' वधोदो ' इति पाठ ।

३ ततोऽन्तर्मुहूर्तमात्रे समबन्धकाले गते पुन सञ्ज्वलनलोभस्थितिवन्धो विशेषाधिक, घातित्रयस्य दिन-पृथक्त्व, अघातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र । एव संख्यातसहस्रेषु स्थितिवन्धेषु आकृष्योक्तान्य सवृत्तेषु यदा लोभ-वेदककालद्वितीयत्रिभागस्य संख्येयभागो गत तदा सञ्ज्वलनलोभस्य स्थितिवन्धो मुहूर्तमात्रपृथक्त्वं, घातित्रयस्य वर्षसहस्रपृथक्त्व, अघातित्रयस्य संख्येयसहस्रवर्षमात्र । एव स्थितिवन्धसहस्रेषु गतेषु लोभवेदककाल. समाप्तो भवति । लन्धि. ३१६ टीका

४ प्रतिष्ठु ' गदा ' इति पाठ. ।

विसेसाहिओ' । सन्विस्से मायावेदगद्दाए तत्तिओ तत्तिओ चैव णिक्खेवो । सेसाणं कम्माणं जो पुण पुन्विहो णिक्खेवो तस्स सेसे सेसे चैव णिक्खिस्वदि गुणसेडिं । माया-वेदगस्स लोभो तिविहो दुविहा माया मायासंजलणे संकमदि, माया वि तिविहा लोभो च दुविहो लोभसंजलणे संकमदि' । पढमसमयमायावेदगस्स दोण्हं संजलणाणं दुमासट्ठिदिगो वंधो । सेसाणं कम्माणं ट्ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । पुण्णे पुण्णे ट्ठिदिवंधे मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणो ट्ठिदिवंधो । मोहणीयस्स ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयमायावेदगो जादो । तावे दोण्हं संजलणाणं ट्ठिदिवंधो चत्तारि मासा अतोमुहुत्तणा । सेसाणं कम्माणं ट्ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तदो से काले तिविहं माणमोकड्ढिदूण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेडिं करेदि । दुविहस्स माणस्स आवलियावाहिरे गुणसेडिं करेदि । णवविहस्स वि कसायस्स गुणसेडीणिक्खेवो । जा तस्स पडिवदमाणयस्स माणवेदगद्दा तत्तो विसेसाहिओ

सय मायावेदककालमें उतना उतना ही निक्षेप है । पुनः शेष कर्मोंका जो पूर्वका निक्षेप है उसके शेष शेषमें ही गुणश्रेणीका निक्षेपण करता है । मायावेदकका तीन प्रकारका लोभ और दो प्रकारकी माया संज्वलनमायामें संक्रमण करती है, तथा तीन प्रकारकी माया और दो प्रकारका लोभ संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है । प्रथम समय माया-वेदकके दो संज्वलनोंका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर अन्तिमसमयवर्ती मायावेदक होता है । तत्र दो संज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । पश्चात् अनन्तर समयमें तीन प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्वलनमानकी उदयादिगुणश्रेणी करता है । दो प्रकार मानकी आवलीके वाहिर गुणश्रेणी करता है । अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन-सम्बन्धी लोभ, माया और मानरूप नौ प्रकारकी कषायका गुणश्रेणीनिक्षेप होता है । अधःपतन करनेवाले उस जीवका जो मानवेदककाल है उससे विशेष अधिक निक्षेप होता

१ ओदरमायापदमे मायातिण्ह च लोमतिण्ह च । ओदरमायावेदककालादहियो दु गुणसेटी ॥ लब्धि. ३१७.

२ मायावेदगस्स लोभो तिविहो माया दुविहा मायासंजलणे सकमदि । माया तिविहा लोभो च दुविहो लोभसंजलणे सकमदि । जयध. अ प १०४८ तस्मिन्नेव मायावेदकपथमसमये लोभत्रयद्रव्यं मायाद्वयद्रव्यं च मायासंज्वलने सकामति, तस्य बन्धसम्मवात् । तथा द्वि-(त्रि ?)-विधमायाद्रव्यं त्रि-(द्वि ?)-विधलोभद्रव्यं च लोभसंज्वलने सकामति तस्यापि बन्धसम्मवात् । लब्धि ३१७ टीका.

३ ओदरमायापदमे मायालोभे दुमासट्ठिदिवंधो । छण्ह पुण वस्साण संखेज्जसहस्सवस्साणि ॥ लब्धि. ३१८.

णिक्रखेत्रो' । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं जो पढमसमयसांपराइयेण णिक्रखेत्रो णिक्रिखत्तो तस्स णिक्रखेत्रस्स सेसे सेसे णिक्रिखत्तदि । पढमसमयमाणवेदयस्म णवविहो वि कसाओ संकमदि<sup>१</sup> । तावे तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो चत्तारि मासा पडिबुण्णा, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं द्विदिवंधमहस्साणि वट्टणि गंतूण माणस्स चरिमसमयवेदगो । तस्स चरिमसमयवेदगस्म तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो अट्ट मासा अंतोमुहुत्तूणा, सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । से काले तिविहं कोहमोक्कड्ढिदूण कोहसंजलणस्स उदयादिगुणमेडिं करेदि, दुविहस्स कोहस्स आवलिय-वाहिरे करेदि ।

एण्हि गुणसेडीणिक्रखेत्रो केत्तिओ कायव्वो ? पढमसमयकोधवेदगस्स वारसण्हं पि कसायाणं गुणसेडीणिक्रखेत्रो सेसाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्रखेत्रेण यस्सिओ हेदि । जहा मोहणीयवज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेडिं णिक्रिखत्तदि, तथा एत्तो पाए वारसण्हं

है । मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका निक्षेप जो प्रथमसमयवर्ती दुष्कृतसाम्परायिक द्वारा निक्षिप्त किया गया है उसके शेष शेषमें निक्षेपण करता है<sup>१</sup> । प्रथम समय मान-वेदककी नौ प्रकारकी भी कपाय संक्रमण करती है । तब तीन संज्वलनोंका स्थितिवन्ध पूर्ण चार मासप्रमाण तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यान वर्षसहस्रमात्र होता है । इस प्रकार बहुत स्थितिवन्धसहस्र जाकर मानका अन्तिम समय वेदक होता है । उस अन्तिम समय वेदकके तीन संज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम आठ मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । अनन्तर कालमें तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके संज्वलनक्रोधकी उदयादिगुणश्रेणी करता है, तथा अपत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोधकी उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणी करता है ।

शंका — क्रोधवेदकके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिक्षेप कितना करने योग्य है ?

समाधान—प्रथम समय क्रोधवेदकके वारह कपायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप शेष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके समान होता है ।

जिस प्रकार मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंकी गुणश्रेणीको शेष शेषमें निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहाँसे लेकर वारह कपायोंकी गुणश्रेणीका शेष शेषमें

१ ओदरगमाणपढमे तेत्तियमाणादियाण पयटीण । ओदरगमाणवेदगकालादहिय दु गुणसेदी ॥ लब्धि. ३१९.

२ प्रतिपु 'सांपरायाण' इति पाठ ।

३ तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथममये नवविधकपायद्वयमनालुपूर्व्या वय्यमानलोभमायामानेषु संक्रामति । लब्धि ३१९. टीका.

४ ओदरगमाणपढमे चउमासा माणपहुदिठिदिबधो । उण्ह पुण वस्साण संखेज्जसहस्समेत्ताणि ॥ लब्धि. ३२०.

कसायाणं सेसे सेसे गुणसेडी णिक्खविदव्वा' । पढमसमयकोधवेदगस्स वारसविहस्स वि कसायस्स संकमो होदि । ताधे द्विदिवंधो चदुण्हं संजलणाणं पडिवुण्णा अट्ट मासा । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स चरिमसमयचउच्चिहबंधगो जादो । ताधे मोहणीयस्स द्विदिवंधो चउसट्ठी वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तदो से काले पुरिसवेदस्स बंधगो जादो । ताधे चेव सत्तण्हं कम्माणं पदेसगं पसत्थउवसामणाए सव्वमणुवसंतं । ताधे चेव सत्तकम्मसे ओकड्ढिदूण पुरिसवेदस्स उदयादिगुणसेडिं करेदि । छण्हं कम्मसाणमुदयावलयिवाहिरे गुणसेडिं करेदि । गुणसेडीणिकखेवो वारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं णोकसायाणं वेदणीयाणं सेसाणं च आयुगवज्जाणं कम्माणं गुणसेडीणिकखेवेण तुल्लो' । सेसे सेसे च णिकखेवो । ताधे चेव पुरिसवेदस्स द्विदिवंधो वत्तीसं वस्साणि पडिवुण्णाणि । संजलणाणं द्विदिवंधो चदुसट्ठी वस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । पुरिसवेदे अणुवसंते जावित्थि-

निक्षेपण करने योग्य है । प्रथम समय क्रोधवेदके वारह प्रकारकी ही कपायका संक्रमण होता है । उस समयमें चार संज्वलनोंका स्थितिवन्ध पूर्ण आठ मासप्रमाण होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीन जानेपर मोहनीयके चतुर्विध बंधका अन्तिम समय प्राप्त होता है । उस समयमें मोहनीयका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहुर्त कम चौसठ वर्षप्रमाण होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । पश्चात् अनन्तर कालमें पुरुषवेदका बन्धक हो जाता है । उसी समयमें ही सात कर्मोंका प्रदेशात्प्रशस्त-उपशामना ( सर्वकरणोपशामना ) से रहित होकर सब अनुपशान्त हो जाता है । उसी समयमें सात कर्मोंका अपकर्षण करके पुरुषवेदकी उदयादिगुणश्रेणीको करता है । छह कर्मोंकी उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणी करता है । वारह कपाय और सात नोकपायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप वेदनीय एवं आयुको छोड़कर शेष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके तुल्य होता है । शेष शेषमें निक्षेप होता है । उसी समयमें पुरुषवेदका स्थितिवन्ध वत्तीस वर्ष संज्वलनोंका स्थितिवन्ध चौसठ वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र प्राप्त होता है । पुरुषवेदके अनुपशान्त होनेपर

१ ओदरगकोहपदमे छक्कम्मसमाणाया हु गुणसेदी । वादरकसायाण पुण एत्तो गलितावसेस तु ॥  
लब्धि. ३२१

२ ओदरगकोहपदमे सजलणाणं तु अट्टमासठिदी । छण्ह पुण वस्साण सखेज्जसहस्सवस्साणि ॥  
लब्धि. ३२२.

३ ओदरगपुरिसपदमे सत्तमसाया पणट्टउवसमणा । उणवीसरसायाण छक्कमाण समाणगुणसेदी ॥  
लब्धि. ३२३.

४ पुसजलणिराण वस्सा वत्तीसय तु चउसट्ठी । सखेज्जसहस्साणि व तफाले होदि ठिदिवंधो ॥  
लब्धि. ३२४.

वेदो उवसंतो, एदिस्से अद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्ज-वस्सट्ठिदिगो बंधो' ।

ताधे अप्पावहुगं कायव्वं- सव्वत्थोवो मोहणीयस्स ट्ठिदिवंधो । तिण्हं घादि-कम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ । एत्तो ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदमेगमएण अणुवसंतं करेदि । ताधे चेव तमोक्कड्ढिदूण उदयावलियवाहिरे गुणसेडिं करेदि । इदरेसिं कम्माणं जो गुणसेडीणिक्खेवो तत्तिओ चेव इत्थिवेदस्स वि । सेसे सेमे च णिक्खेवो । इत्थि-वेदे अणुवसंते जाव णवुंसयवेदो उवसंतो, एदिस्से अद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो जादो । ताधे मोहणीयस्स ट्ठिदिवंधो थोवो । तिण्हं घादिकम्माणं ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा गोदाणं ट्ठिदि-बंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ ।

जाधे तिण्हं घादिकम्माणमसंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो, ताधे चेव एगसमएण णाणावरणीयं चउन्विहं, दंसणावरणीयं तिविहं, पंचंतराइयाणि, एदाणि दुट्ठाणियाणि बंधेण

जब तक खीवेद उपशान्त है, तब तक इसी कालके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिसे संयुक्त बन्ध होता है ।

उस समयमें निम्न प्रकार अल्पवहुत्व करना चाहिये । मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । यहांसे स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर खीवेदको एक समयमें अनुपशान्त करता है । उसी समयमें ही खीवेदका अपकर्षण करके उदयावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता है । इतर कर्मोंका जो गुणश्रेणीनिक्षेप है उतना ही खीवेदका भी होता है । शेष शेषमें निक्षेप होता है । खीवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद उपशान्त है, तब तक इस कालके संख्यात बहुभागोंके वीतनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला हो जाता है । उस समयमें मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्रका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, तथा वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ।

जब तीन घातिया कर्मोंका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है, उसी समय ही एक समयमें चार प्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, ये बन्धसे दो स्थान (लता और दारु) वाले हो जाते हैं । पश्चात् संख्यात

१ पुरिसे इ अणुवसंते इत्थीउवसंतगो ति अद्वाए । सखामागासु गदेमसंखवस्स अघादिठिदिवंधो ॥  
लब्धि. ३२५.

जादाणि' । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णउंसयवेदमणुवसंतं करेदि । ताधे चेत्र णउंसयवेदमोक्खिदूण उदयावलियवाहिरे गुणसेडीए णिक्खिखवदि । इदरोसिं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण सरिसो गुणसेडीणिक्खेवो । सेसे सेसे च गुणसेडीणिक्खेवो । णउंसयवेदे अणुवसंते जात्र अंतरकदपढमसमयं ण पावदि, एदिस्से अद्वाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु मोहणीयस्स असंखेज्जवस्सद्विदिओ वंधो जादो । तावे चैव मोहणीयस्स दुट्ठाणिया वंधोदया<sup>१</sup> । सव्वस्स पडिवदमाणयस्स छसु आवलियासु गदासु उदीरणा ति

स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर नपुंसकवेदको अनुपशान्त करता है। उसी समय ही नपुंसकवेदका अपकर्षण करके उदयावलीके वाहिर गुणश्रेणीमें निक्षेपण करता है। यह गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके सदृश होता है। शेष शेषमें गुणश्रेणिनिक्षेप होता है। नपुंसकवेदके अनुपशान्त होनेपर जब तक अन्तर करनेके प्रथम समयको प्राप्त नहीं करता, तब तक इस कालके संख्यात बहुभागोंके वीत जानेपर मोहनीयका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला हो जाता है। उसी समय ही मोहनीयका बन्ध व उदय दो स्थान (लता और दारु) रूप हो जाता है। सब उतरनेवालोंके छह आवलियोंके वीत जानेपर ही उदीरणा हो ऐसा नियम नहीं रहता, किन्तु वंधावलीके व्यतीत होनेपर उदीरणा होने लगती है।

विशेषार्थ— उपशमश्रेणी चढते समयके लिये यह नियम बतलाया गया था कि कर्मोंका बन्ध होनेसे छह आवलियोंके पश्चात् ही उनकी उदीरणा हो सकती है, उससे अल्प समयमें नहीं (देखो पृ. ३०२)। किन्तु श्रेणीसे उतरनेवालोंके लिये यह नियम नहीं है। कुछ आचार्योंका ऐसा मत है कि श्रेणीसे उतरते समय भी जब तक मोहनीयका संख्यात वर्षमात्र तकका स्थितिवन्ध होता है तब तक तो छह आवलियोंके वीतनेपर ही उदीरणाका नियम रहता है, किन्तु जब असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका प्रारंभ हो जाता है तब वह छह आवलियोंके पश्चात् उदीरणाका नियम नहीं रहता। किन्तु इसपर वीरसेनाचार्यका मत यह है कि यदि ऐसा माना जाय तो कपायप्राभृतके चूर्णिसूत्रवर्ती 'सव्वस्स पडिवदमाणयस्स' में जो 'सर्व' पदका प्रयोग हुआ है वह निष्फल हो जायगा। अतएव यही मानना चाहिये कि श्रेणी उतरते समय छह आवलियोंके पश्चात् उदीरणाका नियम सर्वथा लागू नहीं होता।

१ धीअणुवसमे पढमे वीसक्खायाण होदि गुणसेदी । सद्धवसमो ति मज्झे संखामागेसु तीदेसु ॥ घादितियाण णियमा असखवस्स तु होदि ठिदिवधो । तक्काले दुट्ठाण रसवधो ताण देसघादीणं ॥ लब्धि. ३२७-३२८.

२ सदणुवसमे पढमे मोहिगिवीसाण होदि गुणसेदी । अतरकदो ति मज्झे संखामागासु तीदासु ॥ मोहस्स असखेज्जा वस्सपमाणा हवेज्ज ठिदिवधो । ताहे तस्स य जाद वध उदय च दुट्ठाण ॥ लब्धि ३२९-३३०. -

णत्थि णियमो, आवलियादिकंतमुदीग्ज्जदि' । अणियट्टिपट्टुडि मव्वस्स ओयरंतस्स मोहणीयस्स अणाणुपुव्वीसकमो, लोभरम धि संकमो । जाधे मोहणीयस्स अमंसेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो तावे मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो थोवो । तिण्हं चाट्टिकम्माणं ट्टिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा गोदाणं ट्टिदिवंधो अमंसेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्टिदिवंधो विमेषा-  
हिओ । एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्टिदिवंधमहम्मेषु गदेषु अणुभागबंधेण धीरियंतराड्यं सव्वघादी जादं । तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण आभिणिचोहियणाणावरणं परिभोगंतराड्यं च सव्वघादीणि जादाणि । तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण चअमुदंमणावरणीयं सव्वघादी जादं । तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण सुदणाणावरणीयं अचअमुदंमणावरणीयं भोगंतराड्यं च सव्वघादीणि

अनिवृत्तिकरणके कालसे प्रारंभ कर सब उतरनेवालोंके मोहनीयका अनुपूर्वा रहित संक्रमण होता है । लोभका भी संक्रमण होने लगता है । जब मोहनीयका अमंस्यात चर-  
प्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है तब मोहनीयका स्थितिवन्ध म्नाक, नीन चानिया क्रमोका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र क्रमोका स्थितिवन्ध अमंस्यातगुणा, तथा वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रममे संख्यात स्थितिवन्ध-  
सहस्रोंके वीत जानेपर वीर्यान्तराय अनुभागवन्धसे सर्वघाती हो जाता है । पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे आभिनिचोधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तराय भी सर्वघाती हो जाते हैं । पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे चक्षुदर्शनावरणीय सर्वघाती हो जाता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगान्तराय,

१ सपहि छसु आवलियासु गदाम उदीग्णा ति जो णियमो जगामगन्त अत्तरणाभराग्गमेवात्तां नो वि एत्थ णत्थि । त्ति उोदरमाणस्स मव्वानत्थाम् चैव ववात्रलियाट्टिअमंसेत्त चैव मम्ममदीं ज्जात्ति एत्तस्स अथ-  
विसेसस्स पट्टुप्पायणफलो उत्तरसुत्तारमो-सज्जस्स पडिवट्टमाणस्स -मुदीग्ज्जदि । ए व मग्गणां पट्टिग्गमा-  
सुहुमसापराइयपट्टुडि सचत्थेय पयदणियमो णत्थि ति एसो अत्थो जाणात्तिदो, अण्णहा न चत्तिंत्तस्स गाम्भिरिया-  
वलमादो । अण्णे पुण जाइरिया जाय मोहणीयस्स सखेज्जवस्सट्टिदिवंधो ताव उोदरमाणस्स ति एत्तु जावलियात्त  
गदासु उदीरणा ति एसो णियमो होदूण पुणो अमंसेज्जवस्सियट्टिदिवंधो एत्तो पट्टु ति ताग्गो णियमो पट्टो ति  
एदस्स सुत्तस्स अत्थ वक्खाणंति । एदम्मि पुण वक्खाणे अत्तलविज्जमाणे मव्वग्गहणसेद ण मग्गिज्जदि ति तदो पुत्तुओ  
चैव अत्थो पहाणमावेणालवेयव्वो । जयध अ प १०५२

२ लोहस्स असक्रमण आवलित्तिदेसुदीरणत्त च । णियमेण पडताण मोहस्सणुत्तिमग्गण ॥ विरणीय पडि  
हण्णदि ××× ॥ लत्थि ३३१-३३२ ओदरमाणसुहुमसापराइयपट्टममयपट्टुडि चैव मोहणीयस्स अणाणु-  
पुव्विसकमो ति किमेव ण वुच्चदे ? ण, सुहुमसापराइयगुणद्वाने मोहणीयस्स वधामावेण सज्जपत्तुत्तो ए तथ मग्गणुव-  
लमादो । एद चै सत्ति पडच्च वुत्त लोभसज्जलणस्स वि ताधे चैव सज्जसत्ती समुप्पण्णा ति । अण्णहा पुण जाव  
तिविहा माया णोद्धिदा ताव अणाणुपुव्विसकमस्सुववत्ती ण जायदे । तत्तो पुव्व लोभसज्जलणस्स पडिग्गहाभावेण  
सज्जपत्तुत्तीए समवाणुवलंमादो । जयध ज प १०५२.

जादाणि । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं लाहंतराहयं च सच्चघादीणि जादाणि । तदो द्विदिवंधपुधत्तेण मणपज्जवणाणावरणीयं दाणंतराहयं च अणुभागबंधेण सच्चघादीणि जादाणि । तदो द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु असंखेज्जाणं समय-पवद्धानुदीरणा पडिहम्मदि' । समयपवद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा पवत्तिदि' । जाधे समयपवद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा, ताधे मोहणीयस्स ठिदिवंधो थोवो । घादिकम्माणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो एकक-सराहेण मोहणीयद्विदिवंधो थोवो । णामा-गोदाणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयारणं तिण्हं पि कम्माणं ठिदिवंधो तुल्लो विसेसाहिओ । वेदणीयस्स ठिदिवंधो विसेसाहिओ' । एवं संखेज्जाणि ठिदिवंधमहस्साणि कादूण तदो एककसराहेण मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । णामा गोदाणं ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णाणावरणीय-

ये सर्वघाती हो जाते हैं । पुनः स्थितिवन्धपृथक्त्वसे अवधिज्ञानावरणीय, अवधिदर्शना-  
वरणीय और लाभान्तराय भी सर्वघाती हो जाते हैं । पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वसे  
मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानान्तराय भी अनुभागवन्धसे सर्वघाती हो जाते हैं ।  
तत्पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके चीत जानेपर असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा नष्ट हो  
जाती है और समयप्रवद्धके असंख्यात लोकमात्र भागहाररूप, अर्थात् एक समयप्रवद्धके  
असंख्यातवें भागमात्र, उदीरणा होती है । जिस समयमें समयप्रवद्धके असंख्यात लोक-  
मात्र भागहाररूप उदीरणा होती है उस समयमें मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, घातिया  
कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा,  
और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे स्थितिवन्धसहस्रोंके  
चीत जानेपर पश्चात् एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कर्मोंका  
स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों ही  
कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है । वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक  
होता है । इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंको करके पश्चात् एक साथ मोहनीयका  
स्थितिवन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, तथा ज्ञानावरणीय,

१ विवरीय पडिहण्णदि विरयादीण च देसघादित्त । तह य असखेज्जाण उदीरणा समयपवद्धानु ॥  
लब्धि ३३२

२ लोयाणमसखेज्ज समयपवद्धस्स होदि पडिभागो । तत्तियमेत्तद्वस्सुदीरणा वट्टदे तत्तो ॥ लब्धि ३३३

३ तक्काले मोहणिय तीसिय वीसिय च वेयणिय । मोह वीसिय तीसिय वेयणिय कम हवे तत्तो ॥  
लब्धि ३३४.



दंशनावरणीय-वेदणीय-अंतराद्याणं ठिदिवंधो तुल्यो विसेसाहिओ । एवं संखेज्जाणि ठिदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो अण्णो द्विदिवंधो एक्कसराहेण णामा-गोदाणं थोवो । मोहणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । णाणावरण-दंमणावरण-वेदणीय-अंतराद्याणं ठिदिवंधो तुल्यो विसेसाहिओ । एदेण क्रमेण द्विदिवंधमहस्साणि वट्टाणि गदाणि । तदो अण्णो द्विदिवंधो एक्कसराहेण णामा-गोदाणं थोवो । चउण्हं कम्माणं ठिदिवंधो तुल्यो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ । जत्तो पाए असंखेज्जवस्सद्विदिवंधो तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे द्विदिवंधे अण्णं द्विदिवंधमसंखेज्जगुणं वंधदिं । एदेण क्रमेण सत्तण्हं पि कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगादो द्विदिवंधादो एक्कसराहेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो ठिदिवंधो जादो । तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ठिदिवंधे अण्णं द्विदिवंधं संखेज्जगुणं वंधदिं । एवं संखेज्जाणं द्विदिवंधसहस्साणमपुच्चा वट्टी पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । तदो मोहणीयस्स अण्णस्स द्विदिवंधस्स अपुच्चा वट्टी पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा जादा । ताधे चउण्हं कम्माणं द्विदिवंधस्स वट्टी

दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होना है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तत्र अन्य स्थितिवन्ध एक साथ नाम व गोत्र कर्मोका स्तोक, मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक, तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे बहुत स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं। तत्पश्चात् अन्य स्थितिवन्ध एक साथ नाम व गोत्र कर्मोका स्तोक, चार कर्मोका स्थितिवन्ध तुल्य विशेष अधिक, और मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है। जहांसे लेकर असंख्यात चर्षमात्र स्थितिवाला वन्ध होता है वहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य असंख्यातगुणे स्थितिवन्धको बांधता है। इस क्रमसे सातों कर्मोका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्धसे एक साथ पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्ध होने लगता है। वहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य संख्यातगुणे स्थितिवन्धको बांधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंकी अपूर्व वृद्धि पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होती है। पश्चात् मोहनीयके स्थितिवन्धकी अपूर्व वृद्धि पल्योपमके संख्यात बहुभागमात्र होती है। उस समयमें चार कर्मोके स्थितिवन्धके साधिक चतुर्थ भागसे हीन पल्योपम-

१ सोहं वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहर्तामियाण क्कम । वीसिय तीसिय मोह अप्पावहुण तु अवि-  
रद्धं ॥ लघ्वि. ३३५.

२ जत्तोपाये होदि हु दनखवन्मपमागठिदिवंधो । तत्तोपाये अण्णं ठिदिवंधमनखगुणियक्कम ॥ लघ्वि ३३७.

३ एव पड्ढासख सख माग च होड ववेन । एत्तोपाये अण्णं ठिदिवंधो सखगुणियक्कम ॥ लघ्वि ३८३

पलिदोवमं चदुभागेण सादिरेगेण ऊणयं । ताधे चेत्र णामा-गोदाणं द्विदिवंधपरिवड्डी अद्धपलिदोवमं संखेज्जदिभागूणं । जात्रे एमा परिवड्डी ताधे मोहणीयस्स जो द्विदिवंधो पलिदोवमं, चदुण्हं कम्माणं जो द्विदिवंधो पलिदोवमं चदुभागूणं, णामा-गोदाणं जो द्विदिवंधो अद्धपलिदोवमं, एत्तो पाए द्विदिवंधे पुण्णे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण वड्ढदि' । जत्तिया अणियट्ठीअद्धा सेसा, अपुव्वकरणद्धा सव्वा च, तत्तियं कालं-एदाए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु अण्णो एइंदियद्विदिवंध-समओ द्विदिवंधो जादो । एवं वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-असण्णिद्विदिवंधसमओ द्विदिवंधो जादो' । तदो द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअणियट्ठी जादो । चरिमसमय-अणियट्ठिस्स द्विदिवंधो सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए' ।

से काले अपुव्वकरणं पविट्ठो । ताधे चेत्र अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं' णिकाचणाकरणं च उग्घाडिदाणि' । ताधे चेत्र मोहणी-

मात्र वृद्धि होती है । उसी समय नाम व गोत्र कर्मोंकी स्थितिवन्धवृद्धि संख्यातवें भागसे हीन अर्ध पल्योपममात्र होती है । जब यह वृद्धि होती है तब मोहनीयका जो स्थितिवन्ध पल्योपमप्रमाण, चार कर्मोंका जो स्थितिवन्ध चतुर्थ भागसे हीन पल्योपम-प्रमाण, और नाम व गोत्र कर्मोंका जो स्थितिवन्ध अर्ध पल्योपममात्र होता है, उससे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र वृद्धि होती है । जितना शेष अनिवृत्तिकरणकाल और सब अपूर्वकरणकाल है उतने काल तक इस पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र वृद्धिसे स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अन्य स्थितिवन्ध एकेन्द्रियके समान हो जाता है । पुनः इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंखी, इनके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्ध हो जाता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अन्तसमयवर्ती अनिवृत्तिकरण होता है । अन्तिम-समयवर्ती अनिवृत्तिकरणके स्थितिवन्ध कौटिके भीतर सागरोपमलक्षपृथक्त्वमात्र होता है । ( अर्थात् मोहनीयका लक्षपृथक्त्वसागरोंके सात भागोंमेंसे चार भाग ( ४ ), ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका उक्त सात भागोंमेंसे तीन भाग ( ३ ), और नाम व गोत्र कर्मोंका उक्त सात भागोंमेंसे दो भाग ( २ ) मात्र स्थितिवन्ध होता है । )

उसके अनन्तर समयमें अपूर्वकरणमें प्रविष्ट होता है । उसी समय ही अप्रशस्त-उप-शामनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचनकरण प्रगट हो जाते हैं । उसी समयमें नौ प्रकार

१ मोहस्स य टिदिवंधो पहे जादे तदा हु परिवड्डी । पल्लस्स सखभाग इगिविगलासणिसम ॥ लब्धि ३३९

२ मोहस्स पल्लवधे तीसदुगे तत्तिपादमद्ध च । द्दुत्तिचउसत्तमभागा वीसतिये एयवियलठिदी ॥ लब्धि ३४०

३ तत्तो अणियट्ठिस्स य अत पत्तो हु तत्थ उदधीण । लक्खपुधत्त वधो से काले पुव्वकरणो हु ॥ लब्धि ३४१

४ अप्रतौ ' णिव्वत्तीकरण ', आ-क्कप्रत्यो ' णिव्वत्तीकरण ' इति पाठ ।

५ उवसामणा णिधत्ती णि णाचणुग्घाडिदाणि तत्थेव । चदुतीसदुगाण च य वधो अद्धापवत्तो य ॥ लब्धि ३४२

यस्स णवविहबंधगो जादो । ताधे चैव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेक्कदरस्स संघादयस्स उदीरगो, सिया भय दुगुंछाणमुदीरओ । तदो अपुच्चकरणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो परभवियणामाणं वंधगो जादो । तदो द्विदिवंध-सहस्सेहि गदेहि अपुच्चकरणद्वाए संखेज्जेसु भागेषु गदेषु णिद्दा-पयलाओ वंधदि । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेषु चरिमसमयअपुच्चकरणं पत्तो ।

से काले पढमसमयअधापवत्तो जादो । तदो पढमसमयअधा-पवत्तस्स अणो गुणसेडिणिकखेवो पोरानियादो गुणसेडिणिकखेवादो संखेज्ज-गुणो<sup>१</sup> । ओयरमाणसुहुमसांपराइयपढमसमयादो अपुच्चरणो त्ति<sup>२</sup> ताव सेसे सेसे णिकखेवो<sup>३</sup> । जो पढमसमयअधापवत्तकरणे णिकखेवो अंतोमुहुत्तिओ तत्तिओ चैव । तेण परं सिया वड्ढदि सिया हायदि सिया अवड्ढायदि<sup>४</sup> । पढम-समयअधापवत्तकरणे गुणसंकमो वोच्छिणो । सव्वकम्माणं अधापवत्तसंकमो जादो ।

मोहनीयका बन्धक होता है । उसी समय हास्य व रति तथा अरति व शोक, इनमेंसे किसी एक संघातका उदीरक होता है । कदाचित् भय और जुगुप्साका उदीरक होता है । पश्चात् अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग वीतनेपर तब परभविक नामकर्मों अर्थात् देवगति आदि तीस या सत्ताईस प्रकृतियोंका बन्धक हो जाता है । तत्पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेसे अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होनेपर निद्रा व प्रचला प्रकृतियोंको बांधता है । पुनः संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अपूर्व-करणके अन्त समयको प्राप्त होता है ।

अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण हो जाता है । तब अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें अन्य गुणश्रेणिनिक्षेप पूर्व गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणा होता है । उतरते हुए सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक शेष शेषमे निक्षेप होता है । अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो अन्तर्मुहूर्तमात्र निक्षेप है उतना ही अन्तर्मुहूर्ततक रहता है । उससे आगे कदाचित् बढ़ता है, कदाचित् हानिको प्राप्त होता है, और कदाचित् अवस्थित रहता है । अधः-प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमण नष्ट हो जाता है और सब कर्मोंका अधःप्रवृत्त-

१ पढमो अधापवत्तो गुणसेडिमवट्ठिद पुराणादो । सखगुण तच्चतोमुहुत्तमेत्तं करेदी हु ॥ लब्धि. ३४३.

२ प्रतिषु ' पढमसमयअपुच्चकरणादो त्ति ' इति पाठः ।

३ ओदारसुहुमादीदो अपुच्चचरिमोत्ति गल्लिदसेसे व । गुणसेदीणिकखेवो सट्ठाणे होदि तिट्ठाणं ॥ लब्धि. ३४४.

४ सट्ठाणे तावदिय, सखगुण त्त उवरि चडमाणे । विरदाविरदाहिप्पहे संखेज्जगुण तदो तिविह ॥ लब्धि. ३४५.

णवरि जेसिं विज्झादसंकमो अत्थि तेसिं विज्झादसंकमो चैव' । उवसामगस्स पढम-  
समयअपुव्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणोत्ति तदो एत्तो  
संखेज्जगुणं कालं पडिणियत्तो अधापवत्तकरणेण उवसमसम्मत्तद्धमणुपालेदि' ।

एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अब्भंतरादो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि  
गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज' । आसाणं पुण गदो जदि  
मरदि, ण सक्को गिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं वा गंतुं, णियमा देवगदिं  
गच्छदि' । एसो पाहुडच्चुणिसुत्ताभिप्पाओ । भूदवलिभयवंतस्सुवएसेण उवसमसेडीदो  
ओदिण्णो ण सासणत्तं पडिवज्जदि' । हंदि तिसु आउएसु एक्केण वि बद्धेण ण सक्को  
कसाए उवसामेदुं, तेण कारणेण गिरय-तिरिक्ख-मणुसगदीओ ण गच्छदि' ।

संक्रमण होता है। विशेषता यह है कि जिनका विध्यातसंक्रमण है उनका विध्यातसंक्रमण ही रहता है। उपशामकके श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर उतरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक जो काल है उससे संख्यातगुणे काल तक कषायोपशामनासे लौटता हुआ जीव अधःप्रवृत्तकरणके साथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वको पालता है।

इस द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालके भीतर असंयमको भी प्राप्त हो सकता है, संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है, और छह आवलियोंके शेष रहनेपर सासादनको भी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सासादनको प्राप्त होकर यदि मरता है तो नरकगति, तिर्यचगति अथवा मनुष्यगतिको प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं होता, नियमसे देवगतिको ही प्राप्त करता है। यह कषायप्राभृतचूर्णिसूत्र ( यतिवृषभाचार्य-कृत ) का अभिप्राय है। किन्तु भगवान् भूतवलिके उपदेशानुसार उपशमश्रेणिसे उतरता हुआ सासादनगुणस्थानको प्राप्त नहीं करता। निश्चयतः नारकायु, तिर्यगायु और मनुष्यायु, इन तीन आयुमेंसे पूर्वमें बांधी गई एक भी आयुसे कषायोंको उपशमानेके लिये समर्थ नहीं होता। इसी कारणसे नरक, तिर्यच व मनुष्यगतिको प्राप्त नहीं करता।

१ करणे अधापवत्ते अधापवत्तो दु सकमो जादो । विज्झादमवघाणे णट्ठो गुणसंकमो तत्थ ॥ लब्धि. ३४६.

२ चढणोदरकालादो पुत्रादो पुव्वगोति संखगुणं । कालं अधापवत्त पालदि सो उवसम सम्मं ॥  
लब्धि. २४७.

३ तस्सम्मत्तद्वाए असजम देमसजम वापि । गच्छेज्जावलिके सेसे सामणगुण वापि ॥ लब्धि. ३४८.

४ जदि मरदि सासणो सो गिरयतिरिक्ख णर ण गच्छेदि । णियमा देव गच्छदि जइवसहपुणिदवयणेण ॥  
लब्धि. ३४९.

५ उवसमसेदीदो पुण ओदिण्णो सासण ण पाउणदि । भूदवलिणाहणिम्मल्लसुत्तस्स फुडोवदेसेण ॥  
लब्धि ३५०

६ णरयतिरिक्खणराउगसत्तो सक्को ण मोहसुवसमिदु । तम्हा तिसुत्ति गदीसु ण तस्स उप्पज्जण होदि ॥  
लब्धि ३५१.

एसा सच्चा परूचना पुरिसवेदयस्स कोहेण उवट्टिदस्स' । पुरिसवेदओ चैव जदि माणेण उवट्टिदो होज्ज तो जाय सत्त णोकसायाणमुवसामणा, ताव णत्थि णाणत्तं, उवरि णाणत्तं होदि । तं जहा— माणं वेदंतो कोधमुवसामेदि । जदेही कोहेण उवट्टिदस्स कोहस्स उवसामणद्धा तदेही चैव माणेण वि उवट्टिदस्स कोधस्स उवसामणद्धा । कोधस्स पढमट्टिदी णत्थि । जदेही कोहेण उवट्टिदस्स कोधस्स माणस्स य पढमट्टिदी तदेही माणेण उवट्टिदस्स माणस्स पढमट्टिदी होदि । माणे उवसंते एत्तो सेसस्स उवसामेदव्वस्स मायाए लोभस्स च जो कोधेण उवट्टिदस्स उवसामणविधी सो चैव कायव्वो । माणेण उवट्टिदस्स उवसामेदूण तदो पडिवदिदूण लोभं वेदयमाणस्स जो पुच्चं परूविदो विधी सो चैव कायव्वो । एवं मायं वेदयमाणस्स वि वत्तव्वं ।

तदो माणं वेदयमाणस्स णाणत्तं । तं जहा— गुणसेडीणिकखेवो ताव णवण्हं कसायाणं सेसाणं कम्माणं गुणसेडीणिकखेवेण तुल्लो, सेसे सेसे च णिकखेवो । कोहेण उवट्टिदस्स उवसामगस्स पुणो पडिवदमाणयस्स जदेही माणवेदगद्धा तत्तियमेत्तेण कालेण माणवेदगद्धाए अधिच्छिदाए ताधे चैव माणं वेदंतो एगसमएण तिविधं कोधमणुवसंतं

यह सब परूपणा क्रोधसे उपस्थित पुरुषवेदीकी हैं । पुरुषवेदी ही यदि मानसे उपस्थित होता है तो जब तक सात नोकपायोंकी उपशामना है, तब तक कोई नानात्व अर्थात् भेद या विशेषता नहीं है, ऊपर विशेषता है । वह इस प्रकार है—मानका वेदन करनेवाला क्रोधको उपशामता है । क्रोधसे उपस्थित जीवके जितना क्रोधका उपशामनकाल है उतना ही मानसे भी उपस्थित जीवके क्रोधोपशामनकाल होता है । क्योंकि उसके क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं है । क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोध और मानकी सम्मिलित प्रथमस्थिति है उतनी ही मानसे उपस्थित जीवके मानकी प्रथमस्थिति होती है । मानके उपशान्त होनेपर शेष उपशामके योग्य माया व लोभकी उपशामनविधि जो क्रोधसे उपस्थित हुए जीवकी है वही करना चाहिये । मानसे उपस्थित होनेवालेके उपशाम करके पुनः नीचे उतरकर लोभका वेदन करते हुए जो विधि पूर्वमें कही जा चुकी है वही विधि करना चाहिये । इसी प्रकार मायाका वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये ।

उससे मानका वेदन करनेवालेके विशेषता है । वह वह इस प्रकार है—नौ कषायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप शेष कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके तुल्य और शेष शेषमें निक्षेप है । क्रोधसे उपस्थित हुए उपशामकके पुनः उतरते हुए जितना मानवेदककाल है उतने-मात्र कालसे मानवेदककालके अतिक्रमण करनेपर उसी समयमें ही मानका वेदन

१ पुकोधोदयचलियस्सेसा ह परूचना हु पुमाणे । मायालोभे चलिदस्सत्थि विसेस तु पत्तेय ॥ लब्धि ३५२.

करेदि । ताधे चैव ओकड्ढिदूण तिविधं पि कोधमावलियवाहिरे गुणसेडीए इदरेसिं कम्माणं गुणसेडीणिकखेवणसरिसीए णिक्खिखवदि गल्लिदसेसरूवेण । एदं णाणत्तं माणेण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स पुरिसवेदयस्स ।

मायाए उवड्ढिदस्स उवसामगस्स केहेही मायाए पढमड्ढिदी ? कोधेण उवड्ढिदस्स कोधस्स माणस्स मायाए च जाओ पढमड्ढिदीओ ताओ तिण्णि वि पिड्ढिदाओ मायाए उवड्ढिदस्स मायाए पढमड्ढिदी होदि । तदो मायं वेदंतो कोधं माणं मायं च उवसामेदि । तदो लोभमुवसामंतस्स णत्थि णाणत्तं । मायाए उवड्ढिदो उवसामेदूण पुणो पडि-वदमाणयस्स लोभं वेदयमाणस्स णत्थि णाणत्तं ।

मायं वेदंतस्स णाणत्तं । तं जघा— तिविहाए मायाए तिविधस्स लोभस्स च गुणसेडीणिकखेवो इदरेहि कम्मेहि सरिसो, सेसे सेसे च णिकखेवो । सेसे च कसाए मायं वेदंतो ओकड्ढिहिदि । तत्थ गुणसेडीणिकखेवं च इदरकम्मगुणसेडीणिकखेवेण सरिसं काहिदि ।

लोभेण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा— अंतरकरण-

करता हुआ एक समयमें तीन प्रकारके क्रोधको अनुपशान्त करता है । उसी समयमें ही तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण करके आवर्त्तके वाहिर इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके सदृश गुणश्रेणीमें गलित शेषरूपसे निक्षेपण करता है । मानसे उपस्थित पुरुषवेदी उपशामकके यह विशेषता है ।

शंका—मायासे उपस्थित उपशामकके मायाकी प्रथमस्थिति कितनी होती हैं ?

समाधान — क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थितियां हैं उन तीनोंके सम्मिलित प्रमाणरूप मायासे उपस्थित हुए जीवके मायाकी प्रथमस्थिति होती है । अतएव मायाका वेदन करनेवाला क्रोध, मान और मायाको उपशान्त करता है । लोभका उपशम करनेवालेके उससे कोई विशेषता नहीं है । मायासे उपस्थित हुआ उपशम करके पुनः नीचे उतरते हुए लोभका वेदन करनेवालेके विशेषता नहीं है ।

मायाका वेदन करनेवालेके विशेषता है । वह इस प्रकार है—तीन प्रकारकी माया और तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोंके सदृश और शेष शेषमें निक्षेप है । मायाका वेदन करनेवाला शेष कपायोंका अपकर्षण करता है । वहां गुणश्रेणिनिक्षेपको भी इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके सदृश करता है ।

लोभसे उपस्थित हुए उपशामककी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है —

पढमसमए लोभस्स पढमड्डिदिं करेदि । जदेही क्रोधेण-उवड्डिदस्स क्रोधस्स माणस्स मायाए च पढमड्डिदी लोभस्स वादरसांपराइयपढमड्डिदी च तदेही लोभस्स पढमड्डिदी होदि । तदो सुहुमसांपराइयं पडिवण्णस्स णत्थि णाणत्तं । तस्सेव पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयं वेदंतस्स णत्थि णाणत्तं ।

पढमसमयवादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा— तिविहस्स लोभस्स गुणसेडिणिक्खेवो इदरेहि कम्मोहि सरिसो । लोभं वेदयमाणो सेसे कमाए ओक्कड्डिहिदि । गुणसेडिणिक्खेओ इदरेहि कम्मोहि गुणसेडिणिक्खेवेण सरिसो । सेसे सेसे च णिक्खिस्सवदि । एदाणि णाणत्ताणि क्रोधेण उवसामेदुमुवड्डिदउवसामयादो । णवरि जस्स कसायस्स उदयेण चडिदो तन्नि ओवड्डिदे अंतरमाओदि । एदे पुरिस-वेदेणोवड्डिदस्स वियप्पा' ।

इत्थिवेदेण उवड्डिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा— अवेदो सत्त-कम्मसे उवसामेदि । सत्तण्हं पि उवसामणद्धा तुल्ला । एदं णाणत्तं, सेसा सव्वे

अन्तरकरणके प्रथम समयमें लोभकी प्रथमस्थितिको करता है । क्रोधसे उपस्थित जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थिति है तथा जितनी लोभकी वादरसाम्परायिक प्रथमस्थिति है उतनी लोभकी प्रथमस्थिति है । इससे ऊपर सूक्ष्मसाम्परायिकको प्रतिपन्न अर्थात् सूक्ष्म लोभका वेदन करनेवालेके कुछ भी विशेषता नहीं है । उसीके नीचे उतरते समय सूक्ष्मसाम्परायिकका वेदन करते हुए विशेषता नहीं है ।

वादरसाम्परायिकके प्रथम समयसे लेकर जो विशेषता है उसे कहते हैं । वह इस प्रकार है—तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोंके सदृश है । लोभका वेदन करते हुए शेष कर्मायोंका अपकर्षण करता है । गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके सदृश है । शेष श्रेणियोंमें निक्षेपण करता है । क्रोधके साथ उपशमानेके लिये उपस्थित हुए जीवकी अपेक्षा मान, माया व लोभके उदयसे युक्त उपशामकोंके ये विशेषतायें हैं । विशेषता यह है कि जिस कर्मायके उदयसे श्रेणी चढ़ा था उसी कर्मायका अपकर्षण करनेपर अन्तरको पूर्ण करता है, अर्थात् अन्तरकरणमें नष्ट किये हुए निषेकोंका सद्भाव करता है । ये पुरुषवेदसे उपस्थित हुए जीवके विकल्प कहे गये हैं ।

अब स्त्रीवेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है—स्त्रीवेदके उदय सहित क्रोधादि कर्मायोंके उदयसे श्रेणीपर आरूढ़ हुआ जीव अपगतवेदी होकर सात कर्मशौंको उपशामाना है । सातोंका ही उपशामनकाल तुल्य है । यहाँ इतनीमात्र

१ नत्सुदण्णं य चडिदो तन्नि य उक्कड्डियन्नि पडिडण । अंतरमाओदि ह एव पुरिसोवए चडिदो ॥  
कथि ३६०.

वियप्पा पुरिसवेदेण सरिसा ।

णउंसयवेदेण उवड्ढिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो' । तं जहा— अंतरदुसमयकदे णउंसयवेदमुवसामेदि । जा' पुरिसवेदेण उवड्ढिदस्स णउंसयवेदस्स उवसामणद्धा तद्देही अद्धा गदा तो वि-णवुंसयवेदो ण उवसामिदि । तदो इत्थिवेदमुवसामेदुमादवेइ', णवुंसयवेदं पि उवसामेदि चेव । तदो इत्थिवेदस्स उवसामणद्धाए पुण्णाए इत्थिवेदो णवुंसयवेदो च उवसामिदा । ताधे चेव चरिमसमयसवेदो भवदि । तदो अवेदो सत्त कम्माणि उवसामेदि । तुल्ला च सत्तण्हं कम्माणमुवसामणा । एदं णाणत्तं णवुंसयवेदेण उवड्ढिदस्स । सेसावियप्पा ते चेव कायव्वा'

एत्तो पुरिसवेदेण सह कोधोदएण उवड्ढिदस्स उवसामगस्स पढमसमयअपुच्चकरणमार्दि कादूण जाव पडिवदमाणयस्स चरिमसमयअपुच्चकरणो त्ति, एदिस्से अद्धाए जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पावहुगं वत्तइस्सामो' । तं जहा— सच्चत्थोवा जह-

विशेषता है, शेष सब विकल्प पुरुषवेदके सदृश हैं ।

नपुंसकवेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है— अन्तर करनेके पश्चात् दूसरे समयमें नपुंसकवेदको उपशमाता है । पुरुषवेदसे उपस्थित हुए जीवके जो नपुंसकवेदका उपशामनकाल है, उतना काल बीत जाता है, तो भी नपुंसकवेदका उपशम पूर्ण नहीं होता । तब स्त्रीवेदको उपशमानेके लिये प्रारम्भ करता है और नपुंसकवेदको भी उपशमाता है । पश्चात् स्त्रीवेदके उपशमकालके पूर्ण होनेपर स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही उपशान्त हो जाते हैं । उसी समय ही अन्तिमसमयवर्ती सवेदी होता है । तत्पश्चात् अपगतवेदी होकर सात कर्मोंको उपशमाता है । सात कर्मोंकी उपशामना तुल्य है । यह नपुंसकवेदसे उपस्थित होनेवालेके विशेषता है । शेष विकल्प वे ही अर्थात् पुरुषवेदके सदृश ही करना चाहिये ।

यहांसे पुरुषवेदके साथ क्रोधके उदयसे उपस्थित उपशामकके (चढ़ते समय) अपूर्वकरणके प्रथम समयको आदि लेकर उतरते हुए अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक इस कालमें जो कालसंयुक्तपद हैं उनके अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है—जघन्य

१ धीउदयस्स य एव अवगट्ठेदो हु सत्तकम्मसे । सममुवसामदि सदस्सुदए चड्ढिदस्स वोच्चाभि ॥ लब्धि ३६१

२ मप्रतौ ' जो ' इति पाठ ।

३ आप्रतौ 'मादवेइ' मप्रतौ ' मादवइ ' इति पाठ ।

४ सदुदयतरङ्गणो सदद्धाणम्हि अणुवसतसे । इत्थिस्स य अद्धाए सद इत्थि च समगमुवसमदि ॥ ताहे चरिमसवेदो अवगतवेदो हु सत्तकम्मसे । सममुवसामदि सेसा पुरिसोदयचलिदमगा हु ॥ लब्धि ३६२-३६३

५ पुकोहस्स य उदए चलपलिदेऽपुच्चदो अपुच्चो त्ति । एदिस्से अद्धाण अप्पावहुग तु वोच्चाभि ॥ लब्धि. ३६४.



णिण्या अणुभागखंडयउक्कीरणद्वा । उक्कस्सिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्वा विसेसा-  
हिया । जहणिया द्विदिवंधगद्वा द्विदिवंधयउक्कीरणद्वा च तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ ।  
पडिवदमाणयस्स जहणिया द्विदिवंधगद्वा विसेसाहिया । अंतरकरणद्वा विसेसाहिया ।  
उक्कस्सिया द्विदिवंधगद्वा द्विदिवंधयउक्कीरणद्वा च विसेसाहिया । चरिमसमयसुहुम-  
सांपराइयस्स गुणसेढिणिकखेवो संखेज्जगुणो । तं चेव गुणमेडिसीसयं ति भण्णदि ।  
उवसंतकसायस्स गुणसेढिणिकखेवो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयद्वा  
संखेज्जगुणा । तस्स चेव पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयस्स लोभस्स गुणसेढी-  
णिकखेवो विसेसाहियो । उवसामगस्स सुहुमसांपराइयद्वा किट्टीणमुवसामणद्वा सुहुम-  
सांपराइयस्स पढमठिदी तिण्णि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । उवसामगस्स किट्टी-  
करणद्वा विसेसाहिया । पडिवदमाणयस्स वादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्वा संखेज्जगुणा ।  
तस्सेव लोभस्स तिविधस्स वि तुल्लो गुणसेढीणिकखेवो विसेसाहियो । उवसामगस्स

अनुभागकाण्डकोत्कीरणकाल सबसे स्तोक है (१) । उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकोत्कीरणकाल  
विशेष अधिक है (२) । जघन्य स्थितिवन्धकाल और स्थितिकांडकोत्कीरणकाल तुल्य  
संख्यातगुणे हैं (३) । उतरनेवालेके जघन्य स्थितिवन्धकाल विशेष अधिक है (४) ।  
अन्तरकाल विशेष अधिक है (५) । उत्कृष्ट स्थितिवन्धकाल और स्थितिकांडकोत्कीरण-  
काल विशेष अधिक है (६) । अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकका गुणश्रेणिनिक्षेप  
संख्यातगुणा है (७) । वही गुणश्रेणिनिक्षेप 'गुणश्रेणिशीर्ष' कहा जाता है । उपशान्तकपायका  
गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (८) । उतरनेवालेका सूक्ष्मसाम्परायिककाल संख्यात-  
गुणा है (९) । उसी उतरनेवालेके सूक्ष्मसाम्परायिक लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष  
अधिक है (१०) । उपशामकके सूक्ष्मसाम्परायिककाल, कृष्टियोंका उपशामनकाल और  
सूक्ष्मसाम्परायिककी प्रथमस्थिति, ये तीनों ही तुल्य विशेष अधिक है (११) । उपशामकका  
कृष्टिकरणकाल विशेष अधिक है (१२) । उतरते हुए वादरसाम्परायिकका लोभवेदक-  
काल संख्यातगुणा है (१३) । उसके ही तीनों प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप तुल्य विशेष

१ अवरदो वरमहिय रसखड्ढुक्कीरणस्स अद्वाण । सखगुण अवरद्विदिवदस्सुक्कीरणो कालो ॥ लब्धि ३६५

२ पडणजहणद्विदिवंधद्वा तह अतरस्स करणद्वा । जेद्विदिवंधदिदीउक्कीणद्वा य अहियक्कमा ॥  
लब्धि ३६६

३ सुहुमतिमगुणसेढी उवसतकसायस्स गुणसेढी । पडिवदसुहुमद्वा वि य तिण्णि वि संखेज्जगुणिकमा ॥  
लब्धि ३६७

४ तगुणसेढी अहिया चलसुहुमो किट्टिउवसमद्वा य । सुहुमस्स य पढमठिदी तिण्णि वि सरिसा विसेस-  
हिया ॥ लब्धि ३६८.

५ किट्टीकरणद्वाहिया पडवादरलोभवेदगद्वा हु । सखगुणा तस्सेव य तिलोहगुणसेढिणिकखेओ ॥ लब्धि ३६९

बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । तस्सेव पढमठिदी विसेसाहिया । पडि-  
वदमाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया' । पडिवदमाणयस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया ।  
तस्सेव मायावेदगस्स छण्हं कम्ममाणं गुणसेठीणिकखेवो विसेसाहिओ' । उवसामगस्स  
मायावेदगद्धा विसेसाहिया । मायाए पढमठिदी विसेसाहिया । मायाए उवसामगद्धा  
विसेसाहिया । उवसामगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया । माणस्स पढमठिदी विसेसा-  
हिया । माणस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया' । क्रोधस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया ।  
छण्णोकसायाणमुवसामणद्धा विसेसाहिया । पुरिमवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया ।  
इत्थिवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । णउंसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया ।  
खुद्दाभवग्गहणं विसेसाहियं' । उवसंतद्धा दुगुणा । पुरिसवेदस्स पढमठिदी विसेसाहिया ।  
क्रोधस्स पढमठिदी विसेसाहिया । मोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया' । पडिवदमाणयस्स

अधिक है (१४) । उपशामक बादरसाम्परायिकका लोभवेदककाल विशेष अधिक है (१५) ।  
उसीके बादरलोभकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (१६) । उतरनेवालेका लोभवेदककाल  
विशेष अधिक है (१७) । उतरनेवालेका मायावेदककाल विशेष अधिक है (१८) ।  
उसी मायावेदकके छह कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है (१९) ।  
उपशामकका मायावेदककाल विशेष अधिक है (२०) । मायाकी प्रथमस्थिति विशेष  
अधिक है (२१) । मायाका उपशामककाल विशेष अधिक है (२२) । उपशामकका  
मानवेदककाल विशेष अधिक है (२३) । मानकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (२४) ।  
मानका उपशामककाल विशेष अधिक है (२५) । क्रोधका उपशामककाल विशेष अधिक  
है (२६) । छह नोकपायोंका उपशामककाल विशेष अधिक है (२७) । पुरुषवेदका  
उपशामनकाल विशेष अधिक है (२८) । स्त्रीवेदका उपशामनकाल विशेष अधिक  
है (२९) । नपुंसकवेदकका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३०) । शुद्धभवग्रहण  
विशेष अधिक है (३१) । उपशान्तकाल दुगुणा है (३२) । पुरुषवेदकी प्रथमस्थिति  
विशेष अधिक है (३३) । क्रोधकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (३४) । मोहका  
उपशामनकाल विशेष अधिक है (३५) । उतरनेवालेके जब तक असंख्यात समयप्रवद्धोंकी

१ चड्वादरलोहस्स य वेदगकालो य तस्स पढमठिदी । पडलोहवेदगद्धा तस्सेव य लोहपढमठिदी ॥  
लब्धि ३७०

२ तम्मायवेदद्धा पडिवदछण्ण पि खित्तगुणसेदी । त माणवेदगद्धा तस्स णवण्ह पि गुणसेदी ॥ लब्धि ३७१.

३ चड्मायवेदद्धा पढमठिदिमायउवसमद्धा य । चलमाणवेदगद्धापढमठिदिमाणउवसमद्धा य ॥ लब्धि ३७२.

४ क्रोहोवसामणद्धा छपुरिसिथीण उवसमाण च । खुद्दभवग्गहण च य अहियक्कमा एक्कवीसपदा ॥  
लब्धि ३७३

५ उवसतद्धा दुगुणा तत्तो पुरिसस्स क्रोहपढमठिदी । मोहोवसामणद्धा तिण्णि वि अहियक्कमा होंति ॥  
लब्धि. ३७४.

जाव असंखेज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणा सो कालो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स असंखे-  
ज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणकालो विसेसाहियो' । पडिवदमाणयस्स अणियट्ठिअद्धा  
संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अणियट्ठिअद्धा विसेसाहिया । पडिवदमाणयस्स अपुच्च-  
करणद्धा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अपुच्चकरणद्धा विसेसाहिया' । पडिवदमाणयस्स  
उक्कस्सओ गुणसेट्ठिणिकखेवो विसेसाहियो । उवसामयस्स अपुच्चकरणस्स पढमसमए  
गुणसेट्ठिणिकखेवो विसेसाहियो । उवसामगस्स कोधवेदगद्धा संखेज्जगुणा' । अधापवत्त-  
संजदस्स गुणसेट्ठिणिकखेवो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स उवसंतद्धा संखेज्जगुणा ।  
चारित्तमोहणीयस्स उवसामओ अंतरं करंतो जाओ ट्ठिदीओ उक्कीरदि ताओ संखेज्ज-  
गुणाओ । दंसणमोहणीयस्स अंतरट्ठिदीओ संखेज्जगुणाओ' । जहणिया आवाधा  
संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाधा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स मोहणीयस्स जहणगो

उदीरणा होती है तब तकका वह काल संख्यातगुणा है ( ३६ ) । उपशामकके असंख्यात  
समयप्रवर्द्धोंकी उदीरणाका काल विशेष अधिक है ( ३७ ) । उतरनेवालेका अनिवृत्ति-  
करणकाल संख्यातगुणा है ( ३८ ) । उपशामकका अनिवृत्तिकरणकाल विशेष अधिक  
है ( ३९ ) । उतरनेवालेका अपूर्वकरणकाल संख्यातगुणा है ( ४० ) । उपशामकका अपूर्व-  
करणकाल विशेष अधिक है ( ४१ ) । उतरनेवालेका उत्कृष्ट गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक  
है ( ४२ ) । उपशामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक  
है ( ४३ ) । उपशामकका क्रोधवेदककाल संख्यातगुणा है ( ४४ ) । अधःप्रवृत्तसंयतका  
गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है ( ४५ ) । दर्शनमोहनीयका उपशान्तकाल संख्यातगुणा  
है ( ४६ ) । चारित्रमोहनीयका उपशामक अन्तर करता हुआ जिन स्थितियोंका उत्कीरण  
करता है वे संख्यातगुणी हैं ( ४७ ) । दर्शनमोहनीयकी अन्तरस्थितियां संख्यातगुणी  
हैं ( ४८ ) । जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है ( ४९ ) । उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी  
है ( ५० ) । उपशामकके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ५१ ) । उतरने-

१ चडणस्स असखाण समयपवद्धानुदीरणाकालो । सखगुणो चडणस्स य तक्कालो होदि अहिया य ॥  
लब्धि ३७५

२ पडणाणियट्ठियद्धा सखगुणा चडणगा विसेसहिया । पडमाणा पुच्चद्धा सखगुणा चडणगा अहिया ॥  
लब्धि ३७६

३ पडिवडवरगुणसेदी चढमाणापुच्चपढमगुणसेदी । अहियक्कमा उवसामगकोहस्स य वेदगद्धा हु ॥ लब्धि ३७७.

४ सजदअधापवत्तगुणसेदी दसणोवसतद्धा । चारित्ततरिगठिदी दसणमोहतरठिदीओ ॥ लब्धि ३७८.

५ प्रतिष्ठा ' जहणियस्स ' इति पाठ ।

द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स मोहणीयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । एदेसिं चेत्र कम्माणं पडिवदमाणयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । अंतोमुहुत्तो संखेज्जगुणो' । उवसामगस्स णामा-गोदाणं जहण्णगो द्विदिवंधो संखेज्जगुणो' । वेदणीयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । पडिवदमाणयस्स णामा-गोदाणं जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ । तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो विसेसाहिओ' । उवसामगस्स मायासंजलणजहण्णगो द्विदिवंधो मासो । तस्सेव पडिवदमाणयस्स जहण्णगो द्विदिवंधो वे मासा । उवसामगस्स माणभंजलणजहण्णगो द्विदिवंधो वे मासा । पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णद्विदिवंधो चत्तारि मासा । उवसामगस्स कोहसंजलणजहण्णद्विदिवंधो चत्तारि मासा । पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णद्विदिवंधो अट्ठ मासा । उवसामगस्स पुरिसवेदजहण्णद्विदिवंधो सोलस वस्साणि' । तस्समए चेत्र संजलणाणं

वालेके मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (५२) । उपशामकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (५३) । इन्हीं कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध उतरनेवालेके संख्यातगुणा है (५४) । अन्तर्मुहुर्त संख्यातगुणा है (५५) । उपशामकके नाम व गोत्र कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (५६) । वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (५७) । उतरनेवालेके नाम व गोत्र कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (५८) । उसीके वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (५९) । उपशामकके संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिवन्ध एक मास है (६०) । उतरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जघन्य स्थितिवन्ध दो मास है (६१) । उपशामकके संज्वलनमानका जघन्य स्थितिवन्ध दो मास है (६२) । उतरनेवालेके उसी संज्वलनमानका जघन्य स्थितिवन्ध चार मास है (६३) । उपशामकके संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिवन्ध चार मास है (६४) । उतरनेवालेके उसी संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिवन्ध आठ मास है (६५) । उपशामकके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध सोलह वर्ष है (६६) । उसी समयमें ही (उपशामकके) संज्वलनचतुष्कका

१ अवरजेट्ठावाहा चडपडमोहस्स अवरद्विदिवंधो । चडपडतिष्ठादिअवरद्विदिवंधतोमुहुत्तो य ॥ लब्धि ३७९.

२ चडमाणस्स य णामागोदजहण्णद्विदीण वधो य । तेरसपदासु कम्मसो सखेण य होंति गुणियकमा ॥ लब्धि ३८०.

३ चलतदियअवरवध पट्णामागोदअवरद्विदिवंधो । पडतदियस्स य अवर तिष्णि पदा होति अहियकमा ॥ लब्धि. ३८१.

४ चडमायमाणक्रीहो मासादीइगुण अवरद्विदिवंधो । पडणे ताणं दुगुण सोलसवस्साणि चलणपुरिसस्स ॥ लब्धि ३८२.

द्विदिवंधो वत्तीस वस्साणि । पडिवदमाणयस्स पुरिसवेदजहण्णद्विदिवंधो वत्तीस वस्साणि । तस्समए चैव संजलणाणं द्विदिवंधो चटुसट्ठी वस्साणि' । उवसामगस्स पढमो संखेज्जवस्सिओ मोहणीयस्स द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स चरिमो संखेज्जवस्सिओ मोहणीयस्स द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराह्याणं पढमो संखेज्जवस्सिओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स तिण्हं घादिकम्मणं चरिमो संखेज्जवस्सद्विदिओ वंधो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढमो संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं चरिमो संखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो संखेज्जगुणो' । उवसामगस्स चरिमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो मोहणीयस्सासंखेज्जगुणो । उवसामयस्स घादिकम्मणं चरिमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स पढमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो वंधो घादिकम्मणमसंखेज्जगुणो । उवसामयस्स णामा गोद-

-- --

स्थितिवन्ध वत्तीस वर्ष है ( ६७ ) । उतरनेवालेके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिवन्ध वत्तीस वर्ष है ( ६८ ) । उसी समयमें ही संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध ( उतरनेवालेके ) चौसठ वर्ष है ( ६९ ) । उपशामकके संख्यात वर्षवाला मोहनीयका प्रथम स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ७० ) । उतरनेवालेके संख्यात वर्षवाला मोहनीयका अन्तिम स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ७१ ) । उपशामकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षवाला प्रथम स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ( ७२ ) । उतरनेवालेके तीन घातिया कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम वन्ध संख्यातगुणा है ( ७३ ) । उपशामकके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला प्रथम वन्ध संख्यातगुणा है ( ७४ ) । उतरनेवालेके नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम वन्ध संख्यातगुणा है ( ७५ ) । उपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका अन्तिम वन्ध असंख्यातगुणा है ( ७६ ) । उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका प्रथम वन्ध असंख्यातगुणा है ( ७७ ) । उपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला घातिया कर्मोंका अन्तिम वन्ध असंख्यातगुणा है ( ७८ ) । उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला घातिया कर्मोंका प्रथम वन्ध असंख्यातगुणा है ( ७९ ) । उपशामकके

---

---

१ पडणस्स तस्स दुयुण संजलणाण तु तत्थ दुद्धाणे । वत्तीस चउसट्ठी वस्सपमाणेण द्विदिवंधो ॥  
लब्धि. ३८३.

२ चडपडणमोहपदम चरिम तु तहा तिघादियादीण । संखेज्जवस्सवंधो संखेज्जगुणवक्रमो छण्हं ॥  
लब्धि. ३८४.

वेदणीयाणं चरिमो असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स णामा-  
गोद-वेदणीयाणं पढमो असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो असंखेज्जगुणो' । उवसामगस्स  
णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो पढमो ट्ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो' ।  
णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो पढमो ट्ठिदि-  
बंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ पढमो ट्ठिदिबंधो  
विसेसाहिओ' । चरिमट्ठिदिखंडयं संखेज्जगुणं । जाओ ट्ठिदीओ परिहाइदूण पलिदोवम-  
ट्ठिदिगो बंधो जादो ताओ ट्ठिदीओ संखेज्जगुणाओ । पलिदोवमं संखेज्जगुणं' । अणि-  
यट्ठिस्स पढमसमये ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स अणियट्ठिस्स चरिमसमए  
ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो' । अपुच्चकरणस्स पढमसमए ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवद-

नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोंका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला अन्तिम बन्ध असंख्यात-  
गुणा है (८०) । उतरनेवालेके नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोंका असंख्यात वर्षमात्र  
स्थितिवाला प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (८१) । उपशामकके नाम व गोत्र कर्मोंका  
पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है (८२) । ज्ञानावरण,  
दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम स्थिति-  
वन्ध विशेष अधिक है (८३) । मोहनीयका पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र प्रथम  
स्थितिवन्ध विशेष अधिक है (८४) । सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें  
ज्ञानावरणादिकोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है (८५) । जिन  
स्थितियोंको कम कर पल्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध हुआ है वे स्थितियां  
संख्यातगुणी हैं (८६) । पल्योपम संख्यातगुणा है (८७) । अनिवृत्तिकरणके प्रथम  
समयमें स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (८८) । उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम  
समयमें स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है (८९) । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिवन्ध

१ चडपडणमोहचरिम पढम तु तहा तिघादियादीण । असंखेज्जवस्सवधो संखेज्जगुणवकमो छण्ह ॥  
लब्धि. ३८५.

२ चडणे णामदुगाण पढमो पलिदोवमस्स संखेज्जो । भागो ठिदिस्स वधो हेट्ठिछादो असखगुणा ॥ लब्धि ३८६.

३ तीसियचउण्ह पढमो पलिदोवमसखभागठिदिवधो । मोहस्स वि दोण्णि पदा विसेसअहियक्कमा होंति ॥  
लब्धि ३८७.

४ प्रतिपु ' पलिदोवमसंखेज्जगुणे ' इति पाठ । जयधवलाया तु 'पलिदोवम संखेज्जगुण' इत्येव पाठ' ।

५ ठिदिखंटय तु चरिम वधोसरणट्ठिदी य पड्ढ । पड्ढ चडपडवादारपढमो चरिमो य ठिदिवंधो ॥  
लब्धि. ३८८.

माणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । पडिवदमाणयस्स अणियद्विस्स चरिमसमए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । उव्वसामगस्स अणियद्विस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । उव्वसामगस्स अपुव्वकरणस्स चरिमममए द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । उव्वसामगस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमए द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

संपुणं चारित्तं पडिवज्जंतस्स सरूवणिरूवणइमुत्तरमुत्तं भणदि—

संपुणं पुण चारित्तं पडिवज्जंतो तदो चत्तारि कम्माणि अंतोमुहुत्तद्विदिं द्वेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं मोहणीयमंतराइयं चेदि ॥ १५ ॥

तदो अंतोकोडाकोडीदो द्विदिवंधादो विसेसहीणां वादिज्जमाणादो चत्तारि

संख्यातगुणा है (९०) । उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिवन्ध संख्यात गुणा है (९१) । उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९२) । उतरनेवालेके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९३) । उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९४) । उपशामकके अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९५) । उपशामकके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९६) । उपशामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९७) ।

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवालेके स्वस्वनिर्पणके लिये उत्तरसूत्र कहते हैं—  
सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चार कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है ॥ १५ ॥

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक उत्तरोत्तर नाश किये जानेके कारण अन्तःकोटाकोटिप्रमाण स्थितिवन्धकी अपेक्षा विशेष हीनताको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादि

१ चडपडपुव्वपढमो चरिमो द्विदिवंधो य पडपस्से । तच्चरिम द्विदिन संखेज्जगुणक्कमा अड्ड ॥  
छन्दि ३८९.

२ तप्यदमद्विदिनत्त पडिवज्जणियद्विचरिमद्विदिसत्त । अहियक्कमा चलवावरपदमद्विदिनत्तय तु संखगुण ॥  
छन्दि ३९०

३ चडमाणपुव्वत्त य चरिमद्विदिनत्तय विसेसाहियं । तस्सेव य पढमद्विदिनत्त संखेज्जगुणिय ॥  
छन्दि ३९१

४ अत्रतो ' विसेसाहिणा ' वयतो ' विसेसाहिया ' इति पाठ ।

कम्माणि अंतोमुहुत्तट्टिदिं ठवेदि । काणि ताणि चत्तारि कम्माणि त्ति बुत्ते तण्णिण्णयट्ठं  
णाणावरणादीणं णामणिद्देशो कओ । किमट्ठमंतोमुहुत्तियं ठिदिं ठवेदि ? उवसामय-  
विसोधीदो खवगविसोधीणमाणंतियादो ।

वेदणीयं वारसमुहुत्तं ट्टिदिं ठवेदि, णामा-गोदाणमट्ठमुहुत्तट्टिदिं  
ठवेदि, सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहुत्तट्टिदिं ठवेदि ॥ १६ ॥

किमट्ठमेदासिं पयडीणमेत्तियमेत्तट्टिदिं ठवेदि ? पयडिविसेसादो ।

वारस य वेदणिज्जे णामा-गोदे य अट्ठ य मुहुत्ता ॥

ट्टिदिवधो तु जहण्णो भिण्णमुहुत्त तु सेसाणं ॥ १९ ॥

एसा दोसु सुत्तेसु बुत्तद्वाणमुवसंहारगाहा । एदाणि दो वि तीदसुत्ताणि देसा-  
मासियाणि । तेण एदेहि सइदस्स अत्थस्स<sup>१</sup> परूवणा कीरदे । तं जधा- चारित्तमोह-

चार कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है। वे चार कर्म कौन हैं? इस  
शंकाके निर्णयार्थ सूत्रमें ज्ञानावरणादिकोंका नामनिर्देश किया गया है।

शंका—सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक अन्तर्मुहूर्तमात्र ही स्थितिको  
क्यों स्थापित करता है ?

समाधान—चूंकि उपशामककी विशुद्धियोंसे क्षपककी विशुद्धियां अनन्तगुणी  
हैं, अतएव वह अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है।

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक वेदनीयकी वारह मुहूर्त, नाम व  
गोत्र कर्मोंकी आठ मुहूर्त और शेष कर्मोंकी भिन्नमुहूर्त अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको  
स्थापित करता है ॥ १६ ॥

शंका—इन प्रकृतियोंकी इतनी मात्र स्थितिको किस लिये स्थापित करता है ?

समाधान—प्रकृतियोंकी विशेषताके कारण उक्त प्रकृतियोंकी उतनीमात्र  
स्थितिको स्थापित करता है।

वेदनीयका वारह मुहूर्त, नाम व गोत्रका आठ मुहूर्त, तथा शेष कर्मोंका  
अन्तर्मुहूर्तमात्र जघन्य स्थितिवन्ध होता है ॥ १९ ॥

यह गाथा उक्त दोनों सूत्रोंमें कहे गये कालोंका उपसंहार करनेवाली है। ये  
दोनों ही अतीत सूत्र देशामर्शक हैं। इसी कारण इनसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा की  
जाती है। वह इस प्रकार है—चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें अधःप्रवृत्तकरणकाल, अपूर्व-

१ वारस य वेदणीये णामे गोदे य अट्ठ य मुहुत्ता । भिण्णमुहुत्त तु ठिदी जहण्णय सेसपवण्ह ॥  
गो क १३९

२ अ-आप्रसो 'अद्धस्स' इति पाठः ।



णीयस्स खवणाए अधापवत्तकरणद्वा अपुच्चकरणद्वा अणियट्ठीकरणद्वा चेदि तिण्णि अद्दाओ हवंति । ताओ तिण्णि अद्दाओ वि एगसंबद्दाओ एगावलियाए ओवट्ठिदव्वाओ । तदो जाणि कम्माणि अत्थि तेसिं ट्ठिदीओ ओट्ठिदव्वाओ । तेसिं चैव अणुभागफद्दयाणं जहण्णफद्दयप्पहुडि एया फद्दयावलिया ओट्ठिदव्वा । एत्थ अधापवत्तकरणे वट्ठमाणयस्स णत्थि ट्ठिदिघादो अणुभागघादो वा । केवलमणंतगुणाए विसोहीए वट्ठुदि' । अपुच्चकरण-पढमसमए ट्ठिदिखंडओ अप्पसत्याणं कम्माणमणुभागखंडओ च आगाइदो ।

अपुच्चकरणे पढमट्ठिदिखंडयस्स पमाणानुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—अपुच्च-करणे पढमट्ठिदिखंडयं जहण्णयं थोवं । उक्कस्सयं संखेज्जगुणं । उक्कस्सयं पि पलि-दोवमस्स संखेज्जदिभागो' । जहा दंसणमोहणीयस्स उवसामणाए तस्सेव खवणाए अणंताणुवंधीविसंजोयणाए कसायाणमुवसामणाए च अपुच्चकरणपढमट्ठिदिखंडयं जहण्णं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सयं सागरोवमपुधत्तं, तथा एत्थ णत्थि । एत्थ पुण

करणकाल और अनिवृत्तिकरणकाल, ये तीन काल होते हैं । एक एकसे सम्बद्ध उन तीनों कालोंको एक आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये । पश्चात् जो कर्म सत्तामें है उनकी स्थितियोंको आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये । उन्हीं कर्मोंके अनुभागस्पर्धकोंकी जघन्य स्पर्धकसे लेकर एक एक स्पर्धकावली अपवर्तनीय है । यहां अधःप्रवृत्तकरणमें वर्तमान जीवके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं हैं । वह केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त कर्मोंका स्थितिकांडक और अनुभाग-कांडक प्रारंभ होता है ।

अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमको कहते हैं । वह इस प्रकार है — अपूर्वकरणमें जघन्य प्रथम स्थितिकांडक स्तोक है । उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यात-गुणा है । उत्कृष्ट भी पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र है । जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी उपशामनामें, उसीकी क्षपणामें, अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजनामें और कपार्योंकी उपशामनामें अपूर्वकरणसम्बन्धी जघन्य प्रथम स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग और उत्कृष्ट सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है, उस प्रकार यहां नहीं है । यहां कपार्योंकी

१ गुणसेदी गुणसकम ठिदिसखडाण णत्थि पढमहि । पडिसमयमणतगुण विसोहिवट्ठीहि वट्ठुदि हु ॥  
लघि ३९३,

२ पल्लस्स सखमाण वर पि अवरारु सखगुणिद तु । पढमे अपुच्चखवणे ठिदिखडपमाणय होदि ॥  
लघि ४०५ एत्थ जहण्णय संखेज्जगुणहीणट्ठिदिसतक्कम्मियस्स गहेयन्वमुक्कस्सय पुण संखेज्जगुणट्ठिदिमतक्कम्मियस्स गहेयन्व । उक्कस्सय पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ति वुत्ते जहा जहण्णय पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपमाण-मेवमुक्कस्सय पि दट्ठव्व, ण तत्थ पयास्समवो ति वुत्त होदि । जयध अ प. १०७२.

कसायाणं खवणाए अपुव्वकरणपढमठिदिखंडयं जंहण्णमुक्कस्सं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, अपुव्वकरणे सव्वत्थ संखेज्जगुणहीणं । संखेज्जगुणहीणाद्धिदिसंतकम्माणं ठिदिखंडयाणि तप्पडिभागियाणि चैव । अपुव्वकरणस्स पढमसमए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागियं द्धिदिखंडयमायुगवज्जाणं कम्माणं गेण्हदि । अप्पसत्थाणं कम्माण-मणुभागस्स अणंते भागे खंडयं गेण्हदि । पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागं द्धिदिवंधेण ओसरदि । गुणसेडी उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ता अपुव्वकरणद्वादो अणियद्धिकरणद्वादो च विसेसाहिया । जे अप्पसत्थकम्मंसा ण वज्जंति तेसिं कम्माणं गुणसंकमो जादो' । द्धिदिवंधो द्धिदिसंतकम्मं च सागरोवमकोडिसदसहस्सपुधत्तं अंतोकोडाकोडीए । बंधादो पुण संतकम्मं संखेज्जगुणं' । एसा अपुव्वकरणपढमसमयपरुवणा ।

एत्तो विदियसमए णाणत्तं । तं जथा— असंखेज्जगुणदव्वमोकद्धिदूण गल्लिदसेसं गुणसेडिं करेदि' । विसोधी च अणंतगुणा । सेसेसु आवासएसु णत्थि णाणत्तं । एवं जाव पढमाणुभागखंडओ रमत्तो त्ति । तदो से काले अण्णो 'अणुभागखंडओ आगाइदो

क्षपणामें अपूर्वकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकांडक जघन्य और उत्कृष्ट भी पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र ही है, और अपूर्वकरणमें सर्वत्र संख्यातगुणा हीन होता है । संख्यातगुणे हीन स्थितिसत्ववाले कर्मोंके स्थितिकांडक भी संख्यातगुणे हीन ही हैं । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुको छोड़कर शेष कर्मोंके पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है । अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागके अनन्त बहुभागरूप कांडकको ग्रहण करता है । पल्योपमका संख्यातवां भाग स्थितिवन्धसे घटता है । उदया-वलिके वाहिर निक्षिप्त गुणश्रेणी अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है । जो अप्रशस्त कर्म नहीं बंधते हैं उन कर्मोंका गुणसंक्रमण होता है । स्थिति-वन्ध और स्थितिसत्व अन्तःकोटाकोटिके भीतर कोटिलक्ष्यृथक्त्व सागरोपमप्रमाण होता है । परन्तु वन्धकी अपेक्षा सत्व संख्यातगुणा है । यह अपूर्वकरणके प्रथमसमय-विषयक प्ररूपणा हुई ।

इससे द्वितीय समयमें विशेषता है । वह इस प्रकार है—असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गलितशेष गुणश्रेणीको करता है । विशुद्धि भी अनन्तगुणी है । शेष आवासोंमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके समाप्त होने तक यही क्रम है । तब अनन्तर समयमें अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है जो घात करनेसे

१ पडिसमयसखगुण दव्व सक्रमदि अप्पसत्थाण । वधुच्चियपयडीण वधतसजादिपयडीसु ॥ लब्धि ४००

२ अतोकोडाकोडी अपुव्वपढमहि होदि ठिदिवंधो । वधादो पुण सत्त सखेज्जगुण हवे तत्थ ॥ लब्धि ४०७

३ पडिसमय उक्कट्टदि असखगुणिदक्कमेण सचदि य । इदि गुणसेटीकरण पडिसमयसपुव्वपढमादो ॥

सेसस्स अणंता भागा । एवं संखेज्जेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभाग-  
खंडओ पढमद्विद्विखंडओ अपुव्वकरणे पढमद्विद्विबंधो' च एदाणि तिण्णि वि  
समगं णिड्ढिदाणि' । एवं द्विद्विबंधसहस्सेहि गदेहि अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जद्विभागे  
गदे णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदो जादो । ताधे चैव ताणि गुणसंक्रमेण संकमंति ।

ओव्वट्टणा जहण्णा आवलिया ज्जणिया तिभागेण ।

एसा द्विद्विसु जहण्णा तहाणुभागेसणंतेसु' ॥ २० ॥

संक्रामेदुक्कद्विदि जे असे ते अगद्विदा होंति ।

आवलियं से काले तेण परं होंति भजिदव्वा' ॥ २१ ॥

शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र है। इस प्रकार संख्यात अनुभागकाडकसहस्रोंके  
व्रीतनेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक, और जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें  
स्थितिवन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त होते हैं। इस प्रकार स्थिति-  
वन्धसहस्रोंके व्रीतनेसे अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर निद्रा व  
प्रचला प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छिन्ति हो जाती है। उसी समय वे दोनों प्रकृतियां  
गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण करती हैं।

यहां संक्रमणमें जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण एक त्रिभागसे हीन आवलीमात्र  
है। यह जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण स्थितियोंके विषयमें ग्रहण करना चाहिये।  
अनुभागविषयक जघन्य अपवर्तना अनन्त-स्पर्धकोंसे प्रतिबद्ध है। अर्थात् जब तक  
अनन्त स्पर्धकोंकी अतिस्थापना नहीं होती तब तक अनुभागविषयक अपकर्षणकी  
प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २० ॥

जिन कर्मप्रदेशोंका संक्रमण अथवा उत्कर्षण करना है वे आवलीमात्र काल तक  
अवस्थित अर्थात् क्रियान्तरपरिणामके बिना जिस प्रकार जहां निश्चित हैं उसी प्रकार  
ही वहां निश्चलभावसे रहते हैं। इसके पश्चात् उक्त कर्मप्रदेश वृद्धि, हानि एवं अवस्था-  
नादि क्रियाओंसे भजनीय हैं ॥ २१ ॥

१ प्रतिपु 'पढमद्विद्विखंडओ बंधो' इति पाठ ।

२ संखेज्जेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभागखंडय पढमद्विद्विखंडय च जो च पढममणए  
अपुव्वकरणे द्विद्विबंधो पढमो एदाणि तिण्णि वि समगं णिड्ढिदाणि । जयव अ प १०७३.

३ 'ओव्वट्टणा जहण्णा' एव मण्णि द्विद्विनोक्कद्विभागे जहण्णदो वि आवलियाए त्रैविभागमेत्तमइच्छ-  
विज्जण निक्खिद्विदि चि मण्णि होदि । 'एसा द्विद्विसु जहण्णा एव मण्णि द्विद्विविणग एसा जहण्णाइ-  
ओव्वट्टणाविसए धेत्तना चि उच होइ । 'तत्राणुभागेणतेसु' एव मण्णि अणुभागविषया ओव्वट्टणा जहण्णे वि  
अपतेसु फद्धएसु पडिवद्धा । जयव जणताणि फद्धयाणि णाहिच्छाविदाणि ताव अणुभागविसया ओव्वट्टणा प पयद्विदि  
चि वुच होइ । जयव अ प १०९६ लब्धि. ४०१.

४ 'संक्रामेदुक्कद्विदि' एव मण्णि संक्रामेदि वा उक्कद्विदि वा जे अण्णपदेने ते आवलियमेत्तकालमवद्विदा  
होंति. आवलियमेत्तकाल क्रियान्तरपरिणामेण विणा जहा जयव णिक्खित्ता तहा चैव तय णिच्चलमावेणावचिद्विदि

ओकड्ढदि जे अंसे से काले ते च होंति भजिदव्वा ।

वड्ढीए अवट्ठाणे हाणीए-संकमे उदए<sup>१</sup> ॥ २२ ॥

एकं च ठिदिविसेसं तु असंखेज्जेसु ढ्ढिदिविसेसेसु ।

वड्ढेदि रहस्सेदि च तहाणुभागेसणतेसु<sup>२</sup> ॥ २३ ॥

तदो ढ्ढिदिवंधसहस्सेसु गदेसु परभवियणामाणं वंधवोच्छेदो जादो । तदो ढ्ढिदि-

जिन कर्मांशोंका अपकर्षण करता है वे अनन्तर कालमें स्थित्यादिकी वृद्धि, अवस्थान, हानि, संक्रमण और उदय, इनसे भजनीय हैं, अर्थात् अपकर्षण किये जानेके अनन्तर समयमें ही उनमें वृद्धि आदिक उक्त क्रियाओंका होना संभव है ॥ २२ ॥

एक स्थितिविशेषका उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करनेवाला नियमसे असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है । इसी प्रकार एक अनुभागस्पर्धकसम्बन्धी वर्गणाका उत्कर्षण अथवा अपकर्षण करनेवाला नियमसे अनन्त अनुभागस्पर्धकोंमें ही बढ़ाता अथवा घटाता है । इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थितिका उत्कर्षण करनेमें जघन्य निक्षेप आवलीके असंख्यातवें भागमात्र, व अपकर्षण करनेमें जघन्य निक्षेप आवलीके त्रिभागमात्र होता है, तथा अनुभागके उत्कर्षण व अपकर्षणका जघन्य व उत्कृष्ट निक्षेप अनन्त अनुभागस्पर्धकप्रमाण होता है ॥ २३ ॥

पश्चात् स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर देवगति, पंचेन्द्रियजाति आदि परभविक नामकर्म प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्ति हो जाती है । इसके ऊपर स्थितिवन्धसहस्रोंके

त्ति वुत्त होइ । 'से काले' तदणतरसमयप्पहुडि तेण पर ततो उवरि होंति भजियव्वा भयणिज्जा भवति । सक्रमणावलियमेत्तकाले वदिकते ततो परे सक्रामिदा उक्कड्ढिदा च जे कम्मसा ते वड्ढिहाणिअवट्ठाणादिकिरियाहिं भयणिज्जा होंति । ततो पर तप्पवुत्तीए पाडिसेहामावादो त्ति वुत्त होदि । जयध अ प १०९७ लब्धि ४०२.

१ एदस्स मावत्थो- ओकड्ढिदपदेसग्ग किंचि तदणतरसमए चेव पुणो उक्कड्ढिज्जदि किंचि ण उक्कड्ढिज्जदि त्ति एव वड्ढीए भजिदव्वमवट्ठाणे वि । ओकड्ढिदपदेसग्ग किंचि सत्थाणे चेव अच्छदि किंचि अण्ण किरियं गच्छदि त्ति भयणिज्ज । एवमोक्कड्ढणाए सक्रमोदएहि भयणिज्जत्त जोजेयव्व । ओकड्ढिदविदियसमए चेव पुणो वि ओक्कड्ढणादीण पवुत्तीए वाहाणुवलमादो त्ति । जयध अ प १०९७ लब्धि ४०३

२ 'एकं च ढ्ढिदिविसेसं' एव भणिदे एग ढ्ढिदिविसेसमुक्कड्ढेमाणो गियमा असंखेज्जेसु ढ्ढिदिविसेसेसु वड्ढेदि त्ति एदेण जहण्णदो वि आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो चेव उक्कड्ढणाए णिक्खेवविसओ होदि, णो हेट्ठा त्ति जाणाविद । तहा एकं च ढ्ढिदिविसेसमोक्कड्ढेमाणो गियमा असंखेज्जेसु ढ्ढिदि-विसेसेसु रहस्सेदि णो हेट्ठा त्ति एदेण वि विदिएण सुत्तावयवेण जहण्णदो वि ओक्कड्ढणाए आत्रलियतिभागमेत्तेण णिक्खेवेण होदव्वमिदि जाणाविद । 'तहाणुभागेसणतेसु' एव भणिदे एगमणुभागफदयत्रगणमुक्कड्ढेमाणो ओक्कड्ढेमाणो च गियमा अणतेसु चेवाणु-भागफदएसु वड्ढेदि हरस्सेदि वेत्ति भणिद होदि । एदेण अणुभागविसयाणमोक्कड्ढेण जहण्णुक्कस्सणिक्खेव-पमाणावहारण कय । जयध अ प १०९८. लब्धि. ४०४.

बंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्तो ।

से काले पढमसमयअणियट्टिस्स आवासयाणि वत्तइस्सामो । तं जधा-  
पढमसमयअणियट्टिस्स अण्णो ट्टिदिखंडओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, अण्णो  
अणुभागखंडओ सेसस्स अणंता भागा, अण्णो ट्टिदिवंधो पलिदोवमस्स  
संखेज्जदिभागेण हीणो' । पढमट्टिदिखंडओ विसमो, जहण्णादो उक्कस्सओ  
संखेज्जदिभागुत्तरो । पढमे ट्टिदिखंडए हदे सव्वस्स तुल्लकाले अणियट्टिं पविट्टस्स ठिदि-  
संतकम्मं तुल्लं । ठिदिखंडओ वि सव्वस्स अणियट्टिं पविट्टस्स विदियट्टिदिखंडयादो  
विदियट्टिदिखंडओ तुल्लो, तदियादो तदियो तुल्लो । एवं सव्वत्थं । ट्टिदिवंधो सागरो-  
वमसहस्सपुधत्तं अंतोसदसहस्सस्स' । ट्टिदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं अंतोकोडा-

वीतनेपर अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होता है ।

अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती हुए अनिवृत्तिकरणके आवासोंको कहते हैं । वह इस प्रकार है— प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिकरणके अन्य स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण, अन्य अनुभागकांडक शेष अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र और अन्य स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन प्राप्त होता है । अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें वर्तमान नाना जीवोंका प्रथम स्थितिकांडक विषम है अर्थात् समान नहीं है । जवन्य प्रथम स्थितिकांडकसे उत्कृष्ट प्रथम स्थितिकांडक पल्यके संख्यातवें भागसे अधिक है । समान कालमे अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट सब जीवोंका स्थितिसत्व प्रथम स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर तुल्य है । अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट सबका स्थितिकांडक भी द्वितीय स्थितिकांडकसे द्वितीय स्थितिकांडक तुल्य है और तृतीयसे तृतीय स्थितिकांडक तुल्य है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । जो स्थितिवन्ध पूर्वमें अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें सागरोपमसहस्रपृथक्त्वमात्र होता हुआ लक्षसागरोपमके भीतर हो जाता है । इसी प्रकार जो स्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह घटकर इस समय लक्षपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण होता हुआ कोड़ाकोड़ीके भीतर ही रहता

१ अणियट्टिस्स य पढमे अण्ण ट्टिदिखंडपहुदिमारवई । लब्धि ४११

२ वादरपढमे पढम ट्टिदिखंड विसरिस तु विदियादि । ट्टिदिखंडय ममाण सव्वस्स समाणकालम्हि ॥ पडस्स सखमाग अवर तु वर तु सखमागहिय । चावादिमठिदिखंडो सेसा सव्वस्स सरिसा हु ॥ लब्धि ४१२-४१३

३ पुव्वमतोकोडाकोडिपमाणो होतो ट्टिदिवंधो अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जमहस्समेत्तोहि ट्टिदिवंधोमरणेहि सुट्टु ओहट्टियूण अणियट्टिकरणपढमसमये सागरोवमसहस्सपुधत्तमेत्तो होयूण अतोसागरोवमसदसहस्सस्स पयट्टदि ति वुत्त होदि ॥ जयध अ प १०७५.

कोडीए' । गुणसेढिणिकखेवो जो अपुव्वकरणे णिक्खित्तो तस्स सेसे सेसे च भवदि' । सव्वकम्मार्णं पि तिण्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि' । तं जहा— अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचनाकरणं च । एदाणि सव्वाणि पढमसमयअणियट्ठिस्स आवासयाणि परूविदाणि । से काले एदाणि चेव । णवरि गुणसेडी असंखेज्जगुणा । सेसे सेसे च णिकखेवो । विसोधी च अणंतगुणा । एवं संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो अण्णो ट्ठिदिवंधो असण्णिट्ठिदिवंधसमगो जादो' । तदो संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चउरिंदियट्ठिदिवंधसमगो जादो । एवं तीइंदियसमगो वीइंदियसमगो एवमेइंदियट्ठिदिवंधसमगो जादो' । तदो संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवम-ट्ठिदिवंधो जादो । ताधे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं दिवट्ठुपलिदो-वमट्ठिदिगो बंधो जादो । मोहणीयस्स वेपलिदोवमट्ठिदिगो बंधो जादो' । ताधे ट्ठिदि-

है । जो गुणश्रेणिनिक्षेप अपूर्वकरणमे निक्षिप्त था उसके शेष शेषमें ही निक्षेप होता है । अनिवृत्तिकरणमे सभी कर्मोंके अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न हो जाते हैं । ये सब प्रथम-समयवर्ती अनिवृत्तिकरणके आवास कहे गये हैं । अनन्तर समयमे भी ये ही आवास हैं । विशेष केवल यह है कि यहां गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है और शेष शेषमें निक्षेप है । विशुद्धि भी अनन्तगुणी है । इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके व्यतीत होनेपर तब अन्य स्थितिवन्ध असंज्ञीके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पुनः संख्यात स्थितिवन्ध-सहस्रोंके वीतनेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धसदृश स्थितिवन्ध होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रियके सदृश, द्वीन्द्रियके सदृश और इसी प्रकार एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीतनेपर नाम व गोत्र कर्मोंका पल्योपममात्र स्थितिवन्ध होता है । उस समयमे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका डेढ़ पल्योपमप्रमाण स्थितिवाला वन्ध होता है । मोहनीयका दो पल्योपममात्र स्थितिवाला वन्ध होता है । उस समयमें स्थितिसत्त्व लक्षपृथक्त्व

१ अतोकोडाकोडिमेत्त ट्ठिदिसत्तकम्ममपुव्वकरणपरिणामेहिं सखेज्जसहस्समेत्तट्ठिदिखड्यघादेहि घादिद सत्त सुट्ठु जोहट्टियूण अतोकोडाकोडीए सागरोवमलक्खपुधत्तपमाण होट्ठूणाणियट्ठिपढमसमए ट्ठिमिदि भणिद होदि । नयध अ प १०७५

२ उदविसहस्सपुधत्त लव्वखपुधत्तं तु वध सतो य । अणियट्ठिस्सादीए गुणसेदी पुव्वपरिसेसा ॥ लब्धि ४१४.

३ उवसामणा णिधत्ती णिकाचना तत्थ वोच्छिण्णा ॥ लब्धि ४११,

४ ट्ठिदिवंधसहस्सगदे सयेखा वादरे गदा भागा । तत्थासण्णिस्स ट्ठिदिसरिस ट्ठिदिवंधण होदि ॥ लब्धि ४१५.

५ ट्ठिदिवंधसहस्सगदे पत्तेय चदुरतियविएइदी । ट्ठिदिवंधसम होदि हु ट्ठिदिवंधमणुक्कमेणेव ॥ लब्धि ४१६

६ एइदियट्ठिदीदो सखसहरसे गदे हु ट्ठिदिवंधे । पट्ठेक्कदिवट्ठुइग ट्ठिदिवंधो वीसियतियाणं ॥ लब्धि ४१७.

संतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं ।

जाधे णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो ताधे अप्पावहुगं । तं जहा- णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो थोवो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ । मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ । अदिकंता सच्चे ट्टिदिबंधा एदेण अप्पावहुअविधिणा आगदा<sup>१</sup> । तदो णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिबंधे पुण्णे जो अण्णो ट्टिदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो । सेसाणं कम्माणं ट्टिदिबंधो विसेसहीणो । ताधे अप्पावहुअं- णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण ट्टिदिबंधसहस्साणि गदाणि संखेज्जाणि । तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो । ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो । तदो जो अण्णो ट्टिदिबंधो चदुण्हं कम्माणं सो संखेज्जगुणहीणो । ताधे अप्पावहुगं- णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स

सागरोपमप्रमाण रहता है ।

जिस समय नाम व गोत्र कर्मोंका पत्योपमप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोत्र है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इससे पूर्वके सब स्थितिवन्ध इसी अल्पबहुत्वविधिसे आये हैं । नाम-गोत्र कर्मोंका पत्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध विशेष हीन है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोत्र, चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं । तत्र ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इनका पत्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध होता है । उस समय मोहनीयका त्रिभागसे अधिक पत्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात् चार कर्मोंका जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है । उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार है— नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोत्र, चार कर्मोंका स्थिति-

१ तत्काले ठिदिसत् लक्खपुधत्त तु होदि उवहीण । बधोसरणा ववो ठिदिखळ सतमोसरदि ॥ लब्धि. ४१८

२ अ क प्रत्यो ' अदिवक्तो सच्चे ट्टिदिबंधो ' आप्रतौ ' अदिवक्तो सच्चे ट्टिदिबंधा ' इति पाठ ।

३ ण केवलमेसो चैव ट्टिदिबंधो एदेणप्पावहुअविधिणा पयट्ठो, किंतु अहक्कता सच्चे ट्टिदिबंधा एदेणैव कमेण पयट्ठा ति जाणावणट्टिमिदमाह अदिवक्कता सच्चे ट्टिदिबंधा एदेण अप्पावहुअविधिणागदा । जयध अ. प. १०७६

ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । एदेण क्रमेण संखेज्जाणि ट्टिदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो मोहणीयस्स पलिदोमवट्टिदिगो बंधो जादो । सेसाणं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदि-  
भागो ट्टिदिबंधो । एदम्हि ट्टिदिबंधे पुण्णे मोहणीयस्स जो अण्णो ट्टिदिबंधो सो पलिदो-  
वमस्स संखेज्जदिभागिओ । तदो सच्चेसिं कम्माणं ट्टिदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदि-  
भागो चेव । ताधे अप्पावहुअं- गामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो थोवो । गाणावरण-दंसणावरण-  
वेदणीय-अंतराइयाणं ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो ।  
एदेण क्रमेण ट्टिदिबंधसहस्साणि गदाणि संखेज्जाणि । तदो जो अण्णो ट्टिदिबंधो सो  
गामा-गोदाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगो जादो । ताधे सेसाणं कम्माणं ट्टिदि-  
बंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । एत्थ अप्पावहुअं- गामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो ।  
चदुण्हं कम्माणं ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । तदो  
संखेज्जेसु ट्टिदिबंधसहस्सेसु गदेसु तिण्हं घादिकम्माणं वेदणीयस्स ( च ) पलिदोवमस्स  
असंखेज्जदिभागिओ ठिदिबंधो जादो । ताधे अप्पावहुअं- गामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो  
थोवो । चदुण्हं कम्माणं' ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो असंखे-  
ज्जगुणो । तदो संखेज्जेसु ट्टिदिबंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स

वन्ध संख्यातगुणा और मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस क्रमसे संख्यात  
स्थितिवन्धसहस्र व्यतीत हो जाते हैं । तब मोहनीयका पल्योपममात्र स्थितिवाला  
वन्ध होता है और शेष कर्मोंका पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्ध होता  
है । इस स्थितिवन्ध के पूर्ण होनेपर मोहनीयका जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह  
पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है । तब सब कर्मोंका स्थितिवन्ध पल्योपमके  
संख्यातवें भागमात्र ही होता है । उस समयमें अल्पवहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र  
कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोत्र, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय च अन्तराय, इनका  
स्थितिवन्ध संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । इस क्रमसे  
संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं । तब जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह नाम-  
गोत्र कर्मोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होता है । उस समयमें शेष कर्मोंका  
स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है । यहां अल्पवहुत्व इस प्रकार है—  
नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोत्र, चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और  
मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत  
जानेपर तीन घातिया कर्मोंका और वेदनीयका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवें  
भागप्रमाण होता है । उस समय अल्पवहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थिति-  
वन्ध स्तोत्र, चार घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा और मोहनीयका स्थिति-  
वन्ध असंख्यातगुणा है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर मोह-



असंखेज्जदिभागिओ ठिदिवंधो जादो । ताधे सच्चैसिं कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्ज-  
दिभागो ठिदिवंधो जादो' । ताधे द्विदिसंतकम्मं' सागरोवमसहस्सपुधत्तं अंतोसद्-  
सहस्सस्स' । जाधे पढमदाए मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो द्विदिवंधो  
जादो ताधे अप्पात्रहुअं- णामा-गोदाणं द्विदिवंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं द्विदिवंधो  
तुल्लो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । एदेण कमेण संखेज्जाणि  
द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो द्विदिवंधो तम्हि एकसराहेण णामा-  
गोदाणं द्विदिवंधो थोवो । मोहणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । चदुण्हं कम्माणं  
द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो' । एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि ।  
तदो जम्हि अण्णो द्विदिवंधो तम्हि एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । णामा-  
गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो' । चदुण्हं कम्माणं द्विदिवंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।  
एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो द्विदिवंधो  
तम्हि एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिवंधो थोवो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्ज-

नीयका भी पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्ध हो जाता है । उस समय  
सब कर्मोंका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्ध होता है । उस समयमें  
स्थितिसत्त्व शतसहस्रके भीतर सहस्रपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण रहता है । जब प्रथमतः  
मोहनीयका पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिवन्ध होता है तब अल्पबहुत्वका  
क्रम इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिवन्ध  
तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है । इस क्रमसे  
संख्यात स्थितिवन्धसहस्र बीत जाते हैं । तब जिस समयमें अन्य स्थितिवन्ध होता है  
उस समयमें एक साथ नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोक, मोहनीयका स्थितिवन्ध  
असंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इस क्रमसे  
संख्यात स्थितिवन्धसहस्र बीत जाते हैं । तब जिस समयमें अन्य स्थितिवन्ध होता है  
उस समयमें एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध  
असंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा होता है । इस क्रमसे  
संख्यात स्थितिवन्धसहस्र बीत जाते हैं । तब जिस समयमें अन्य स्थितिवन्ध होता है  
उस समयमें एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध

१ एव पद्धं जाग वीसिया तीसिया य मोहो य । पहासख च क्क वधेण य वीसियतियाओ ॥ लब्धि ४२०

२ अतियु ' द्विदिसन्म ' इति पाठ ।

३ उदधिमहस्सपुधत्तं अन्तरदो इ सद्धसहस्सस्म । तक्काले ठिदिसतो आउगवज्जाण कम्माण ॥  
लब्धि ४२१

४ मोहणपह्णामखद्विदिवधमहस्सगेसु तीदिसु । मोहो तीसिय हेद्धा असखगुणहीणय होदि । लब्धि ४२२

५ तीसियमेत्ते वधे समतीदि वीसियाण हेद्धाइ । एकसराहे मोहो असखगुणहीणय होदि ॥ लब्धि ४२३

गुणो । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो' । एवं संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो अण्णो द्विदिवंधो एकसराहेण मोहणीयस्स थोत्रो । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो' । वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहिओ' । एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिवंधसहस्साणि गदाणि । तदो द्विदिसंतकम्मं असण्णिठिदिवंधेण समगं जादं' । तदो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चउरिंदियद्विदिवंधेण समगं जादं । एवं तीइंदिय-त्रीइंदियद्विदिवंधेण समगं जादं । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु एइंदियद्विदिवंधेण समगं द्विदिसंतकम्मं जादं । तदो संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवमद्विदिगं संतकम्मं जादं । ताधे चटुण्हं कम्माणं दिवड्डुपलिदोवम-द्विदिसंतकम्मं, मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विदिसंतकम्मं । एदमिह द्विदिवंधेण उक्किणे णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगं द्विदिसंतकम्मं । ताधे अप्पावहुगं- सव्वत्थोवं

असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । इस प्रकार संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं । तत्र अन्य स्थितिवन्ध एक साथ मोहनीयका स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिवन्धसहस्र वीत जाते हैं । तत्र स्थितिसत्व असंज्ञी पंचेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश होता है । पश्चात् संख्यात स्थितिवन्धसहस्रोंके वीत जानेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिसत्व होता है । इसी प्रकार त्रीन्द्रिय व द्वीन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिसत्व होता है । पुनः संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रोंके वीत जानेपर एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके सदृश स्थितिसत्व होता है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रोंके वीतनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका सत्व पल्योपममात्र स्थितिवाला होता है । उस समयमें चार कर्मोंका स्थितिसत्व डेढ़ पल्योपम और मोहनीयका स्थितिसत्व दो पल्योपमप्रमाण होता है । इस स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके संख्यातवै भागमात्र होता है । उस समयमें अल्पवहुत्व इस प्रकार है — नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व सबसे

१ तेत्तियमेत्ते वधे समतीदे वेदणीयहेट्ठा दु । तीसियघादितियाओ असखगुणहीणया होंति ॥ लब्धि ४२४.

२ तेत्तियमेत्ते वधे समतीदे वीसियाण हेट्ठा दु । तीसियघादितियाओ असखगुणहीणया होंति ॥ लब्धि ४२५

३ तक्काले वेयणिय णामागोदाउ साहिय होदि । इदि मोहतीसवीसियवेयणियाण कम्मो वधे ॥ लब्धि ४२६

४ वधे मोहादिकमे सजादे तेत्तियेहि वधेहि । ठिदिसतमसण्णिसम मोहादिकम तहा सते ॥ लब्धि ४२७.

णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लं संखेज्जगुणं<sup>१</sup> । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं । एदेण कमेण द्विदिखंडयपुधत्ते गदे तदो चदुण्हं कम्माणं पलिदोवमद्विदिसंतकम्मं जादं । ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवमं द्विदिसंतकम्मं । तदो द्विदिखंडए पुणे चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ताधे अप्पावहुअं- सव्वत्थोवं णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लं संखेज्जगुणं । मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहद्विदिसंतकम्मं पलिदोवमं जादं । तदो द्विदिखंडए पुणे सत्तण्हं कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो द्विदिसंतकम्मं जादं । तदो संखेज्जेसुं द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो द्विदिसंतकम्मं जादं । ताधे अप्पावहुअं- सव्वत्थोवं णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । मोहद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो जादो । ताधे अप्पावहुअं- णामा गोदाणं

स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है। इस क्रमसे स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके वीतनेपर तब चार कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपममात्र स्थितिवाला होता है। उस समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व त्रिभागसे अधिक पल्योपमप्रमाण होता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर चार कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र होता है। उस समयमें अल्पवहुत्व इस प्रकार है— नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका स्थितिसत्व पल्योपममात्र हो जाता है। तब स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर सात कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके संख्यातवे भाग हो जाता है। तत्पश्चात् संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रोके वीतनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र हो जाता है। उस समयमें अल्पवहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे चार कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके असंख्यातवे भाग हो जाता है। उस समयमें अल्पवहुत्व इस प्रकार है— नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व

१ प्रतिष्ठु ' असंखेज्जगुण ' इति पाठ । चउण्ह कम्माण द्विदिसंतकम्म तुल्ल संखेज्जगुण । जयध अ. प १०७७.

२ प्रतिष्ठु ' संखेज्जगुण-' इति पाठ ।

द्विदिसंतकम्मं थोवं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । मोहद्विदिसंत-  
कम्ममसंखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-  
भागो द्विदिसंतकम्मं जादं । ताधे अप्पात्रहुगं- णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं थोवं ।  
चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं । मोहद्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।  
एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो णामा-गोदाणं द्विदि-  
संतकम्मं थोवं । मोहद्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लम-  
संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्ते गदे एक्कसराहेण मोहद्विदिसंतकम्मं थोवं । णामा-  
गोदाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । चदुण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं तुल्लमसंखेज्जगुणं ।  
तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहद्विदिसंतकम्मं थोवं । णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मम-  
संखेज्जगुणं । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्मम-  
संखेज्जगुणं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण मोहद्विदिसंतकम्मं थोवं । तिण्हं घादिकम्माणं  
द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयद्विदि-  
संतकम्मं विसेसाहियं ।

एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो असंखेज्जाणं  
समयवद्धानमुदीरणा' । तदो संखेज्जेसु द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अट्टुण्हं कसायाणं

तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता है । तत्पश्चात्  
स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका भी स्थितिसत्व पल्योपमके असंख्यातवै भाग रह  
जाता है । उस समयमें अल्पबहुत्व इस प्रकार है — नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व  
स्तोक, चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व  
असंख्यातगुणा होता है । इस क्रमसे संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्र चले जाते हैं । तब  
नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व स्तोक, मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और  
चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा होता है । पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके  
वीतनेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व  
असंख्यातगुणा, और चार कर्मोंका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा रहता है । पश्चात्  
स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व  
असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका  
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता है । तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मोहनीयका  
स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका  
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक होता है ।

इस क्रमसे संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्र वीत जाते हैं । पश्चात् असंख्यात समय-  
प्रवद्धोंकी उदीरणा होती है । तत्पश्चात् संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्रोंके वीत जानेपर आठ

१ प्रतिपु 'मुदीरणा । तदो' इत्यस्य स्थाने 'मुदीरणादो' इति पाठ । तीदि वधसहस्से पञ्चासखेज्जय तु  
द्विदिवधे । तस्य असंखेज्जाण उदीरणा समयवद्धान ॥ लखि ४२८.

संक्रामओ । तदो अड्ड कसाया द्विदिखंडयपुधत्तेण संक्रामिज्जंति । अड्डण्हं कसायाणम-  
पच्छिमे द्विदिखंडए उक्किण्णे तेसिं संतकम्मं सेसमावलियं पविट्ठं । तदो द्विदिखंडय-  
पुधत्तेण णिद्वाणिद्वा-पयलापयला-थीणगिद्धीणं णिरयगदि-तदाणुपुच्ची-तिरिक्खगदिपा-  
ओग्गणामाणं<sup>१</sup> संतकम्मस्स<sup>१</sup> संक्रामगो जादो । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण अपच्छिमे द्विदि-  
खंडए उक्किण्णे एदेसिं सोलसण्हं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं सेसमावलियं पविट्ठं । तदो द्विदि-  
खंडयपुधत्तेण मणपञ्जवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणं च अणुभागो वंधेण देसघादी जादो ।  
तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण ओहिणाणावरणीय-ओहिदंसणावरणीय-लाहंतराइयाणमणुभागो  
बंधेण देसघादी जादो । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण सुदणाणावरणीय-अचक्खुदंसणावरणीय-  
भोगंतराइयाणमणुभागो वंधेण देसघादी जादो । तदो ठिदिखंडयपुधत्तेण चक्खुदंसणा-

कपायोंका संक्रामक अर्थात् क्षपणाका प्रारम्भक होता है । तब आठ कपायें स्थितिकाण्डक  
पृथक्त्वसे संक्रमणको प्राप्त करायी जाती हैं । आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकके  
उत्कीर्ण होनेपर उनका शेष सत्व आवलीको प्रविष्ट अर्थात् एक समय कम आवली-  
मात्र निषेकप्रमाण रहता है । पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला  
और स्त्यानगृद्धि, इन तीन दर्शनावरण तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और तिर्यच-  
गतिके योग्य नामकर्म अर्थात् तिर्यगगति, तिर्यगगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,  
चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन तेरह नामकर्मोंके  
सत्वका संक्रामक होता है । पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे अन्तिम स्थितिकाण्डकके  
उत्कीर्ण होनेपर इन सोलह कर्मोंका शेष स्थितिसत्व आवलीके भीतर प्रविष्ट होता है ।  
तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग  
बन्धसे देशघाती हो जाती है । पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे अचधिज्ञानावरणीय,  
अवधिदर्शनावरणीय और लाभान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है ।  
तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय और भोगा-  
न्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है । पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे

१ ठिदिवधसहस्सगदे अड्डकसायाण हांदि सकमगो । ठिदिखंडपुधत्तेण य तद्विदिसत तु आवलिपविट्ठं ॥  
लब्धि ४२९ अड्डकसायाणमपच्छिमद्विदिखंडये चरिमफालिसरुवेण णिद्वेदिं दे तेसिमावलियपविट्ठसतकम्मस्सेव  
समयूणावलियमेत्तणिसेगपमाणस्सं परिसेसत्तसिद्धीए णिव्वाहसुवलमादो । जयध अ प १०७८

२ एत्थ णिरयतिरिक्खगईपाओग्गणामाओ त्ति वुत्ते णिरयगडणिरयगइपाओग्गायुपुच्चीतिरिक्खगडतिरिक्ख-  
गइपाओग्गाणुपुच्चीएइदियवीइदियतीइदिचउरिंदियजादिआदानुज्जोवथावरसहुमसाहारणामाण तेरमण्ह पयडीण गहण  
कायच्च । जयध अ प १०७८-१०७९

३ प्रतिपु ' सतकम्मसे ' इति पाठ ।

४ ठिदिवधपुधत्तेण सोलसपयडीण होदि सकमगो । ठिदिखंडपुधत्तेण य तद्विदिसत तु आवलिपविट्ठं ॥  
लब्धि. ४३०.

वरणीयमणुभागबंधेण देसघादी जादं । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण आभिणिबोहिय-  
णाणावरणीय-परिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जादो । तदो द्विदिखंडय-  
पुधत्तेण वीरियंतराइस्म अणुभागो बंधेण देसघादी जादो' ।

तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णं द्विदिखंडय-( मण्णमणुभागखंडय-) मण्णं  
द्विदिवंधं अंतरद्विदिउक्कीरणं च समगमाढवेदि । चदुण्हं संजलणाणं णवण्हं णोकसायाणं  
च अंतरं करेदि । सेसाणं कम्ममाणं णत्थि अंतरं । पुरिसवेदस्स कोहसंजलणस्स य पढम-  
द्विदिमंतोमुहुत्तमेत्तं मोत्तूण अंतरं करेदि, सोदयत्तादो । सेसाणं कम्ममाणमात्रलियं मोत्तूण  
अंतरं करेदि, उदयाभावादो' । जाओ अंतरद्विदीओ उक्कीरिज्जंति तासिं पदेसग्ग-  
मुक्कीरिज्जमाणियासु द्विदीसु ण दिज्जदि । जासिं पयडीणं पढमद्विदी अत्थि, तिस्से  
पढमद्विदीए जाओ संपहिद्विदीओ उक्कीरिज्जंति तं उक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गं संलुहदि' ।

चश्रुदर्शनावरणीय अनुभागबन्धसे देशघाती हो जाना है । पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे  
आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय और परिभोगान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो  
जाता है । पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे वीर्यान्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती  
हो जाता है ।

तत्पश्चात् स्थितिकाण्डकसहस्रोंके वीत जानेपर अन्य स्थितिकाण्डक, ( अन्य अनु-  
भागकाण्डक ), अन्य स्थितिवन्ध और अन्तरस्थिति-उत्कीरण, इनको एक साथ प्रारम्भ  
करता है । चार संज्वलन और नव नोकषायांके अंतरको करता है । शेष कर्मोंका अन्तर  
नहीं होता । पुरुषवेद और संज्वलनक्रोधकी अन्तर्मुहूर्तमात्र प्रथमस्थितिको छोड़कर अन्तर  
करता है, क्योंकि इनका यहां उदय पाया जाता है । शेष कर्मोंकी आवलीमात्र प्रथम-  
स्थितिको छोड़कर अन्तर करता है, क्योंकि यहां शेष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है ।  
जिन अन्तरस्थितियोंको उत्कीर्ण किया जाता है उनके प्रदेशाग्रको उत्कीर्ण की जानेवाली  
स्थितियोंमें नहीं देता है । जिन उदयप्राप्त प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति है उस प्रथम-  
स्थितिमें, जो इस समय स्थितियां उत्कीर्ण की जा रही हैं उस उत्कीर्ण किये जानेवाले  
प्रदेशको ( अपकर्षण करके यथासम्भवं समस्थितिसंक्रमण द्वारा ) देता है । जो प्रकृतियां

१ ठिदिवधपुधत्तगदे मण्णमणु तत्तियेनि ओहिदुग । लाम च पुणोवि सुद अचक्खुमोग पुणो चक्खु ॥  
पुणरवि मटिपरिमोग पुणरवि विरय क्सेण अणुभागो । बंधेण देसघादी पढ्ढामख तु ठिदिवधो ॥ लब्धि ४३१-४३२.

२ अ-जाप्रलो ' अणतर ' इति पाठ ।

३ ठिदिवखडसहस्सगदे चदुमजलणाण णोकसायाण । एयद्विदिखडुक्कीरणकाले अतर कुण्ह ॥ सजलणाणं  
एक्क वेदाणेक्क उदेदि तदोण्ह । सेसाण पढमद्विदि ठवेदि अतोमुहुत्तआत्रलिय ॥ लब्धि ४३३-४३४

४ जासिं पयडीण वेदिज्जमाणण पढमद्विदी अत्थि तासिं तिस्सेव पढमद्विदीए उवरि अप्पणो अण्णेसिं  
च कम्ममाणमतरद्विदीसु च उक्कीरिज्जमाण पदेसग्गामोक्खुणाए जहासमव समद्विदिसम्मणेण च सलुहदि चि सुत्तथो ।  
जयध. अ प. १०८०.

जाओ वज्झंति पयडीओ तासिमावाहमहिच्छिदूण जा जहणिया णिसेयट्ठिदी तमादिं कादूण वज्झमाणियासु ट्ठिदीसु उक्कट्टिज्जदिं । तदो अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभागखंडओ जो च अंतरे उक्कीरिज्जमाणे ट्ठिदिवंधो पवट्ठो तत्थतणट्ठिदि-खंडगो अंतरकरणद्वा च एदाणि समगं णिट्ठियमाणानि णिट्ठिदानि ।

से काले अंतरकदपढमसमए<sup>१</sup> णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंक्रामगो<sup>२</sup> जादो । ताधे चेव मोहणीयस्स संखेज्जवस्सिओ ट्ठिदिवंधो, मोहणीयस्स एगट्ठाणिया वंधोदया, जाणि कम्माणि वज्झंति तेसिं छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स आणु-पुव्वीसंकमो, लोभसंजलणस्स असंकमो च जादो<sup>३</sup> । तदो संखेज्जेसु ट्ठिदिखंडयसहस्सेसु

बंधती है उनकी आवाधाको लांघकर जो जघन्य निपेकस्थिति है उसे आदि करके ( द्वितीयस्थितिमें समवस्थित ) वध्यमान स्थितियोंमें उस अन्तरस्थितियोंमें उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रको उत्कर्षण द्वारा देता है । पश्चात् अनुभागकांडकसहस्रोंके वीत जानेपर अन्य अनुभागकांडक, अन्तरकरणमें स्थितियोंके उत्कीर्ण करने समय जो स्थिति-बन्ध बांधा था तत्सम्बन्धी स्थितिकांडक और अन्तरकरणकाल, ये एक साथ समाप्त किये जानेवाले समाप्त हो जाते हैं ।

अन्तरकृत प्रथम समयमें, अर्थात् अन्तरकी अन्तिम फालिके गिरनेपर, आवृत्तकरणसंक्रामक अर्थात् नपुंसकवदेकी क्षपणामें उद्यत होता है ( १ ) । उसी समय ही मोहनीयका संख्यात वर्षवाला स्थितिवन्ध है ( २ ) । मोहनीयका एक स्थान ( लता ) वाला बन्ध और उद्य ( ३-४ ), जो कर्म बंधते है उनकी छह आवलियोंके वीतनेपर उदीरणा ( ५ ), मोहनीयका आनुपूर्वासंक्रमण ( ६ ), और लोभके संक्रमणका अभाव ( ७ ) हो जाता है । अर्थात् उस समय जीव इन सात करणोंका प्रारम्भक होता है । पश्चात् संख्यात स्थितिकांडकसहस्रोंके वीत जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला

१ ण केवल वेदिज्जमाणान पढमट्ठिदीए चेव सट्ठिदिं किं वज्झमाणचदुमजलणपुरिसवेदपयडीण तक्कालियबधस्स जा आवाहा अतरायामादो सखेज्जगुणमद्वाणमुवरिं चडिदूण ट्ठिदा तमइच्छेयूण वधपढमणिसेयमादिं कादूण वज्झमाणियासु ट्ठिदीसु विदियट्ठिदीए समवट्ठिदासु तमतरट्ठिदीसु उक्कीरिज्जमाणपदेसगमुक्कट्टुणावसेण सट्ठिदि ति मणिद होदि । जयध अ प १०८० उक्कीरिद तु दच्च सते पढमट्ठिदिमिह सट्ठिदि । वधे वि य आवाधमदित्थिय उक्कट्टे णियमा ॥ लब्धि ४३५

२ जमिह समए अतरचरिमफाली णिवदिदा तमिह समए अतर पढमसमयन्द मण्णदे, तदणतरसमए पुण अतर दुसमयन्द णाम भवदि । जयध अ प १०८०

३ तत्थ णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंक्रामगो ति मणिदे णवुंसयवेदस्स खवणाए अण्णुट्ठिदो होइण पयट्ठो ति मणिद होदि । जयध अ प १०८०

४ सत्त करणाणि यतरकदपढमे ताणि मोहणीयस्स । इगिठाणियवधुदओ तस्सेव य सखवस्सठिदिवधो ॥ तस्साणुपुव्विसकम लोहस्स असकम च सदस्स । आवेत्तकरणसकम आवलितीदेसुदीरणदा ॥ लब्धि ४३६-४३७.

गदेसु णउंसयवेदो संकामिज्जमाणो संकामिदो पुरिसवेदे' । कुदो ? आणुपुच्चिसंक्रमत्तादो ।  
एत्थुवउज्जंती गाहा—

संछुहइ पुरिसवेदे इत्थीवेदं णवुंसयं चव ।

सत्तेव णोकसाए णियमा कोहम्मि संछुहइ' ॥ २४ ॥

संकामिज्जमाणदव्वमाहप्पपरूवणा गाहा—

वधेण होदि उदओ अहिओ उदएण संक्रमो अहिओ ।

गुणसेडि असखेज्जा पदेसअग्गेण बोद्धव्वा' ॥ २५ ॥

णवुंसयवेदं संकामेतो पढमसमए थोवं पदेसग्गं संकामेदि । विदियसमए  
असंखेज्जगुणं । एवं जाव संकामगचरिमसमओ त्ति । णवुंसयवेदोदएण चडिदस्स समए  
समए असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गस्स णिज्जरा होदि । वुत्तं च—

नपुंसकवेद पुरुषवेदमें संक्रमणको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहां आनुपूर्वीसंक्रमण है ।  
यहां उपयुक्त गाथा—

स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें, तथा पुरुषवेद व हास्यादि छह, इन सात  
नोकपायोंको संज्वलनक्रोधमें नियमसे स्थापित करता है ॥ २४ ॥

संक्रमणको प्राप्त होनेवाले द्रव्यके माहात्म्यका प्ररूपण करनेवाली गाथा—

बंधसे उदय अधिक है और उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इनकी अधिकता  
प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणित श्रेणीरूप जानना चाहिये । अर्थात् बंधद्रव्यसे उदयद्रव्य  
असंख्यातगुणा है और उदयद्रव्यसे संक्रमणद्रव्य असंख्यातगुणा है ॥ २५ ॥

नपुंसकवेदको संक्रमाता हुआ प्रथम समयमें स्तोक प्रदेशाग्रका संक्रमण कराता  
है, द्वितीय समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रका संक्रमण कराता है । इस प्रकार यह क्रम  
संक्रमणके अन्तिम समय तक रहता है । नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणी चढ़े हुए  
जीवके प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणित श्रेणीके अनुसार प्रदेशाग्रकी निर्जरा होती है ।  
कहा भी है—

१ ठिदिवधसहस्सगदे सटो सकामिदो हवे पुरिसे । पडिसमयमसखगुणं सकामगचरिमसमओ त्ति ॥  
लब्धि. ४४०

२ लब्धि ४३८, जयध अ प १०९०.

३ लब्धि ४४१ एत्थ गुणसेडि त्ति वुत्ते गुणगारपत्ती गहेयव्वा । X X X पदेसग्गेण वधो थोवो उदयो  
असंखेज्जगुणो सक्रमो असंखेज्जगुणो । पदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे वधोदयसक्रमाणं समाणकालमावीण थोवबहुत्तमेव  
होदि त्ति वुत्त होदि । जयध अ प १०९२



गुणसेदिसखेज्जा पदेसअग्गेण संकमो उदओ ।

से काले से काले भज्जो वंधो पदेसग्गे' ॥ २६ ॥

एवं णवुंसयवेदं संकामिय तदो से काले इत्थिवेदस्स पढमसमयसंकामगो जादो । ताधे अण्णो ट्ठिदिखंडओ', अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो ट्ठिदिवंधो च पारद्वो' । तदो ट्ठिदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदखण्णद्वए संखेज्जदिभागे गदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्ठिदिओ वंधो जादो । तदो ट्ठिदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदस्स जं ट्ठिदिसंतकम्मं तं सव्वमागाइदं । सेसाणं कम्माणं ट्ठिदिसंतकम्मस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा । तस्मिह ट्ठिदिखंडए पुण्णे इत्थिवेदो संल्लुहमाणो संल्लुद्वो' । ताधे चेव मोहणीयस्स संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्ठिदिसंतकम्मं जादं ।

संक्रमण (गुणसंक्रमण) और उदय उत्तरोत्तर अनन्तर कालमें अपने अपने प्रदेशाग्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित श्रेणीरूप होते हैं । किन्तु प्रदेशाग्रकी अपेक्षा बन्ध भजनीय है, अर्थात् वह योगोंकी हानि, वृद्धि व अवस्थानके अनुसार हानि, वृद्धि या अवस्थानरूप होता है ॥ २६ ॥

इस प्रकार नपुंसकवेदको संक्रमाकर तदनन्तर कालमें खीवेदका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है । उस समयमें अन्य स्थितिकांडक, अन्य अनुभागकांडक और अन्य स्थितिवन्धका प्रारम्भ करता है । पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वसे खीवेदके क्षपणाकालमें संख्यातवर्ष भागके व्यतीत होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला बन्ध होता है । पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वसे खीवेदका जो स्थितिसत्व है वह सब क्षपणामें आकर प्राप्त हो जाता है । शेष कर्मोंके स्थितिसत्वके असंख्यात बहुभाग प्राप्त होते हैं । उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला खीवेद संक्रमणको प्राप्त हो जाता है । उसी समय ही मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यात वर्षप्रमाण रह जाता है ।

१ लब्धि ४४२ गुणसेदिसखेज्जा च एव भण्णिदे पदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे सक्कमो उदओ च णियमा असखेज्जाए सेटीए पयट्ठदि ति घेत्तव्व । जयध अ प १०९४ से काले से काले भण्णिदे वीप्सानिदेशोऽय दृष्टव्य, अथवा एवको सेकालणिदिसो गाहापुव्वद्वणिदिट्टाणमुदयसक्कमाण विसेसणमावेण सव्वधणिज्जो, अण्णो पच्छद्वणिदिट्टस्स वधस्स विसेसणमावेण जोजेयव्वो । भज्जो वधो पदेसग्गे एव भण्णिदे पदेसग्गविसओ वधो चउव्विहवड्ढिहाणिअवट्टाणेहि मजियव्वो ति भण्णिद होई, जोगवड्ढिहाणिअवट्टाणवसेण पदेसवधस्स तहा भावसिद्धीए विरोहाभावो । जयध अ प १०९५

२ प्रतिष्ठु 'ट्ठिदिवधओ' इति पाठ ।

३ इदि सद सकामिय से काले इत्थिवेदसकमगो । अण्ण ठिदिसखड अण्ण ठिदिवधमारमइ ॥ लब्धि ४४३

४ थी अद्धासखेज्जाभागे पगदे तिघादिठिदिवधो । वस्साण सखेज्ज थीसन्तापगद्धते ॥ लब्धि ४४४

से काले सत्तण्हं णोकसायाणं पढमसमयसंकामओ' । सत्तण्हं णोकसायाणं पढम-समयसंकामयस्स द्विदिवंधो मोहणीयस्स थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदि-बंधो विसेसाहियो' । ताधे द्विदिसंतकम्मं मोहणीयस्स थोवं । तिण्हं घादिकम्माणम-संखेज्जगुणं । णामा-गोदाणं द्विदिसंतकम्मं असंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स द्विदिसंतकम्मं विसेसाहियं' । पढमद्विदिखंडए पुण्णे मोहणीयद्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं, सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणहीणं' । ( द्विदि- ) बंधो णामा-गोद-वेदणीयाणं असंखेज्जगुणहीणो, घादिकम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जगुणहीणो' । तदो द्विदिखंडयपुधत्ते' गदे सत्तण्हं णोकसायाणं खवणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्साणि द्विदिवंधो जादो' । तदो द्विदिखंडयपुधत्ते गदे सत्तण्हं णोकसायाणं खवणद्वाए

अनन्तर समयमें सात नोकपायोंका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है । सात नोकपायोंके प्रथमसमयवर्ती संक्रामकके मोहनीयका स्थितिवन्ध स्तोक; ज्ञानावरण, दर्शना-वरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा; नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । उस समयमें मोह-नीयका स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है । प्रथम स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा हीन और शेष कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा हीन हो जाता है । नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन तथा घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है । पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकपायोंके क्षपणकालमेंसे संख्यातवें भागके चले जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थिति-वन्ध होता है । पश्चात् स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकपायोंके क्षपण-

१ ताहे सखसहस्स वस्साण मोहणीयठिदिसत । से काले सक्कमगो सत्तण्ह णोकसायाण ॥ लब्धि ४४५.

२ ताहे मोहो थोवो सखेज्जगुण तिघादिठिदिवंधो । तत्तो असखगुणियो णामदुग साहिय तु वेयणिय ॥ लब्धि ४४६

३ ताहे असखगुणिय मोहादु तिघादिपयडिठिदिसत । तत्तो असखगुणिय णामदुग साहिय तु वेयणिय ॥ लब्धि ४४७

४ सत्तण्ह पढमद्विदिखडे पुण्णे दु मोहठिदिसत । सखेज्जगुणविहीण सेसाणमसखगुणहीण ॥ लब्धि ४४८

५ सत्तण्ह पढमद्विदिखडे पुण्णे ति घादिठिदिवंधो । सखेज्जगुणविहीण अघादितियाण असखगुणहीण ॥ लब्धि ४४९

६ अ-आप्रसो ' द्विदिखडयमपुधत्ते ' इति पाठ ।

७ ठिदिवंधपुधत्तगदे सखेज्जदिम गत तदद्वाए । एत्थ अघादितियाण ठिदिवंधो सखवस्स तु ॥ लब्धि ४५०.

संखेज्जेसु भागेषु गदेषु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहयाणं संखेज्जवस्साट्ठिदिगं संतकम्मं जादं । ततो पाएण घादिकम्माणं ट्ठिदिवंधे ट्ठिदिखंडए च पुण्णे पुण्णे ट्ठिदिवंध-ट्ठिदि-संतकम्माणि संखेज्जगुणहीणाणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण्णे ट्ठिदिखंडए असंखेज्ज-गुणहीणं ट्ठिदिसंतकम्मं । एदेसिं चैव ट्ठिदिवंधे पुण्णे अण्णो ट्ठिदिवंधो संखेज्जगुणहीणो । एदेण क्रमेण ताव जाव सत्तण्हं णोकसायाणं संक्रामगस्स चरिमट्ठिदिवंधो त्ति । अणुभाग-बंधो अणुभागुदयो च समयं पडि असुहाणं कम्माणमणंतगुणहीणो । वुत्तं च—

उदओ च अणतगुणो संपहिवधेण होदि अणुभागे ।

से काले उदयादो संपदिवधो अणंतगुणो ॥ २७ ॥

वधेण होदि उदओ अहिओ उदएण सकमो अहिओ ।

गुणसेडि अणतगुणा वोद्धव्या होदि अणुभागे ॥ २८ ॥

कालमेंसे संख्यात बहुभागोंके चले जानेपर धानावरण, दर्शनावरण व अन्तराय इनका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला सत्व हो जाता है। यहाँसे लेकर घातिया कर्मोंके प्रत्येक स्थितिवन्ध और स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर स्थितिवन्ध एवं स्थितिसत्व संख्यातगुणे हीन होते जाते हैं। स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थिति-सत्व असंख्यातगुणा हीन होता जाता है। इनके ही स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है। इस क्रमसे तब तक जाते हैं जब तक कि सात लोकपायोंके संक्रामकका अन्तिम स्थितिवन्ध होता है। अशुभ कर्मोंका अनुभागवन्ध व अनुभागोदय प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा हीन होता है। कहा भी है—

अनुभागविषयक साम्प्रतिक वन्धसे साम्प्रतिक अनुभागोदय अनन्तगुणा होता है। इससे अनन्तर कालमें होनेवाले उदयसे साम्प्रतिक वन्ध अनन्तगुणा होता था ॥२७॥

वन्धसे अधिक उदय और उदयसे अधिक संक्रमण होता है। इस प्रकार अनु-भागके विषयमें अनन्तगुणित गुणश्रेणी जानना चाहिये ॥ २८ ॥

१ ठिदिखंडपुत्रगदे सखामाणा गदा तदद्दाए । घादितियाण तय य ठिदिमंत सखवत्स नु ॥  
लघ्वि ४५१.

२ पडिसमय असुहाण रमबुदया अणतगुणहीणा । बंधो वि य उदयादो तदणतरसमय उदयोव ॥  
लघ्वि ४५१.

३ उदओ च अणतगुणो एव मणिदे वट्टमाणममयपवद्धादो वट्टमाणसमये उदओ अणतगुणो त्ति दड्ढव्वो ।  
कि कारण ? चिराणसतमन्वचादो । XXX से काले उदयादो एव मणिदे णिरुद्धमनयादो तदणतरोवरिसमए जो  
उदओ अणुभागविसओ, ततो एसो सपहिसमयपवद्धो अणतगुणो त्ति दड्ढव्वो । कुदो एव चे समए समए अणुभागो-  
दयस्स तिसोहिपाह्मणेणतगुणहाणीए ओवट्ठिज्जमाणत्स तदाभावोवत्तीए । जयध अ प १०९३.

४ लघ्वि. ४५२, जयध अ प १०९२.

गुणसेडि अणंतगुणेणूणाए वेदगो दु अणुभागे ।  
 गणणादियंतसेडी पदेसअग्गेण बोद्धव्वा<sup>१</sup> ॥ २९ ॥  
 वंधोदएहि णियमा अणुभागे होदि णंतगुणहीणो ।  
 से काले से काले भज्जो पुण संकमो होदि<sup>२</sup> ॥ ३० ॥

सत्तण्हं णोकसायाणं संकामगस्स चरिमो द्विदिवंधो पुरिसवेदस्स अट्ट वस्साणि,  
 संजलणाणं सोलस वस्साणि, सेसाणं कम्मणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>३</sup> । द्विदिसंत-  
 कम्मं पुण घादिकम्मणं चट्ठण्हं पि संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणम-  
 संखेज्जाणि वस्साणि<sup>४</sup> । अंतरादो पढमसमयकदादो पाए छण्णोकसाए कोहे संखुहदि, ण

(अप्रशस्त प्रकृतियोंके) अनुभागका वेदक अनन्तगुणित हीन गुणश्रेणीरूपसे होता है। तथा प्रदेशाग्रकी अपेक्षा गणनातिक्रान्त अर्थात् असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे वेदक होता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ २९ ॥

नियमतः वन्ध व उदयसे अनुभाग अर्थात् अनुभागवन्ध और अनुभागउदय उत्तरोत्तर अनन्तरकालमें अनन्तगुणे हीन हैं। परन्तु अनुभागसंक्रम भाज्य है अर्थात् उक्त हीनताके नियमसे रहित है ॥ ३० ॥

सात नोकपायोंके संकामकका अन्तिम स्थितिवन्ध पुरुषवेदका आठ वर्ष, संज्व-  
 लनचतुष्कका सोलह वर्ष, और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण होता है। परन्तु स्थिति-  
 सत्व चारों घातिया कर्मोंका संख्यात वर्ष तथा नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात  
 वर्षप्रमाण रहता है। प्रथम समयकृत अन्तरसे, अर्थात् अन्तरकरण कर चुकनेके पश्चात्  
 अनन्तर समयसे लेकर छह नोकपायोंको संज्वलनक्रोधमें स्थापित करता है, अन्य

१ लब्धि ४५४ तदो समये समये अणतगुणहीणमणतगुणहीणमपसत्थकम्मणमणुभागमेसो वेदयदि ति  
 गाहापुव्वद्धे समुदयत्थो । XXX गणणादियंतसेडी एव मणिदे असखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गमेसो समय पडि  
 वेदेदि ति मणिद होई । जयध अ प १०९३

२ लब्धि ४५५ वधोदएहि एव मणिदे वधोदयेहि ताव णियमा णिच्छएण अणुभागे सेकालमात्रिओ  
 अणतगुणहीणो होदि ति पदसवधो । सपहियकालविसयादो अणुभागवधादो से काले विसओ अणुभागवधो विसोहि-  
 पाहम्मैणाणतगुणहीणो होदि । एवमुदओ वि दट्ठव्वो ति मणिद होदि । मज्जो पुण सकमो होई एव मणिदे अणुभाग-  
 सकमो पुण अणतगुणहीणत्ते मयणिव्वो होई । किं कारण ? जाव अणुभागखड्य ण पादेदि ताव अवट्ठिदो चव  
 संक्रमो मवदि, अणुभागखड्य पुण पदिदे अणुभागसकमो अणतगुणहीणो जायदि ति तथ परिफुडमेव मयणिव्वत्त-  
 दसणादो । जयध अ प १०९४

३ सत्तण्हं सकामगचरिमे पुरिसस्स वधमडवस्स । सोलस संजलणाणं सखसहस्साणि सेसाण ॥ लब्धि. ४५७.

४ ठिदिसत घादीणं सखसहस्साणि होति वस्साण । होति अघातिदियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणि ॥

अण्णम्मिह कम्मिहं वि । पुरिसवेदस्स पढमद्विदीए दोआवलियासु सेसासु आगाल-पडि-  
आगालो वोच्छिण्णो । पढमद्विदीदो चेत्र उदीरणां । समयाहियाए आवलियाए सेसाए  
जहणिया द्विदिउदीरणा । तदो चरिमसमयपुरिसवेदओ जादो । ताधे छण्णोकसायां  
संछुद्धा । पुरिसवेदस्स जाओ दोआवलियाओ समऊणाओ एत्तियसमयपवद्धा विदिय-  
द्विदीए अत्थि, उदयद्विदी च अत्थि, सेसं पुरिसवेदस्स संतकम्मं सच्चं संछुद्धं ।

से काले अस्सकण्णकरणं पव्वत्तिहिदि । अस्सकण्णकरणेत्ति वा आदोलकरणेत्ति  
वा ओवट्टण-उव्वट्टणकरणेत्ति वा तिण्णिण गामाणि अस्सकण्णकरणस्सं । छसु कम्मेषु

किसीमें भी स्थापित नहीं करता । पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें दो आवलियोंके शेष रहने-  
पर आगाल व प्रत्यागालकी व्युच्छिच्छि हो जाती है । प्रथमस्थितिसे ही उदीरणा होती  
है । एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर जघन्य स्थितिकी उदीरणा होनी है ।  
तत्पश्चात् अन्तिमसमयवर्ती पुरुषवेदक होता है । उस समय छह नोकपायें संक्रमको प्राप्त  
हो चुकती हैं । पुरुषवेदकी जो एक समय कम दो आवलियां हैं उतनेमात्र नवक  
समयप्रवद्ध द्वितीय स्थितिमें है और उदयस्थिति भी है: शेष सब पुरुषवेदका सत्व  
संक्रमणको प्राप्त हो चुकता है ।

तदनन्तर समयमें अश्वकर्णकरण प्रवृत्त होता है । अश्वकर्णकरण अथवा आदोल-  
करण अथवा अपवर्तनोद्धर्तनकरण, ये अश्वकरणके तीन नाम हैं । छह कर्मोंके संक्रमको

१ उत्तरऋषदमादो कोहे छण्णोकमायय उहदि । पुरिसस्स चरिमसमाए पुरिम वि एण्ण सच्चं उहदि ॥  
लन्धि ४६०

२ पुरिसस्स य पढमद्विदि आवलिदोमुवरिदामु आगाळा । पडिआगाळा छिण्णा पटिआवलियाउदीरणदा ॥  
लन्धि ४५९

३ प्रतिपु ' छण्णोकसायाण ' इति पाठ ।

४ समऊणदोण्णिआवलिण्णसमयपवद्धणववधो । विदिये ठिदिये जत्थि हु पुरिसस्सुदयावली च तदा ॥  
लन्धि ४६१

५ मे काले ओवट्टणिउव्वट्टण अस्सकण्ण आदोल । करण तियमण्णणय सजलणरमेसु वट्ठीहिदि ॥ लन्धि ४६२  
अश्वस्य कर्ण अश्वकर्ण, अश्वकर्णवत्करणमश्वकर्णकरणम् । यथाश्वकर्ण अनान्प्रश्रुत्यामूलान् क्रमेण हीनमानस्त्वपो  
दृश्यते तथेवमपि करण क्रोधसञ्चलनात् प्रश्रुत्यालोभमञ्चलनाद्यथाक्रममनन्तरुणहीनासुमागस्यर्द्ध ममथानव्यवस्थाकरण-  
मश्वकर्णकरणमिति लक्ष्यते । संपहि आदोलनकरणमण्णाए अत्यो बुच्चदे- आदोल गाम हिंदोलमादोलमिवकरणमा-  
दोलकरण । यथा हिंदोलयमस्स वरत्ताए च अनराले तिण्णेण होट्टण कण्णापरिण दीमड, एवमेत्थवि कोहादिमजल-  
णाणमणुमोगमणित्रेसो क्रमेण हीनमाणो दीसड ति एदेण वारणेण जत्सकण्णकरणस्स आदोलकरणसण्णा जादा ।  
एवमोवट्टणउव्वट्टणरणेत्ति एमो वि पज्जायसदो अणुगयदो दडुच्चो, कोहादिसजलणाणमणुमानत्रिण्णामस्स हाणि-  
वट्ठिमरुवेणावट्टाण पेक्खिण्ण तय ओवट्टणउव्वट्टणसण्णाए पुच्चाडरिएहिं पयद्विदचादो । जयध अ प ११०४-११०५

संछुद्धेसु से काले पढमसमयअवेदो होदि । ताधे चेव पढमसमयस्सकण्णकरणकारओ च । ताधे ठिदिंसंतकम्मं संजलणाणं संखेज्जाणि' वस्ससहस्साणि, ठिदिवंधो सौलस वस्साणि अंतोमुहुत्तणाणि' । अणुभागसंतकम्मं आगाइदेण' सह माणे थोवं, कोधे विसेसाहियं, मायाए विसेसाहियं, लोभे विसेसाहियं । वंधो वि एरिसो चेव' । अणुभागखंडगो पुण जो आगाइदो तस्स कोधे फहयाणि थोवाणि, ( माणे फहयाणि ) विसेसाहियाणि, मायाए फहयाणि विसेसाहियाणि, लोभे फहयाणि विसेसाहियाणि । आगाइदसेसाणि फहयाणि लोभे थोवाणि, मायाए अणंतगुणाणि, माणे अणंतगुणाणि, कोधे अणंतगुणाणि' । एसा परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ।

तम्मिह चेव पढमसमए चदुण्हं संजलणाणमपुव्वफहयाणि करेदिं । तेसिं परूवणं

प्राप्त होनेपर अनन्तर कालमें प्रथमसमयवर्ती अवेदी होता है । उसी समयमें ही प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारक भी होता है । उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्त्व संख्यात चर्पप्रमाण और स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम सोलह चर्पमात्र होता है । अश्वकर्णकरणको प्रारम्भ करनेवालेने जिस अनुभागकांडको ग्रहण किया है उसके साथ तत्कालभावी अनुभागसत्त्वका यह अल्पग्रहत्व किया जाता है— अनुभागसत्त्व मानमें स्तोक, क्रोधमें विशेष अधिक, मायामें विशेष अधिक और लोभमें विशेष अधिक है । अनुभागवन्ध भी इसी अल्पग्रहत्वविधिसे प्रवर्तमान है । परन्तु जो अनुभागकांडको ग्रहण किया है उसके क्रोधमें स्पर्द्धक स्तोक है । मानमें स्पर्द्धक विशेष अधिक है । मायामें स्पर्द्धक विशेष अधिक है । लोभमें स्पर्द्धक विशेष अधिक है । ग्रहण करनेसे अर्थात् घात करनेसे शेष अनुभागके स्पर्द्धक लोभमें स्तोक, मायामें अनन्तगुणित, मानमें अनन्तगुणित और क्रोधमें अनन्तगुणित है । यह प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है ।

उसी प्रथम समयमें चार संज्वलनकपायोंके अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता है । उनकी

१ ताहे मजलणाण ठिदिमत सग्गवत्सयमहस्स । अतोमुहुत्तहीणो सोलम वस्साणि ठिदिवंधो ॥ लब्धि ४६३

२ एण्ण मह आगाइदेणत्ति वुत्तं अस्सकण्णकरणमाद्वेतेण जमणुभागखड्यमागाइद तेण सह तक्कालमावियस्स अणुभागसंतकम्मस्य एदमप्पावहुअ रीरदि त्ति भण्णिद होदि ॥ जयध अ प ११०५

३ रगमत आगहिद एडेण सम तु माणेगे कोहे । मायाए लोभे वि य अहियक्कमा होति वधे वि ॥ लब्धि ४६४

४ रसखडफहूयाओ कोहाटीया हवति अहियक्कमा । अवसेसफहूयाओ लोहादि अप्ततगुणियक्कमा ॥ लब्धि. ४६५.

५ ताहे सजलणाण देसावरफहूयस्स हेट्ठादो । णतगुणणमपुव्व फहूयमिह कुणदि हु अणत ॥ लब्धि ४६६. काणि अपुव्वफहयाणि णाम ? ससाराक्कथाए पुव्वमलद्धप्पसर राणि खवगसेटी (ए ?) चेव अस्सकण्णकरणद्धाए समुवल्लम्भमाणसरवाणि पुव्वफहएहिंती अणतगुणहाणीए ओवट्टिज्जमाणसहावाणि जाणि फहयाणि ताणि अपुव्वफहयाणि त्ति

वत्तइस्सामो । तं जहा— सव्वस्स अक्खवगस्स सव्वकम्माणं देसघादिफहयाणमादिवग्गणा तुल्ला । सव्वघादीणं पि मिच्छत्तं मोत्तूण सेसाणं कम्माणं सव्वघादिआदिवग्गणा तुल्ला । एत्थ चटुण्हं संजलणाणं अपुव्वफहयाणि करेदि । ताणि कधं करेदि ? लोभस्स ताव, लोभसंजलणस्स पुव्वफहएहिंतो पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागं घेतूण पढमस्स देसघादि-फहयस्स हेट्ठा अणंतभागे अण्णाणि अपुव्वफहयाणि णिव्वत्तयदि' । ताणि पगणणादो अणंतानि, पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफहयाणमसंखेज्जदिभागो । एत्तियाणि ताणि अपुव्व-फहयाणि' ।

तत्थ पढमस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं थोवं । विदियस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गमणंतभागुत्तरं । विदियादो तदियं दुभागुत्तरं । तदियादो चउत्थं तिभागुत्तरं । एवं क्रमेण संखेज्जदिभागुत्तरं गंतूण पुणो असंखेज्जदि-

प्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— सब अक्षपक जीवोंके समस्त कर्मोंके देशघाती स्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणा समान है। सर्वघातियोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सर्वघाती कर्मोंकी प्रथम वर्गणा समान है। यहां चार संज्वलनकपायोंके अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता है।

शंका—उन अपूर्वस्पर्द्धकोंको किस प्रकार करता है ?

समाधान— प्रथमतः लोभके अपूर्व स्पर्द्धकोंके विधानको कहते हैं— संज्वलन-लोभके पूर्वस्पर्द्धकोसे प्रदेशाग्रके असंख्यातवें भागको ग्रहण कर प्रथम देशघाती स्पर्द्धकके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपवर्तित कर उसके अनन्तवें भागमें अन्य अपूर्व-स्पर्द्धकोंकी रचना करता है। वे अपूर्वस्पर्द्धक गणनासे अनन्त होते हुए भी प्रदेशगुण-हानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्द्धक हैं उनके असंख्यातवें भागमात्र हैं। वे अपूर्व-स्पर्द्धक इतने मात्र हैं।

प्रथम समयमें निर्वर्तित अपूर्वस्पर्द्धकोंमेसे प्रथम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामे अवि-भागप्रतिच्छेद स्तोत्र है। द्वितीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह अनन्त बहुभागसे अधिक है। द्वितीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासे तृतीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें द्वितीय भाग अर्थात् आधेसे अधिक है। तृतीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासे चतुर्थ स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें त्रिभागसे अधिक है। इस प्रकार क्रमसे संख्यात-भागोत्तरवृद्धिसे जाकर पुनः असंख्यातभागसे अधिक होता है। पुनः असंख्यात-

भण्णते । जयथ अ प ११०६ वर्धमान मत् पूर्व हीयमानमपूर्वकम् । स्पर्द्धक द्विविध ज्ञेय स्पर्द्धकक्रमकोविदै, ॥ पचसग्रह-अमितगतिक्कत, १, ४६

१ अमतौ ' व्वत्तयुदि ' आ कप्रसो ' वत्तयुदि ' इति पाठ ।

२ गणनादेयपदेसगुणहाणिट्ठाणफहूयाण तु । होदि असंखेज्जदिम अवरारु वर अणंतगुण ॥ लब्धि ४६७.

भागुत्तरं होदि । पुणो असंखेज्जदिभागुत्तरं गंतूण' पुणो अणंतभागुत्तरं होदि । एवमणंत-  
राणंतरेण गंतूण चरिमस्स वि फद्दयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसा-  
हियमणंतभागेण ।

जाणि पढमसमए अपुव्वफद्दयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फद्दयस्स आदि-  
वग्गणा थोवा । चरिमस्स अपुव्वफद्दयस्स आदिवग्गणा अणंतगुणा । पुव्वफद्दयस्स वि  
आदिवग्गणा अणंतगुणा । जहा लोभस्स अपुव्वफद्दयीणि परूविदाणि पढमसमए, तथा  
मायाए माणस्स क्रोधस्स य परूवेदव्वाणि ।

पढमसमए जाणि अपुव्वफद्दयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ क्रोधस्स थोवाणि ।

भागोत्तरवृद्धिसे जाकर पुनः अनन्तवें भागसे अधिक होता है । इस प्रकार अनन्तर  
अनन्तररूपसे जाकर ( द्विचरम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा )  
अन्तिम स्पर्द्धककी भी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह अनन्त भागसे  
विशेष अधिक है ।

विशेषार्थ—उपर्युक्त कथनका अभिप्राय इस प्रकार है—द्वितीय स्पर्द्धककी प्रथम  
वर्गणासे तृतीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणा कुछ कम द्वितीय भागसे अधिक है, तृतीय  
स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासे चतुर्थ स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणा कुछ कम तृतीय भागसे अधिक  
है, इस प्रकार जब तक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण स्पर्द्धकोंकी अन्तिम स्पर्द्धकवर्गणा  
अपने अनन्तर नीचेके स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट संख्यातवें भागसे अधिक होकर  
संख्यातभागवृद्धिके अंतको न प्राप्त हो जावे तब तक इसी प्रकार चतुर्थ-पंचम भागाधिक-  
क्रमसे ले जाना चाहिये । इससे आगे जब तक आदिसे लेकर जघन्य परीतानन्तप्रमाण  
स्पर्द्धकोंमें अन्तिम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणा अपने अनन्तर नीचेके स्पर्द्धककी प्रथम  
वर्गणासे उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातवें भागसे अधिक होकर असंख्यातभागवृद्धिके अन्तको  
न प्राप्त हो जावे तब तक असंख्यातभागोत्तरवृद्धिका क्रम चालू रहता है । इसके आगे  
अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धक तक अनन्तभागवृद्धिका क्रम जानना चाहिये ।

प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्द्धक निर्वर्तित हैं उनमें प्रथम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणा  
स्तोक और अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है । पूर्वस्पर्द्धककी भी  
आदिम वर्गणा अनन्तगुणी है । प्रथम समयमें जिस प्रकार लोभके अपूर्वस्पर्द्धकोंका प्ररू-  
पण किया है उसी प्रकार माया, मान और क्रोधके भी अपूर्वस्पर्द्धकोंका प्ररूपण  
करना चाहिये ।

प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्द्धक निर्वर्तित हैं उनमें क्रोधके अपूर्वस्पर्द्धक स्तोक,



माणस्स अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि । मायाए अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि ।  
 लोभस्स अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि । विसेसो अणंतभागो' । तेसिं चैव पढमसमए  
 णिव्वत्तिदाणमपुव्वफहयाणं लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं थोवं । मायाए  
 आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गं विसेसाहियं । माणस्स आदिवग्गणाए अविभाग-  
 पडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । क्रोधस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं ।  
 चदुण्हं पि कसायाणं जाणि अपुव्वफहयाणि तत्थ चरिमस्स अपुव्वफहयस्स आदिवग्गणाए  
 अविभागपडिच्छेदग्गं चदुण्हं पि कसायाणं तुल्लमणंतगुणं' । कोहादिचदुण्हं संजलणाणं  
 जाओ आदिवग्गणाओ, तासिं परिवाडीए जहाकमेणेसा संदिट्ठी- २१०।१६८।१४०।१२०।  
 कोहादीणं जहाकमेण अपुव्वफहयसलागाओ एदाओ- १२।१५।१८।२१।

मानके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक, और लोभके  
 अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक हैं। अधिकताका प्रमाण यहां अनन्तचां भाग है। प्रथम  
 समयमें निर्वर्तित उन्हीं अपूर्वस्पर्द्धकोंमें लोभकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह  
 स्तोक है। मायाकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। मानकी  
 प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। क्रोधकी प्रथम वर्गणामें  
 अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। चारों ही कपायोंके जो अपूर्वस्पर्द्धक हैं उनमें  
 अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदोंका समूह चारों ही कपायोंके  
 तुल्य अनन्तगुणा है। क्रोधादिरूप चारों संज्वलनोंकी जो प्रथम वर्गणायें हैं उनकी परि-  
 पाटीमें यथाक्रमसे यह संदृष्टि है— २१०।१६८।१४०।१२०। क्रोधादिकोंकी यथाक्रमसे  
 अपूर्वस्पर्द्धकशलाकार्ये ये हैं— १२।१५।१८।२१।

विशेषार्थ—अपूर्वस्पर्द्धकोंमें प्रथम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रति-  
 छेदोंको स्पर्द्धकशलाकासे गुणा कर देनेपर अन्तिम स्पर्द्धककी आदि वर्गणाके अवि-  
 भागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण आता है, जो सब कपायोंका तुल्य होता है तथा आदिम  
 वर्गणाकी अपेक्षा अनन्तगुणा है।

आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद अपूर्वस्पर्द्धक शलाका अन्तिम स्पर्द्धककी आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद	क्रोध	मान	माया	लोभ
	२१०	१६८	१४०	१२०
	×१२	×१५	×१८	×२१
	२५२०	२५२०	२५२०	२५२०

१ पुव्वाण फहूयाण छेत्तूण असखमागदव्व तु । कोहादीणमपुव्व फहूयमिह कुणटि अहियक्कमा ॥  
 लब्धि ४६८

२ कोहादीणमपुव्व जेह सरिस तु अवरमसरिथि । लोहादिआदिवग्गणअविभागा होंति अहियक्कमा ॥  
 लब्धि ४७१.

पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स जं पदेसग्गमोकड्डिज्जदि तेण' कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अपुव्वफद्दएहि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । पलिदोवमवग्गमूलमसंखेज्जगुणं' । पढमसमए णिव्वत्तिज्जमाणएसु अपुव्वफद्दएसु पुव्वफद्दएहिंतो ओकड्डिदूण पदेसग्गमपुव्वफद्दयाणमादिवग्गणाए बहुगं देदि । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण गंतूण चरिमाए अपुव्वफद्दयवग्गणाए विसेसहीणं देदि । तदो चरिमादो अपुव्वफद्दयवग्गणादो पढमस्स पुव्वफद्दयस्स आदिवग्गणाए असंखेज्जगुणहीणं देदि । तदो विदियाए पुव्वफद्दयवग्गणाए विसेसहीणं देदि । सेसासु सव्वासु पुव्वफद्दयवग्गणासु विसेसहीणं देदि' । तम्हि चेव पढमसमए जं दिस्सदि पदेसग्गं तमपुव्वफद्दयाणं पढमाए वग्गणाए बहुअं, पुव्वफद्दयआदिवग्गणाए विसेसहीणं । जहा लोभस्स तहा मायाए माणस्स कोधस्स च ।

उदयपरुवणा । तं जहा- पढमसमए चेव अपुव्वफद्दयाणि उदिण्णाणि च अणु-

प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणका करनेवाला जिस प्रदेशाग्रको अपकर्षित करता है उसके प्रमाणसे कर्मका अवहारकाल स्तोक है । अपूर्वस्पर्द्धकोंसे प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका अवहारकाल असंख्यातगुणा है । पल्योपमका वर्गमूल असंख्यातगुणा है । ( अर्थात् अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे असंख्यातगुणे और पल्योपमके प्रथम वर्गमूलसे असंख्यातगुणे हीन पल्योपमके असंख्यातव भागसे एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्द्धकोंके अपवर्तित करनेपर जो भाग लब्ध हो उतनेमात्र संज्वलनक्रोधादिकोंके स्पर्द्धक होते हैं । ) प्रथम समयमें निर्वर्तित किये जानेवाले अपूर्वस्पर्द्धकोंमें पूर्वस्पर्द्धकोंसे अपकर्षण करके प्रदेशाग्रको अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें बहुत देता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन देता है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धकवर्गणामें विशेष हीन देता है । उस अन्तिम अपूर्वस्पर्द्धकवर्गणासे प्रथम पूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें असंख्यातगुणा हीन देता है । उससे द्वितीय पूर्वस्पर्द्धकवर्गणामें विशेष हीन देता है । शेष सब पूर्वस्पर्द्धकवर्गणाओंमें विशेष हीन देता है । उसी प्रथम समयमें जो प्रदेशाग्र दिखता है वह अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें बहुत और पूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें विशेष हीन है । पूर्व व अपूर्व स्पर्द्धकोंमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी यह श्रेणिप्ररूपणा जैसे लोभकी की गई है वैसे ही माया, मान, और क्रोधकी भी जानना चाहिये ।

उसी अश्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमें चार संज्वलनकपायोंके अनुभागोदयकी प्ररूपणा की जाती है । वह इस प्रकार है— प्रथम समयमें ही अपूर्वस्पर्द्धक उदीर्ण

१ प्रतिपु 'मोरुड्डिज तेण' इति पाठ ।

२ ताहे दव्ववहारो पदेसगुणहाणिफड्डयवहारो । पडस्स पढममूल असखगुणियक्कमा होति ॥ लब्धि ४७५.

३ उक्कट्टिड हु देदि जपुव्वादिमवग्गणाउ हीणकम । पुव्वादिवग्गणाए असखगुणहीणय तु हीणकमा ॥ लब्धि ४७०.

दिण्णाणि च । पुव्वफह्याणं पि आदीदो अणंतभागो उदिण्णो च अणुदिण्णो च, उवरिमअणंता भागा अणुदिण्णा । वंधेण णिव्वत्तिज्जंति अपुव्वफह्यं पढममादिं कादूण जाव लदासमाणफह्याणमणंतिमभागो त्तिं । एसा सव्वा परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स । एत्तो विदियसमए तं चेव द्विदिखंडयं, तं चेव अणुभागखंडयं, सो चेव द्विदिवंधो । अणुभागबंधो अणंतगुणहीणो । गुणसेडी असंखेज्जगुणा । अपुव्वफह्याणि जाणि पढमसमए णिव्वत्तिदाणि विदियसमए ताणि च णिव्वत्तयदि अण्णाणि च अपुव्वफह्याणि तदो असंखेज्जगुणहीणाणि ।

विदियसमए अपुव्वफह्यएसु दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा— विदियसमए अपुव्वफह्याणमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि, विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं दिज्जदि । एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं दिज्जदि ताव जाव जाणि विदियसमए अपुव्वाणि अपुव्वफह्याणि कदाणि तेसिं चरिमादो वग्गणादो त्ति । तदो चरिमादो वग्गणादो पढमसमए जाणि अपुव्वाणि फह्याणि कदाणि तेसिमादिवग्गणाए दिज्जदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं । तदो विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं दिज्जदि । तत्तो पाए अणंतरो-

भी हैं और अनुदीर्ण भी हैं । पूर्वस्पर्द्धकोंका भी आदिसे अनन्तवां भाग उदीर्ण और अनुदीर्ण, तथा उपरिम अनन्त बहुभाग अनुदीर्ण है । अनुभागबन्धसे प्रथम अपूर्वस्पर्द्धकोंको आदि करके लतासमान स्पर्द्धकोंके अनन्तवें भाग तक स्पर्द्धक रचे जाते हैं । यह सब प्ररूपणा प्रथम समय अश्वकर्णकरणकारककी है । यहांसे द्वितीय समयमें वही स्थितिकांडक, वही अनुभागकांडक और वही स्थितिबन्ध भी है । अनुभागबन्ध अनन्तगुणा हीन है । गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है । प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्द्धक निर्वर्तित हैं, द्वितीय समयमें उन्हें भी रचता है और उनसे असंख्यातगुणे हीन अन्य भी अपूर्वस्पर्द्धकोंको रचता है ।

द्वितीय समयमें अपूर्व स्पर्द्धकोंमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रके श्रेणीप्ररूपणको कहते हैं । वह इस प्रकार है— द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्द्धकोंकी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार अनन्तर क्रमसे विशेष हीन प्रदेशाग्र तब तक दिया जाता है जब तक कि जो द्वितीय समयमें अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं उनकी अन्तिम वर्गणा प्राप्त होती है । फिर उनकी अन्तिम वर्गणासे, प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं उनकी प्रथम वर्गणामें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशाग्रको देता है । उससे द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्रको

१ प्रतिष्ठा '—फह्यपढमादि' इति पाठ ।

२ ताहे अपुव्वफह्यपुव्वस्सादीदणतिममुदेदि । वधो हु लदाणतिमभागो त्ति अपुव्वफह्यदो ॥ लन्धि ४७६.

३ प्रतिष्ठा 'तेसिं चरिमादो वग्गणादो पढमसमए' इति पाठ ।

वणिधाए सच्चत्थ विसेसहीणं दिज्जदि । पुच्चफहयाणमादिवग्गणाए विसेसहीणं चेव दिज्जदि । सेसासु विसेसहीणं दिज्जदि<sup>१</sup> । विदियसमए अपुच्चफहएसु वा पुच्चफहएसु वा एककेविकस्से वग्गणाए जं दिस्सदि पदेसग्गं तमपुच्चफहयआदिवग्गणाए बहुअं, सेसासु अणंतरोवणिधाए सच्चत्थ विसेसहीणं<sup>२</sup> । तदियसमए वि एसेव कमो । णवरि अपुच्चफहयाणि ताणि च अण्णाणि च णिच्चत्तयदि ।

तदियसमए<sup>३</sup> जाणि अपुच्चवाणि फहयाणि णिच्चत्तिदाणि तेसिमसंखेज्जदिभागे तत्थ वि पदेसग्गस्स दिज्जमाणस्स सेडिपरूवणं— तदियसमए अपुच्चवाणमपुच्चफहयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि । विदियाए वग्गणाए विसेसहीणं । एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं ताव जाव जाणि तदियसमए अपुच्चवाणमपुच्चफहयाणं चरिमादो वग्गणादो त्ति । तदो विदियसमए अपुच्चफहयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं । ततो पाए सच्चत्थ विसेसहीणं । जं दिस्सदि पदेसग्गं तमादिवग्गणाए बहुअं, उवरिमणंतरोवणिधाए सच्चत्थ विसेसहीणं । जथा तदियसमए तथा सेसेसु

देता है । वहांसे लेकर अनन्तर क्रमसे सब वर्गणाओंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । पूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें विशेष हीन ही देता है । शेष वर्गणाओंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्द्धकोंमें अथवा पूर्वस्पर्द्धकोंमें एक एक वर्गणामें जो प्रदेशाग्र दिखता है, वह अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें बहुत और शेष सब वर्गणाओंमें अनन्तर क्रमसे विशेष हीन है । तृतीय समयमें भी यही क्रम है । विशेष केवल यह है कि उन्हीं अपूर्वस्पर्द्धकोंको तथा दूसरोंको भी रचता है ।

तृतीय समयमें उनके असंख्यातवें भागमात्र जिन अपूर्वस्पर्द्धकोंको रचा है उन अपूर्वस्पर्द्धकोंमें दीयमान प्रदेशाग्रकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है— तृतीय समयमें अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धकोंकी आदिम वर्गणामें बहुत प्रदेशाग्र दिया जाता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तर क्रमसे विशेष हीन प्रदेशाग्र तृतीय समयमें निर्वर्तित अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धकोंकी अन्तिम वर्गणा तक दिया जाता है । उससे द्वितीय समयमें निर्वर्तित अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणामें असंख्यातगुणा हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । वहांसे लेकर द्वितीयादि वर्गणाओंमें सर्वत्र विशेष हीन ही प्रदेशाग्र दिया जाता है । जो प्रदेशाग्र दिखता है वह प्रथम वर्गणामें बहुत, तथा ऊपर अनन्तर क्रमसे सब वर्गणाओंमें विशेष हीन है । जिस प्रकार तृतीय समयमें निरूपण किया गया

१ पढमादिसु दिज्जकम तक्कालजफडूयाण चरिमो त्ति । हीणकम से काले असखगुणहीणय तु हीणकम ॥ लब्धि ४७९.

२ पढमादिसु दिस्सकम तक्कालजफडूयाण चरिमो त्ति । हीणकम से काले हीणं हीणं कम ततो ॥ लब्धि ४८०.

३ प्रतिपु 'विदियसमए' इति पाठ ।

च उवरिमसमएसु' वत्तव्वं जाव पढमसणुभागखंडयं चरिमसमयअणुक्किणं ति ।

तदो से काले अणुभागसंतकम्ममे णाणत्तं । तं जहा- लोभे अणुभागसंतकम्मं थोवं । मायाए अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । माणस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । क्रोधस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । तेण परं सव्वर्हिं अस्सकण्णकरणे एस कम्मो । अस्सकण्णकरणस्स पढमसमए णिव्वत्तिदाणि अपुव्वफहयाणि बहुवाणि । विदियसमए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफहयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । तदियसमए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफहयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । एवं समए समए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफहयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । गुणगारो पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो' । अस्सकण्णकरणस्स चरिमससए लोभस्स अपुव्वफहयाणमादिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं थोवं । विदियस्स अपुव्वफहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं दुगुणं । तदियस्स फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं तिगुणं । एवं पढमस्स आदिवग्गणाए अविभागच्छेदग्गादो जदिएत्थ-

है उसी प्रकार प्रथम अनुभागकांडके उत्कीर्ण होनेके अन्तिम समय तक उपरिम समयोंमें भी निरूपण करना चाहिये ।

इसके अनन्तर कालमें अनुभागसत्त्वमें विशेषता है । वह इस प्रकार है— लोभमें अनुभागसत्त्व स्तोत्र है । मायामें अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । मानका अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । क्रोधका अनुभागसत्त्व अनन्तगुणा है । इससे आगे सब अश्वकर्णकरणमें वही क्रम है । अश्वकर्णकरणके प्रथम समयमें निर्वाणित अपूर्वस्पर्द्धक बहुत हैं । द्वितीय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैं । तृतीय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैं । इस प्रकार समय समयमें जो अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धक किये जाते हैं वे असंख्यातगुणे हीन होते हैं । यहां गुणकार पल्यो-पमवर्गमूलके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है । अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें लोभके अपूर्व अपूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोत्र, द्वितीय अपूर्वस्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र दुगुणा, और तृतीय स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र तिगुणा है । इस प्रकार प्रथम स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणासम्बन्धी

१ प्रतिपु 'सेसेसु चरिमसमएसु' इति पाठ ।

२ पढमाणुभागखंडे पडिदे अणुभागसतकम्म तु । लोमाटणतणुणिद उवरिं पि जणतणुणिदकम्म ॥  
लघ्वि ४८१

३ आदोलस्स य पढमे णिव्वत्तिदअपुव्वफहयाणि व्ह । पडिसमय पलिदोवममूलसखेज्जभागमजियक्का ॥  
लघ्वि. ४८२.

फहयस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गामुद्दिस्सदि तदित्थफहयस्म आदिवग्गणाए अविभागच्छेदग्गादो पडिच्छेदग्गं तदित्थगुणं' । एवं मायाए माणस्स क्रोधस्स य ।

अस्सकण्णकरणस्स पढमअणुभागखंडए हदे अणुभागस्स अप्पावहुअं वत्त-  
इस्सामो । तं जहा- सव्वत्थोवाणि क्रोधस्स अपुव्वफहयाणि । माणस्स अपुव्वफहयाणि  
विसेसाहियाणि । मायाए अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुव्वफहयाणि  
विसेसाहियाणि । एगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफहयाणि असंखेज्जगुणाणि । एगफहय-  
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । क्रोधस्स अपुव्वफहयवग्गणाओ अणंतगुणाओ । माणस्स  
अपुव्वफहयवग्गणाओ विसेसाहियाओ । मायाए अपुव्वफहयवग्गणाओ विसेसाहियाओ ।  
लोभस्स अपुव्वफहयवग्गणाओ विसेसाहियाओ । लोभस्स पुव्वफहयाणि अणंतगुणाणि ।  
तेसिं चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । मायाए पुव्वफहयाणि अणंतगुणाणि । तेसिं  
चेव वग्गणाओ अणंतगुणाओ । माणस्स पुव्वफहयाणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव  
वग्गणाओ अणंतगुणाओ । क्रोधस्स पुव्वफहयाणि अणंतगुणाणि । तेसिं चेव वग्गणाओ  
अणंतगुणाओ' । एवमंतोमुहुत्तमस्सकण्णकरणं ।

अविभागप्रतिच्छेदाग्रसे जितनेवें स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदाग्रका संकल्प हो उतनेवें स्पर्द्धककी प्रथम वर्गणामें ( प्रथम स्पर्द्धकसम्बंधी प्रथम वर्गणाके ) अविभागप्रतिच्छेदाग्रसे उतनागुणा प्रतिच्छेदाग्र होता है । इसी प्रकार माया, मान और क्रोधके अपूर्वस्पर्द्धकामें अविभागप्रतिच्छेदाग्रके अल्पवहुत्वका क्रम जानना चाहिये ।

अश्वकर्णकरणके प्रथम अनुभागकांडकके नष्ट होनेपर अनुभागके अल्पवहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है - क्रोधके अपूर्वस्पर्द्धक सबसे स्तोक, मानके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वरपर्द्धक विशेष अधिक, और लोभके अपूर्वस्पर्द्धक विशेष अधिक है । एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्द्धक असंख्यातगुणे हैं । एक स्पर्द्धककी वर्गणायें अनन्तगुणी हैं । क्रोधकी अपूर्वस्पर्द्धकवर्गणायें अनन्तगुणी हैं । मानकी अपूर्व-  
स्पर्द्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं । मायाकी अपूर्वस्पर्द्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं । लोभकी अपूर्वस्पर्द्धकवर्गणायें विशेष अधिक हैं । लोभके पूर्वस्पर्द्धक अनन्तगुणे है । उन्हीं पूर्वस्पर्द्धककी वर्गणायें अनन्तगुणी हैं । मायाके पूर्वस्पर्द्धक अनन्तगुणे है । उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी हैं । मानके पूर्वस्पर्द्धक अनन्तगुणे है । उनकी ही वर्गणायें अनन्त-  
गुणी हैं । क्रोधके पूर्वस्पर्द्धक अनन्तगुणे हैं । उनकी ही वर्गणायें अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक अश्वकर्णकरण प्रवर्तमान रहता है ।

१ आदोलस्स य चरिसे अपुव्वादिमवग्गणाविभागादो । दोचदिमादीणादी चदिदच्चा भेत्तणतगुणा ॥  
लब्धि ४८३

२ आदोलस्स य पदमे रसखडे पाडिडे अपुव्वादो । कांहादी अहियस्समा पदेसगुणहाणिफड्डया ततो ॥  
होदि असखेज्जगुण दग्गिफड्डयवग्गणा अणतगुणा । ततो अणतगुणिदा कोहस्स अपुव्वफड्डयाण च ॥ भाणादीण-

अस्सकण्णकरणस्स चरिमसमए संजलणाणं ढ्ठिदिवंधो अट्ट वस्साणि । सेसाणं कम्माणं ठिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>१</sup> । णामा-गोद-वेदणीयाणं ढ्ठिदिसंतकम्मं असंखेज्जाणि वस्साणि । चदुण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>२</sup> । एवमस्सकण्णकरणद्वा समत्ता भवदि ।

एत्तो सेकालप्पहुडि किट्ठीकरणद्वा । छसु कम्मेसु संछुद्धेसु जा कोधवेदगद्वा तिस्से कोधवेदगद्वाए तिण्णि भागा । जो तत्थ पढमतिभागो अस्सकण्णकरणद्वा, विदियतिभागो किट्ठीकरणद्वा, तदियतिभागो किट्ठीवेदगद्वा<sup>३</sup> । अस्सकण्णकरणे णिड्ठिदे तदो से काले अण्णो ढ्ठिदिवंधो । अण्णो अणुभागखंडओ अस्सकण्णकरणेणैव आगाइदो । अण्णो ढ्ठिदिवंधो चदुण्हं घादिकम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणमसंखेज्जा भागा । पढमसमयकिट्ठीकारओ कोधपुच्चापुच्चाफद्दएहिंतो पदेसंग्ग-मोक्खिद्दूण कोधकिट्ठीओ करेदि । माणादो ओक्खिद्दूण माणकिट्ठीओ करेदि । मायादो

अश्वकर्णकरणके अन्तिम समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध आठ वर्ष और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्ष और घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । इस प्रकार अश्वकर्णकरणकाल समाप्त होता है ।

यहांसे आगे अनन्तर समयसे लेकर कृष्टिकरणकाल है । छह कर्मोंके संक्रमणको प्राप्त होनेपर जो क्रोधवेदककाल है उस क्रोधवेदककालके तीन भाग हैं । उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वकर्णकरणकाल, द्वितीय त्रिभाग कृष्टिकरणकाल, और तृतीय त्रिभाग कृष्टिवेदककाल है । अश्वकर्णकरणके समाप्त होनेपर तदनन्तरकालमे अन्य स्थितिबन्ध होता है । अन्य अनुभागकांडक अश्वकर्णकरणकर्ता द्वारा ही प्रारम्भ किया गया है । चार घातिया कर्मोंका अन्य स्थितिकांडक संख्यात वर्षसहस्रमात्र है । नाम, गोत्र व वेदनीयका अन्य स्थितिकांडक असंख्यात बहुभागप्रमाण है । प्रथम समय कृष्टिकारक क्रोधके पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर क्रोधकृष्टियोंको करता है । मानसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर मानकृष्टियोंको करता है । मायासे प्रदेशाग्रका अपकर्षणकर मायाकृष्टियोंको

हियक्खमा लोभगपुच्च च वग्गणा तेसिं । कोहो त्ति य अट्ट पदा अणतगुणिदक्कमा हौंति ॥ लब्धि ४८४-४८६

१ हयकण्णकरणचरिमे सजलणाणद्धवस्सठिदिवंधो । वस्साण सखेज्जसहस्साणि हवति सेसाण ॥ लब्धि ४८८.

२ ठिदिसत्तमघादीण असखवस्साणि हौंति घादीण । वस्माण सखेज्जसहस्साणि हवति णियमेण ॥ लब्धि ४८९

३ छक्कम्मे सछुद्धे कोहे कोहस्स वेदगद्वा जा । तस्स य पढमतिभागो हौदि हु हयकण्णकरणद्वा ॥ विदिय-तिभागो किट्ठीकरणद्वा किट्ठीवेदगद्वा हु । तदियतिभागो किट्ठीकरणो हयकण्णकरण च ॥ लब्धि. ४९०-४९१.

ओकट्टिदूण मायाकिट्ठीओ करेदि । लोभादो ओकट्टिदूण लोभकिट्ठीओ करेदि' । एदाओ सव्वाओ वि चउन्विहाओ किट्ठीओ एगफहयवग्गणाणमणंतभागो पगणणादो ।

पढमसमयणिव्वत्तिदाणं किट्ठीणं तिव्वमंददाए अप्पावहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा- लोभस्स जहणिया किट्ठी थोवा । विदियाकिट्ठी अणंतगुणा । एवमणंतगुणाए सेडीए णेयव्वं जाव पढमाए संगहकिट्ठीए चरिमकिट्ठी ति । तदो विदियाए संगहकिट्ठीए जहणिया किट्ठी अणंतगुणा । एसो गुणगारो वारसण्हं पि संगहकिट्ठीणं सत्थाणगुणगारेहिंतो अणंतगुणो । विदियाए संगहकिट्ठीए सो चेव क्रमो जो पढमाए संगहकिट्ठीए । तदो पुण विदियाए तदियाए च संगहकिट्ठीणमंतरं तारिसं चेव । एवमेदाओ लोभस्स तिण्णि संगहकिट्ठीओ । लोभस्स तदियाए संगहकिट्ठीए जा चरिमकिट्ठी तदो मायाए जहणिया किट्ठी अणंतगुणा । मायाए वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । मायाए जा तदियसंगहकिट्ठी तिस्से चरिमादो किट्ठीदो माणस्स जहणिया किट्ठी अणंतगुणा । माणस्स वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । माणस्स जा तदिया संगहकिट्ठी तिस्से चरिमादो किट्ठीदो कोधस्स जहणिया किट्ठी अणंतगुणा । कोधस्स वि तेणेव क्रमेण तिण्णि संगहकिट्ठीओ । कोधस्स तदियाए संगहकिट्ठीए जा

करता है । लोभसे प्रदेशाग्रका अपकर्षणकर लोभकृष्टियोंको करता है । ये सब चारों प्रकारकी कृष्टियां गणनासे एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवे भागप्रमाण है ।

प्रथम समयमें निर्वर्तित कृष्टियोंके तीव्र-मन्दतासे अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है—लोभकी जघन्य कृष्टि स्तोक है । द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इस प्रकार अनन्तगुणित श्रेणीसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक ले जाना चाहिये । उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है । यह गुणकार वारह ही संग्रहकृष्टियोंके स्वस्थानगुणकारोंसे अनन्तगुणा है । प्रथम संग्रहकृष्टिमें जो क्रम है वही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें है । इससे आगे द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टियोंका अन्तर प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोंके अन्तर समान ही है । इस प्रकार ये लोभकी तीन संग्रहकृष्टियां हैं । लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे मायाकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है । मायाकी भी उसी क्रमसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं । मायाकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे मानकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणित होती है । मानकी भी उसी क्रमसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं । मानकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे क्रोधकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है । क्रोधकी भी उसी क्रमसे तीन संग्रहकृष्टियां होती हैं । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम



चरिमा किट्टी तदो लोभस्स अपुव्वफहयाणमादिवग्गणा अणंतगुणा' ।

किट्टीए अंतराणमप्पावहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा- लोभस्स पढमाए संगह-  
किट्टीए जहणायं किट्टीअंतरं<sup>३</sup> थोयं । विदियाकिट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंतराणंतरेण गंतूण  
चरिमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । लोभस्स चैव विदियाए संगहकिट्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंत-  
गुणं । एवमणंतराणंतरेण णेदव्वं जाव चरिमकिट्टीअंतरो त्ति । तदो लोभस्स चैव  
तदियाए संगहकिट्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंतराणंतरेण गंतूण चरिमकिट्टी-  
अंतरमणंतगुणं । एत्तो मायाए पढमसंगहकिट्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । एवमणंत-  
राणंतरेण मायाए वि तिण्हं संगहकिट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए  
णेदव्वाणि । एत्तो माणस्स पढमाए संगहकिट्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । माणस्स  
वि तिण्हं संगहकिट्टीणं किट्टीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वाणि । एत्तो  
कोधस्स पढमसंगहकिट्टीए पढमकिट्टीअंतरमणंतगुणं । एवं कोधस्स वि तिण्हं संगह-

कृष्टि है उससे लोभके अपूर्वस्पर्द्धकौकी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है ।

अब यहां कृष्टि-अन्तरों अर्थात् कृष्टिगुणकारोंके अल्पशुद्धत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें जघन्य कृष्टि-अन्तर, अर्थात् जिस गुणकारसे गुणित जघन्य कृष्टि द्वितीय कृष्टिका प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणकार, स्तोत्र है । द्वितीय कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम कृष्टि-अन्तर तक ले जाना चाहिये । पुनः लोभकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । यहांसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके अनुसार ले जाना चाहिये । यहांसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मानकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर क्रमानुसार अनन्तगुणित श्रेणीसे ले जाना चाहिये । यहांसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार

१ सगहगे एक्केक्के अतरकिट्टी हवदि हु अणता । लोभादि अणतगुणा कोहादि अणतगुणाहीणा ॥  
लब्धि ४९८

२ लोभस्स पढमसंगहकिट्टीए जहणकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा अप्पणो विदियकिट्टीपमाण पावदि सो  
गुणगारो जहणकिट्टीअतर णाम । जयध अ प ११२०

३ प्रतिष्ठु 'मायाए पढमसंगहकिट्टीअतर-' इति पाठ ।

किट्टीणं अंतराणि जहाक्रमेण जाव चरिमादो अंतरादो अणंतगुणाए सेडीए णेदच्चाणि । तदो लोभस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं<sup>१</sup> । विदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं<sup>२</sup> । तदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं<sup>३</sup> । लोभस्स मायाए च अंतरमणंतगुणं । मायाए पढम-

क्रोधकी भी तीन संग्रहकृष्टियोंके अन्तर क्रमानुसार अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित श्रेणीसे ले जाना चाहिये । उससे अर्थात् स्वस्थान गुणकारोंमें अन्तिम गुणकारसे लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । द्वितीय संग्रहकृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है । तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है ।

विशेषार्थ—लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है । उसी प्रकार द्वितीय संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर तृतीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणकार द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है । लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर जयधवलाकारने तीन प्रकारसे बतलाया है । (१) लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर लोभकी ही तृतीय कृष्टिसंबंधी अन्तिम कृष्टिको प्राप्त होती है वह लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर है । अथवा, (२) तृतीय संग्रहकृष्टि और अपूर्वस्पर्द्धककी आदि वर्गणाका अन्तर तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर समझना चाहिये । अथवा, (३) लोभकी तृतीय और मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिका गुणकार लोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर है । इसी प्रकार मायादिकके भी संग्रहकृष्टि-अन्तर जानना चाहिये ।

लोभ और मायाका अन्तर अनन्तगुणा है । मायाका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर

१ प्रतियु ' -संगहकिट्टीए अतर- ' इति पाठ ।

२ लोभस्स पढमसंगहकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा विदियसंगहकिट्टीए पढमकिट्टि पावदि सो गुणगारो लोभस्स पढमसंगहकिट्टीअतर णाम । जयध अ प ११२१

३ विदियसंगहकिट्टीए चरिमकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा तदियसंगहकिट्टीए पढमकिट्टि पावदि सो गुणगारो विदियसंगहकिट्टीअतर णाम । जयध अ प ११२२

४ लोभस्स तदियसंगहकिट्टीअतरमिदि वुत्ते लोभस्स विदियसंगहकिट्टीए चरिमकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा लोभस्स चैव तदियसंगहकिट्टीए चरिमकिट्टि पावदि सो गुणगारो धेत्तव्वो । ××× अधवा तदियसंगहकिट्टीए अपुव्वफद्दयाद्विवग्गणाए अतर तदियसंगहकिट्टीअतरमिदि धेत्तव्व, संगहकिट्टीफद्दयतरस्स वि कथचि संगहकिट्टी-अतरत्तेण णिद्देसे विरोहामावादो । ××× अधवा लोभस्स तदियसंगहकिट्टीअतरमणंतगुणमिदि वुत्ते लोभ-मायाणमेव तदिय-पढमसंगहकिट्टीण सधिगुणगारो गहेयव्वो । ण च तहावलविज्जमाणे उवरिमसुत्तेण पुणरुत्तमावो वि, तदिय-संगहकिट्टीअतरमणंतगुणमिदि सामण्णणिद्देसेणेदेण त कदममिदि सदेहे समुप्पण्णे तण्णिरायरणमुहेण लोभ-मायाण-मतरमेव तदियसंगहकिट्टीअतरमिह विवक्खिय, ण तत्तो अण्णमिदि पदुप्पायणट्टमुवरिमसुत्तारमे पुणरुत्तदोसा-ससवादो । जयध. अ. प. ११२२.

संगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । मायाए माणस्स च अंतरमणंतगुणं । माणस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । माणस्स कोधस्स य अंतरमणंतगुणं । कोधस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । विदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं । तदियसंगहकिट्टीअंतरमणंतगुणं' । कोधस्स चरिमादो किट्टीदो लोभस्स अपुव्व-फहयाणमादिवग्गणाए अंतरमणंतगुणं ।

पढमसमए किट्टीसु पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा— लोभस्स जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणमणंतभागेण । एवं अणंतरोवणिधाए विसेसहीणमणंतभागेण जाव कोधस्स चरिमकिट्टि त्ति । परंपरोवणिधाए जहणियादो लोभकिट्टीदो उक्कस्सियाए कोधकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणमणंतभागेण ।

विदियसमए अण्णाओ अपुव्वाओ किट्टीओ कोरेदि पढमसमए णिव्वत्तिदकिट्टीणमसंखेज्जदिभागमेत्ताओ । एक्केक्किस्से संगहकिट्टीए हेट्ठा अपुव्वाओ किट्टीओ कोरेदि । विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा— लोभस्स

अनन्तगुणा है । द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । माया और मानका अन्तर अनन्तगुणा है । मानका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मानका और क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है । क्रोधका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । क्रोधकी अन्तिम कृष्टिसे लोभके अपूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणाका अन्तर अनन्तगुणा है ।

प्रथम समयमें निर्वर्तमान कृष्टियोंमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं । वह इस प्रकार है— लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत है । द्वितीय कृष्टिमें प्रदेशाग्र अनन्तवै भागसे विशेष हीन है । इस प्रकार क्रोधकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तर क्रमसे प्रत्येक कृष्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र अनन्तवै भागसे विशेष हीन है । परम्परा-क्रमानुसार जघन्य लोभकृष्टिसे उत्कृष्ट क्रोधकृष्टिका प्रदेशाग्र अनन्तवै भागसे विशेष हीन है ।

द्वितीय समयमें, प्रथम समयमें निर्वर्तित कृष्टियोंके असंख्यातवै भागमात्र अन्य अपूर्व कृष्टियोंको करता है । एक एक संग्रहकृष्टिके नीचे अपूर्व कृष्टियोंको करता है । द्वितीय समयमें दीयमान प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं । वह इस प्रकार है—

जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं दिज्जदि । विदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । ताव अणंतभागहीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादो त्ति । तदो पढमसमयणिव्वत्तिदाणं जहणियाए किट्टीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । तदो विदियाए अणंतभागहीणं । तेण परं पढमसमयणिव्वत्तिदासु लोभस्स पढमसंगहकिट्टीए किट्टीसु अणंतराणंतरेण अणंतभागहीणं दिज्जदि जाव पढमसंगहकिट्टीए चरिमकिट्टि त्ति । तदो लोभस्स चैव विदियसमए विदियसंगहकिट्टीए तिस्से जहणियाए किट्टीए दिज्जमाणं विसेसाहियम-संखेज्जदिभागेण । तेण परमणंतभागहीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादो त्ति । तदो पढम-समयणिव्वत्तिदाणं जहणियाए किट्टीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । तेण परं विसेस-हीणमणंतभागेण जाव विदियसंगहकिट्टीए चरिमकिट्टि त्ति । तदो जहा विदियसंगह-किट्टीए विही तहा चैव तदियसंगहकिट्टीए विही वि ।

तदो लोभस्स चरिमादो किट्टीदो मायाए जा' विदियसमए जहणिया किट्टी

... ..

लोभकी जघन्य कृष्टिमें प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है । द्वितीय कृष्टिमें वह अनन्तवें भागसे विशेष हीन दिया जाता है । इस प्रकार तब तक अनन्तवें भागसे हीन दिया जाता है जब तक कि लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि प्राप्त होती है । उससे प्रथम समयमें निर्वर्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर-कृष्टियोंमेंसे जघन्य कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उसके आगे प्रथम समयमें निर्वर्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंमें, अनन्तर-अनन्तररूपसे प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे, लोभकी ही द्वितीय समयमें निर्वर्तमान उस द्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टिमें दीयमान प्रदेशाग्र असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक है । उसके आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिके नीचे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । उससे, प्रथम समयमें निर्वर्तित पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इससे आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । तत्पश्चात् द्वितीय संग्रहकृष्टिमें जैसी विधि निरूपित की गई है वैसी ही विधि तृतीय संग्रहकृष्टिमें भी जानना चाहिये ।

पश्चात् लोभकी अन्तिम कृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे द्वितीय समयमें निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्टि है उसमें असंख्यातवें भागसे विशेष

... ..

तिस्से दिज्जदि पदेसग्गं विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण । तदो पुण अणंतभागहीणं जाव अपुव्वाणं चरिमादो त्ति । एवं जम्हि अपुव्वाणं जहणिया किट्ठी तम्हि विसेसाहियम-संखेज्जदिभागेण । अपुव्वाणं चरिमादो असंखेज्जदिभागहीणं । एदेण क्रमेण विदियसमए णिबिखवमाणयस्स पदेसग्गस्स वारससु किट्ठिहाणेषु असंखेज्जदिभागहीणं, एक्कारससु किट्ठिहाणेषु असंखेज्जदिभागुत्तरं दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स । सेसेसु किट्ठिहाणेषु अणंतभागहीणं दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स । विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उंटकूडसेडी । जं पुण विदियसमए दिस्सदि किट्ठीसु पदेसग्गं तं जहणियाए किट्ठीए बहुअं । सेसासु सव्वासु अणंतरोवणिधाए अणंतभागहीणं । जहा विदियसमए किट्ठीसु पदेसग्गं परूविदं तथा सव्विस्से किट्ठीकरणद्धाए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स तेवीसं उंटकूडाणि । दिस्समाणगं सव्वम्हि अणंतभागहीणमिदि वत्तव्वं । जं पदेसग्गं सव्वसमासेण पढमसमए किट्ठीसु दिज्जदि तं थोवं । विदियसमए असंखेज्जगुणं ।

अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है । फिर इसके आगे अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार उक्त क्रमसे जहांपर पूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवें भागसे विशेष अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है और जहांपर अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टिसे पूर्व कृष्टियोंकी जघन्य कृष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवें भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस क्रमसे द्वितीय समयमें दीयमान प्रदेशाग्रका वारह कृष्टिस्थानोंमें असंख्यातवें भागसे हीन और ग्यारह कृष्टिस्थानोंमें दीयमान प्रदेशाग्रका असंख्यातवें भागसे अधिक अवस्थान है । शेष कृष्टिस्थानोंमें दीयमान प्रदेशाग्रका अनन्तभागसे हीन अवस्थान है । द्वितीय समयमें दीयमान प्रदेशाग्रकी यह उप्पूकूटश्रेणी है । किन्तु जो द्वितीय समयमें कृष्टियोंमें प्रदेशाग्र दिखता है वह जघन्य कृष्टिमें बहुत और शेष सब कृष्टियोंमें अनन्तर क्रमसे अनन्तभाग हीन है । जिस प्रकार द्वितीय समयमें कृष्टियोंमें दीयमान प्रदेशाग्रकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सभी कृष्टिकरणकालमें दीयमान प्रदेशाग्रके तेईस उप्पूकूटोंकी प्ररूपणा करना चाहिये । परन्तु दृश्यमान प्रदेशाग्र सब कालमें अनन्तभाग हीन है ऐसा कहना चाहिये । जो प्रदेशाग्र समस्तरूपसे प्रथम समयमें कृष्टियोंमें दिया जाता है वह स्तोक है । द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाग्र

१ पुव्वादिम्हि अपुव्वा पुव्वादि अपुव्वपढमगे सेसे । दिज्जदि असखमणिगुणं अहिय अणंतभागुणं ॥ भारेकारमणत पुव्वादि अपुव्वआदि सेस तु । तेवीस उंटकूडा दिज्जे दिस्से अणतभागुण ॥ लब्धि ५०४-५०५.

तदियसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाव किट्टीकरणद्वाए चरिमादो त्ति असंखेज्जगुणं ।

किट्टीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाणं ढ्ढिदिवंधो चत्तारि मासा अंतोमुहुत्त-  
ब्भहिया<sup>१</sup> । सेसाणं कम्माणं ढ्ढिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तम्हि चेव किट्टी-  
करणद्वाए चरिमसमए मोहणीयस्स ढ्ढिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि हाइदूणं<sup>२</sup>  
अट्टवस्सियं अंतोमुहुत्तब्भहियं<sup>३</sup> जादं । तिण्हं घादिकम्माणं ढ्ढिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि  
वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं ढ्ढिदिसंतकम्मं असंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि<sup>४</sup> ।  
एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ—

वारस णव छ त्तिण्णि य किट्टीओ होति तह अणंताओ ।

एक्केकम्हि कसाए तिग तिग अहवा अणताओ<sup>५</sup> ॥ ३१ ॥

असंख्यातगुणा है । तृतीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार कृष्टिकरणकालके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है ।

कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त अधिक चार मास और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रप्रमाण होता है । उसी कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रसे क्रमशः घटकर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक आठ वर्षमात्र हो जाता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र और नाम, गोत्र एवं वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण रहता है । यहां उपयुक्त गाथाये—

क्रोधके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके बारह, मानके उदयसे चढ़े हुए जीवके नौ, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवके छह, और लोभके उदयसे चढ़े हुए जीवके तीन संग्रहकृष्टियां तथा अन्तरकृष्टियां अनन्त होती हैं । एक एक कषायमें तीन तीन संग्रह-कृष्टियां अथवा अनन्त अन्तरकृष्टियां होती हैं ॥ ३१ ॥

१ किट्टीकरणद्वाए चरिमे अतोमुहुत्तसंयुत्तो । चत्तारि होंति मासा संजलणाण तु ढ्ढिदिवंधो ॥ लब्धि ५०६

२ प्रतिपु ' होदूण ' इति पाठ ।

३ सेसाण वस्साण संखेज्जसहस्साणि ढ्ढिदिवंधो । मोहस्स य ढ्ढिदिसत अट्टवस्सतोमुहुत्तहिय ॥ लब्धि ५०७.

४ घादितियाणं सख वस्ससहस्साणि होदि ढ्ढिदिसत । वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्ण तु ॥ लब्धि ५०८.

५ जयध. अ. प ११३१ कोहस्स य माणस्स य मायालोमोदण्ण चडिदस्स । वारस णव छ त्तिण्णि य संगहकिट्टी क्कमे होंति ॥ लब्धि ४९७ ताश्च किट्टिय परमार्थतोऽनन्ता अपि स्थूरजातिभेदापेक्षया द्वादश कल्पन्ते, एकैकस्व कषायस्य तिसस्तिस्स, तथा— प्रथमा द्वितीया तृतीया च । एव क्रोधेन प्रतिपन्नस्य द्रष्टव्यम् ।

किट्टी करेदि णियमा ओवट्टेतो ठिटी य अणुभागे ।  
वट्टेतो किट्टीए अकारगो होदि वोद्वव्वो' ॥ ३२ ॥

गुणसेडि अणतगुणा लोभादीकोधपच्छिमपदादो ।

कम्मस्स य अणुभागे किट्टीए लक्खणं एद' ॥ ३३ ॥

किट्टीओ करंतो पुच्चफहयाणि अपुच्चफहयाणि च वेदयदि, किट्टीओ ण वेदयदि । पढमड्ढिदीए आवलियाए सेसाए<sup>१</sup> किट्टीकरणद्वा णिड्वायदि' । से काले किट्टीओ पवेदेदि । ताधे संजलणाणं ड्ढिदिवंधो चत्तारि मासा । ड्ढिदिसंतकम्ममड्ढ वस्साणि । तिण्हं घादिकम्माणं दिड्ढिवंधो ड्ढिदिसंतकम्मं च संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं ड्ढिदि-

स्थिति व अनुभागका अपकर्षण करनेवाला नियमसे कृष्टियोंको करता है । किन्तु स्थिति व अनुभागका उत्कर्षण करनेवाला कृष्टिका अकारक होता है । ऐसा समझना चाहिये ॥ ३२ ॥

चार संज्वलन कर्मोंके अनुभागके विषयमें संज्वलनलोभकी जघन्य कृष्टिसे लेकर संज्वलनक्रोधकी अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित गुणश्रेणी है । यह कृष्टिका लक्षण है । ३३ ॥

कृष्टियोंको करनेवाला पूर्वस्पर्द्धको और अपूर्वस्पर्द्धकोंका वेदन करता है, कृष्टियोंका वेदन नहीं करता । संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें आवलीमात्र शेष रहनेपर कृष्टिकरणकाल समाप्त हो जाता है । कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें कृष्टियोंका वेदन करता है, अर्थात् द्वितीयस्थितिसे अपकर्षणकर कृष्टियोंको उद्यावलीके भीतर प्रवेश कराता है । उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध चार मास और स्थितिसत्व आठ वर्षप्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध और स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । नाम, गोत्र व वेदनाय, इनका स्थितिसत्व

यदा तु मानेन प्रतिपद्यते, तदा उद्वलनविधिना क्रोधे क्षपिते सति शेपाणा पूर्वक्रमेण नव किट्टी करोति । मायया चेत्यतिपन्नस्तर्हि क्रोधमानयोस्त्वलनविधिना क्षपितयो सतो शेपद्विकस्य पूर्वक्रमेण पट् किट्टी करोति । यदि पुनलोमेन प्रतिपद्यते, तत उद्वलनविधिना क्रोधादित्रिके क्षपिते सति लोमस्य किट्टित्रिक करोति । एष किट्टिकरणविधि । पचसग्रह १, पृ २६-२७

१ जयध अ. प ११३२.

२ लोमजहण्णकिट्टिमादि कादूण जाव कोहसजलणसव्वपच्छिमउक्कस्सकिट्टि ति नहाकम्मवट्टिदचदुसजलण-कम्माण्युमागविसए एमा अणतगुणा गुणओली दड्ढव्वा ति वुच होदि । नयध अ प ११३३,

३ अ-आप्रलो 'सेसा' इति पाठ ।

४ पुच्चापुच्चफहयमण्हवदि हु किट्टिकारओ णियमा । तस्सद्वा णिड्वायदि पढमड्ढिदि आवलीसेसे ॥ लुब्धि. ५१०.

संतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । द्विदिवंधो पुण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । अणुभाग-  
संतकम्मं क्रोधसंजलणस्स ( जं ) समऊणाए उदयावलियाए छद्दिदड्डियाए संतकम्मं तं  
सव्वघादि । संजलणार्णं जे दो आवलियबंधा दुसमऊणा ते देसघादी । तं पुण फड्डय-  
गदं' । अवसेसं सव्वं किट्टीगदं । तम्मिह चेव पढमसमए क्रोधस्स पढमसंगहकिट्टीदो  
पदेसग्गमोकड्डिट्ठूण पढमड्डिदिं करेदि' । एत्थुवउज्जंतीओ माहाओ—

किट्टी च ठिदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि ।

णियमा अणुभागेषु च होदि हु किट्टी अणतेसु' ॥ ३४ ॥

सव्वाओ किट्टीओ विदियड्डिदिए दु होति सव्विस्से ।

जं किट्टिं वेदयदे तिस्से असा य पढमाए' ॥ ३५ ॥

ताथे क्रोधस्स पढमाए संगहकिट्टीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा । एदिस्से चेव  
क्रोधस्स पढमाए संगहकिट्टीए असंखेज्जा भागा वज्झंति । सेसाओ दो संगहकिट्टीओ  
ण वज्झंति ण वेदिज्जंति' । पढमाए संगहकिट्टीए हेट्टदो जाओ किट्टीओ ण वज्झंति ण

असंख्यात वर्ष और स्थितिवन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । संज्वलनक्रोधका जो  
अनुभागसत्व उच्छिष्टावलिरूपसे स्थित एक समय कम उदयावलिके भीतर है वह सत्व  
सर्वघाती है । संज्वलनचतुष्कके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रवद्ध  
हैं वे देशघाती हैं । उनका वह अनुभागसत्व स्पर्द्धकस्वरूप है । शेष सव अनुभागसत्व  
कृष्टिस्वरूप है । कृष्टिवेदककालके प्रथम समयमें ही क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे  
प्रदेशाग्रका अपकर्षण करके प्रथमस्थितिको करता है । यहां उपयुक्त गाथायें—

कृष्टि नियमसे असंख्यात स्थितिभेदोंमें और नियमतः अनन्त अनुभागोंमें  
होती है ॥ ३४ ॥

सव अर्थात् संग्रह व अवयव कृष्टियां समस्त द्वितीयस्थितिमें होती हैं । परन्तु  
जिस कृष्टिका वेदन करता है उसके अंश प्रथमस्थितिमें रहते हैं ॥ ३५ ॥

उस समयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग उदयप्राप्त है । इसी  
क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग बंधको प्राप्त होते हैं । शेष दो संग्रह-  
कृष्टियां न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं । प्रथम संग्रहकृष्टिकी अधस्तन

१ से काले किट्टीओ अणुहवदि हु चारिमासमडवस्स । वधो सत मोहे पुव्वालाव तु सेसाण ॥ लब्धि ५११

२ ताहे कोहुच्छिद्ध सव्वघादी हु देसघादी हु । दोसमऊणदुआवलिवक ते फड्डयगदाओ ॥ लब्धि ५१२

३ किट्टीवेदणपढमे कोहस्स य पढमसंगहादो हु । कोहस्स य पढमठिदी पत्ती उव्वट्टगो मोहे ॥

लब्धि ५१४

४ जयध अ प ११३४

५ जयध अ प ११३५

६ पढमस्स संगहस्स य असखभागा उदेदि कोहस्स । वधे वि तथा चेव य माणतियाण तथा वधे ॥  
लब्धि ५१५.



वेदिज्जंति ताओ थोवाओ । जाओ किट्ठीओ वेदिज्जंति, ण वज्झंति ताओ विसेसाहियाओ । तिस्से चैव पढमाए संगहकिट्ठीए उवरिं जाओ किट्ठीओ ण वज्झंति, ण वेदिज्जंति ताओ विसेसाहियाओ । उवरिं जाओ वेदिज्जंति, ण वज्झंति ताओ विसेसाहियाओ । मज्झे जाओ किट्ठीओ वज्झंति वेदिज्जंति च, ताओ असंखेज्जगुणाओ<sup>१</sup> । किट्ठीणं पढमसमयवेदगप्पहुडि मोहणीयस्स अणुभागाणमणुसमयओवट्टणा । पढमसमयकिट्ठीवेदगस्स कोधकिट्ठी उदए उक्कस्सिया बहुगी । वंधे उक्कस्सिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । विदियसमए उदए उक्कस्सिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । वंधे उक्कस्सिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । एवं सन्विस्से किट्ठीवेदगद्दाए<sup>२</sup> । पढमसमए वंधेण जहणिया किट्ठी तिन्वाणुभागा, उदए जहणिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । विदियसमए वंधे जहणिया किट्ठी अणंतगुणहीणा, उदए जहणिया किट्ठी अणंतगुणहीणा । एवं सन्विस्से किट्ठीवेदगद्दाए<sup>३</sup>

जो कृष्टियां न वंधती हैं और न उदयको प्राप्त हैं वे स्तोत्र हैं । जो कृष्टियां उदयको प्राप्त हैं, किन्तु वंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं । उसी प्रथम संग्रहकृष्टिके ऊपर जो कृष्टियां न वंधती हैं और न उदयको प्राप्त हैं वे विशेष अधिक हैं । ऊपर जो उदयको प्राप्त हैं, परन्तु वंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं । मध्यमें जो कृष्टियां वंधती हैं और उदयको भी प्राप्त हैं वे असंख्यातगुणी हैं । कृष्टियोंके प्रथमसमयवर्ती वेदक होनेके कालसे लेकर मोहनीयके अनुभागोंका समय समयमें अपवर्तन होता है । प्रथम समय कृष्टिवेदकके उदयमें प्रवेश करनेवाली अनन्त मध्यम क्रोधकृष्टियोंमें उत्कृष्ट कृष्टि तीव्र अनुभागसे युक्त है । परन्तु वध्यमान अनन्त कृष्टियोंमें सर्वोत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । द्वितीय समयमें उदयमें उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । वन्धमें उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय समयमें वन्ध व उदयमें उत्कृष्ट कृष्टियोंके अल्प-बहुत्वका क्रम कहा गया है उसी प्रकार सब कृष्टिवेदककालमें कहना चाहिये । प्रथम समयमें वन्धसे जघन्य कृष्टि तीव्र अनुभागवाली और उदयमें जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । द्वितीय समयमें वन्धमें जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी हीन है व उदयमें जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी हीन है । इसी प्रकार सब कृष्टिवेदककालके तृतीयादि समयोंमें भी वन्ध व

१ कोहस्स पढमसगहकिट्ठिस्स य हेट्ठिमणुसमयट्टाणा । तत्तो उदयट्टाणा उवरिं पुण अणुसमयट्टाणा ॥ उवरिं उदयट्टाणा चचारि पदाणि होंति अहियक्कमा । मज्झे उमयट्टाणा होंति असंखेज्जसगुणिया ॥ ५१६-५१७

२ प्रतिष्ठा ' किट्ठीए अद्दाए ' इति पाठ । पढिसमय अहिगदिणा उदये वधे च होदि उक्कस्स । बहुदये च जहण्य अणंतगुणहीणिया किट्ठी ॥ लब्धि ५२१.

समए समए णिव्वग्गणाओ' जहणियाओ वि । एसा कोधकिट्टीए परूवणा ।

किट्टीणं पढमसमयवेदगस्स माणस्स पढमाए संगहकिट्टीणं किट्टीणमसंखेज्जा भागा वज्झंति, सेसाओ संगहकिट्टीओ ण वज्झंति । एवं माया-लोभाणं पि वत्तव्वं । किट्टीणं पढमसमयवेदगो वारसण्हं पि संगहकिट्टीणमग्गकिट्टिमादिं कादूणमेक्केक्किस्से संगहकिट्टीए असंखेज्जदिभागमणुसमयं विणासेदि । कोधस्स पढमकिट्टिं मोत्तूण सेसाण-मेक्कारसण्हं संगहकिट्टीणमण्णाओ अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि ।

ताओ अपुव्वाओ किट्टीओ कदमादो पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि ? वज्झमाणियादो संकामिज्जमाणियादो च पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि' । वज्झमाणियादो थोवाओ णिव्वत्तेदि । संकामिज्जमाणियादो असंखेज्जगुणाओ । जाओ वज्झमाणियादो णिव्वत्तिज्जंति ताओ चदुसु पढमकिट्टीसु' । ताओ कदमभिह ओगासे ? एक्केक्किस्से संगहकिट्टीए किट्टीअंतरेसु ।

उद्यसम्बन्धी जघन्य कृष्टियोंके अल्पवहुत्वक्रमको कहना चाहिये । यह क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी प्ररूपणा है ।

कृष्टियोंके प्रथम समय वेदकके मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभाग बंधते हैं । शेष संग्रहकृष्टियां नहीं बंधती हैं । इसी प्रकार माया और लोभके भी कहना चाहिये । कृष्टियोंका प्रथम समय वेदक वारहों संग्रहकृष्टियोंके उपरिम भागमें उत्कृष्ट कृष्टिको आदि करके एक एक संग्रहकृष्टिके असंख्यातवें भागमात्र कृष्टियोंको समय समयमें नष्ट करता है । क्रोधकी प्रथम कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह कृष्टियोंके ( नीचे और उनके अन्तरालमें ) अपूर्व कृष्टियोंको रचता है ।

शंका—उन अपूर्व कृष्टियोंको किस प्रदेशाग्रसे रचता है ?

समाधान—वध्यमान और संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे उन अपूर्व कृष्टियोंको रचता है । वध्यमान प्रदेशाग्रसे स्तोक अपूर्व कृष्टियोंको रचता है, किन्तु संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे असंख्यातगुणी अपूर्व कृष्टियोंको रचता है । जो वध्यमान प्रदेशाग्रसे अपूर्व कृष्टियां रची जाती हैं वे चार प्रथम संग्रहकृष्टियोंमेंसे रची जाती हैं ।

शंका—उन कृष्टियोंको किस स्थानमें रचता है ?

समाधान—एक एक संग्रहकृष्टिकी अवयवकृष्टियोंके अन्तरालोंमें रचता है ।

१ एत्थ णिव्वग्गणाओ ति वुत्ते वधोदयजहण्णकिट्टीणमणतणुणहाणीए ओसरणवियप्पा गहेयव्वा । जयघ अ प ११८२

२ कोहस्स पढमकिट्टी मोत्तूण्णकारसगहाण तु । वधणसकमदव्वादपुव्वकिट्टिं करेदी हु । लब्धि ५३०.

३ वधणदव्वादो पुण चदुसुट्ठाणेषु पढमकिट्टीसु । वधुप्पवकिट्टीदो सकमकिट्टी असखगुणा ॥ लब्धि. ५३१.

किं सव्वेसु किट्ठीअंतरेसु, आहो ण सव्वेसु ? ण सव्वेसु<sup>१</sup> । जदि ण<sup>२</sup> सव्वेसु, कदमेसु अंतरेसु अपुव्वाओ किट्ठीओ णिव्वत्तेदि ? वुच्चदे- वज्झमाणियाणं किट्ठीणं जं पढम- किट्ठीअंतरं तत्थ णत्थि । एवमसंखेज्जाणि किट्ठीअंतराणि असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्ग- मूलमेत्ताणि अदिच्छिदूण<sup>३</sup> अपुव्वकिट्ठी णिव्वत्तिज्जदि । पुणो एत्तियाणि चेव किट्ठी- अंतराणि गंतूण अपुव्वा किट्ठी णिव्वत्तिज्जदि<sup>४</sup> ।

वज्झमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवणं वत्तइस्सामो- तत्थ जहणियाए किट्ठीए वज्झमाणियाए बहुगं, विदियाए किट्ठीए विसेसहीणमणंतभागेण, तदियाए विसेसहीणमणंतभागेण, चउत्थीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोवणिधाए ताव विसेसहीणं जाव अपुव्वकिट्ठिमपत्तो त्ति । पुणो अपुव्वाए किट्ठीए अणंतगुणं । अपुव्वादो किट्ठीदो जा अणंतरकिट्ठी तत्थ अणंतगुणहीणं । तदो पुणो अणंतभागहीणं । एवं सेसासु सव्वासु किट्ठीसु<sup>५</sup> ।

शंका—क्या सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उन अपूर्व कृष्टियोंको रचता है या सब अन्तरालोंमें नहीं रचता ?

समाधान—सब कृष्टि-अन्तरालोंमें उनकी रचना नहीं होती ।

शंका—यदि सब कृष्टि-अन्तरालोंमें नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालोंमें अपूर्व कृष्टियां रची जाती हैं ?

समाधान—वध्यमान कृष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमें उनकी रचना नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलमात्र असंख्यात कृष्टि-अन्तरालोंको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है । पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोंका अतिक्रमणकर द्वितीय अपूर्व कृष्टि रची जाती है ।

अब वध्यमान प्रदेशाग्रके निषेकोंकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं—उनमें बध्यमान जघन्य कृष्टिमें बहुत, द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन, तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन, और चतुर्थ कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है जब तक अपूर्व कृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती । पुनः अपूर्व कृष्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । अपूर्व कृष्टिसे जो अनन्तर कृष्टि है, उसमें अनन्तगुणा हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है । इससे आगे पुनः अनन्तभाग हीन दिया जाता है । इसी प्रकार शेष सब कृष्टियोंमें जानना चाहिये ।

१ आ-प्रतौ ' ण सव्वेसु ' इति पाठ नास्ति ।

२ अ-प्रतौ ' स ' इति पाठ ।

३ प्रतिपु ' अविच्छिदूण ' म-प्रतौ ' अदिच्छिदूण ' इत्येव पाठ ।

४ सखातीदशुणाणि य पल्लस्सादिमपदाणि गतूण । एक्केक्खवधकिट्ठी किट्ठीण अंतरे होदि ॥ लब्धि ५३२.

५ दिज्जदि अणतमागेणूणकम वधगे य णतगुण । तण्णतरे णतगुणूण तत्तो णतमागूण ॥ लब्धि ५३३.

जाओ संकामिज्जमाणयादो पदेसग्गादो अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तिज्जंति ताओ दुसु ओगासेसु । तं जहा- किट्टी-अंतरेसु च संगहकिट्टी-अंतरेसु च । जाओ संगह-किट्टीअंतरेसु ताओ थोवाओ, जाओ किट्टी-अंतरेसु ताओ असंखेज्जगुणाओ' । जाओ संगहकिट्टी-अंतरेसु तासिं जहा किट्टीकरणे अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीणं विधी तथा कायव्वो । जाओ किट्टी-अंतरेसु तासिं जहा बज्झमाणएण पदेसग्गेण अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीणं विधी तथा कायव्वो । णवरि थोवयराणि किट्टीअंतराणि गंतूण संछुभमाणपदेसग्गेण अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । ताणि किट्टी-अंतराणि पगणणादो पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो' ।

पढमसमयकिट्टीवेदगस्स जा कोधपढमकिट्टी तिस्से असंखेज्जदिभागो अणुसमयं विणासिज्जदि । जाओ किट्टीओ पढमसमए विणासिज्जंति ताओ बहुगाओ । जाओ विदियसमए विणासिज्जंति ताओ असंखेज्जगुणहीणाओ । एवं णेदव्वं जाव दुचरिम-समयअविणट्ठकोधपढमकिट्टि ति' । एदेण सव्वेण वि कालेण जाओ किट्टीओ विण-

जो अपूर्व कृष्टियां संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे रची जाती हैं वे दो स्थानोंमें इस प्रकार रची जाती हैं— कृष्टि-अन्तरोंमें भी और संग्रहकृष्टि-अन्तरोंमें भी । जो संग्रहकृष्टि-अन्तरोंमें रची जाती हैं वे स्तोक हैं । जो कृष्टि-अन्तरोंमें रची जाती हैं वे असंख्यातगुणी हैं । जो संग्रहकृष्टि-अन्तरोंमें रची जाती हैं उनकी विधि, जैसी कृष्टिकरणमें निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी कही गई है, वैसी यहां भी जानना चाहिये । जो कृष्टि-अन्तरोंमें रची जाती हैं उनकी विधि, जैसी वध्यमान प्रदेशाग्रसे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी कही गई है, वैसी यहां भी जानना चाहिये । विशेष केवल यह है कि यहां पहिलेसे स्तोकतर कृष्टि-अन्तरोंका उल्लंघन करके संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपूर्व कृष्टियोंको रचता है । वे कृष्टि अन्तर गणनासे पल्योपमवर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं ।

प्रथम समय कृष्टिवेदकके जो क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है उसका असंख्यातवां भाग समय-समयमें नष्ट किया जाता है । जो कृष्टियां प्रथम समयमें नष्ट की जाती हैं वे बहुत हैं । जो द्वितीय समयमें नष्ट की जाती हैं वे असंख्यातगुणी हीन हैं । इस प्रकार यह क्रम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमें अविनष्ट क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि तक जानना चाहिये । इस सभी कालसे जो कृष्टियां नष्ट होती हैं वे प्रथम समय कृष्टिवेदकके

१ सक्रमदो किट्टीण संगहकिट्टीणमतरं होदि । संगहअन्तरजादो किट्टीअंतरभवा असंखगुणा ॥ लब्धि ५३४.

२ संगहअतरजाण अपुव्वकिट्टि व वधकिट्टि वा । इदराणमतर पुण पल्लपदासखभाग तु ॥ लब्धि. ५३५.

३ कोहादिक्किट्टिवेदगपढमे तस्स य असखभाग तु । णासेदि हु पडिसमय तस्सासखेज्जमागवमं ॥ लब्धि ५३६.

ह्ताओ ताओ पढमसमयकिट्टीवेदगस्स कोधस्स पढमसंगहकिट्टीए अवज्झमाणियाणं<sup>१</sup> किट्टीणमसंखेज्जदिभागो<sup>२</sup> ।

कोधस्स पढमकिट्टीवेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए समयाहियाए आवलियाए सेसाए एदम्हि समए जो विधी तं विधिं वत्तइस्सामो । तं जहा- ताधे चेव कोधस्स जहण्णाट्टिदिउदीरगो ( १ ) कोधपढमकिट्टीए चरिमसमयवेदगो चं ( २ ) । जा पुच्चपवत्ता संजलणाणुभागसंतकम्मस्स अणुसमयओवट्टणा सा तथा चेव ( ३ ) । चदुसंजलणाणं ठिदिवंधो वे मासा चत्तालीसं च दिवसा अंतोमुहुत्तूणा ( ४ ) । संजलणाणं ट्टिदिसंतकम्मं छ वस्साणि अट्ट मासा अंतोमुहुत्तूणा<sup>३</sup> ( ५ ) । तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो दस वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि ( ६ ) । घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं संखेजाणि वस्साणि ( ७ ) । सेसाणं कम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं असंखेज्जाणि वस्साणि<sup>४</sup> ( ८ ) ।

क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अवध्यमान कृष्टियोंके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है, उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर इस समयमें जो विधि है उस विधिको कहते हैं । वह इस प्रकार है— उसी समयमें क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक ( १ ) और क्रोधकी प्रथम कृष्टिका चरम समय वेदक होता है ( २ ) । प्रति समयमें संज्वलनचतुष्कके अनुभागसत्त्वका अपकर्षण जो पूर्वसे प्रवृत्त है वह उसी प्रकार रहता है ( ३ ) । संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम दो मास और चालीस दिवसप्रमाण होता है ( ४ ) । संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्त्व अन्तर्मुहूर्त कम छह वर्ष और आठ मासप्रमाण होता है ( ५ ) । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम दश वर्षप्रमाण होता है ( ६ ) । घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षमात्र होता है ( ७ ) । शेष कर्मोंका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षमात्र होता है ( ८ ) ।

१ पढमसमयकिट्टीवेदगस्स कोहपढमसंगहकिट्टीए हेट्टिमोवरिमासखेज्जभागमेत्ता किट्टीओ अवज्झमाणियाओ णाम । पुणो तत्थ उवरिमावज्झमाणकिट्टीगममखेज्जदिभागमेत्ताओ चेव किट्टीओ एदेण सव्वेण त्रि कालेण त्रिणासिदाओ दट्टव्वाओ । जयध अ प ११८८

२ कोहस्स य जे पढमे सगहकिट्टीमि णट्टकिट्टीओ । वधुञ्जियाकिट्टीण तस्स असखेज्जभागो हु ॥ लब्धि ५३७

३ कोहादिकिट्टियादिट्टिदिमिहि समयाहियावलीसेसे । ताहे जहण्णुदीरइ चरिमो पुण वेदगो तस्स ॥ लब्धि ५३८

४ ताहे संजलणाण वधो अतोमुहुत्तपरिहीणो । सत्तो त्रि य सददिवसा अडमासम्भहियल्लवरिसा ॥ लब्धि ५३९

५ घादितियाण वधो दसवासतोमुहुत्तपरिहीणा । सत्त सख वस्सा सेसाण सखसंखवस्साणि ॥ लब्धि ५४०.

से काले कोधस्स विदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकट्टिदूण कोधस्स पढमट्टिदिं कोरेदिं । ताधे कोधस्स पढमकिट्टीणं<sup>१</sup> संतकम्मं दोआवलियबंधां दुसमऊणा, जमुदयावलियं पविट्टं तं च सेसं पढमकिट्टीए<sup>२</sup> । ताधे कोधस्स पढमसमयविदियकिट्टीवेदगो<sup>३</sup> । जो कोधस्स पढमकिट्टिं वेदयमाणस्स विधी सो कोधस्स विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स विधी कायव्वो<sup>४</sup> । तं जहा— उदिण्णाणं किट्टीणं वज्झमाणियाणं किट्टीणं विणासिज्जमाणीणं किट्टीणं अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्जमाणियाणं वज्झमाणेण पदेसग्गेण संखुब्भमाणेण च पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाणं ।

एत्थ संकममाणस्स पदेसग्गस्स विधिं वत्तइस्सामो । तं जहा— कोधविदियकिट्टीणं पदेसग्गं कोधतदियं च माणपढमं च गच्छदि । कोधस्स तदियादो माणस्स पढमं चैव गच्छदि । माणस्स पढमादो किट्टीदो माणस्स विदियं तदियं च मायाए पढमं च गच्छदि । माणस्स विदियकिट्टीदो माणस्स तदियं च मायाए पढमं च गच्छदि ।

अनन्तर समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर क्रोधकी प्रथमस्थितिको करता है । उस समयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें सत्वस्वरूप जो दो समय कम दो आवलिमात्र नवक बंधप्रदेशाग्र है वह, और जो प्रदेशाग्र उदयावलिमें प्रविष्ट है वह भी प्रथम कृष्टिमें शेष रहता है । उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समय वेदक होता है । क्रोधकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो विधि कही गई है वही विधि क्रोधकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये । वह इस प्रकार है— उदीर्ण कृष्टियोंकी, वध्यमान कृष्टियोंकी, नष्ट की जानेवाली कृष्टियोंकी, वध्यमान प्रदेशाग्रसे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टियोंकी, और संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे भी निर्वर्तमान कृष्टियोंकी विधि प्रथम संग्रहकृष्टिमें कही हुई विधिके ही समान कहना चाहिये ।

यहां संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रकी विधिको कहते हैं । वह इस प्रकार है — क्रोधकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र क्रोधकी तृतीय और मानकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मानकी प्रथम कृष्टिको ही प्राप्त होता है । मानकी प्रथम कृष्टिसे मानकी द्वितीय और तृतीय तथा मायाकी प्रथम कृष्टिको भी प्राप्त होता है । मानकी द्वितीय कृष्टिसे मानकी तृतीय और मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है ।

१ से काले कोहस्स य विदियादो सगहादु पढमठिदी । कोहस्स विदियसगहकिट्टिस्स य वेदगो होदि ॥  
लब्धि ५४१

२ जयधवलायां 'पढमसंगहकिट्टीए' इति पाठ ।

३ प्रतिपु 'दो आवलियखधा' इति पाठ ।

४ कोहस्स पढमसगहकिट्टिस्सावलियपमाण पढमठिदी । दोसमऊणदुआवलियणवक च वि चैउदे ताहे ॥  
लब्धि ५४२

५ कोहस्स विदियकिट्टी वेदयमाणस्स पढमकिट्टिं वा । उदओ वधो णासो अपुव्वकिट्टीण करण च ॥  
लब्धि ५४४.

माणस्स तदियकिट्ठीदो मायाए पढमं गच्छदि । मायाए पढमादो किट्ठीदो पदेसग्गं मायाए विदियं तदियं च लोभस्स पढमं किट्ठिं च गच्छदि । मायाए विदियादो किट्ठीदो पदेसग्गं मायाए तदियं लोभस्स पढमं च गच्छदि । मायाए तदियादो किट्ठीदो लोभस्स पढमं च गच्छदि । लोभस्स पढमादो किट्ठीदो पदेसग्गं लोभस्स विदियं तदियं च गच्छदि । लोभस्स विदियादो किट्ठीदो पदेसग्गं लोभस्स तदियं च गच्छदि ।

जहा कोधस्स पढमकिट्ठिं वेदयमाणो चटुण्हं कसायाणं पढमकिट्ठीओ' बंधदि तहा कोधस्स विदियकिट्ठिं वेदयमाणो चटुण्हं कसायाणं विदियकिट्ठीओ किं बंधदि उदाहो ण बंधदि त्ति ? बुच्चदे- जस्स कसायस्स जं किट्ठिं वेदयदि तस्स कसायस्स तं किट्ठिं बंधदि । सेसाणं कसायाणं पढमकिट्ठीओ बंधदि ।

कोधविदियकिट्ठिं पढमसमयवेदगस्स एकारससु संगहकिट्ठीसु अंतरकिट्ठीणमप्पा- बहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा- सव्वत्थोवाओ माणस्स पढमाए संगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ

मानकी तृतीय कृष्टिसे मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्र मायाकी द्वितीय और तृतीय तथा लोभकी प्रथम कृष्टिको भी प्राप्त होता है । मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र मायाकी तृतीय और लोभकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है । मायाकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी प्रथम कृष्टिको ही प्राप्त होता है । लोभकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी द्वितीय और तृतीय कृष्टिको प्राप्त होता है । लोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्र लोभकी तृतीय कृष्टिको ही प्राप्त होता है ।

शंका— जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला चार कपायोंकी प्रथम कृष्टियोंको बांधता है, उसी प्रकार क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवाला चार कपायोंकी द्वितीय कृष्टियोंको क्या बांधता है अथवा नहीं बांधता है ?

समाधान — जिस कपायकी जिस कृष्टिको भोगता है उस कपायकी उस कृष्टिको बांधता है, शेष कपायोंकी प्रथम कृष्टियोंको बांधता है ।

क्रोधकी द्वितीय कृष्टिके प्रथम समय वेदककी ग्यारह संग्रहकृष्टियोंमें अन्तर-कृष्टियोंके अल्पबहुत्वको कहते हैं । वह इस प्रकार है— मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें

१ कोहस्स विदियसगहकिट्ठी वेदतयस्स सकमण । सट्ठणे तदियोत्ति य तदणतरहेट्ठिमस्स पढम च ॥ पढमो विदिये तदिये हेट्ठिमपढमे च विदियगो तदिये । हेट्ठिमपढमे तदियो हेट्ठिमपढमे च सकमदि ॥ लब्धि ५४५-५४६.

२ प्रतिष्ठु 'पढमकिट्ठीदो' इति पाठ ।

३ जस्स कसायस्स ज्ज किट्ठिं वेदयदि तस्स त चैव । सेसाण कसायाण पढम किट्ठिं तु बंधदि हु ॥ लब्धि ५४८.

विदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । तदियाए संगहकिट्टीए अंतर-  
किट्टीओ विसेसाहियाओ । कोधस्स तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ ।  
मायाए पढमाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । विदियाए संगहकिट्टीए  
अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ ।  
लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । विदियाए संगहकिट्टीए  
अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ ।  
कोधस्स विदियसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ संखेज्जगुणाओ । पदेसग्गस्स वि एवं चैव  
अप्पाबहुअं<sup>१</sup> ।

कोधस्स विदियकिट्टीवेदयमाणस्स जा पढमाट्टिदी तिससे पढमाट्टिदीए आवलिय-  
पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । तिससे चैव पढमाट्टिदीए  
समयाहियाए आवलियाए सेसाए ताधे कोधस्स विदियकिट्टीए चरिमसमयवेदगो<sup>२</sup> । ताधे  
संजलणणं ट्टिदिबंधो वे मासा बीसं च दिवसा देसुणा<sup>३</sup> । तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिबंधो

अन्तरकृष्टियां सबसे स्तोक हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं ।  
तृतीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें  
अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष  
अधिक हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । तृतीय संग्रहकृष्टिमें  
अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष  
अधिक हैं । द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । तृतीय संग्रहकृष्टिमें  
अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हैं । क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां  
संख्यातगुणी हैं । उन अन्तरकृष्टियोंके प्रदेशाग्रका भी इसी प्रकार ही अल्पबहुत्व  
करना चाहिये ।

क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम-  
स्थितिमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छित्तिको  
प्राप्त हो जाते हैं । उसी प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर उस  
समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका अन्तिम समय वेदक होता है । उस समयमें संज्वलन-  
चतुष्कका स्थितिवन्ध दो मास और कुछ कम बीस दिवसप्रमाण होता है । तीन

१ माणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तियतिये अहिया । सखगुण वेदिज्जे अतरकिट्टी पदेसो य ॥  
लब्धि ५४९.

२ वेदिज्जादिट्टिदिएु समयाहियआवलीयपरिसेसे । ताहे जहण्णदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स ॥ लब्धि ५५०.

३ ताहे संजलणण वधो अतोमुहुत्तपरिहीणो । सत्तो वि य दिणसीदी चउमासम्भहियपणवस्सा ॥  
लब्धि ५५१



वासपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' । संजलणाणं ठिदि-  
संतकम्मं पंच वस्साणि चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तूणा । तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं  
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि' ।

तदो से काले कोधस्स तदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकट्ठिदूण पढमट्ठिदिं करोदि । ताधे  
कोधस्स तदियसंगहकिट्ठीए अंतरकिट्ठीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । तासिं चैव  
असंखेज्जा भागा वज्झंति । जो विदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स विधी सो चैव विधी तदिय-  
किट्ठिं वेदयमाणस्स वि कादच्चो । तदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से पढम-  
ट्ठिदीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए कोधस्स चरिमसमयवेदगो जहण्णाट्ठिदीए  
उदीरगो च । ताधे द्विदिवंधो संजलणाणं दो मासा पडिबुण्णा । संतकम्मं चत्तारि  
वस्साणि पुण्णाणि' ।

से काले माणस्स पढमकिट्ठिमोकट्ठिदूण पढमट्ठिदिं करोदि । जा एत्थ सच्चमाण-

घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्वमात्र होता है । शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात  
वर्षसहस्रमात्र होता है । संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्त्व पांच वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम  
चार मासप्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र  
होता है । नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

उसके अनन्तर कालमें क्रोधकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-  
स्थितिको करता है । उस समयमें क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियोंके  
असंख्यात बहुभाग उदीर्ण हो जाते हैं । और उन्हींके असंख्यात भाग वंधते हैं । द्वितीय  
कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो विधि कही गई है, वही विधि तृतीय कृष्टिको वेदन  
करनेवालेके भी कहना चाहिये । तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस  
प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिमात्रके शेष रहनेपर क्रोधका अन्तिम समय वेदक  
और जघन्य स्थितिका उदीरक भी होता है । उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिवन्ध  
परिपूर्ण दो मास और स्थितिसत्त्व पूर्ण चार वर्षप्रमाण होता है ।

अनन्तर समयमें मानकी प्रथम कृष्टिका अपकर्षणकर प्रथमस्थितिको करता

१ घादितियाण वधो वासपुधत्त तु सेसपयडीण । वस्साण सखेज्जसहस्साणि हवति णियमेण ॥  
लब्धि. ५५२.

२ घादितियाण सच्च सखसहस्साणि होंति वस्साण । तिण्ह पि अघादीण वस्साणि असखमेत्ताणि ॥  
लब्धि ५५३

३ से काले कोहस्स य तदियादो सगहाइ पढमठिदी । अते सजलणाण वध सत्त दुमास चउवस्सा ॥  
लब्धि. ५५४.

वेदगद्धा तिससे वेदगद्धाए<sup>१</sup> तिभागमेत्ता पढमडिदी<sup>२</sup> । तदो माणस्स पढमकिट्टिं वेदयमाणो तिससे पढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । तदो उदिण्णाहिंतो विसेसहीणाओ बंधदि । सेसाणं कसायाणं पढमकिट्टीओ चैव बंधदि । जेणेव विहिणा कोहस्स पढमकिट्टी वेदिदा तेणेव विहिणा माणस्स पढमकिट्टिं वेदयदि । किट्टीविणासणे बज्झमाणएण संकामिज्जमाणएण च पदेसग्गेण अपुच्चाणं किट्टीणं करणे किट्टीणं बंधो-दयणिव्वग्गणकरणेसु णत्थि णाणत्तं अणोसु च अभणिदेसु । एदेण कमेण माणपढम-किट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमडिदी तिससे पढमडिदीए जाधे समयाहिआवलिया सेसा ताधे तिण्हं संजलणाणं ड्ढिदिबंधो मासो वीसं च दिवसा अंतोमुहुत्तूणा; संतकम्मं तिण्णि वेस्साणि चत्तारि मासा च अंतोमुहुत्तूणा<sup>३</sup> ।

से काले माणस्स विदियसंगहकिट्टीदो पदेसग्गमोकडिदूण पढमडिदिं करोदि तेणेव विधिणा संपत्तो । माणस्स विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमडिदी तिससे समया-

है । यहां जो सब मानवेदककाल है उस मानवेदककालके त्रिभागमात्र प्रथमस्थिति है । पश्चात् मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर-कृष्टियोंके असंख्यात भागोंका वेदन करता है । उन उदीर्ण हुई कृष्टियोंसे विशेष हीन कृष्टियोंको बांधता है । शेष कपायोंकी प्रथम कृष्टियोंको ही बांधता है । जिस विधिसे क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन किया है उसी विधिसे मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करता है । कृष्टिचिनाशमें, वध्यमान व संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपूर्व कृष्टियोंके करनेमें तथा कृष्टियोंके बंध, उदयसम्बन्धी निर्वर्गणा अर्थात् अनन्तगुणहानिरूप अपसरणभेद, इन करणोंमें कोई विशेषता नहीं है, तथा जो अन्य करण नहीं कहे गये हैं उनके करनेमें भी विशेषता नहीं है । इस क्रमसे मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है, उस प्रथमस्थितिमें जब एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है तब क्रोध विना तीन संज्वलन कपायोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम एक मास वीस दिन तथा स्थितिसत्व तीन वर्ष और अन्तर्मुहूर्त कम चार मासप्रमाण होता है ।

तदनन्तर समयमें मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है, व मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अधिकार कर जो पूर्वमें विधि प्ररूपित की गई है उसी विधिसे संयुक्त होता हुआ अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । उस समय मानकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है

१ प्रतिपु ' जा एत्थ सब्बमाणवेदगद्धाए तिभागमेत्ता ' इति पाठ ।

२ से काले माणस्स य पढमादो सगहाडु पढमठिदी । माणोदयअद्धाये तिभागमेत्ता हु पढमठिदी ॥ लब्धि. ५५५

३ कोहपढम व माणो चरिमे अतोमुहुत्तपरिहीणो । दिणमासपण्णचत्त बध सत्त तिसजलणगाण ॥ लब्धि. ५५६.

हियावलिया सेसा ति' । ताधे संजलणाणं द्विदिवंधो मासो दस च दिवसा देसूणा; संतकम्मं दो वस्साणि अट्ट च मासा देसूणा' ।

से काले माणतदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोकट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । माणस्स तदियकिट्ठीं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिससे आवलिया समयाहिय-मेत्ता सेसा ति । ताधे माणस्स चरिमसमयवेदगो । ताधे तिण्हं संजलणाणं द्विदिवंधो मासो पडिबुण्णो; संतकम्मं वे वस्साणि पडिबुण्णाणि' ।

तदो से काले मायाए पढमकिट्ठीए पदेसग्गमोकट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । मायापढमकिट्ठीं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिससे समयाहियावलिया सेसा ति । ताधे द्विदिवंधो दोण्हं संजलणाणं पणुवीसदिवसा देसूणा; द्विदिसंतकम्मं वस्सं अट्ट च मासा देसूणा' ।

उसमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है। तब संज्वलनकपायोंका स्थितिवन्ध एक मास और कुछ कम दश दिन तथा सत्त्व दो वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण होता है।

तदनन्तर समयमें मानकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। मानकी तृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है, उसमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है। उस समयमें मानका अन्तिम समय वेदक होता है। तब तान संज्वलनकपायोंका स्थितिवन्ध परिपूर्ण एक मास और सत्त्व परिपूर्ण दो वर्षप्रमाण होता है।

उसके अनन्तर समयमें मायाकी प्रथम कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। मायाकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उसमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है। तब शेष दो संज्वलनकपायोंका स्थितिवन्ध कुछ कम पच्चीस दिवस तथा स्थितिसत्त्व एक वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण होता है।

१ माणपढमसगहन्निट्टिमहिक्खिन्ध पुव्व पड्ढविदो जो विही तेणेव विहिणा अणूणाहिण्ण सज्जत्तो एसो सगक्खिद्वेदगद्दाए चरिमसमयसपत्तो । ताधे अप्पणो पढमट्टिदिमसयाहियावलियमेत्ती सेसा, सेसपढमट्टिदीए सग-वेदगकालम्भंतरे णिज्जिण्णत्तादो सि । एसो एत्थ सुत्तत्थविणिण्णओ । जयघ अ. प ११९४-९५

२ त्रिदियस्स माणचरिमे चत्त वत्तीय दिवसमासाणि । अतोपुहुत्तहीणा वधो सत्तो तिसजलणगाण ॥ लब्धि ५५७

३ तदियस्स माणचरिमे तीस चत्तीस दिवसमासाणि । तिण्हं सजलणाण ठिदिवंधो तह य सत्तो य ॥ लब्धि ५५८.

४ पढमगमावाचरिमे पणवीस वीस दिवसमासाणि । अतोपुहुत्तहीणा वधो सत्तो दुसजलणगाण ॥ लब्धि ५५९.

से काले मायाए विदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि । सो वि मायाए विदियकिट्टिवेदगो तेणेव विहिणा संपत्तो । मायाए विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति । ताधे ट्टिदिबंधो वीसं दिवसा देसुणा; ट्टिदिसंतकम्मं सोलस मासा देसुणा' ।

से काले मायाए तदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । मायाए तदियकिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति । ताधे मायाए चरिमसमयवेदगो । ताधे दोण्हं संजलणाणं ट्टिदिबंधो अद्धमासो पडिबुण्णो; ट्टिदिसंतकम्ममेक्कं वस्सं पडिबुण्णं' । तिण्हं घादि-कम्माणं ट्टिदिबंधो मासपुधत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्स-सहस्साणि । इदरेमिं कम्माणं ट्टिदिबंधो संखेज्जाणि वस्साणि; ट्टिदिसंतकम्मम-संखेज्जाणि वस्साणि' ।

अनन्तर समयमें मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है, वह मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदक भी उसी विधिसे अपने कृष्टि-वेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । मायाकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है । उस समयमें संज्वलनकपर्योका स्थितिवन्ध कुछ कम वीस दिन और स्थितिसत्व कुछ कम सोलह मासप्रमाण होता है ।

अनन्तर समयमें मायाकी तृतीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथम-स्थितिको करता है । और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । मायाकी तृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम-स्थितिमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है । उस समयमें मायाका अन्तिम समय वेदक होता है । तब शेष दो संज्वलनोंका स्थितिवन्ध परिपूर्ण अर्ध मास और स्थितिसत्व परिपूर्ण एक वर्षप्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध मास-पृथक्त्वप्रमाण होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है । इतर कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्ष और स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है ।

१ विदियगमायाचरिमे वीस सोल च दिवसमासाणि । अंतोपुहुत्तहीणा बधो सत्तो दुसंजलणाणं ॥  
लब्धि ५६०.

२ तदियगमायाचरिमे पण्णरवारसथ दिवसमासाणि । दोण्ह संजलणाणं ट्टिदिबंधो तह य सत्तो य ॥  
लब्धि ५६१

३ मासपुधत्तं वासां सखसहस्साणि वध सत्तो य । घादितियाणिदराणं सखमसंखेज्जवस्साणि ॥ लब्धि ५६२.

तदो से काले लोभस्स पढमसंगहकिट्ठीदो पदेसग्गमोक्कट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि तेणेव विहिणा संपत्तो । लोभस्स पढमकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति । ताधे लोभसंजलणट्टिदिवंधो अंतोमुहुत्तं; ठिदि-संतकम्मं पि अंतोमुहुत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो दिवसपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं ठिदिवंधो वासपुधत्तं । घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि; सेसाणं कम्माणं असंखेज्जाणि वस्साणि' ।

तदो से काले लोभस्स विदियकिट्ठीदो पदेसग्गमोक्कट्टिदूण पढमट्टिदिं करेदि । ताधे चेव लोभस्स विदियसंगहकिट्ठीदो तदियसंगहकिट्ठीदो च पदेसग्गमोक्कट्टिदूण सुहुमसांपराइयकिट्ठीओ करेदि' । तासिं सुहुमसांपराइयकिट्ठीणं कम्हि अवट्टाणं ? तासिं लोभस्स तदियाए संगहकिट्ठीए हेट्टदो अवट्टाणं । जारिसी क्रोधस्स पढमसंगहकिट्ठी तारिसी एसा

...

उसके अनन्तर समयमें लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथमस्थितिको करता है, और उसी विधिसे अपने कृष्टिवेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । लोभकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आचक्रिमात्र शेष रहती है । उस समय संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त और स्थितिसत्व भी अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है । तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्व और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है । घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र और शेष कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

उसके अनन्तर समयमें लोभकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर प्रथमस्थितिको करता है । उसी समयमें (लोभवेदककालके द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमें) ही लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे और तृतीय संग्रहकृष्टिसे भी प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है ।

शंका—उन सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान कहां है ?

समाधान—उन सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके नीचे है । जैसी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है वैसी ही यह सूक्ष्मसाम्परायिक

१ लोहस्स पढमचरिमे लोहस्सतोमुहुत्त वधदुगे । दिवसपुधत्त वासा सखसहस्साणि घादितिये ॥ सेसाण पयवीण वासपुधत्त तु होदि ठिदिवंधो । ठिदिसत्तमसखेज्जा वस्साणि हवति णियमेण ॥ लब्धि ५६३-५६४

२ वादरसांपराइयकिट्ठीहितो अणतगुणहाणीए परिणमिय लोभसजलणाणुभागस्सावट्टाण सुहुमसांपराइय-किट्ठीण लक्खणमवहारेयव्व । जयध अ प ११९६ से काले लोहस्स य विदियादो सगहाडु पढमठिदी । ताहे सुहुम किट्ठिं करेदि तच्चिदियतदियादी ॥ लब्धि ५६५.

सुहुमसांपराइयकिट्टी' ।

क्रोधस्स पढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ थोवाओ । क्रोधे संछुद्धे माणस्स पढम-संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । माणे संछुद्धे मायाए पढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । मायाए संछुद्धे लोभपढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । सुहुमसांपराइयकिट्टीओ वि जाओ पढमसमए कदाओ ताओ विसेसा-

कृष्टि भी है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि शेष संग्रहकृष्टियोंकी अपेक्षा अपने आयामसे संख्यातगुणी थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको छोड़कर शेष समस्त संग्रहकृष्टियोंके कृष्टिकरणकालमें उपलब्ध आयामसे संख्यातगुणे आयामवाली है, क्योंकि, सम्पूर्ण मोहनीय कर्मका द्रव्य इसके रूप परिणमन करनेवाला है । अथवा, जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि अपूर्व स्पर्द्धाकोके नीचे अनन्तगुणी हीन की गई थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि लोभकी तृतीय वादरसाम्परायिक कृष्टिके नीचे अनन्तगुणी हीन की जाती है । अथवा, जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टि पर्यन्त अनन्तगुणी होती गई थी, उसी प्रकार ही यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि भी अपनी जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टि तक अनन्तगुणी होती जाती है ।

क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां स्तोक ( १३ ) हैं । क्रोधके संक्रमणको प्राप्त होनेपर मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक ( १६ ) हैं । मानके संक्रमणको प्राप्त होनेपर मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक ( १९ ) हैं । मायाके संक्रमणको प्राप्त होनेपर लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक ( २३ ) हैं । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां भी जो प्रथम समयमें की गई हैं वे विशेष अधिक

१ जारिमी क्रोहस्स पढमसगहकिट्टी तारिसी एसा सुहुमसांपराइयकिट्टी, एव भणतस्साहिप्पाओ— जहा क्रोहस्स पढमसगहकिट्टी सगायामेण सेससगहकिट्टीणमायाम पेक्खियूण दव्वमाहप्पेण सखेज्जगुणा जादा, एवमेसा वि सुहुमसांपराइयकिट्टी क्रोहपढमसगहकिट्टी मोतूण सेसासेमसगहकिट्टीण किट्टीरणद्धाए समुत्तलद्धायामादो सखेज्जगुणायामा दद्वन्ना, सयलस्सेत्र मोहणीयदव्वस्साहारमात्रेण एदिस्से परिणमिस्समाणत्तादो ति । अथवा, जारिमी क्रोहस्स पढमसगहकिट्टी, एव भण्ठि जारिसलक्खणा क्रोहपढमसगहकिट्टी अपुव्वफइयाण हेट्ठा अणतगुणहीणा होदूण कदा, तारिसलक्खणा चैव एसा सुहुमसांपराइयकिट्टी लोमस्स तदियवादरसांपराइयकिट्टीदो हेट्ठा अणतगुणहीणा होदूण कीरदि ति भण्ठि होदि । अथवा, जंहा क्रोहपढमसगहकिट्टी जहण्णकिट्टिप्पहुडि जात्र उक्कस्सकिट्टि ति ताव अणतगुणा होदूण गदा तहा चैव एसा सुहुमसांपराइयकिट्टी वि अप्पणो जहण्णकिट्टिप्पहुडि जात्र सयुक्कस्सकिट्टि ति ताव अणतगुणा होदूण गच्छदि ति भण्ठि होदि ॥ जयध अ प ११९७ क्रोहस्स तदियसगहकिट्टीए हेट्ठदो अवट्ठाण । सुहुमाण किट्टीण क्रोहस्स य पढमकिट्टिणिमा ॥ लब्धि. ५६६.

हियाओ' । एसो विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागो । सुहुमसांपराइयकिट्टीओ जाओ पढमसमए कदाओ ताओ बहुआओ; जाओ विदियममए अपुच्चाओ कीरंति ताओ असंखेज्जगुणहीणाओ । अणंतरोवणिधाए सन्विस्से सुहुमसांपराइयकिट्टीकरणद्वाए अपुच्चाओ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए कीरंति । सुहुमसांपराइय-किट्टीसु जं पढमसमए पदेसग्गं दिज्जदि तं थोवं; विदियसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमयादो त्ति असंखेज्जगुणं ।

सुहुमसांपराइयकिट्टीसु पढमसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरुवणं वत्तइस्सामो । तं जहा- जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किट्टीए विसेस-हीणमणंतभागेण । तदियाए किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । एवमणंतरोवणिधाए गंतूण चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणं । चरिमादो सुहुमसांपराइयकिट्टीदो जहणियाए वादरसांपराइयकिट्टीए दिज्जमाणपदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं; तदो विसेसहीणं ।

हैं । यह विशेष अनन्तर-अनन्तररूपसे संख्यातवें भागमात्र है । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां जो प्रथम समयमें की गई हैं वे वहुत हैं । जो द्वितीय समयमें अपूर्व कृष्टियां की जाती हैं वे असंख्यातगुणी हीन हैं । इस प्रकार अनन्तरक्रमसे सब सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि-करणकालमें अपूर्व सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां असंख्यातगुणित हीन श्रेणीके क्रमसे की जाती हैं । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें जो प्रदेशात्र प्रथम समयमें दिया जाता है वह स्तोत्र है । द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इस प्रकार अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है ।

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें प्रथम समयमें दीयमान प्रदेशात्रकी श्रेणिग्रहणको कहते हैं । वह इस प्रकार है— जघन्य कृष्टिमें प्रदेशात्र वहुत दिया जाता है । द्वितीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है । तृतीय कृष्टिमें अनन्तवें भागसे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है । इस प्रकार अनन्तरक्रमसे जा कर अन्तिम सूक्ष्म-साम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशात्र विशेष हीन दिया जाता है । अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें जघन्य वादरसाम्परायिक कृष्टिमें दीयमान प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हीन है । पुनः इसके आगे (अन्तिम वादरसाम्परायिक कृष्टि तक सर्वत्र अनन्तवें भागसे) विशेष हीन प्रदेशात्र

१ कोहस्स पढमकिट्टी कोहे उद्धे दु माणपढम च । माणि उद्धे मायापढम मायाए सउद्धे ॥ लोहस्स पढमकिट्टी आदिममयकच्छुहुमकिट्टी य । अहियक्कमा पच पदा सगसखेज्जदिमभागेण ॥ लब्धि ५६७-५६८.

२ सुहुमाओ किट्टीओ पडिममयमसखगुणविर्हाणाओ । दव्वमसखेज्जगुण विदियस्स य लोहचरिभोत्ति ॥ लब्धि ५६९.

३ एत्तो उव्वरि सन्नय्येव विसेसहीण णिसिचदि अणतभागेण जाव चरिमवादरसांपराइयकिट्टि वि । नयध. अ प ११९८ दव्व पढमे समये देदि दु सुहुमेसणतभागूण । थूलपढमे असखगुणूण ततो अणतभागूण ॥ लब्धि. ५७०.

सुहुमसांपराइयकिट्टीकारओ विदियसमए अपुव्वाओ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाओ । ताओ दोसु ड्वाणेसु करेदि । तं जहा— पढमसमए कदाणं हेट्ठा च अंतरे च । हेट्ठा थोवाओ, अंतरेसु असंखेज्जगुणाओ' ।

विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा— जा विदियसमए जहणिया सुहुमसांपराइयकिट्टी तिस्से पदेसग्गं दिज्जदि बहुअं । विदियाए किट्टीए अणंतभागहीणं । एवं गंतूण पढमसमए जा जहणिया सुहुमसांपराइय-किट्टी तत्थ असंखेज्जभागहीणं, तत्तो अणंतभागहीणं जाव अपुव्वं णिव्वत्तिज्जमाणियं ण पावेदि । अपुव्वाए णिव्वत्तिज्जमाणियाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं । पुव्व-णिव्वत्तिदं पडिवज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागहीणं । परं परं पडिवज्ज-माणयस्स अणंतभागहीणं । जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु वि समएसु जाव चरिमसमयवादरसांपराइओ त्ति' ।

दिया जाता है। सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी हीन अपूर्व सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वह दो स्थानोंमें करता है। वह इस प्रकार है— प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरमें भी उपर्युक्त कृष्टियोंको करता है। नीचे की जानेवाली कृष्टियां स्तोक और अन्तरोंमें की जानेवाली कृष्टियां असंख्यातगुणी हैं।

द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है— द्वितीय समयमें जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमें अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इस प्रकार जाकर प्रथम समयमें जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें असंख्यातभाग हीन और इसके आगे निर्वर्तमान अपूर्व कृष्टिके न पाने तक अनन्तभाग हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। अपूर्व निर्वर्तमान कृष्टिमें असंख्यातवें भागसे अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है। पूर्व-निर्वर्तित कृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हीन दिया जाता है। इसके आगे उत्तरोत्तर पूर्वकृष्टिसे पूर्वकृष्टिको प्रतिपद्यमान प्रदेशाग्र अनन्तभाग हीन होता है। द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी जो विधि पूर्वमें निरूपित की गई है, वही विधि अन्तिम समय वादरसाम्परायिक तक शेष समयोंमें भी जानना चाहिये।

१ विदियादिसु समयेसु अपुव्वाओ पुव्वकिट्टिहेट्ठाओ । पुव्वाणमत्तरेसु वि अतरजणिदा असखगुणा ॥  
लुब्धि ५७१

२ दव्वगपढमे सेसे देदि अपुव्वेसणतमागूण । पुव्वापुव्वपवेसे असखमागूणमहिय च । लुब्धि ५७२.



सुहुमसांपराइयकिट्टीकारयस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सेडीपरुवणं वत्तइस्सामो । तं जहा- जहणियाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं बहुगं । तत्तो अणंतभागहीणं ताव जाव चरिमसुहुमसांपराइयकिट्टि ति । तदो जहणियाए वादर- सांपराइयकिट्टीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । एसा सेडीपरुवणा जाव चरिमसमयवादर- सांपराइओ ति' ।

सुहुमसांपराइयकिट्टीसु कीरमाणेसु लोभस्स चरिमादो वादरसांपराइयकिट्टीदो सुहुमसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोवं । लोभस्स विदियकिट्टीदो चरिमवादर- सांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । लोभस्स विदियकिट्टीदो सुहुमसांपराइय- किट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं' । पढमसमयकिट्टीवेदगस्स' कोधस्स विदिय-

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारककी कृष्टियोंमें दृश्यमान प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं । वह इस प्रकार है— जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें दृश्यमान प्रदेशाग्र बहुत है । इसके आगे अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाग्र अनन्तवें भागसे हीन है । इसके आगे जघन्य वादरसाम्परायिक कृष्टिमें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । यह श्रेणिप्ररूपणा (सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारकके प्रथम समयसे लेकर) अन्तिम समय वादरसाम्परायिक तक है ।

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करते समय लोभकी अन्तिम वादरसाम्परायिक कृष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें स्तोक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे अन्तिम वादरसाम्परायिक संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संक्रमण करता है ( क्योंकि लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके प्रदेशोंसे द्वितीय संग्रहकृष्टिके प्रदेश संख्यातगुणे हैं । ) लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिमें संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । प्रथम समय कृष्टिवेदक अर्थात् कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तरकालमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अपकर्षण कर उसका वेदन करने-

१ पढमादिसु दिस्सकम्म सुहुमेसु अणतभागहीणकम्म । वादरकिट्टिपदेसो असखगुणिद तदो हीण ॥  
लब्धि ५७३

२ प्रतिपु 'चरिमसमयवादर' इति पाठ । लोभस्स विदियकिट्टीदो चरिमवादरसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्ग सखेज्जगुण । कि कारण ? लोभतदियसगहकिट्टीपदेसादो विदियसगहकिट्टीपदेसग्गस्स सखेज्जगुणत्तादो ।  
जयध अ प १२००

३ लोहस्स य तदियादो सुहुमगद विदियदो दु तदियगद । विदियादो सुहुमगद दच्च सखेज्जगुणिद-  
कम्म ॥ लब्धि ५७४

४ किट्टीकरणद्वाए णिदिट्टिदाए ( णिट्टिदाए ) से काले कोहपढमसगहकिट्टिमोक्खिण वेदेमाणो पढम-  
समयकिट्टीवेदगो णाम । जयध अ प १२००

किट्टीदो माणस्स पढमकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोवं । कोधस्स तदियकिट्टीदो माणस्स पढमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । माणस्स पढमादो संगहकिट्टीदो मायाए पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । माणस्स विदियादो संगहकिट्टीदो मायाए पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । माणस्स तदियादो संगहकिट्टीदो मायाए पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । मायाए पढमसंगहकिट्टीदो लोभस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । मायाए विदियसंगहकिट्टीदो लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । मायाए ( तदियादो संगहकिट्टीदो ) लोभस्स पढमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । लोभस्स पढमकिट्टीदो लोभस्स चैव विदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । लोभस्स पढमसंगहकिट्टीदो तस्स चैवं तदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहियं । कोधस्स पढमसंगहकिट्टीदो माणस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । कोधस्स चैव पढमसंगहकिट्टीदो कोधस्स तदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसा-

वालेके क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें स्तोक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । मायाकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । ( मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे ) लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोभकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । क्रोधकी ही प्रथम संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिमें प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है । क्रोधकी

१ आ-प्रतौ ' तस्सेव ' इति पाठ ।

२ किट्टीवेदगपढमे कोहस्स य विदियदो ढु तदियादो । माणस्स य पढमगदो माणतियादो ढु माणपढमगदो ॥ मायतियादो, लोमस्सादिगदो लोमपढमदो विदिय । तदिय च गदा दच्चा दसपढमद्वियक्खमा होंति ॥ लब्धि. ५७५-५७६.

३ अ-प्रतौ ' विसेसाहिय संखेज्जगुणं ' इति पाठ ।

हियं । कोहस्स पढमसंगहकिट्ठीदो कोधस्स चैव विदियसंगहकिट्ठीए संकमदि पदेसगं संखेज्जगुणं । एसो पदेससंकमो अदिक्कंतो वि उक्खेदिदो सुहुमसांपराइयकिट्ठीणं कीर-  
माणीणं आसओ त्ति कादूणं ।

सुहुमसांपराइयकिट्ठीसु पढमसमए दिज्जदि पदेसगं थोवं । विदियसमए असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमयादो त्ति ताव असंखेज्जगुणं । एदेण कमेण लोभस्स विदियकिट्ठिं वेदयमाणस्स जा पढमाट्ठिदी तिस्से पढमाट्ठिदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति । तम्हि समए चरिमसमयवादरसांपराइओ । तम्हि चैव समए लोभस्स चरिमवादरसांपराइय-  
किट्ठीं संखुब्भमाणा संखुद्धा । लोभस्स विदियकिट्ठीए दो आवलियवंधे समऊणे मोत्तूण उदयावेलियपविट्ठं च मोत्तूण सेसाओ विदियकिट्ठीए अंतरकिट्ठीओ संखुब्भमाणीओ संखुद्धाओ ।

तम्हि चैव लोभसंजलणस्स द्विदिवंधो अंतोमुहुत्तं, तिण्हं घादिकम्माणं अहो-

प्रथम संग्रहकृष्टिसे क्रोधकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमें संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संक्रमण करता है । यह वादरकृष्टिषिषयक प्रदेशसंक्रमण यद्यपि अतिक्रान्त हो चुका है तो भी सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके करनेमें प्राप्त प्रदेशसंक्रमणका कारणभूत मानकर पुनः कहा गया है ।

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें प्रथम समयमें प्रदेशाग्र स्तोक दिया जाता है । द्वितीय समयमें असंख्यातगुणा दिया जाता है । इस प्रकार वादरसाम्परायिकके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस क्रमसे लोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है । उस समयमें अन्तिमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक होता है । उसी अनिवृत्ति-  
करणके अन्तिम समयमें संक्रम्यमाण लोभकी अन्तिम वादरसाम्परायिक कृष्टि पूर्णतया सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो जाती है । लोभकी द्वितीय कृष्टिके एक समय कम दो आवलिमात्र नवक समयप्रवद्धाको तथा उदयावलिप्रविष्ट द्रव्यको छोड़कर शेष संक्रम्यमाण द्वितीय कृष्टिकी अन्तरकृष्टियां संक्रमणको प्राप्त हो जाती है ।

उसी समयमें संज्वलनलोभका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त और तीन घातिया

१ एदस्सथो वुच्चदे-एसो पदेससकमो वादरकिट्ठीविसयो अइक्कतो वि उक्खेदिदो, अइक्कतावसरो वि सतो पुणरुक्खविदूण मणिदो । किमट्ठमेव मणिज्जदित्ति चे, सुहुमसांपराइयकिट्ठीसु कीरमाणीसु आमवो पि कादूण सुहुमसांपराइयकिट्ठीसु कीरमाणीसु जो पदेससकमो पदिदो तस्स कारणभूदो त्ति कादूण अइक्कतावसरो वि हंतो एसो पदेससकमो पुणरुक्खाइदूण मणिदो त्ति वुत्त होई । जयध. अ. प १२०२.

२ त्रतिष्ठ 'समए वादरसांपराइओ किट्ठी' इति पाठः ।

रत्तस्स अंतो, णामा-गोद-वेदणीयाणं वादरसांपराइयस्स जो चरिमो द्विदिबंधो सो संखेज्जेहि वस्ससहस्सेहि हाइदूण वस्सस्स अंतो जादो । चरिमसमयवादरसांपराइयस्स मोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्तं, तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि ।

से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जादो । ताधे चेव सुहुमसांपराइयकिट्टीणं जाओ द्विदीओ तदो द्विदिखंडयमागाइदं । तदो पदेसग्गमोकद्विदूण उदये थोचं दिण्णं । एवमंतोमुहुत्तद्धमेत्तमसंखेज्जगुणाए सेडीए देदि । गुणसेडिणिक्खेवो सुहुमसांपराइयद्धादो विसेसुत्तरो । गुणसेडीसीसयादो जा अणंतरद्विदी तत्थ असंखेज्जगुणं । तत्तो विसेसहीणं ताव जाव पुव्वसमए अंतरमासि तस्स अंतरस्स चरिमादो त्ति । चरिमादो अंतरद्विदीदो पुव्वसमए जा विदियाद्विदी तिस्से आदिद्विदीए दिज्जमाणं पदेसग्गं संखेज्जगुणहीणं । तत्तो विसेसहीणं ।

कर्मोंका अहोरात्रका अन्त अर्थात् कुछ कम एक दिनप्रमाण होता है । नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका वादरसाम्परायिकके जो अन्तिम स्थितिवन्ध होता था वह संख्यात वर्षसहस्रोंसे घटकर वर्षका अन्त अर्थात् कुछ कम एक वर्षमात्र रह जाता है । अन्तिम-समयवर्ती वादरसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व अन्तर्मुहूर्त, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्र, और नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

अनन्तर समयमें प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है । उसी समयमें ही सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितियां हैं उनके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकांडको ग्रहण करना प्रारम्भ करता है । सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी उत्कीर्यमाण और अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर उदयमें स्तोक प्रदेशाग्रको देता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तमात्र काल तक असंख्यातगुणित श्रेणीसे देता है । गुण-श्रेणिनिधेय सूक्ष्मसाम्परायिककालसे विशेष अधिक है । गुणश्रेणिशीर्षसे जो अनन्तर स्थिति है उसमें असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रको देता है । इससे आगे अन्तरस्थितियोंमें उत्तरोत्तर क्रमसे पूर्व समयमें जो अन्तर था उस अन्तरकी अन्तिम अन्तरस्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है । अन्तिम अन्तरस्थितिसे, पूर्व समयमें जो द्वितीय स्थिति है उसकी प्रथम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाग्र संख्यातगुणा हीन है । इसके आगे उपरिम स्थितिमें दीयमान प्रदेशाग्र विशेष हीन है ।

१ सुहुमसांपराइयकिट्टीणमुक्कीरिज्जमाणायुक्कीरिज्जमाणद्विदीहितो पदेसग्गसासंखेज्जादिमागमोकद्विदूण पुणो ओकद्विदिसयलदव्वासंखेज्जे भागे पुध द्दविय तदसंखेज्जभागमेत्तपदेसग्ग गुणसेदीए गिसिचमाणो उदयद्विदीए धोवयरमेव पदेसग्गसंखेज्जसमयपवद्धपमाण गिसिचदि त्ति वुत्त होदि ॥ जयध. अ. प. १२०३।

पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स जमोकट्टिज्जदि पदेसग्गं तमेदाए सेडीए णिक्खि-  
वदि । विदियसमए वि तदियसमए वि एसो चेष क्कमो ओकट्टिदूण णिसिंचमाणपदे-  
सग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पठमट्टिदिखंडओ णिल्लेविदो त्ति । विदियादो  
ट्टिदिखंडयादो ओकट्टिदूण जं पदेसग्गमुदए दिज्जदि तं थोवं । तदो असंखेज्जगुणाए  
सेडीए दिज्जदि ताव जाव गुणसेडीसीसयादो उवरिमाणंतरा' एक्का ट्टिदि त्ति । तदो  
विसेसहीणं । एत्तो पाए सुहुमसांपराइयस्स जाव मोहणीयस्स ट्टिदिघादो ताव एम क्कमो ।

पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स जं दिस्सदि पदेसग्गं तस्स सेडीपरूवणं वत्तइस्सामो ।  
तं जहा— पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदए दिस्सदि पदेसग्गं थोवं । विदियाए ट्टिदीए  
असंखेज्जगुणं । एवं ताव जाव गुणसेडीसीसयं ति गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एक्का  
ट्टिदि त्ति । तदो विसेसहीणं जाव चरिमअंतरट्टिदि त्ति । तदो असंखेज्जगुणं, तत्तो  
विसेसहीणं । एस क्कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पठमट्टिदिखंडओ चरिमममय-  
अणिल्लेविदो त्ति । पठमट्टिदिखंडए णिल्लेनिदे जमुदए पदेसग्गं दिस्सदि तं थोवं । विदियाए

प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदेशाग्रका अपकर्षण करता है उसे इस  
श्रेणीक्रमसे देता है । द्वितीय और तृतीय समयमें भी इसी क्रमसे देता है । इस प्रकार  
अपकर्षण करके दीयमान प्रदेशाग्रका यह क्रम तब तक चालू रहता है जब तक सूक्ष्मसाम्प-  
रायिकका प्रथम स्थितिकांडक निर्लेपित अर्थात् समाप्त होता है । द्वितीय स्थिति-  
कांडकसे अपकर्षण कर जो प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता है वह स्तोक है । इसके आगे  
असंख्यातगुणित श्रेणीसे तब तरु दिया जाता है जब तक कि गुणश्रेणिशीर्षके ऊपर  
एक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है । इसके आगे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है ।  
यहांसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकके जब तक मोहनीयका स्थितिघात होता है तब तक यह  
क्रम रहता है ।

प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाग्र दृश्यमान है उसकी श्रेणि-  
प्ररूपणाको कहते हैं । वइ इस प्रकार है—प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके उदयमें स्तोक  
प्रदेशाग्र दिखता है । द्वितीय स्थितिमें असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है । इस प्रकार  
यह क्रम गुणश्रेणिशीर्ष तक तथा उससे आगे अन्य एक स्थिति तक चालू रहता है ।  
इससे आगे अन्तिम अन्तरस्थिति तक विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखता है । पुनः इससे  
असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है । पश्चात् उससे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखता है ।  
यह क्रम तब तक चालू रहता है जब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके  
समाप्त होनेका अन्तिम समय प्राप्त नहीं होता । प्रथम स्थितिकांडकके निर्लेपित होनेपर  
जो प्रदेशाग्र उदयमें दिखता है वह स्तोक है । द्वितीय स्थितिमें जो प्रदेशाग्र दिखता है वह

१ प्रतिपु ' उवरिमाणतराए ' इति पाठ ।

२ अतरपटमट्टिदिचि य असखशुण्णिदक्कमेण दिस्सदि हु । हीणक्कमेण असखेज्जेण गुणंतो विहीणक्कम ॥  
कन्धि, ५८७.

ट्टिदीए जं दिस्सदि तमसंखेज्जगुणं । ( एवं ) ताव जाव गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एक्का ट्टिदि त्ति असंखेज्जगुणं दिस्सदि । तत्तो विसेसहीणं जाव उक्कस्सिया मोहणीयट्टिदि' त्ति ।

सुहुमसांपराइयस्स पढमट्टिदिखंडए पढमसमयणिछेविदे गुणसेडिं मोत्तूण सेसियासु ट्टिदीसु केण कारणेण गोपुच्छा सेडी जादा त्ति एदस्स साहणट्टं इमाणि अप्पावहुअपदाणि' । तं जहा- सव्वत्थोवा सुहुमसांपराइयद्धा । पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेडीणिकखेवो विसेसाहिओ । अंतरट्टिदीओ संखेज्जगुणाओ । सुहुमसांपराइयस्स पढमो ट्टिदिखंडओ मोहणीये संखेज्जगुणो । पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं' ।

लोभस्स विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए जाव तिणिण आवलियाओ सेसाओ ताव लोभस्स विदियकिट्टीदो लोभस्स तदियकिट्टीए संछुहदि पदेसगं । तेण परं ण संछुहदि; सव्वं सुहुमसांपराइयकिट्टीसु संछुहदि । लोभस्स विदिय-

असंख्यातगुणा है । इस प्रकार जब तक गुणश्रेणिशीर्षके आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिखता है । मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक इससे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिखता है ।

सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीर्ण होनेके पश्चात् प्रथम समयमें गुणश्रेणीको छोड़कर शेष स्थितियोंमें किस कारणसे गोपुच्छ श्रेणी हुई है, इसके साधनेके लिये ये अल्पवहुत्वपद है । जैसे— सबसे स्तोक सूक्ष्मसाम्परायिककाल है । प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है । अन्तर-स्थितियां संख्यातगुणी हैं । सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है । प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा है ।

लोभकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम-स्थितिकी जब तक तीन आवलियां शेष हैं तब तक लोभकी द्वितीय कृष्टिसे लोभकी तृतीय कृष्टिमें प्रदेशाग्रको स्थापित करता है । उसके पश्चात् तृतीय कृष्टिमें स्थापित नहीं करता, किन्तु सब प्रदेशाग्रको सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें स्थापित करता है । लोभकी

१ अतरपढमट्टिदि त्ति य असखगुणिकमेण दिस्सदि हु । हीण तु मोहविदियट्टिदिखड्यदो दुघादो त्ति ॥ पढमगुणसेट्टिसीस पुच्चिहादो असखसगुणिय । उवरिससमये दिस्स विसेसअहिय हवे सीसे ॥ लब्धि ५९०-५९१.

२ एदेणप्पावहुगविधाणेण विदियखड्यादीसु । गुणसेट्टिमुच्चियेया गोपुच्छा होदि सुहुमन्दि ॥ लब्धि ५९३.

३ सुहुमद्दादो अहिया गुणसेदी अतर तु तत्तो इ । पढमे एड पढमे सतो मोहस्स सखगुणिकमा ॥ लब्धि. ५९२.

किट्टि वेद्यमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए ताधे जा लोभस्स तदियकिट्टी सा सव्वा णिरवयवा सुहुमसांपराइयकिट्टीसु संकंता । (जा) विदियकिट्टी तिस्से दोआवलियसमऊणे वंधे मोत्तूण उदयावलियपविट्ठं च सेसं सव्वं सुहुमसांपराइयकिट्टीसु संकंतं । ताधे चरिमसमयवादरसांपराइओ मोहणीयस्स चरिम-समयबंधगो जादो ।

से काले पढमसमयसुहुमसांपराइओ जादो । ताधे सुहुमसांपराइयकिट्टीणम-संखेज्जा भागा उदिण्णा । हेट्ठा अणुदिण्णाओ थोवाओ, उवरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ । मज्जे उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ असंखेज्जगुणाओ<sup>१</sup> । सुहुम-सांपराइयस्स संखेज्जेसु ट्टिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपच्छिमट्टिदिखंडयं मोहणीयस्स तम्हि ट्टिदिखंडए उक्कीरमाणे जो मोहणीयस्स गुणसेडीणिक्खेवो तस्स गुणसेडी-णिक्खेवस्स अग्गगादो संखेज्जदिभागो आगाइदो<sup>२</sup> । तम्हि ट्टिदिखंडए उक्किरणे तदो प्पहुडि मोहणीयस्स णत्थि ट्टिदिघादो । सुहुमसांपराइयद्वाए जत्तियं सेसं तत्तियं

द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर उस समयमें जो लोभकी तृतीय कृष्टि है वह सब अवयवकृष्टियोंसे रहित होती हुई सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो चुकती है । जो द्वितीय कृष्टि है उसके एक समय कम दो आवलिमात्र नवक बंधको छोड़कर तथा उदयावालि-प्रविष्ट द्रव्यको भी छोड़कर शेष सब प्रदेशाग्र सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमणको प्राप्त हो जाता है । उस समय जीव अन्तिमसमयवर्ती वादरसाम्परायिक व मोहनीयका अन्तिम-समयवर्ती बन्धक होता है ।

अनन्तर कालमें जीव प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है । उस समयमें सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके असंख्यात भाग उदीर्ण होते हैं । नीचे जो कृष्टियां अनुदीर्ण हैं वे स्तोक हैं । जो ऊपर अनुदीर्ण हैं वे उनसे विशेष अधिक हैं । मध्यमें जो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियां उदीर्ण हैं वे असंख्यातगुणी हैं । सूक्ष्मसाम्परायिकके संख्यात स्थितिकांडकोंके चले जानेपर जो अन्तिम स्थितिकांडक है, उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण करते समय जो मोहनीयका गुणश्रेणिनिक्षेप है उस गुणश्रेणिनिक्षेपके उत्तरोत्तर अग्राग्रसे संख्यातवै भागको ग्रहण करता है । उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण हो जानेपर यहांसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात नहीं होता । सूक्ष्मसाम्परायिककालमें जितना काल

१ सुहुमाण किट्टीण हेट्ठा अणुदिण्णाओ हु थोवाओ । उवरि तु विसेसाहिया मज्जे उदया असंखगुणा ॥ क्वि. ५९४.

२ सुहुमे सखसहस्से खडे तीदे वसाणखडेण । आगायदि गुणसेदी आगादो संखभागे च ॥ लब्धि. ५९५.

मोहणीयस्स ढ्ठिदिसंतकम्मं सेसं' । एसा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोधेण उवड्ठिदस्स ।

पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उवड्ठिदस्स णाणत्तं' वत्तइस्सामो । तं जहा- अंतरे अकदे णत्थि णाणत्तं । अंतरकदे अत्थि णाणत्तं । अंतरे कदे कोधस्स पढमड्ठिदी णत्थि, माणस्स अत्थि । सा केम्महंती ? जदेही कोधेण उवड्ठिदस्स कोधस्स पढमकिट्ठी, कोधस्स चेव खवणद्धा च, एम्महंती माणेण उवड्ठिदस्स माणस्स पढमड्ठिदी । जम्हि कोधेण उवड्ठिदो अस्सकण्णकरणं करोदि, माणेण उवड्ठिदो तम्हि काले कोधं खवेदि । कोधेण उवड्ठिदस्स जा किट्ठीकरणद्धा, माणेण उवड्ठिदस्स तम्हि काले अस्सकण्णकरणद्धा । कोधेण उवड्ठिदस्स जा कोधस्स खवणद्धा, माणेण उवड्ठिदस्स तम्हि काले किट्ठीकरणद्धा । कोधेण उवड्ठिदस्स माणस्स जा खवणद्धा, माणेण उवड्ठिदस्स तम्हि चेव काले माणस्स खवणद्धा । एत्तो पाए जहा कोधेण उवड्ठिदस्स विही तहा माणेण वि उवड्ठिदस्स पुरिसवेदयस्स ।

मायाए उवड्ठिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा- कोधेण उवड्ठिदस्स जम्म-

शेष है उतना मोहनीयका स्थितिसत्त्व शेष है । यह प्ररूपणा क्रोधसे उपस्थित पुरुषवेदीकी है ।

मानसे उपस्थित पुरुषवेदीकी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है — अन्तरकं न करनेपर अर्थात् अन्तरकरणसे पूर्वअवस्थामें वर्तमान क्षपकोंके कोई विशेषता नहीं है । किन्तु अन्तर कर चुकनेपर विशेषता है । अन्तर कर चुकनेपर क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं है । किन्तु मानकी प्रथमस्थिति है ।

शंका—वह मानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है ?

समाधान—क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोधकी प्रथमस्थिति और क्रोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मानसे उपस्थित हुए जीवके मानकी प्रथमस्थिति है ।

जिस कालमें क्रोधसे उपस्थित हुआ अश्वकर्णकरणको करता है उस कालमें मानसे उपस्थित हुआ क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुए जीवका जो कृष्टिकरणकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें अश्वकर्णकरणकाल है । क्रोधसे उपस्थित हुएके जो क्रोधका क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें कृष्टिकरणकाल है । क्रोधसे उपस्थित हुएके मानका जो क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएके उसी कालमें मानका क्षपणाकाल है । यहांसे लेकर जैसी क्रोधसे उपस्थित हुए पुरुषवेदी जीवकी विधि है, वैसी ही मानसे भी उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विधि है ।

मायासे उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विशेषताको कहते हैं । वह इस प्रकार है—

१ उक्किण्णे अवसाणे खडे मोहस्स णत्थि ठिदिघादो । ठिदिसत्त मोहस्स य सुहुमद्दासेसपरिमाण ॥  
लन्धि. ५९७. २ एत्थ णाणत्तमिदि वुत्ते भेदो विसेसो पुधभावो ति एयद्धो । जयध. अ. ५. १२२६.



हंती क्रोधस्स पढमड्ढिदी, क्रोधस्स चैव खवणद्धा, माणस्स खवणद्धा च, मायाए उव-  
ड्ढिदस्स एम्महंती मायाए पढमड्ढिदी । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि,  
मायाए उवड्ढिदो तम्हि क्रोधं खवेदि । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि किट्ठीओ करेदि, मायाए  
उवड्ढिदो तम्हि माणं खवेदि । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि क्रोधं खवेदि, मायाए उवड्ढिदो  
तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि माणं खवेदि, मायाए उवड्ढिदो  
तम्हि किट्ठीओ करेदि । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि मायं खवेदि, तम्हि चैव मायाए उव-  
ड्ढिदो मायं खवेदि । एत्तो पाए लोभं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं ।

पुरिसवेदयस्स लोभेण उवड्ढिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो— जाव अंतरं ण करेदि  
ताव णत्थि णाणत्तं । अंतरं करेमाणो लोभस्स पढमड्ढिदिं ड्ढवेदि । सा केम्महंती ? जहेही  
क्रोधेण उवड्ढिदस्स क्रोधस्स पढमड्ढिदी, क्रोध-माण-मायाणं खवणद्धा च, तद्देही' लोभेण  
उवड्ढिदस्स लोभस्स पढमड्ढिदी । क्रोधेण उवड्ढिदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, लोभेण

क्रोधसे उपस्थित हुएके जितनी बड़ी क्रोधकी प्रथमस्थिति, क्रोधका ही क्षपणाकाल  
और मानका भी क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मायासे उपस्थित हुएके मायाकी प्रथम-  
स्थिति है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस कालमें अश्वकर्णकरण करता है, मायासे  
उपस्थित हुआ उस कालमें क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित हुआ जिस कालमें  
कृष्टियोंको करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस कालमें मानका क्षय करता है । क्रोधसे  
उपस्थित हुआ जिस कालमें क्रोधका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उसमें  
अश्वकर्णकरणको करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता है,  
मायासे उपस्थित उस कालमें कृष्टियोंको करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें  
मायाका क्षय करता है, उसी कालमें ही मायासे उपस्थित मायाका क्षय करता है ।  
यहांसे लेकर लोभका क्षय करनेवालेके कोई विशेषता नहीं है ।

लोभसे उपस्थित हुए पुरुषवेदककी विशेषताको कहते हैं । जब तक अन्तर नहीं  
करता है, तब तक कोई विशेषता नहीं है । अन्तरको करनेवाला लोभकी प्रथमस्थितिको  
स्थापित करता है ।

शंका—बह लोभकी प्रथमस्थिति कितने प्रमाणरूप है ?

समाधान—जितनी क्रोधके उदयसे उपस्थित क्षपकके क्रोधकी प्रथमस्थिति,  
तथा क्रोध, मान एवं मायाका क्षपणकाल है, उतनीमात्र लोभसे उपस्थित क्षपकके  
लोभकी प्रथमस्थिति है । क्रोधसे उपस्थित हुआ क्षपक जिस कालमें अश्वकर्णकरणको

उवड्ढिदो तम्हि कोधं खवेदि । कोधेण उवड्ढिदो जम्हि किट्ठीओ करेदि, लोभेण उवड्ढिदो तम्हि माणं खवेदि । कोधेण उवड्ढिदो जम्हि कोधं खवेदि, लोभेण उवड्ढिदो तम्हि मायं खवेदि । कोधेण उवड्ढिदो जम्हि माणं खवेदि, लोभेण उवड्ढिदो तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि । कोधेण उवड्ढिदो जम्हि मायं खवेदि लोभेण उवड्ढिदो तम्हि किट्ठीओ करेदि । कोधेण उवड्ढिदस्स जम्हि लोभं खवेदि, तम्हि चेव लोभेण उवड्ढिदो लोभं खवेदि । एसा सच्चा सण्णियासपरूवणा पुरिसवेदेण उवड्ढिदस्स ।

इत्थिवेदेण उवड्ढिदस्स खवयस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो । तं जहा— जाव अंतरं ण करेदि ताव णत्थि णाणत्तं । अंतरं करेमाणो इत्थिवेदस्स पढमड्ढिदिं ड्वेदि । जदेही पुरिसवेदेण उवड्ढिदस्स इत्थिवेदस्स खवणद्धा, तदेही इत्थिवेदेण उवड्ढिदस्स इत्थिवेदस्स पढमड्ढिदी । णवुंसयवेदं खवेमाणस्स णत्थि णाणत्तं । णवुंसयवेदे खीणे इत्थिवेदं खवेदि । जम्महंती पुरिसवेदेण उवड्ढिदस्स इत्थिवेदखवणद्धा, तम्महंती इत्थिवेदेण उवड्ढिदस्स इत्थिवेदस्स खवणद्धा । तदो अवगदवेदो सत्त कम्मसे खवेदि । सत्तण्हं हि कम्माणं तुल्ला

करता है, उस समयमें लोभसे उपस्थित क्षपक क्रोधका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित क्षपक जिस कालमें कृष्टियोंको करता है, लोभसे उपस्थित क्षपक उस कालमें मानका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें क्रोधका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें मायाका क्षय करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें अश्वकर्णकरणको करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें मायाका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित उस कालमें कृष्टियोंको करता है । क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें लोभका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित भी उस कालमें लोभका क्षय करता है । यह सब सादृश्यप्ररूपणा पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी है ।

स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपककी विशेषता को कहते हैं । वह इस प्रकार है— जब तक अन्तर नहीं करता तब तक कोई भेद नहीं है । अन्तरको करता हुआ स्त्रीवेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है । जितनामात्र पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है, उतनीमात्र स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथमस्थिति है । नपुंसकवेदका क्षय करनेवालेके कोई विशेषता नहीं है । नपुंसकवेदके क्षीण होनेपर स्त्रीवेदका क्षय करता है । जितने प्रमाणरूप पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है उतने प्रमाणरूप स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेदका क्षपणाकाल है । स्त्रीवेदकी प्रथमस्थितिके क्षीण होनेपर अपगतवेद होकर सात ( हास्यादिक छह और पुरुषवेद ) कर्मोंका क्षय करता है । सातों ही कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य है । शेष

खवणद्धा । सेसेसु पदेसु णत्थि णाणत्तं ।

एत्तो णवुंसयवेदेण उवट्ठिदस्स खवगस्स णाणत्तं वत्तइस्सामो— जाव अंतरं ण करेदि ताव णत्थि णाणत्तं । अंतरं करेमाणो णवुंसयवेदस्स पढमट्ठिदिं ठवेदि । जम्महं— ( ती इत्थीवेदेण उवट्ठिदस्स इत्थीवेदस्स पढमट्ठिदी, तम्महंती णवुंसयवेदेण उवट्ठिदस्स णवुंसयवेदस्स पढमट्ठिदी । तदो अंतरदुसमयकदे णवुंसयवेदं खवेदुमाढत्तो । जहेही पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा तहेही णवुंसयवेदेण उवट्ठिदस्स णवुंसयवेदस्स खवणद्धा गदा ण ताव ) णवुंसयवेदो खीयदि । तदो से काले इत्थिवेदं खवेदुमाढत्तो', णवुंसयवेदं हि खवेदि । जम्हि पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स इत्थिवेदो खीणो तम्हि चैव णवुंसयवेदेण उवट्ठिदस्स इत्थिवेदो णवुंसयवेदो च दो वि सह खीयंति ।

तदो अवगदवेदो सत्त कम्मसे खवेदि । सत्तण्हं हि कम्माणं तुल्ला खवणद्धा । सेसेसु पदेसु जहा पुरिसवेदेण उवट्ठिदस्स उत्तं तथा वत्तव्वं । जाधे चरिमसमयसुहुमसांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाणं ट्ठिदिवंधो अट्ठ मुहुत्ता । वेदणीयस्स ट्ठिदिवंधो वारस

पदोंमें कोई विशेषता नहीं है ।

यहांसे आगे नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपककी विशेषताको कहते हैं— जब तक अन्तरको नहीं करता है तब तक कोई विशेषता नहीं है । अन्तरको करता हुआ नपुंसकवेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है । ( स्त्रीवेदसे उपस्थित क्षपकके जितनी बड़ी स्त्रीवेदकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदकी प्रथमस्थिति है । पश्चात् अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपुंसकवेदका क्षय करना प्रारम्भ करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकके जितना नपुंसकवेदका क्षपणाकाल है उतना नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदका क्षपणाकाल घीत जाता है, किन्तु तब तक नपुंसकवेद क्षीण नहीं होता । ) पश्चात् अनन्तर समयमें स्त्रीवेदका क्षय करना प्रारम्भ करके नपुंसकवेदका निश्चयसे क्षय करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकका जिस समयमें स्त्रीवेद क्षीण होता है उसी समयमें ही नपुंसकवेदसे उपस्थित क्षपकके स्त्रीवेद और नपुंसकवेद दोनों ही एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं । •

तदनन्तर अपगतवेद होकर सात नोकषायोंका क्षय करता है । सातों ही नोकषायोंका क्षपणाकाल तुल्य है । शेष पदोंमें जैसी विधि पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपककी कही गई है, वैसी यहां भी कहना चाहिये । जिस समय अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसांप्रदायिक होता है, उस समयमें नाम व गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध आठ मुहूर्त, वेदनीयका स्थितिवन्ध

१ प्रतिषु ' खवेदिमाढत्तो ' इति पाठ ।

२ थीपढमट्ठिदिमेत्ता सदस्स वि अतराडु सदेक्क । तस्सद्धाति तदुवरिं सदा इच्छिं त्र खवदि थीचरिमे ॥ अवगयवेदो सतो सत्त कसाये खवेदि कोहुदये । पुरिसदये चडणविही सेसुदयाण तु हेडुवरिं ॥ लब्धि ६०७-६०८.

मुहुत्ता । तिण्हं घादिकम्माणं ढ्ढिदिवंधो अंतोमुहुत्तं । तेसिं चैव तिण्हं ढ्ढिदिसंतकम्मं पि अंतोमुहुत्तं । णामा-गोद-वेदणीयाणं ढ्ढिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । मोहणीयस्स ढ्ढिदिसंतकम्मं तत्थ णस्सदि ।

तदो से काले पढमसमयखीणकसाओ जादो । ताधे चैव ढ्ढिदि-अणुभागाणम-बंधगो<sup>१</sup> । एवं जाव चरिमसमयाहियावलयिछदुमत्थो ताव तिण्हं घादिकम्माणमुदीरगो । तदो दुचरिमसमए णिदा-पयलाणमुदयसंतवोच्छेदो<sup>२</sup> । तदो णाणावरण-दंसणावरण-अंत-

वारह मुहूर्त, और तीन घातिया कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। इन्हीं तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व भी अन्तर्मुहूर्तमात्र होता है। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है। मोहनीयका स्थितिसत्व वहां नष्ट हो जाता है।

चारित्रमोहनीयके क्षयके अनन्तर समयमें प्रथमसमयवर्ती क्षीणकपाय होता है। उसी समयमें ही सब कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका अवन्धक होता है।

विशेषार्थ—कर्मोंकी स्थिति और अनुभागके वन्धका कारण कपाय है। अत एव कपायके क्षीण हो जानेपर कारणके अभावमें कार्याभावके न्यायानुसार, उक्त दोनों वन्धोंका भी अभाव हो जाता है। किन्तु प्रकृतिवन्ध केवल योगके निमित्तसे होता है, और क्षीणकपाय हो जानेपर भी योगकी प्रवृत्ति रहती ही है। अत एव यहां प्रकृतिवन्धका निषेध नहीं किया गया। जयधवलानुसार प्रदेशवन्धका भी व्युच्छेद स्थिति व अनुभागके वन्धव्युच्छेदके साथ ही हो जाता है।

इस प्रकार एक समय अधिक आवलिमात्र छद्मस्थकालके शेष रहने तक तीन घातिया कर्मोंका उदीरक होता है। इसके पश्चात् ढ्ढिचरम समयमें निद्रा और प्रचलाके उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति हो जाती है। तदनन्तर एक समयमें ज्ञानावरण, दर्शना-

१ णामदुगे वेयणीये अड्वाएसमुहुत्तय तिघादीण। अंतोमुहुत्तमेत्त ढ्ढिदिवंधो चरिमसुहुमग्ग्हि ॥ लब्धि ५९८.

२ तिण्हं घादीण ढ्ढिदिसतो अतोमुहुत्तमेत्त तु । तिण्हमघादीण ढ्ढिदिसतमसखेज्जवस्साणि ॥ लब्धि ५९९.

३ ताधे चैव ढ्ढिदि-अणुभाग-पदेसस्स अवधगो । तदवस्थायामेव सर्वं कम्मणा स्थित्यनुभवप्रदेशानामवन्धक इत्युक्तं भवति । कपायो हि स्थित्यादिवन्धकारण, तस्य तदन्यय व्यतिरेफालुविधायित्वात्तत्त कपायपरिणामसंश्लेषा-पगमात्रास्य स्थित्यादिवन्धमम्भव इति सुनिरूपितमेतत् । पयडिवंधो पुण जोगमेत्तणिवधणो खीणकसाये त्रि समवदि त्ति ण तस्स पडिसेहो एत्थ कटो । जयध अ प १२३० ढ्ढिदिअणुभागाण पुण वधो मुहुमो त्ति होदि णियमेण । वधपदेसाण पुण सक्कमण सुहुमरागो ति ॥ गो क ४२९ तत्र योगनिमित्तौ प्रकृति प्रदेशौ, कपायनिमित्तौ स्थित्य-नुभवौ । तत्रकर्पाप्रकर्षमेदात्तद्वन्धविचित्रमात्र । तथा चोक्त- जोगा पयडि पदेसा ढ्ढिदि अणुभागा कसायदो कुणदि । अपरिणदुच्छिण्णेषु य वध ढ्ढिदिकारण णत्थि ॥ स सि ८, ३, गो क २५७ से काले सो खीणकसाओ ढ्ढिदि-सगवधपरिहीणो ॥ लब्धि ६००.

४ चरिमे खडे पडिदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे एसो । तस्स दुचरिमे णिदा पयला सनुदयवोच्छिण्णा ॥

राइयाणमेगसमएण संतोदयवोच्छेदो । तदो अणंतकेवलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो केवली सच्चण्हू सच्चदरिसी सजोगिजिणो' असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसगं' णिज्जरेमाणो विहरदि त्ति ।

-तदो अंतोमुहुत्ते आउगे सेसे केवलिसमुग्घादं करेदिं । पढमसमए दंडं करेदिं । तम्हि द्विदीए असंखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणदि ।

घरण और अनन्तराय, इनके उदय व सत्त्वकी व्युच्छित्ति होती है। पश्चात् अनन्तर समयमें अनन्त केवलज्ञान, केवलदर्शन और अनन्त वीर्यसे युक्त जिन, केवली, सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी होकर सयोगिजिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीसे कर्मप्रदेशाग्रकी निर्जरा करते हुए धर्मप्रवर्तनके लिये विहार करते हैं।

पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमात्र आयुके शेष रहनेपर केवलिसमुद्घातको करते हैं। इसमें प्रथम समयमें दण्डसमुद्घातको करते हैं। उस दण्डसमुद्घातमें वर्तमान होते हुए आयुको छोड़कर शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात बहुभागको नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षीणकपायके अन्तिम समयमें घातनेसे शेष रहे अप्रशस्त प्रकृति-सम्बन्धी अनुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करते हैं। द्वितीय समयमें कपाटसमु-

लब्धि ६०३ खीणकसायदुचरिमे णिद्या पयला य उदयवोच्छिण्णा । णाणतरायदमय दमणचत्तारि चरिमन्दि ॥  
गो क २७० खीणे सोलसज्जोणे वायत्तरि तेस्वतते ॥ गो क ३३७

१ असहायणाणदसणसहिजो इदि केवली हु जोगेण । जुत्तो त्ति सजोगो इदि अपाडणिहणाग्निं वुत्तो ॥  
जयध अ प १२३४ गो जी ६४ चरिमे पढम विग्घ चउदमण उदयसत्तवोच्छिण्णा । ने काले जोगिजिणो सच्चण्हू सच्चदरिसी य ॥ लब्धि ६०९

२ अ-आप्रलो ' सेडीए पढमसगं', क्रप्रती ' सेडीए पढमसमए पदेसगं' इति पाठ ।

३ अतोमुहुत्तमाज परिमेमे केवली समुग्घाद । दड क्वाट पदर लोणत्स य पूरप कृण्ड ॥ लब्धि ६२०.  
को केवलिसमुग्घादो णाम ? वुच्चदे- उदयमनमुद्घात जीवप्रदेशाना विसर्पणमित्यर्थ, समीचीन उद्घात समुद्घात, केवलिसमुद्घात केवलिसमुद्घात । अघातिकर्मस्थितिसमीकरणार्थ केवलिजीवप्रदेशाना समयविरोधेन ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्च विसर्पण केवलिसमुद्घात इत्युक्तं भवति । जयध अ प १२३८ सम्यक् अपुनर्मात्रेण उत्प्रावत्येन घातो वेदनीयादिकर्मणा विनाशो यस्मिन् क्रियाविशेषे स नमुद्घात । पचमग्रह १, पृ २९ स यदान्तर्मुहूर्तशेषायुक्क-स्तनुल्यस्थितिवेधनामगोत्रश्च भवति, तदा सर्वं बाङ्मानसयोग वादरकाययोग च परिहाय सूक्ष्मकाययोगलम्बन-सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमात्कन्दितुमर्हतीति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुक्कस्ततोऽधिकस्थितिशेषकर्मत्रयो भवति सयोगी तदाऽऽप्तोपयोगातिगयस्य सामाजिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य महामत्रस्य लजुर्कर्मपरिपाचनस्याशेषकर्मरेषुपरिसातन-शक्तिस्वामाव्याहण्डकपाटप्रतरलोकेपूरणानि त्वात्मप्रदेशविमर्षणतश्चतुर्भिः समयं कृत्वा समुपहतप्रदेशविमरण समी-कृतस्थितिशेषकर्मचतुष्टय पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान ध्यायते । स सि ९, ४४

४ किल्लणो सो दडसमुद्घात इति चेदुच्यते- अतोमुहुत्ताउगे सेसे केवलीसमुग्घाद करेमाणो पुन्नाहिमुहो उत्तराहिमुहो वा होदूण काजमग्गेण वा करेदि पलियकासणेण वा । तत्थ काओमग्गेण दडसमुग्घाद कुणमाणस्स मूलमरीर-परिणाहेण देसणचोदमरञ्जुआयामेण दडायारेण जीवपदेशाण विसप्पण दडसमुग्घादो णाम । जयध. अ. प. १२३८.

विदियसमए क्वाडं करेदि' । तम्हि सेसिगाए द्विदीए असंखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणदि । तदो तदियसमए मंथं करेदि' । द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि । तदो चउत्थसमए लोगमावूरेदि' । लोगे पुण्णे एक्का वग्गणा जोगस्स' समजोगजादसमए । द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि' । लोगे पुण्णे

दघातको करते हैं । उस कपाटसमुद्घातमें वर्तमान रहकर शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागको नष्ट करते हैं, तथा अप्रशस्त प्रकृतियोंके शेष अनुभागके भी अनन्त बहु-भागको नष्ट करते हैं । पश्चात् तृतीय समयमे प्रतरसंक्षित मंथसमुद्घातको करते हैं । इस समुद्घातमें भी स्थिति व अनुभागको पूर्वके समान ही नष्ट करते हैं । तत्पश्चात् चतुर्थ समयमें अपने सब आत्मप्रदेशोंसे सब लोकको पूर्ण करके लोकपूरणसमुद्घातको प्राप्त होते हैं । लोकपूरणसमुद्घातमें समयोपयोग हो जानेपर योगकी एक वर्गणा हो जाती है ।

विशेषार्थ—लोकपूरणसमुद्घातमें वर्तमान केवलीके लोकेप्रमाण समस्त जीव-प्रदेशोंमे योगके अविभागप्रतिच्छेद वृद्धि-हानिसे रहित होकर सदृश हो जाते हैं । अत एव सब जीवप्रदेशोंके परस्परमें समान होनेसे उन जीवप्रदेशोंकी एक वर्गणा हो जाती है ।

इस अवस्थामें भी स्थिति और अनुभागको पूर्वके ही समान नष्ट करते हैं ।

१ कपाटमिव कपाटम् । क उपमार्थे ? यथा कपाट वाहल्येन स्तोऋमेव भूत्वा त्रिक्रमायामभ्यां परिवर्धते एवमयमपि जीवप्रदेशावस्थाविशेष मूलशरीरवाहल्येन तत्रिगुणवाहल्येन वा देसूणचोद्दसरज्जुआयामेण सत्तरज्जु-विक्खमेण वड्ढिहाणिगदत्रिक्रमेण वा वड्ढियूण चिद्धदि त्ति क्वाडसमुग्घादो त्ति मण्णदे, परिप्फुड्ढमेत्तेत्थ क्वाड-सठाणोवलमादो । जयध अ प. १२३८.

२ मय्यतेऽनेन कमेति मन्य , अघादिक्रमाण द्विदिअणुभागणिव्वुहणट्ठो केवल्लिजीवपदेसाणभवत्थाविसेसो पदरसण्णिदो मथो त्ति वुत्त होई । जयध अ प १२३८.

३ वादवल्यावरुद्धलोगागासपदेसेसु वि जीवपदेसेसु समतदो गिरत्तर पविट्ठेसु लोगपूरणसण्णिद चउत्थ केवल्लिसमुग्घादमेसो तदवत्थाए पडिवज्जदि त्ति मण्णिद होदि । जयध अ प १२३९.

४ लोगे पुण्णे एक्का वग्गणा जोगस्स त्ति समजोगो णायव्वो । लोगपूरणसमुग्घादे वट्ठमाणस्सेदस्स केवल्लिणो लोगमेत्तासेसजीवपदेसेसु जोगाविभागपल्लिच्छेदा वड्ढीहाणीहि विणा सरिसा चैव होदूण परिणमति । तेण सव्वे जीवपदेसा अण्णोण्ण सरिसधणियसरूवेण परिणदा सता एया वग्गणा जादा । तदो समजोगो त्ति एसो तदवत्थाए णायव्वो, जोगसत्तीए सव्वजीवपदेसेसु सरिसमाव मोत्तूण विसरिसमावाणुवलमादो त्ति वुत्त होई ॥ जयध अ प. १२३९.

५ ठिदिखड्ढमसखेज्जे भागे रसखंडमप्पसत्थाण । हणदि अणता भागा दडादी चउत्तु समएसु ॥ लब्धि, ६२४.

अंतोमुहुत्तद्धिदिं ठवेदि संखेज्जगुणमाउआदो' । एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मसाण-  
मणुभागस्स अणुसमयओवट्टणा, एगसमइयो द्विदिखंडयस्स घादो' । एत्तो सेसियाए  
द्विदीए संखेज्जे भागे हणदि । सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणदि । एत्तो पाए  
द्विदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतोमुहुत्तिया उक्कीरणद्धा ।

एत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण वादरकायजोगेण वादरमणजोगं णिरुंभदि । तदो अंतो-  
मुहुत्तेण वादरकायजोगेण वादरवचिजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण  
वादरउस्सासणिस्सासं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तेण वादरकायजोगेण तमेव वादरकायजोगं  
णिरुंभदि' । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुममणजोगं णिरुंभदि । तदो  
अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमवचिजोगं णिरुंभदि । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण

लोकपूरणसमुद्घातमें आयुसे संख्यातगुणी अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिको स्थापित करता है ।  
इन चार समयोंमें अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना होती है । एक एक  
समयमें एक एक स्थितिकांडकका घात होता है । उतरनेके प्रथम समयसे लेकर शेष  
स्थितिके संख्यात बहुभागको, तथा शेष अनुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करता है ।  
लोकपूरणसमुद्घातके अनन्तर समयसे लेकर स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका  
अन्तर्मुहूर्तमात्र उत्कीरणकाल प्रवर्तमान रहता है ।

यहांसे अन्तर्मुहूर्त जाकर वादर काययोगसे वादर मनोयोगका निरोध करता है ।  
तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्तसे वादर वचनयोगका निरोध करता है । पुनः अन्तर्मुहूर्तसे वादर  
काययोगसे वादर उच्छ्वास निच्छ्वासका निरोध करता है । पुनः अन्तर्मुहूर्तसे वादर  
काययोगसे उसी वादर काययोगका निरोध करता है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त जाकर  
सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म मनोयोगका निरोध करता है । पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म  
वचनयोगका निरोध करता है । पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म

१ जगपूरणमिह एक्का जोगस्स य वगणा ठिदी तस्स । अतोमुहुत्तमेत्ता सखयुणा आउआ होदि ॥  
लब्धि. ६२६.

२ चउसमएसु रसस्स य अणुसमओवट्टणा असत्थाण । ठिदिखडस्सिसगिसमयिगघादो अतोमुहुत्तुवरिं ॥  
लब्धि ६२५.

३ योगनिरोध कुर्वन् प्रथमतो वादरकाययोगबलादन्तर्मुहूर्तमात्रेण वादरवाग्योग निरुणद्धि, तन्निरोधा-  
मंतरं चान्तर्मुहूर्तं स्थित्वा वादरकाययोगोपष्टम्भादेव वादरमनोयोगमन्तर्मुहूर्तमात्रेण निरुणद्धि । ××× वादरमनोयोग-  
निरोधानन्तरं च पुनरप्यन्तर्मुहूर्तं स्थित्वा तत उच्छ्वासनि श्वासान्तर्मुहूर्तमात्रेण निरुणद्धि । तत पुनरप्यन्तर्मुहूर्तं  
स्थित्वा सूक्ष्मकाययोगबलाद्वादरकाययोग निरुणद्धि, वादरयोगे सति सूक्ष्मयोगस्य निरोद्धुमशक्यत्वान् । ×××  
केचिदाहु - वादरकायबलाद्वादरकाययोग निरुणद्धि । युक्तिं चात्र वदन्ति- यथा कारपत्रिक स्तम्भोपरिस्थितस्तमेव  
स्तम्भ छिनत्ति, तथा वादरकाययोगोपष्टम्भाद् वादरकाययोग निहतीति, तदत्र तत्त्वमतिज्ञायिनो विदन्ति ॥  
पचसग्रह १, पृ ३०-३१.

सुहुमउस्सासं णिरुंभदि ।

तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहुमक्रायजोगं णिरुंभमाणो' इमाणि करणाणि करोदि'— पढमसमए अपुव्वफद्दयाणि करोदि पुव्वफद्दयाण हेट्टादो । आदि-वग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोकड्ढदि, जीवपदेसाणं च असंखेज्जदि-भागमोकड्ढदि । एवमंतोमुहुत्तमपुव्वफद्दयाणि करोदि' । असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए जीवपदेसाणं च असंखेज्जगुणाए सेडीए' । अपुव्वफद्दयाणि सेडीए असंखेज्जदि-भागो, सेडीवग्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागो, पुव्वफद्दयाणं पि असंखेज्जदिभागो

उच्छ्वासका निरोध करता है ।

पुनः अन्तर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म काययोगसे सूक्ष्म काययोगका निरोध करता हुआ इन करणोंको करता है— प्रथम समयमें पूर्वस्पर्द्धकोंके नीचे अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता है । पूर्वस्पर्द्धकोंसे जीवप्रदेशोका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता हुआ पूर्वस्पर्द्धकोंकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है, जीव-प्रदेशोंके भी असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक अपूर्वस्पर्द्धकोंको करता है । इन अपूर्वस्पर्द्धकोंको प्रतिसमय असंख्यातगुणी हीन श्रेणीके क्रमसे करता है । परन्तु जीवप्रदेशोंका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीके क्रमसे होता है । ये सब अपूर्वस्पर्द्धक जगश्रेणीके असंख्यातवें भाग, श्रेणिवर्गमूलके भी असंख्यातवें

१ ततोऽनतरसमये सूक्ष्मकाययोगोपष्टम्मादन्तर्मुहूर्त्तमात्रेण सूक्ष्मवायोग निरुणद्धि । ततो निरुद्धसूक्ष्म-वायोगोऽन्तर्मुहूर्त्तमास्ते, नान्यसूक्ष्मयोगनिरोध प्रति प्रयत्नवान् भवति । ततोऽनतरसमये सूक्ष्मकाययोगोपष्टम्मा-त्सूक्ष्ममनोयोगमन्तर्मुहूर्त्तमात्रेण निरुणद्धि । तत पुनरपि अन्तर्मुहूर्त्तमास्ते । तत सूक्ष्मकाययोगबलात्सूक्ष्मकाययोग-मन्तर्मुहूर्त्तेन निरुणद्धि । पचसग्रह १, पृ ३२

२ वादरमण वचि उस्सास कायजोग तु सुहुमचउक्क । स्मदि कमसो वादरसुहमेण य कायजोगेण ॥ एक्केक्कस्स णिठमणकालो अतोमुहुत्तमेत्तो हु । सुहुम देहणिमाणमाण हियमाणि करणाणि ॥ लब्धि ६२८, ६३०

३ सुहुमस्स य पढमादो मुहुत्तअतो चि कुणदि हु अपुव्वे । पुव्वगफद्दगहेट्टा सेटिस्स असखसागामिदो ॥ पुव्वादिवग्गणाण जीवपदेमा विभागपिंडादो । होदि असख माग अपुव्वपढमहि ताण दुग ॥ लब्धि ६३१-६३२ वादर च काययोग निरुधान पूर्वस्पर्द्धकानामधस्तादपूर्वस्पर्द्धकानि करोति । ××× तत्र पूर्वस्पर्द्धकानामधस्तन्यो या प्रथमादिवर्गणा सन्ति, तासा ये वीर्याविभागपरिच्छेदास्तेषामसख्येयान् भागानाकर्षति, एकमसख्येयमाग सुञ्चति । जीवप्रदेशानामपि चैकमसख्येय भागमाकर्षति, शेष सर्वं स्थापयति । एष वादरकाययोगनिरोधप्रथम-समयव्यापार । ××× द्वितीयसमये प्रथमसमयाकृष्टजीवप्रदेशासख्येयमागादसख्येयगुण माग जीवप्रदेशानामाकर्षति, भावतोऽसख्येयान् भागानाकर्षतीत्यर्थ । वीर्याविभागपरिच्छेदानामपि प्रथमसमयाकृष्टाद् भागादसख्येयगुणहीन मागमा-कर्षति । एवं प्रतिसमय समाकृत्य तावदपूर्वस्पर्द्धकानि करोति यावदन्तर्मुहूर्त्तचरमसमय । पचसग्रह-१, पृ ३१

४ उक्कदि पडिसमय जीवपदेसे असखगुणियक्के । कुणदि अपुव्वफद्दयं तग्गुणहीनक्केमेणेव ॥ लब्धि ६३३



सञ्चाणि अपुञ्चफह्याणि' ।

एत्तो अंतोमुहुत्तं किट्टीओ कोदि । अपुञ्चफह्याणमादिवग्गणाए अविभाग-  
पडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोक्कइदि । जीवपदेमाणं असंखेज्जदिभागमोक्कइदि । एत्थ  
अंतोमुहुत्तं किट्टीओ कोदि असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए । जीवपदेमाणमसंखेज्जगुणाए  
सेडीए ओक्कइदि । किट्टीगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । किट्टीओ सेडीए  
असंखेज्जदिभागो, अपुञ्चफह्याणं पि असंखेज्जदिभागो । किट्टीकरणे णिट्ठिदे तदो से काले  
पुञ्चफह्याणि अपुञ्चफह्याणि च णासेदि । अंतोमुहुत्तं किट्टीगदजोगो होदि । सुहुम-  
क्किरियं अप्पडिवादि ज्ञाणं ज्ञायदि । किट्टीणं च चरिमसमए असंखेजे भागे णासेदि ।

भाग, और पूर्वस्पर्द्धाको भी असंख्यातवें भागमात्र होते हैं ।

अपूर्वस्पर्द्धाको करनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टियोंको करता है । अपूर्व-  
स्पर्द्धाकी प्रथम वर्गणासम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदाँके असंख्यातवें भागका अपकर्षण  
करता है । कृष्टियोंको करनेवाला जीवप्रदेशोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है ।  
यहां अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यातगुणी हीन श्रेणीके क्रमसे कृष्टियोंको करता है । किन्तु  
जीवप्रदेशोंका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीसे करता है । कृष्टिगुणकार पत्योपमका  
असंख्यातवां भाग है । ये कृष्टियां श्रेणीके असंख्यातवें भाग और अपूर्वस्पर्द्धाको भी  
असंख्यातवें भागप्रमाण होती हैं । कृष्टिकरणके समाप्त होनेपर उसके अनन्तर समयमें  
पूर्वस्पर्द्धाको और अपूर्वस्पर्द्धाको नष्ट करता है । अन्तर्मुहूर्त काल तक कृष्टिगत योगवाला  
होता है । उस समय केवली भगवान् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुद्धध्यानको ध्याते हैं । सयोगि-  
गुणस्थानके अन्तिम समयमें कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागोंको नष्ट करते हैं । योगका निरोध

१ सेदिपत्त अस्सं माग पुञ्चा षड्दयां वा । सत्ते णीति अणुञ्जा हु षड्दया जोगपटिद्धा ॥ लखि.  
६३४. किण्ठि एत्त. स्पर्द्धाणि ओगीति चेत्, उच्यते— अविभागमूलस्यासत्येयमागमात्राणि, पूर्वस्पर्द्धादान-  
सत्येयमागमात्रा गीति यावत् । पंचमः १, पृ. ३१.

२ एत्तो कोदि किट्टिं सुहुत्तं अंतोत्ति ते अणुञ्जा । हेत्ताहु षड्दया । मेदिन्त अमंखनागणितं ॥ अणुञ्जादि-  
वग्गणानं जीवपदेसाविभागपिडागे । णीति अमंखं मागं किट्टीगदमन्दि ता हुं ॥ लखि. ६३५-६३६.

३ उक्कइदि पडिस्सयं जीवपदेसं असंखगुणियत्तमे । तरुपहाणक्कमेव य कोदि किट्टिं तु पडिस्सय ॥  
लखि ६३७.

४ सेदिपत्त अस्सं मागपुञ्चा षड्दयां वा । सञ्चाणे किट्टीओ पडत्त अस्संखनागणितवन्ना ॥  
लखि. ६३८.

५ किट्टीकरणे तस्से से काले उमयमदुये सत्ते । णासेइ सुहुत्तं तु किट्टीगदवेवगो जोगो ॥ लखि. ६४०.

६ किट्टिगलोगी शां मायदि तवियं तु सुहुत्तकिट्टिं तु । चरिमे अस्संखमागे किट्टीणं णासेदि सदीगो ॥  
लखि ६४२.

जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउसमाणि कम्माणि भवंति ।

तदो अंतोमुहुत्तं जोगाभावेण णिरुद्धासवत्तादो सेलेसिं पडिवज्जदि', समुच्छिण्ण-किरियं अणियट्टिसुकज्झाणं ज्ञायदि' । देवगदीए पंचण्हं सरीराणं पंचसरीरबंधणाणं पंचसरीरसंघादाणं छण्हं संठाणाणं तिण्णमंगोवंग्गाणं छण्हं संघडणाणं पंचण्हं वण्णाणं दोण्हं गंधाणं पंचण्हं रसाणं अट्टण्हं पासाणं मणुस-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वीए अगुरुगलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं पसत्थापसत्थविहायगदीणं पत्तेयसरीर-अपज्जत्ताणं थिराथिर-सुभासुभ-सुस्सरदुस्सराणं दुभग-अणादेज्जाणं अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं अण्णदर-वेदणीयाणं संतस्स सेलेसिं अट्टाए दुचरिमसमए वोच्छेदो । अण्णदरवेदणीय-मणुसगदि-मणुसाउ-पंचिदियजादि-तस-वादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज-जसकित्ति-तित्थयर-उच्चागोदं ति एंदाओ पयडीओ सेलेसिं चरिमसमए वोच्छिण्णाओ । सन्वकम्मविप्पमुक्को एगसमएण

हो जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, ये तीन अघातिया कर्म आयुके सदृश हो जाते हैं ।

तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल तक अयोगिकेवलीके योगका अभाव हो जानेसे आस्रवका निरोध हो जाता है, अत एव वे शैलेश्य अर्थात् अठारह सहस्र शीलोंके पेकाधिपत्यको प्राप्त होते हैं । उस समय वे अयोगी भगवान् समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यानको ध्याते हैं । देवगति, पांच शरीर, पांच शरीरबन्धन, पांच शरीरसंघात, छह संस्थान, तीन आंगोपांग, छह संहनन, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, प्रत्येकशरीर, अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुस्वर-दुस्वर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और दोनों वेदनीयोंमेंसे अनुदयप्राप्त एक वेदनीय, इन तिहत्तर प्रकृतियोंके सत्वकी व्युच्छित्ति अयोगिकालके द्विचरम समयमें हो जाती है । शेष एक वेदनीय, मनुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थकर और उच्चगोत्र, ये वारह प्रकृतियाँ अयोगिकालके अन्तिम समयमें व्युच्छिन्न हो जाती हैं । तब सर्व कर्मोंसे वियुक्त होकर

१ सेलेसिं सपत्तो णिरुद्धणित्सेसआसओ जीवो । वधरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होह ॥ लब्धि ६४७  
अष्टादशसहस्रशीलाधिपत्य प्राप्त । गो जी ६५ जी प्र टीका शैलेश सर्वसर्वरूपचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था ।  
शैलेशो वा मेरुस्तस्येव याञ्चस्था स्थिरतासाधर्म्यात् सा शैलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पचहस्वाक्षरोच्चार-  
कालमाना । व्याख्याप्रज्ञप्ति १, ८, ७२ अमयदेवीया वृत्ति ।

२ ततस्तदनन्तर समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिध्यानमारमते । समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकायवाङ्मनोयोगसर्व-  
प्रदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात्समुच्छिन्नक्रियानिवर्तित्युच्यते । स सि ९,४४ से काके जोगिजिणो ताहे आउगसमा  
हि कम्माणि । तुरियं तु समुच्छिण्ण किरिय ज्ञायदि अयोगिजिणो ॥ लब्धि ६४६

सिद्धिं गच्छदि ।

एवं दोहि सुत्तेहि स्रद्धतथस्स परुवणाए कदाए संपुण्णं चारित्तप्पडिवज्जण-  
विहाणं परुविदं होदि ।

एव अट्टमी महल्लचूलिया समत्ता

### णवमी चूलिया

संपहि वासद्दसुइयं णवमं चूलियं वत्तइस्सामो । तत्थ ताव पुव्वपरुविदस्स  
अत्थस्स संभालणद्धमुत्तरसुत्तं भणदि—

णेरइया मिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ १ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, चदुसु वि गदीसु पढमसम्मत्तमुप्पादेति ति पुव्वं  
परुविदत्तादो ।

आत्मा एक समयमें सिद्धिको प्राप्त करता है ।

इस प्रकार दो सूत्रोंसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करनेपर सम्पूर्ण चरित्रकी प्राप्तिका  
विधान प्ररूपित होता है ।

इस प्रकार आठवीं महती चूलिका समाप्त हुई ।

अब हम (प्रथम चूलिकान्तर्गत प्रथम सूत्रमें) 'वा' शब्दके द्वारा सूचित (देखो  
पृ. १ और ४) गति-आगति नामक नौमी चूलिकाको कहेंगे । इस प्रकरणमें पूर्वप्ररूपित  
अर्थका स्मरण करानेके लिये आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि पूर्वमें यह प्ररूपित किया जा चुका है कि  
चारों ही गतियोंमें जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ।

१ स सि १० २ वाहत्तरिपयर्डीओ दुचरिमगे तेरस च चरिमहि । ज्ञाणजलणेण कवलिय  
सिद्धो सो होदि से काले ॥ लब्धि ६४८ देहादीफत्सता थिरसुहसरसरविहायदुग दुमगं । गिभिणाजसणादेज्जं  
पत्तेयापुण्ण अगुरुचऊ ॥ अणुदयतद्विय णीचमजोगिदुचरिमम्भि सत्तवोच्छिण्णा ॥ गो क ३४०-३४१. तस्मिंश्च  
द्विचरमसमये देवगतिदेवानुपूर्वा द्विमसतिसस्यानि स्वरूपसत्तामधिकृत्य क्षयमुपगच्छन्ति । ××× चरमसमये  
च सातासातान्यतरवेदनीयमनुप्यगतिसनुप्यानुपूर्वामनुप्यायु पचेन्द्रियजातित्रमसुभगादेययण कीर्त्तिपर्याप्तवादरतीर्थकरो-  
चैर्गौरूपाणा त्रयोदशप्रवृत्तीना सत्ताव्यवच्छेद । अन्ये पुनराहु — मनुप्यानुपूर्वा द्विचरमसमये व्यवच्छेद, उदया-  
भावाद् । ××× इति तन्मतेन द्विचरमसमये त्रिसप्ततिप्रवृत्तीनां सत्ताव्यवच्छेद, चरमसमये द्वादशानामिति ।  
पचसग्रह १, पृ ३२.

उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ? ॥ २ ॥

आसंकाए कारणाभावा णेदं सुत्तं वत्तव्वं । कुदो ? ' णेरइएसु पढमसम्मत्त-  
मुप्पाएन्ता पज्जत्ता चे उप्पाएन्ति, णो अपज्जत्तेसु ' ति पुव्वं पडिसिद्धत्तादो ? ण एस  
दोसो । अपज्जत्तणामकम्मोदएण अपज्जत्ता भण्णंति । णेरइया पुण पज्जत्ता चेष, तत्थ  
अपज्जत्तणामकम्मस्सुदयाभावा । ते च णेरइया पज्जत्तणामकम्मोदयं पडुच्च पज्जत्ता वि  
संता पज्जत्तणिव्वरत्तिं पडुच्च पज्जत्ता य होन्ति । एत्थ किं पज्जत्तकाले पढमसम्मत्त-  
मुप्पादेति, आहो अपज्जत्तकाले उप्पादेति ति पुच्छा कदा । तदो णिच्छयसमुप्पायणडु-  
मुत्तरसुत्तं भणदि—

पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३ ॥

सुगममेदं ।

पज्जत्तएसु उप्पादेता अंतोमुहुत्तप्पहुडि जाव तप्पाओग्गतो-  
मुहुत्तं उवरिमुप्पादेति, णो हेट्ठा ॥ ४ ॥

प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले नारकी जीव किस अवस्थामें उसे उत्पन्न करते हैं ? ॥ २ ॥

शंका—आसंकाका कोई कारण न होनेसे यह सूत्र नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ' नारकियोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीव पर्याप्त अवस्थामें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तोंमें नहीं ' इस प्रकार अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका पहले ही प्रतिषेध किया जा चुका है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है । अपर्याप्त नाम कर्मके उद्भयसे जीव अपर्याप्त कहलाते हैं । किन्तु नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि नारकोंमें अपर्याप्त नामकर्मके उद्भयका अभाव है । और वे नारकी पर्याप्त नामकर्मके उद्भयकी अपेक्षा पर्याप्त होते हुए भी निर्वृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा अपर्याप्त भी होते हैं । अतएव यहां सूत्रमें यह प्रश्न किया गया है कि नारकी पर्याप्त कालमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, अथवा अपर्याप्त कालमें उत्पन्न करते हैं । अतः इस शंकाके उत्पन्न होनेपर निश्चय उत्पन्न करानेके लिये आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

नारकी जीव पर्याप्तकोंमें ही प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले अन्तर्मुहूर्तसे लगाकर अपने योग्य अन्तर्मुहूर्तके पश्चात् सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, उससे नीचे नहीं ॥ ४ ॥

पञ्जत्तारणं सव्वत्थं सम्मत्तुप्पत्तीए पत्ताए तप्पडिसेहट्टमेदं सुत्तमागदं । तं जहा-  
पञ्जत्तपढमसमयप्पहुडि जाव तप्पाओगंतोमुहुत्तं ताव णिच्छएण पढमसम्मत्तं णो  
उप्पादेति, अंतोमुहुत्तेण विणा पढमसम्मत्तपाओगविसोहीणमुप्पत्तीए अभावादो । आउए  
अंतोमुहुत्तावसेसे वि णेरइया पढमसम्मत्तं ण पडिवज्जंति, तेण तत्थ पडिसेहो वत्तव्वो ?  
ण, पञ्जवट्टियणयावलंघणेण पडिसमयं पुथ पुथ सम्मत्तभावे जीविददुचरिमसमओ त्ति  
पडिवज्जंतस्स तदुवलंभा । चरिमसमए वि ण पडिसेहो वत्तव्वो, दंसणमोहोदएण विणा  
उप्पण्णचरिमसमयसासणभावस्स वि उवयारेण पढमसम्मत्तववदेसादो । अधवा देसामा-  
सिगसुत्तमेदं, तेण अवसाणे वि पढमसम्मत्तगहणस्स पडिसेहो सिद्धो होदि ।

एवं जाव सत्तसु पुढवीसु णेरइया ॥ ५ ॥

सुगममेदं सुत्तं । किंतु पुत्तिल्लसुत्तं सत्तमपुढवीए देसामासियं चैव, सत्तम-  
पुढविम्हि पढमवक्खाणस्स अणुववत्तीए ।

पूर्वोक्त सूत्रसे पर्याप्तकोंके सर्वकाल सम्यक्त्वोत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है, उसीके प्रतिषेधके लिये यह सूत्र आया है । वह इस प्रकार है— पर्याप्त होनेके प्रथम समयसे लगाकर तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहूर्त तक निश्चयसे जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि अन्तर्मुहूर्तकालके विना प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेके योग्य विशुद्धिकी उत्पत्तिका अभाव है ।

शंका—आयुके अन्तर्मुहूर्त शेष रहनेपर भी नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिये उस कालमें भी सम्यक्त्वोत्पत्तिका अभाव कहना चाहिये ?

समाधान—नहीं, पर्यायार्थिक नयके अवलम्बनसे प्रत्येक समय पृथक् पृथक् सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होनेपर जीवनके द्विचरिम समय तक भी सम्यक्त्वकी उत्पत्ति पारी जाती है । चरिम समयमें भी सम्यक्त्वोत्पत्तिका प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शनमोहनीय कर्मके उदयके विना उत्पन्न होनेवाले चरमसमयवर्ती सासादनभावकी भी उपचारसे प्रथमसम्यक्त्व संज्ञा मानी जा सकती है । अथवा, यह सूत्र देशामर्षक है, जिससे जीवनके अवसान कालमें भी प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणका प्रतिषेध सिद्ध हो जाता है ।

इस प्रकार एकसे लगाकर सातों पृथिवियोंमें नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

यह सूत्र सुगम है । किन्तु पूर्वोक्त सूत्र सप्तम पृथिवीके सम्बन्धमें देशामर्षक ही है, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें प्रथम व्याख्यानकी उपपत्ति ठीक नहीं बैठती ।

विशेषार्थ—पूर्व सूत्र नं. ४ के प्रथम व्याख्यानमें जो पर्यायार्थिकनयसे जीवितके

णेरइया मिच्छाइट्ठी कदिहि' कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?

॥ ६ ॥

उप्पज्जमाणं सव्वं हि कज्जं कारणादो चेव उप्पज्जदि, कारणेण विणा कज्जु-  
प्पत्तिविरोहादो । एवं णिच्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिदं पुच्छासुत्तं ।

तीहिं कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ ७ ॥

कधमेयं कज्जं तीहि कारणेहि समुप्पज्जदि ? ण, अविस्सुद्धेहि मोग्गर-लउडि-  
डंगा<sup>१</sup>-थंभ-सिला-भूमि-घडेहिंतो उप्पज्जमाणखप्पराणमुवलंभा । काणि ताणि तिण्णि  
कारणाणि त्ति उत्ते उत्तरसुत्तं भणदि —

द्विचरम समय तक सम्यक्त्वका प्रादुर्भाव बतलाया है वह सप्तम पृथिवीमें लागू नहीं  
होता, क्योंकि वहाँ केवल एक मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ ही मरण होता है। (देखो  
आगे सूत्र नं. ५२) अत एव सप्तम पृथिवीके विषयमें उक्त सूत्रका देशामर्षकरूप  
द्वितीय व्याख्यान ही स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा सप्तम पृथिवीमें भी जीवितके  
द्विचरम समय तक व उपचारसे अन्तिम समयमें भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका प्रसंग  
आवेगा, जो सूत्रसे विरुद्ध होगा ।

नारकी मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ? ॥६॥

उत्पन्न होनेवाला सभी कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके  
बिना कार्यकी उत्पत्तिका विरोध है । इस प्रकार निश्चित कारणकी संख्याविषयक यह  
पृच्छासूत्र है ।

तीन कारणोंसे नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ ७ ॥

शंका—यह प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्तिरूप कार्य तीन कारणोंसे किस प्रकार उत्पन्न  
होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मुद्गर, लकड़ी, दंड, स्तम्भ, शिला, भूमि व घट रूप  
अविरुद्ध कारणोंके द्वारा खप्पड़ोंका उत्पन्न होना पाया जाता है ।

नारकोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिके वे तीन कारण कौनसे हैं, ऐसा पूछनेपर आचार्य  
आगेका सूत्र कहते हैं—

१ अ-क प्रस्यो 'कदाहि' आप्रतौ 'कीह' इति पाठ ।

२ अ-आप्रस्यो 'लउदिदगा' कधतौ 'लउदिदग' इति पाठ ।

केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं वेदणाहिभूदा' ॥ ८ ॥

सव्वे णेरइया विभंगणाणेण एकक-दो-तिणिणअदिभवग्गहणाणि जेण जाणंति तेण सव्वेसिं जाइंभरत्तमत्थि त्ति सव्वणेरइएहि सम्मादिट्ठीहि होदव्वमिदि ? ण एस दोसो, भवसामणसरणेण सम्मत्तुप्पत्तीए अणव्वुवगमादो । किंतु धम्मवुद्धीए पुव्वभवग्गिह कयाणुट्टाणाणं विहलत्तदंसणस्स पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणत्तमिच्छिज्जदे, तेण ण पुव्वत्तदोसो दुक्कदि त्ति । ण च एवंविहा बुद्धी सव्वणेरइयाणं होदि, तिव्वमिच्छतो-दएण ओट्टुट्टणेरइयाणं जाणंताणं पि एवंविहउवजोगाभावादो । तम्हा जाइस्सरणं पढम-सम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ।

कथं तेसिं धम्मसुणणं संभवदि, तत्थ रिसीणं गमणाभावा ? ण, सम्माइट्ठिदेवाणं

कितने ही नारकी जीव जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही वेदनासे अभिभूत होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥

शंका—चूंकि सभी नारकी जीव विभंग ज्ञानके द्वारा एक, दो, या तीन आदि भवग्रहण जानते हैं, इसलिये सभीके जातिस्मरण होता है, अतएव सभी नारकी जीव सम्यग्दृष्टि होना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सामान्यरूपसे भवस्मरणके द्वारा सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु धर्मबुद्धिसे पूर्वभवमें किये गये अनुष्ठानोंकी विफलताके दर्शनसे ही प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारणत्व इष्ट है जिससे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नहीं होता । और इस प्रकारकी बुद्धि सब नारकी जीवोंके होती नहीं है, क्योंकि तीव्र मिथ्यात्वके उदयसे वशीभूत नारकी जीवोंके पूर्वभवोंका स्मरण होते हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव है । इस प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण है ।

शंका—नारकी जीवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव है, क्योंकि वहां तो ऋषियोंके गमनका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, अपने पूर्वभवके सम्बन्धी जीवोंके धर्म उत्पन्न

१ धम्मादीखिदितिदये णारइया मिच्छभावसंजुत्ता । जाइभरणेण केईं केईं दुव्वारवेदणाभिहदा ॥ केईं देवाहिंतो धम्मणिबद्धा क्हा वसोदूण । गिण्हते सम्मत्त अणतमवचूरणणिमित्त ॥ त्ति प २, ३५९-३६० बाहं मारकाणा प्राक्चतुर्था सम्यग्दर्शनस्य साधनं केषाञ्चिज्जातिस्मरणं केषाञ्चिद्धर्मश्रवणं केषाञ्चिद्वेदनाभिमव । स सि. १, ७.

पुव्वभवसंबंधीणं धम्मपदुप्पायणे' वावदाणं सयलवाधाविरहियाणं तत्थ गमणदंसणादो ।

वेयणाणुहवणं सम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ण होदि, सच्चणेरइयाणं साहारणत्तादो । जइ होइ, तो सच्चे णेरइया सम्माइड्डिणो होंति । ण चेवं, अणुवलंभा ? परिहारो बुच्चदे- ण वेयणासामणं सम्मत्तुप्पत्तीए कारणं । किंतु जेसिमेसा वेयणा एदम्हादो मिच्छत्तादो इमादो असंजमादो ( वा ) उप्पणोत्ति उवजोगो जादो, तेसिं चैव वेयणा सम्मत्तुप्पत्तीए कारणं, णावरजीवाणं वेयणा, तत्थ एवंविहउवजोगाभावा ।

एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ॥ ९ ॥

सुगममेदं।

चदुसु होड्डिमासु पुढवीसु णेरइया मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ १० ॥

करानेमें प्रवृत्त और समस्त वाधाओंसे रहित सम्यग्दृष्टि देवोंका नरकोंमें गमन देखा जाता है ।

शंका—वेदनाका अनुभवन सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनुभवन तो सब नारकियोंके साधारण होता है । यदि वह अनुभवन सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यग्दृष्टि होंगे । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता ?

समाधान—पूर्वोक्त शंकाका परिहार कहते हैं । वेदना-सामान्य सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं है । किन्तु जिन जीवोंके ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना अमुक मिथ्यात्वके कारण या अमुक असंयमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवोंकी वेदना सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण होती है । अन्य जीवोंकी वेदना नरकोंमें सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण नहीं होती, क्योंकि उसमें उक्त प्रकारके उपयोग का अभाव होता है ।

इस प्रकार ऊपरकी तीन पृथिवियोंमें नारकी जीव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति करते हैं ॥ ९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नीचेकी चार पृथिवियोंमें नारकी मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ १० ॥



सुगममेदं हि पुच्छासुत्तं ।

दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ ११ ॥

एदं पि सुत्तं सुगमं ।

केइं जाइस्सरा, केइं वेयणाहिभूदा' ॥ १२ ॥

धम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स तत्थ उप्पत्ती णत्थि, देवाणं तत्थ गमणाभावा ।  
तत्थतणसम्माइद्धिधम्मसवणादो पढमसम्मत्तस्स उप्पत्ती किण्ण होदि त्ति बुत्ते ण होदि,  
तेसिं भवसंबंधेण पुच्चव्वरसंबंधेण वा परोप्परविरुद्धाणं अणुगेज्झणुग्गाहयभावाणम-  
संभवादो ।

तिरिक्खमिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ १३ ॥

तत्थ पढमसम्मत्तकारणतिविहकरणणं संभवादो । सेसं सुगमं ।

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

नीचेकी चार पृथिवियोंमें नारकी मिथ्यादृष्टि जीव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वकी  
उत्पन्न करते हैं ॥ ११ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

कितने ही जीव जातिस्मरणसे और कितने ही वेदनासे अभिभूत होकर सम्यक्त्वकी  
उत्पत्ति करते हैं ॥ १२ ॥

नीचेकी चार पृथिवियोंमें धर्मश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं  
होती, क्योंकि वहां देवोंके गमनका अभाव है ।

शंका—नीचेकी चार पृथिवियोंमें विद्यमान सम्यग्दृष्टियोंसे धर्मश्रवणके द्वारा  
प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भवसम्बन्धसे  
या पूर्व वैरके सम्बन्धसे परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवोंके अनुगृह्य-अनुग्राहक भाव  
उत्पन्न होना असंभव है ।

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥

क्योंकि तिर्यंचोंमें प्रथम सम्यक्त्वके कारणभूत तीनों प्रकारके कारण संभव हैं ।  
शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

१ पकपहापहुदीण णारइया तिदसबोहणेण विणा । सुमरिदजाईदुक्खप्पहदा गेण्हति सम्मत्त ॥  
ति प २, ३६१ चतुर्थीमारम्य आ सप्तम्या नारकाणा जातिस्मरण वेदनामिमवन्न । स सि. १, ७.

उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ? ॥ १४ ॥

किमेइंदिएसु किं वा वादरेइंदिएसु किं सुहुमेइंदिएसु किं वि-ति-चउ-पंचिंदिएसु ति वुत्तं होदि ।

पंचिंदिएसु उप्पादेति, णो एइंदिय-विगलिंदिएसु ॥ १५ ॥

कुदो ? एइंदिय-विगलिंदिएसु तिविहकरणपरिणामाभावा । किमदुं तेसिमभावो ? सहावदो ।

पंचिंदिएसु उप्पादेता सण्णीसु उप्पादेति, णो असण्णीसु ॥ १६ ॥

किमदुमसण्णिणो पढमसम्मत्तं णो उप्पादेति ? ण, अच्चंताभावेण कयणिसेहादो ।

सण्णीसु उप्पादेता गम्भोवक्कंतिएसु उप्पादेति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥ १७ ॥

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले तिर्यंच किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ? ॥ १४ ॥

क्या एकेन्द्रियोंमें, क्या वादरएकेन्द्रियोंमें, क्या सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें, अथवा क्या द्वि, त्रि, चतुर या पंच इन्द्रियोंमें तिर्यंच जीव सम्यक्त्वकी उत्पत्ति करते हैं, यह इस सूत्रके द्वारा पूछा गया है ।

तिर्यंच जीव पंचेन्द्रियोंमें ही प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, एकेन्द्रियों और विकलेन्द्रियोंमें नहीं ॥ १५ ॥

क्योंकि, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें त्रिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है ।

शंका—एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें त्रिविध करणके योग्य परिणामोंका अभाव क्यों है ?

समाधान—उक्त जीवोंमें स्वभावसे ही त्रिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है ।

पंचेन्द्रियोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले तिर्यंच जीव संज्ञी जीवोंमें ही उत्पन्न करते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ १६ ॥

शंका—असंज्ञी तिर्यंच प्रथम सम्यक्त्व क्यों नहीं उत्पन्न करते ?

समाधान—नहीं करते, क्योंकि असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभावरूपसे निषेध किया गया है ।

संज्ञी तिर्यंचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव गर्भोपक्रान्तिक जीवोंमें ही उत्पन्न करते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं ॥ १७ ॥

एत्थ वि अच्चंताभावो चेव, पढमसम्मत्तुप्पत्तीए पडिसेहादो ।  
गब्भोवक्कंतिएसु उप्पादेता पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्ज-  
त्तएसु ॥ १८ ॥

एत्थ वि तं चेव कारणं । को अच्चंताभावो ? करणपरिणामाभावो । सेसं सुगमं ।  
पज्जत्तएसु उप्पादेता दिवसपुधत्तप्पहुडि जावमुवरिमुप्पादेति,  
णो हेट्टादो ॥ १९ ॥

दिवसपुधत्तमिदि बुत्ते सत्तद्ध दिवसा एत्थ ण घेप्पंति । एसो पुधत्तसदो वड-  
पुल्लियवायओ त्ति बहुएसु दिवसपुधत्तेसु गदेसु पढमसम्मत्तमुप्पादेति त्ति वत्तव्वं ।

एवं जाव सब्बदीव-समुद्देसु ॥ २० ॥

णत्थि मच्छा वा मगरा वा त्ति जेण तसजीवपडिसेहो भोगभूमिपडिभागिएसु

यहां अर्थात् सम्मूर्च्छिम जीवोंमें भी प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका प्रतिषेध होनेसे अत्यन्ताभाव ही है ।

गर्भोपक्रान्तिक तिर्यचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव पर्याप्तकोंमें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १८ ॥

यहां अर्थात् अपर्याप्तकोंमें भी पूर्वोक्त प्रतिषेधरूप कारण होनेसे प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है ।

शंका—अत्यन्ताभाव क्या है ?

समाधान—करणपरिणामोंका अभाव ही प्रकृतमें अत्यन्ताभाव कहा गया है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

पर्याप्तक तिर्यचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसपृथक्त्वसे लगाकर उपरिम कालमें उत्पन्न करते हैं, नीचेके कालमें नहीं ॥ १९ ॥

दिवसपृथक्त्व कहनेसे यहां केवल सात-आठ दिनका ही ग्रहण नहीं करना चाहिये । क्योंकि यह पृथक्त्व शब्द वैपुल्यवाचक है, अतः बहुतसे दिवसपृथक्त्व व्यतीत हो जानेपर पूर्वोक्त जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये ।

इस प्रकार सब द्वीप-समुद्रोंमें तिर्यच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २० ॥

शंका—चूंकि ' भोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोंमें मत्स्य या मगर नहीं हैं ' ऐसा

समुद्देशु कदो, तेण तत्थ पढमसम्मत्तस्स उप्पत्ती ण जुज्जदि ति ? ण एस दोसो, पुव्ववइरियदेवेहि खित्तपंचिदियतिरिक्खाणं तत्थ संभवादो ।

तिरिक्खा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तं उप्पादेति ?  
॥ २१ ॥

पुव्विल्लसुत्तेहि पंचिदियतिरिक्खेसु पढमसम्मत्तस्स उप्पत्तीए णिच्छिदाए उप्पत्तिकारणाणं संखापुच्छा अणेण कदा ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणविंबं दट्टुणं ॥ २२ ॥

कथं जिणविंबदंसणं पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणं ? जिणविंबदंसणेण निधत्त-

वहां त्रस जीवोंका प्रतिषेध किया गया है, इसलिये उन समुद्रोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके द्वारा उन समुद्रोंमें डाले गये पंचेन्द्रिय तिर्यचोंकी संभावना है ।

तिर्यच मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ २१ ॥

पूर्वोक्त सूत्रोंद्वारा पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निश्चित हो जानेपर उसके उत्पत्तिकारणोंकी संख्यासम्बन्धी पृच्छा इस सूत्रद्वारा की गई है ।

पूर्वोक्त पंचेन्द्रिय तिर्यच तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं— कितने ही तिर्यच जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिनविम्बोंके दर्शन करके ॥ २२ ॥

शंका—जिनविम्बका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार होता है ?

समाधान—जिनविम्बके दर्शनसे निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादि

केइं पडिवांहेणेण य केइं सहविण तासु भूमीसु । दट्टुणं सुहदुक्ख केइं तिरिक्खा बहुपयार ॥ जाइभरणेण केइं केइं जिणिवस्स माहिमदसणदो । जिणविंबदसणेण य पढमुवसम वेदग च गेण्हति ॥ ति. प. ५, ३०८-३०९; तिरिभा केयाञ्चिज्जातिस्मरण केयाञ्चिद्धर्मभ्रवण केयाञ्चिज्जिनविम्बदर्शनम् । स सि १, ७.

णिकाधिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदंसणादो । तथा चोक्तं—

दर्शनेन जिनेन्द्राणा पापसघातकुजरम् ।

शतधाभेदमायाति गिरिर्वज्रहतो यथा ॥ १ ॥

सेसं सुगमं ।

मणुस्सा मिच्छादिट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ २३ ॥

मणुसेसु पढमसम्मत्तुप्पत्तीणिमित्तिविहकरणपरिणामाणं संभवादो । सेसं सुगमं ।

उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ? ॥ २४ ॥

गब्भोवक्कंतियादिभेदमवोक्खिय एदस्स पुच्छासुत्तस्स अवयारो ।

गब्भोवक्कंतिएसु पढमसम्मत्तमुप्पादेति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥२५॥

पढमसम्मत्तस्स अच्चंताभावस्स अवह्राणादो । सेसं सुगमं ।

गब्भोवक्कंतिएसु उप्पादेता पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्ज-  
त्तएसु ॥ २६ ॥

कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, जिससे जिनविम्बका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है । कहा भी है —

जिनेन्द्रोंके दर्शनसे पापसंघातरूपी कुंजरके सौ टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार कि वज्रके आघातसे पर्वतके सौ टुकड़े हो जाते हैं ॥ १ ॥

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ २३ ॥

क्योंकि, मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्तभूत तीन प्रकारके कारण-परिणामोंका होना संभव है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ? ॥ २४ ॥

गर्भोपक्रान्तिकादि भेदकी अपेक्षा करके इस पृच्छासूत्रका अवतार हुआ है ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, सम्मुच्छिमोंमें नहीं ॥ २५ ॥

क्योंकि, सम्मुच्छिम जीवोंमें प्रथम सम्यक्त्वके अत्यन्ताभावका नियम है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

गर्भोपक्रान्तिकोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य पर्याप्तकोंमें ही उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ २६ ॥

कुदो ? अपज्जत्तभावस्स पढमसम्मत्तुप्पत्तीए अच्चंताभावादो ।

पज्जत्तएसु उप्पादेता अट्ठवासप्पहुडि जाव उवरिमुप्पादेति, णो हेट्ठादो ॥ २७ ॥

कुदो ? पज्जत्तपढमसमयप्पहुडि जाव अट्ठ वस्साणि त्ति ताव एदिस्से अवत्थाए पढमसम्मत्तुप्पत्तीए अच्चंताभावस्स अवट्ठाणादो

एवं जाव अट्ठाइज्जदीव-समुद्देसु ॥ २८ ॥

सुगममेदं ।

मणुस्सा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ? ॥ २९ ॥

एदं कारणसंखाविसयं पुच्छासुत्तं सुगमं ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति-- केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणविंवं दट्ठणं ॥ ३० ॥

क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है ।

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले गर्भोपक्रान्तिक मिथ्यादृष्टि मनुष्य आठ वर्षसे लेकर ऊपर किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं ॥ २७ ॥

इसका कारण यह है कि पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लगाकर आठ वर्ष पर्यन्तकी अवस्थामें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके अत्यन्ताभाव का नियम है ।

इस प्रकार अट्ठाई द्वीप-समुद्रोंमें मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ २८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ २९ ॥

मिथ्यादृष्टि मनुष्योंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कारणोंकी संख्यासम्बन्धी यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं-- कितने ही मनुष्य जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिन-विम्बके दर्शन करके ॥ ३० ॥

जिणमहिमं दद्वुण वि केहं पढमसम्मत्तं पडिवज्जंता अत्थि तेण चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्तं पडिवज्जंति त्ति वत्तव्वं ? ण एस दोसो, एदस्स जिणविंवदंसणे अंत-  
 षभावादो । अधवा मणुसमिच्छाइट्ठीणं गयणगमणविरहियाणं चउव्विहदेवणिकाएहि णंदीसर-  
 जिणवरं-पडिमाणं कीरमाणमहामहिमावलोयणे संभवाभावा । मेरुजिणवरंमहिमाओ विजा-  
 धरमिच्छादिट्ठिणो पेच्छंति त्ति एस अत्थो ण वत्तव्वओ त्ति केहं भणंति । तेण पुव्वुत्तो  
 चेव अत्थो धेत्तव्वो । लद्धिसंपण्णरिसिदंसणं पि पढमसम्मत्तुप्पत्तीए कारणं होदि,  
 तमेत्थ पुध किण्ण भण्णदे ? ण, एदस्स वि जिणविंवदंसणे अंतषभावादो । उज्जंत-  
 चंपा-पावाणयरादिदंसणं पि एदेणेव धेत्तव्वं । कुदो ? तत्थतणजिणविंवदंसण-जिणणिव्वुइ-  
 गमणकहणेहि विणा पढमसम्मत्तगहणाभावा । णइसग्गियमवि पढमसम्मत्तं तच्चव्वे

शंका — जिनमहिमाको देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, इसलिये चार कारणोंसे मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनमहिमादर्शनका जिनविम्बदर्शनमें अन्तर्भाव हो जाता है । अथवा, मिथ्यादृष्टि मनुष्योंके आकाशमें गमन करनेकी शक्ति न होनेसे उनके चतुर्विध देवनिर्कार्योंके द्वारा किये जानेवाले नंदीश्वर द्वीपवर्ती जिनेन्द्र-  
 प्रतिमाओंके महामहोत्सवका देखना संभव नहीं है, इसलिये उनके जिनमहिमादर्शनरूप कारणका अभाव है । किन्तु मेरूपर्वतपर किये जानेवाले जिनेन्द्रमहोत्सवोंको विद्याधर मिथ्यादृष्टि देखते हैं, इसलिये उपर्युक्त अर्थ नहीं कहना चाहिये, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं । अतएव पूर्वोक्त अर्थ ही ग्रहण करना योग्य है ।

शंका — लब्धिसम्पन्न ऋषियोंका दर्शन भी तो प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होता है, अतएव इस कारणको यहाँ पृथक् रूपसे क्यों नहीं कहा ?

समाधान — नहीं कहा, क्योंकि लब्धिसम्पन्न ऋषियोंके दर्शनका भी जिनविम्ब-  
 दर्शनमें ही अन्तर्भाव हो जाता है ।

ऊर्जयन्त पर्वत तथा चम्पापुर व पावापुर आदिके दर्शनका भी जिनविम्बदर्शनके भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रदेशवर्ती जिनविम्बोंके दर्शन तथा जिनभगवान्के मोक्षगमनके कथनके विना प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं हो सकता ।

तत्त्वार्थसूत्रमें नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया है, उसका भी

.....  
 केहं केह जिणिदस्स महिमदसणंदो । जिणविंवदंसणेण उवसेमपहुद्वीणि केह गेण्हति ॥ ति. पं. ४, २९५५=२९५६,  
 मंथुप्याणामपि तथैव । स सि. १, ७

१ प्रतिपु 'जिणहर' इति पाठ ।

उत्तं, तं हि' एत्थेव दट्ठच्चं, जाइस्सरण-जिणविंदसणेहि विणा उप्पज्जमाणणइसग्गिय-पढमसम्मत्तस्स असंभवादो ।

देवा मिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पादेति ॥ ३१ ॥

कुदो ? तत्थ पढमसम्मत्तजोग्गतिविहकरणपरिणामाणमुवलंभा ।

उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ? ॥ ३२ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्जत्तएसु ॥ ३३ ॥

कुदो ? अपज्जत्तएसु पढमसम्मत्तुप्पत्तीए अच्चंताभावेसु तदुप्पत्तिविरोहादो ।

पज्जत्तएसु उप्पाएता अंतोमुहुत्तप्पहुडि जाव उवरि उप्पाएति,  
णो हेट्ठदो ॥ ३४ ॥

पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिये, क्योंकि, जातिस्मरण और जिनविम्बदर्शनके विना उत्पन्न होनेवाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक्त्व असंभव है ।

देव मिथ्यादृष्टि प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वके योग्य तीन प्रकारके करण-परिणाम पाये जाते हैं ।

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ? ॥ ३२ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव पर्याप्तकोंमें उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है, और इस-लिये उनमें उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है ।

पर्याप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव अन्तर्मुहूर्तकालसे लेकर ऊपर उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें नहीं ॥ ३४ ॥



कुदो ? पज्जत्तपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तम्हि तिविहकरणपरिणामाभावादो ।

एवं जाव उवरिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा त्ति ॥ ३५ ॥

सुगममेदं ।

देवा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ? ॥ ३६ ॥

पढमसम्मत्तं कज्जं । कुदो ? अण्णहा तस्सुप्पत्तिविरोहादो । कज्जं च कारणादो  
उप्पज्जदि, णिक्कारणस्स उप्पत्तिविरोहादो । तं च कारणादो उप्पज्जमाणं पढमसम्मत्तं  
कदिहि कारणेहि उप्पज्जदि त्ति पुच्छा कदा ।

चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पाएंति— केइं जाइस्सरा, केइं  
सोऊण, केइं जिणमहिमं दट्टूण, केइं देविद्धिं दट्टूण ॥ ३७ ॥

जिणविंवदंसणं पढमसम्मत्तस्स कारणत्तेण एत्थ किण्ण उत्तं ? ण एस दोसो,  
जिणमहिमदंसणम्मि तस्स अंतवभावादो, जिणविंवेण विणा जिणमहिमाए अणुववत्तीदो ।

क्योंकि, पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकाल तक तीन प्रकारके  
करणपरिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

इस प्रकार ऊपर ऊपर त्रैवेयकविमानवासी देव तक प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण  
करते हैं ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ ३६ ॥

प्रथम सम्यक्त्व कार्य है, क्योंकि, अन्यथा उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता  
है । और कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके विना कार्यकी  
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है । अतएव कारणसे उत्पन्न होनेवाला वह प्रथम सम्यक्त्व  
कितने कारणोंसे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न इस सूत्रमें किया गया है ।

मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं— कितने ही  
जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनमहिमा देखकर और  
कितने ही देवोंकी श्राद्धि देखकर ॥ ३७ ॥

शंका—यहां जिनविम्बदर्शनको प्रथम सम्यक्त्वके कारणरूपसे क्यों नहीं कहा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनविम्बदर्शनका जिनमहिमादर्शनमें  
ही अन्तर्भाव हो जाता है, कारण कि जिनविम्बके विना जिनमहिमाकी उपपत्ति बनती  
नहीं है ।

सग्गोयरण-जम्माहिसेय-परिणिक्खमणजिणमहिमाओ जिणविंबेण विणा कीरमाणीओ दिस्संति त्ति जिणविंबदंसणस्स अविणाभावो णत्थि त्ति णासंकणिज्जं, तत्थ वि भावि-जिणविंबस्स दंसणुवलंभा । अधवा एदासु महिमासु उप्पज्जमाणपढमसम्मत्तं ण जिण-विंबदंसणणिमित्तं, किंतु जिणगुणश्रवणणिमित्तमिदि ।

देविद्धिदंसणं जाइस्सरणम्मि क्खिण्ण पविसदि ? ण पविसदि, अप्पणो अणिमादि-रिद्धीओ' दड्डूण एदाओ रिद्धीओ' जिणपण्णत्तधम्माणुट्ठाणादो जादाओ त्ति पढमसम्मत्त-पडिवज्जणं जाइस्सरणणिमित्तं । सोहम्मिदादिदेवाणं महिद्धीओ दड्डूण एदाओ सम्मदंसण-संजुत्तसंजमफलेण जादाओ, अहं पुण सम्मत्तविरहिददव्वसंजमफलेण वाहणादिणीच-देवेषु उप्पणो त्ति णादूण पढमसम्मत्तग्गहणं देविद्धिदंसणणिवंधणं । तेण ण दोण्हमेयत्त-मिदि । किं च जाइस्सरणमुप्पणपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालब्भंतरे चैव होदि ।

शंका—स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और परिनिष्क्रमणरूप जिनमहिमार्ये जिन-विम्बके विना की गयी देखी जाती है, इसलिये जिनमहिमादर्शनमें जिनविम्बदर्शनका अविनाभावापना नहीं है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्वर्गावतरण, जन्मा-भिषेक और परिनिष्क्रमणरूप जिनमहिमार्येमें भी भावी जिनविम्बका दर्शन पाया जाता है । अथवा, इन महिमार्येमें उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविम्बदर्शन-निमित्तक नहीं है, किन्तु जिनगुणश्रवण-निमित्तक है ।

शंका—देवर्धिदर्शनका जातिस्मरणमें समावेश क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं होता, क्योंकि अपनी अणिमादिक ऋद्धियोंको देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि ये ऋद्धियां जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुई हैं, तब प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति जातिस्मरणनिमित्तक होती है । किन्तु जब सौधर्मेन्द्रादिक देवोंकी महा ऋद्धियोंको देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये ऋद्धियां सम्यग्दर्शनसे संयुक्त संयमके फलसे प्राप्त हुई हैं, किन्तु मैं सम्यक्त्वसे रहित द्रव्यसंयमके फलसे वाहनादिक नीच देवोंमें उत्पन्न हुआ हूँ, तब प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण देवर्धिदर्शननिमित्तक होता है । इससे जातिस्मरण और देवर्धिदर्शन, ये प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्तिके दोनो कारण एक नहीं हो सकते । तथा जातिस्मरण, उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर ही होता है । किन्तु देवर्धिदर्शन, उत्पन्न

देविद्विदंसणं पुण कालंतरे चव होदि, तेण ण दोणहमेयत्तं । एसो अत्थो णेरइयाणं जाइस्सरण-वेयणाभिभवणाणं पि वत्तव्वो ।

एवं भवणवासिर्यप्पहुडि जाव सदर-सहस्सार-कप्पवासियदेवा  
त्ति ॥ ३८ ॥

सुगममेदं ।

आणद-पाणद-आरण-अच्युदकप्पवासियदेवेषु मिच्छादिद्वी  
कदिहि कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेति ? ॥ ३९ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति- केइं जाइस्सरा, केइं  
सोऊण, केइं जिणमहिमं दट्टूणं ॥ ४० ॥

होनेके समयसे अन्तर्मुहूर्तकालके पश्चात् ही होता है । इसलिये भी उन दोनों कारणोंमें एकत्व नहीं है । यही अर्थ नारकियोंके जातिस्मरण और वेदनाभिभवन रूप कारणोंमें विवेकके लिये भी कहना चाहिये ।

इस प्रकार भवनवासी देवोंसे लगाकर शतार-सहस्रार कल्पवासी देव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ ३८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पोंके निवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ? ॥ ३९ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

पूर्वोक्त आनतादि चार कल्पोंके देव तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं- कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनमहिमाको देखकर ॥ ४० ॥

१ भवणेसु समुप्पणा पज्जति पानिदूण छमेय । जिणमहिमदत्तणेण केई देविद्विदसणदो ॥ जादीए सुमरणेण वरधम्मप्यत्रोहणात्रलद्धीए । गेण्हते सम्मत्तं दुस्तससारणासकर ॥ ति प ३, २३९-२४०. देवाना केपाच्चिज्जातिस्मरण केपाच्चिद्धर्मश्रवण केपाच्चिज्जिनमहिमदर्शन केपाच्चिदेवद्विदर्शनम् । एवं प्रागानतात् । स सि १, ७.

२ आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्विदर्शनं मुत्तवाऽन्यत्तितयमप्यत्ति । स. सि. १, ७. देवा भवन-

देविद्धिदंसणेण चत्तारि कारणाणि किण्ण वुत्ताणि ? तत्थ महिद्धिसंजुत्तुवरिम-  
देवाणमागमाभावा । ण तत्थद्धिददेवाणं महिद्धिदंसणं पढमसम्मत्तुप्पत्तीए णिमित्तं, भूयो-  
दंसणेण तत्थ विम्हयाभावा, सुक्कलेस्साए महिद्धिदंसणेण संकिलेसाभावादो वा । सोऊण  
जं जाइसरणं, देविद्धिं दद्वूण जं च जाइस्सरणं, एदाणि दो वि जदि वि पढमसम्मत्तुप्पत्तीए  
णिमित्तं होंति, तो वि तं सम्मत्तं जाइस्सरणणिमित्तमिदि एत्थ ण घेप्पदि, देविद्धिदंसण-  
सुणणपच्छायदजाइस्सरणणिमित्तत्तादो । किंतु सुणण-देविद्धिदंसणणिमित्तमिदि घेत्तव्वं ।

णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्ठी कदिहि कारणेहि  
पढमसम्मत्तमुप्पादेति ? ॥ ४१ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

शंका—यहांपर देवर्धिदर्शन सहित चार कारण क्यों नहीं कहे ?

समाधान—आनतादि चार कल्पोंमें महर्धिसे संयुक्त ऊपरके देवोंका आगमन  
नहीं होता, इसलिये वहां महर्धिदर्शनरूप प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण नहीं पाया  
जाता । और उन्हीं कल्पोंमें स्थित देवोंकी महर्धिका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका  
निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी ऋद्धिको चार चार देखनेसे विस्मय नहीं होता ।  
अथवा, उक्त कल्पोंमें शुक्कलेस्याके सद्भावके कारण महर्धिके दर्शनसे कोई संक्लेशभाव  
उत्पन्न नहीं होते ।

धर्मोपदेश सुनकर जो जातिस्मरण होता है और देवर्धिको देखकर जो जाति-  
स्मरण होता है, ये दोनों ही जातिस्मरण यद्यपि प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निमित्त  
होते हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सम्यक्त्व यहां जातिस्मरणनिमित्तक नहीं माना गया है,  
क्योंकि यहां देवर्धिके दर्शन व धर्मोपदेशके श्रवणके पश्चात् ही उत्पन्न हुए जाति-  
स्मरणका निमित्त प्राप्त हुआ है । अतएव यहां धर्मोपदेशश्रवण और देवर्धिदर्शनको ही  
निमित्त मानना चाहिये ।

नौ त्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व  
उत्पन्न करते हैं ? ॥ ४१ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

धास्यादय आसहस्रारकल्पाच्चतुर्भि कारणे प्रथमसम्यक्त्व लभन्ते— केचिज्जातिस्मरणेन, इतरे धर्मश्रवणेन, अपरे  
जिनमहिमात्रेक्षणेनान्ये देवर्दिनिरीक्षणेन । आनत प्राणतारणाच्युतपु तरेव देवर्द्विविरहिते । नवसु त्रैवेयकेषु द्वाभ्यां  
कारणाभ्या— जातिस्मरणाद्धर्मश्रवणाच्च । उपरि देवा नियमेन सम्यग्दृष्टय । तत्त्वार्थराजवार्तिक २, ३.

दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण' ॥ ४२ ॥

एत्थ महिद्धिदंसणं णत्थि, उवरिमदेवाणमागमाभावा । जिणमहिमदंसणं पि णत्थि, णंदीसरादिमहिमाणं तेसिमागमणाभावा । ओहिणाणेण तत्थट्ठिया चव जिण-महिमाओ पेच्छंति त्ति जिणमहिमादंसणं विं तेसिं सम्मत्तुप्पत्तीए णिमित्तमिदि किण्ण उच्चदे ? ण, तेसिं वीयरायाणं जिणमहिमादंसणेण विंभयाभावा' । कथं तेसिं धम्म-सुणणसंभवो ? ण- तेसिं अण्णोण्णसल्लावे संते अहमिंदत्तस्स विरोहाभावा ।

नौ ग्रैवेयकविमानवासी मिथ्यादृष्टि देव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं— कितने ही जातिस्मरणसे और कितने ही धर्मोपदेश सुनकर ॥ ४२ ॥

नौ ग्रैवेयकोंमें महर्द्धिदर्शन नहीं है, क्योंकि यहां ऊपरके देवोंके आगमनका अभाव है । यहां जिनमहिमादर्शन भी नहीं है, क्योंकि ग्रैवेयकविमानवासी देव नन्दीश्वरादिके महोत्सव देखने नहीं आते ।

शंका—ग्रैवेयक देव अपने विमानोंमें रहते हुए ही अवधिज्ञानसे जिनमहिमाओंको देखते तो हैं, अतएव जिनमहिमाका दर्शन भी उनके सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें निमित्त होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ग्रैवेयकविमानवासी देव वीतराग होते हैं, अतएव जिनमहिमाके दर्शनसे उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता ।

शंका—ग्रैवेयकविमानवासी देवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर संलाप होनेपर अहमिन्द्रत्वसे विरोध नहीं आता । (अतएव वह संलाप ही धर्मोपदेश रूपसे सम्यक्त्वोत्पत्तिका कारण हो जाता है) ।

विशेषार्थ—तिलोयपण्णत्तिमें सामान्यसे समस्त कल्पवासी देवोंके सम्यक्त्वोत्पत्तिके चारों ही कारणोंका प्रतिपादन किया गया है, और नौ ग्रैवेयकोंमें देवर्द्धिदर्शनको छोड़कर शेष कारणोंका ।

१ नवग्रैवेयकवासिना केषाञ्चिज्जातिस्मरणं केषाञ्चिद्धर्मश्रवणम् । स मि १, ७

२ प्रतिपु ' जिण वि महिमादमण ' इति पाठ ।

३ प्रतिपु ' विभयाभावा ' इति पाठ ।

अणुदिस जाव सब्बट्टुसिद्धिविमाणवासियदेवा सब्बे ते णियमा  
सम्माइट्ठि त्ति पण्णत्ता' ॥ ४३ ॥

सुगममेदं ।

णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णींति' ॥ ४४ ॥

अधिगदा पइट्ठा गदा इदि एयट्ठा । णींति णिस्सरंति णिग्गच्छंति णिप्पीडंति इदि  
एयट्ठो । केइं केचिदित्यर्थः । मिच्छत्तेण सह णिरयगदिं पइस्सिय पुणो तत्थ मिच्छत्तेण  
वा सम्मत्तेण वा अच्छिय अवसाणे मिच्छत्तेण सह केइं णिप्पीडंति त्ति' उत्तं होई ।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति' ॥ ४५ ॥

अनुदिशोसे लगाकर सर्वार्थसिद्धि तकके विमानवासी देव सभी नियमसे  
सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है ॥ ४३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नारकी जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाते हैं और उनमेंसे कितने मिथ्यात्व  
सहित ही नरकसे निकलते हैं ॥ ४४ ॥

अधिगत, प्रविष्ट और गत, ये शब्द एकार्थक ही हैं । णींति अर्थात् निस्सरण करते  
हैं, निर्गमन करते हैं, निप्पीडन करते हैं, इन सबका एक ही अर्थ होता है । 'केइं' का  
अर्थ है केचित् याने कितने ही । मिथ्यात्वके साथ नरकगतिमें प्रवेश करके पुनः वहां  
मिथ्यात्व सहित अथवा सम्यक्त्व सहित रहकर अन्तमें मिथ्यात्व सहित ही कितने ही  
जीव वहांसे निकलते हैं, इस प्रकारका अर्थ यहां कहा गया है ।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सासादनसम्यक्त्व सहित वहांसे  
निकलते हैं ॥ ४५ ॥

१ जिणसाहिमवमणं नेइ जादीनुसरणादो णि । देवद्विदसणेण य ते देवा, देसणवसेण ॥ गेण्हते सम्मत्तं  
णिट्ठाणत्तमुदयमाइणमिच्च । द्दुत्तारगहिरमनारजउहिणोत्तारणोमाय ॥ णवरि हु णवगेवज्जा एदे देवद्विवज्जिदा  
होति । उवरिमचोदमटाणे मन्माउट्ठी सुरा सच्चे ॥ ति' प ८, ६७६-६७८ अनुदिशाउत्तरविमानवासिनामिय  
कल्पना न सम्प्रति, प्रागेव गुट्ठातसम्यक्त्वाना तत्रोत्पत्ते । स ति १, ७

२ प्रथमायामुत्पद्यमाना नारका मिथ्यात्वेनाधिगता केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । त रा. ३, ६

३ अप्रतो ' णिप्पाडति इट्ठि एयट्ठो त्ति ' इति पाठ ।

४ मिथ्यात्वेनाधिगता केचिन् सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । त रा. ३, ६.

कुदो ? मिच्छत्तेण गिरयगदिं पविस्सिय सगट्ठिदिमणुपालिय पुणो अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिवज्जिय आसाणं गंतूण गिप्पीडमाणंजीवाणमुवलंभा ।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति<sup>१</sup> ॥ ४६ ॥

कुदो ? मिच्छत्तेण सह गिरयगदिं गंतूण तत्थ सम्मत्तं पडिवज्जिय तेण सम्मत्तेण सह गिप्पीडमाणजीवाणमुवलंभा ।

सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण वेव णींत्ति<sup>२</sup> ॥ ४७ ॥

कुदो ? तत्थुप्पण्णखइयसम्माइट्ठीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइट्ठीणं वा गुणंतर-संकमणाभावा । सासणसम्माइट्ठीणं च गिरयगदिमिह पवेसो णत्थि, एत्थ पवेसा-पदुप्पायणअण्णहाणुवत्तीदो<sup>३</sup> ।

क्योंकि, मिथ्यात्वके सहित नरकगतिमें प्रवेश करके और वहां अपनी स्थिति पूरी करके पुनः अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं ।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ४६ ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वसहित नरकगतिमें जाकर और वहां सम्यक्त्व प्राप्त करके उसी सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं ।

सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ॥ ४७ ॥

क्योंकि, नरकमें उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके अथवा कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दृष्टियोंके अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता । और सासादनसम्यग्दृष्टियोंका नरकगतिमें प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि यहां प्रवेशके प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा उपपत्ति नहीं बनती ।

१ आप्रतौ ' गिप्पीडमाण-' कप्रतौ ' गिप्फडिसाण-' इति पाठ ।

२ मिथ्यात्वेनाधिगता केचित् सम्यत्त्वेन । त रा ३, ६

३ केचित्सम्यत्त्वेनाधिगता सम्यत्त्वेनैव निर्यान्ति क्षायिकसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया । त रा ३, ६.

४ न सासादनगुणवता तत्रोत्पत्तिस्तद्गुणस्य तत्रोत्पत्त्या सह विरोधात् ॥ षट्ख १, १, २५ भाग १, पृ १०५. ण सासणो णारयापुण्णे । गो जी १२८. गिरय सासणसम्मो ण गच्छदि ति । गो क २६२.

एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ ४८ ॥

सुगममेदं ।

विदियाए जाव छट्टीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण ( णींति )' ॥ ४९ ॥

णिरयगदिगयाणं' मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा ।

मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सासणसम्मत्तेण णींति' ॥ ५० ॥

कुदो ? मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुढवीउवगयाणं अवसाणे पढमसम्मत्तं पडिवज्जिय आसाणं गंतूण णिप्पीडणे विरोहाभावा ।

मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सम्मत्तेण णींति' ॥ ५१ ॥

इस प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी जीव प्रवेश करते और वहांसे निकलते हैं ॥ ४८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

दूसरी पृथिवीसे लगाकर छठवीं पृथिवी तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं ॥ ४९ ॥

क्योंकि, नरकगतिको जानेवाले जीवोंके वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनेमें तो कोई विरोध ही नहीं आता ।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५० ॥

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें जाकर अन्तमें प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त कर और फिर आसादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ५१ ॥

१ द्वितीयादिपु पचसु नारका मिथ्यात्वेनाधिगता केचिन्मिथ्यात्वेन निर्यान्ति । त. रा ३, ६.

२ आप्रतौ ' णिरयगदिणेरइयाण ' अ-कप्रत्यो ' णिरयगदिरयाण ' इति पाठ ।

३ मिथ्यात्वेनाधिगता केचित्सासादनसम्यक्त्वेन निर्यान्ति । त. रा ३, ६.

४ मिथ्यात्वेन प्रविष्टा केचित् सम्यक्त्वेन निर्यान्ति । त. रा ३, ६.



कुदो ? मिच्छत्तेण णिरयगइं गयाणं तत्थ सम्मत्तं पडिचड्डिजय तेण सम्मत्तेण सह णिग्गमणे विदियादिपंचसु पढवीसु विरोहाभावा । सम्मामिच्छादिट्ठि-आसाणाणं सम्मादिट्ठिणं व विदियादिपंचसु पुढवीसु अधिगमो णत्थि । कुदो ? तेसिमेत्थ अधिगमापदुप्पायणादो ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण चैव णीति' ॥ ५२ ॥

कुदो ? सम्मत्त-सासण-सम्मामिच्छत्ताइं गयाणं पि तत्थतणजीवाणं णियमेण मरणकाले मिच्छत्तपडिचड्डिजणादो । किं कारणं ? तत्थ तेसिं अच्चंताभावस्स अन्नद्वयाणादो ।

तिरिक्खा केइं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ५३ ॥  
सुगममेदं ।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५४ ॥

एदं पि सुगमं ।

क्योंकि, मिथ्यात्वके साथ नरकगतिमें जानेवाले जीवोंका वहां सम्यक्त्व प्राप्त करके उसी सम्यक्त्व सहित निकलनेमें द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें कोई विरोध नहीं आता। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और आसादनगुणस्थानवर्ती जीवोंका सम्यग्दृष्टि जीवोंके समान द्वितीयादि पांच पृथिवियोंमें प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यहां उनके प्रवेशका प्रतिपादन नहीं किया गया है।

सातवीं पृथिवीसे नारकी जीव मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं ॥ ५२ ॥

क्योंकि, सम्यक्त्व, सासादन व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानोंको प्राप्त हुए भी सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंके मरणकालमें नियमसे मिथ्यात्व उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण यह है कि सातवीं पृथिवीमें मरणकालमें उक्त तीनों गुणस्थानोंके अत्यन्ताभावका नियम है।

तिर्यच जीव कितने ही मिथ्यात्व सहित तिर्यचगतिमें आकर मिथ्यात्व सहित ही उस गतिसे निकलते हैं ॥ ५३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तिर्यचगतिमें आकर सासादनसम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५५ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ५६ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५७ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५८ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चैव णीति ॥ ५९ ॥

खइयसम्माइट्ठीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइट्ठीणं वा तिरिक्खगइगयाणं गुणंतर-  
संकमणाभावा ।

( एवं ) पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ता ॥ ६० ॥  
सुगममेदं ।

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तिर्यचगतिमें आकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५५ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यचगतिमें आकर मिथ्यात्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५६ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यचगतिमें आकर सासादन-सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५७ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तिर्यचगतिमें आकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५८ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

सम्यक्त्व सहित तिर्यचगतिमें आनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ५९ ॥

क्योंकि, क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका व कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टियोंका तिर्यचगतिमें जानेपर अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता ।

इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त जीव तिर्यचगतिमें प्रवेश और निष्क्रमण करते हैं ॥ ६० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिणीयो' मणुसिणीयो भवणवासिय-वाण-  
वेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च मिच्छ-  
त्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णींति ॥ ६१ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ६२ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६३ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । सव्वत्थ सम्मामिच्छत्तेण णिग्गमो पवेसो वा णत्थि,  
तस्स मरणुप्पत्तीणमसंभवादो ।

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ६४ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६५ ॥

पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिनी, मनुष्यनी, भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी  
देव तथा देवियां एवं सौधर्म-ईशानकल्पवासिनी देवियां मिथ्यात्व सहित अपनी अपनी  
गतिमें प्रवेश करके कितने ही मिथ्यात्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ॥ ६१ ॥

कितने ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके अपनी गतिसे सासादन सम्यक्त्वके  
साथ निकलते हैं ॥ ६२ ॥

कितने ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके सम्यक्त्वके साथ उस गतिसे निकलते  
हैं ॥ ६३ ॥

ये सूत्र सुगम हैं । सब गतियोंमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ न निर्गमन  
होता है और न प्रवेश, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मरण और उत्पत्ति दोनों  
असंभव हैं ।

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्वके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर मिथ्यात्व  
सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६४ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्वके साथ पूर्वोक्त गतियोंमें आकर सम्यक्त्व  
सहित वहांसे निकलते हैं ॥ ६५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुग्गमाणि । एदेसु सम्मत्तेण अधिगमो णत्थि । कुदो ? एदस्स अच्चंताभावादो ।

मणुसा मणुसपज्जत्ता सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव णवगेवज्ज-  
विमाणवासियदेवेसु केइं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण' णींति  
॥ ६६ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ६७ ॥

केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ६८ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति ॥ ६९ ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ७० ॥

ये सूत्र सुग्गम हैं । इन गतियोंमें सम्यक्त्वके साथ प्रवेश नहीं होता, क्योंकि सम्यक्त्व अचस्थामें इन गतियोंकी प्राप्तिका अत्यन्ताभाव है ।

मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त तथा सौधर्म-ईशानसे लगाकर नौ त्रैवेयक विमानवासी देवोंमें कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित जाकर मिथ्यात्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ६६ ॥

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वोक्त गतियोंमें जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ६७ ॥

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वोक्त गतियोंमें जाकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ६८ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित जाकर मिथ्यात्व सहित निकलते हैं ॥ ६९ ॥

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ ही निकलते हैं ॥ ७० ॥

केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ७१ ॥

केइं सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ७२ ॥

केइं सम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ७३ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

मणुस-मणुसपज्जत्तएसु संखेज्जवस्साउएसु सम्मत्तेण पविट्ठदेव-णेरइयाणं कथं सासणसम्मत्तेण णिग्गमो होदि त्ति उत्ते उच्चदे । तं जहा- देव-णेरइयसम्मादिट्ठीणं मणुसेसुप्पज्जिय उवसमसेडिमारुहिय पुणो हेट्ठा ओयरिय सासणं गंतूण मदाणं सासण-गुणेण णिग्गमो होदि । एवं सासणसम्मागुणेण मणुस्सेसु पविसिय सासणगुणेण णिग्गमो वत्तच्चो, अण्णहा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण -कालेण विणा सासण-गुणाणुप्पत्तीदो । एदं पाहुडसुत्ताभिप्पाएण भणिदं । जीवद्वैताभिप्पाएण पुण संखेज्ज-

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित जाकर सम्यक्त्व सहित निकलते हैं ॥ ७१ ॥

कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित जाकर मिथ्यात्वके साथ निकलते हैं ॥ ७२ ॥

कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ निकलते हैं ॥ ७३ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

शंका—संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य व मनुष्य-पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व सहित प्रवेश करनेवाले देव और नारकी जीवोंका वहांसे सासादनसम्यक्त्वके साथ किस प्रकार निर्गमन होता है ?

समाधान—इस शंकाका समाधान किया जाता है । वह इस प्रकार है— देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीवोंका मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, उपशमश्रेणीका आरोहण करके, और फिर नीचे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाकर मरनेपर सासादन-गुणस्थान सहित निर्गमन होता है ।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थान सहित मनुष्योंमें प्रवेश कर सासादन गुणस्थानके साथ ही निर्गमन भी कहना चाहिये, अन्यथा पत्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कालके विना सासादन गुणस्थानकी उपपत्ति बन नहीं सकती । यह बात प्राभूतसूत्र (कषायप्राभूत) के अभिप्रायानुसार कही गई है । परंतु जीवस्थानके अभिप्रायसे संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें सासादन गुणस्थान सहित निर्गमन

१ तत्सम्मत्तद्वाए असजम देससजम वापि । गच्छेज्जावल्लिक्के सेसे सासणगुणं वापि ॥ लुक्खि - ३४५.

वस्साउएसु ण संभवदि, उवसमेसेडीदो ओदिणस्स सासणगुणगमणाभावा<sup>१</sup> । एत्थ पुण संखेज्जासंखेज्जवस्साउए मोत्तूण<sup>२</sup> जेण भणिदं तेणेदं घडदे ।

संभव नहीं होता, क्योंकि उपशमश्रेणीसे उतरे हुए मनुष्यका सासादन गुणस्थानमें गमन नहीं माना गया । किन्तु यहांपर अर्थात् सूत्रमें चूंकि संख्यात व असंख्यात वर्षकी आयुका उल्लेख छोड़कर कथन किया गया है इससे वह कथन घटित हो जाता है ।

**विशेषार्थ**—अन्तरप्ररूपणाके सूत्र ७ में बतलाया जा चुका है कि सासादन-सम्यग्दृष्टिका जघन्य अन्तरकाल पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । इसका कारण धवलाकारने यह बतलाया है कि सासादनसे मिथ्यात्वमें आये हुए जीवके जब-तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उद्वेलनघात द्वारा सागरोपम या सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थिति नहीं रह जाती तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता जहांसे कि सासादनभावकी पुनः उत्पत्ति हो सके । और उद्वेलन-घात द्वारा उक्त क्रियाके होनेमें कमसे कम पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता ही है । अतएव यही कालप्रमाण सासादनसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर होता है । प्रस्तुत प्रकरणमें प्रश्न यह है कि जो जीव देव या नरक गतिसे मनुष्यभवमें सासादन गुणस्थान सहित आया है वह सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्यगतिसे किस प्रकार निर्गमन कर सकता है । धवलाकारने यह इस प्रकार बतलाया है कि देवगतिसे सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगतिमें आकर व पल्योपमके असंख्यातवें भागका अन्तरकाल समाप्त कर उपशमसम्यक्त्वी हो सासादन गुणस्थानमें आकर मरण करनेवाले जीवके उक्त बात घटित हो जाती है । पर यह बनेगा केवल असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें, क्योंकि संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें उक्त उद्वेलनघातके लिये आवश्यक पल्योपमका असंख्यातवां भाग काल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा । यह व्यवस्था भूतवलि आचार्यके मतानुसार है । किन्तु कषायप्राभृतके चूर्णिसूत्रोंके कर्ता यतिवृषभाचार्यके मतानुसार सासादनसम्यक्त्व सहित मनुष्यगतिमें आया हुआ जीव मिथ्यादृष्टि होकर पुनः द्वितीयोपशमसम्यक्त्वी हो उपशमश्रेणी चढ़ पुनः सासादन होकर मर सकता है और इसलिये यह बात संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी घटित हो सकती है । किन्तु उपशमश्रेणीसे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाना भूतवलि आचार्य नहीं मानते और इसलिये उनके मतसे सम्यक्त्व सहित आकर सासादन सहित व सासादन सहित आकर सासादन सहित मनुष्यगतिसे निर्गमन करना संख्यात वर्षायुष्कोंमें संभव नहीं ।

१ उवसमेसेडीदो पुण ओदिणो सासणं ण पाउणदि । भूदवलिणाहणिम्मलसुत्तस्स फुड्ढीवदंसेण ॥  
कव्धि. ३४७

२ अ-कप्रत्यो 'सौत्तूण' इति पाठ ।

केइं सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णींति ॥ ७४ ॥

सुगममेदं ।

अणुदिस जाव सच्चट्टिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु सम्मत्तेण अधि-  
गदा णियमा सम्मत्तेण चैव' णींति ॥ ७५ ॥

सुगममेदं । पंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्ताणं किमट्टं णिग्गमण-पवेसा ण  
उत्ता ? ण, मिच्छादिट्ठी मोत्तूण अण्णेसिं तत्थ णिग्गम-पवेसाभावादो । तस्स वि उत्तेण'  
विणा अवगमादो ।

णेरइयमिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी णिरयादो उच्चट्टिदसमाणा  
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ७६ ॥

कितने ही मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तक एवं उक्त सौधर्मादिक स्वर्गोंके जीव  
सम्यक्त्व सहित जाकर सम्यक्त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ७४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

अनुदिश विमानोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देवों तकमें सम्यक्त्वके साथ  
प्रवेश करनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्व सहित ही निकलते हैं ॥ ७५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

शंका—अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यंच और अपर्याप्तक मनुष्य, इन दोके निर्गम  
और प्रवेशका कथन क्यों नहीं किया गया ।

समाधान—नहीं, क्योंकि उन दोनों जीवसमासोंमें मिथ्यादृष्टियोंके सिवाय  
अन्य जीवोंका न निर्गमन होता है और न प्रवेश । और यह बात बिना कहे भी जानी  
जा सकती है ।

नारकी मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव नरकसे निकलकर कितनी  
गतियोंमें आते हैं ? ॥ ७६ ॥

१ प्रतिपु ' चैण ' इति पाठ ।

२ अप्रतौ ' जंतेण ' आ-कप्रलो ' ज्जंतेण ' इति पाठ ।

सुगममेदं ।

दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं चव मणुसगदिं चव'  
॥ ७७ ॥ .

देव-णेरइयगदीओ ण गच्छंति' । किं कारणं ? सभावादो । सो वि तेसिं सहाओ कुदो णच्चदे ? एदम्हादो चव सुत्तादो ।

तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो एइंदिय-  
विगलिंदिएसु' ॥ ७८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उक्त नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्यचगतिमें भी और मनुष्य गतिमें भी ॥ ७७ ॥

नरकसे निकले हुए जीव देव व नरक गतिको नहीं आते ।

शंका—नरकसे निकले हुए जीवोंका देव या नरक गतिमें न जानेका कारण क्या है ?

समाधान—ऐसा स्वभाव ही है ।

शंका—ऐसा उनका स्वभाव ही है यह बात भी कहाँसे जानी जाती है ।

समाधान—प्रस्तुत सूत्रसे ही यह बात जानी जाती है कि नरकसे निकले हुए जीवोंका देव या नरक गतिमें न जाना स्वाभाविक है ।

तिर्यचोंमें आनेवाले नारकी जीव पंचेन्द्रियोंमें आते हैं, एकेन्द्रियों या विकलेन्द्रियोंमें नहीं आते ॥ ७८ ॥

१ णिकक्ता णिरयादो गब्बेसु कम्मसण्णिपज्जत्ते । णरतिरिएसु जम्मदि ॥ ति प २, २८९ षड्म्य उपरिपृथिवीभ्यो मिथ्यात्व सासादनसम्यक्त्वाभ्यामुद्धर्तिता केचित्तिर्यङ्मनुष्यगतिमायान्ति । तिर्यक्षायाता पचेन्द्रिय-गर्भजसन्निपर्याप्तकसख्येयवर्षायु पूत्यथन्ते नेतरेषु । त रा ३, ६ सुरणिरया णरतिरिय छम्मासवसिद्धो सगाउस्स । णरतिरिया सच्चाउ तिमागसेसम्मि-उक्कस्स ॥ मोगभुमा देवाउ छम्मासवसिद्धो य वधति । इगिविगला णरतिरिय तेउदुगा सत्तगा तिरिय ॥ गो क ६३९-६४०

२ नारकाणा सुराणा च विरुद्ध सक्कमो मिथ । नारको न हि देव स्यात्त देवो नारको भवेत् ॥ ब्रह्मसंहिता, २, १५५.

३ प्रतिपु ' णो इदियविगलिंदिएसु ' इति पाठ. ।



एइंदिया वियलिंदिया चेत्र, पंचणहमिंदियाणं संपुण्णत्ताभावादो । तदो विगलिंदियग्गहणमेव पहुप्पदि, एइंदियग्गहणं ण कायच्चमिदि ? ण, विगलिंदियग्गहणेण एइंदियाणं गहणे कीरमाणे उवरि देवगादिमिह वीइंदियादीणं पुध पुध पडिसेहो कायच्चो होदि । एवं कीरमाणे गंधवहुत्तं पावेदि । तेण पुध एइंदियणिदेसो कदो । सेसं सुगमं ।

पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु  
॥ ७९ ॥

कुदो ? सहावदो । ण सहावो परपज्जणिओगजोगो ।

सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवकंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥ ८० ॥

केण कारणेण सम्मुच्छिमेसु णागच्छंति ? चक्खिदिएण सहो क्खिण घेप्पदि ?

.....

शंका — पांचों इन्द्रियोंकी सम्पूर्णताके अभावसे एकेन्द्रिय जीव विकलेन्द्रिय ही हैं । इसलिये सूत्रमें केवल विकलेन्द्रियका ग्रहण पर्याप्त है, एकेन्द्रियका ग्रहण नहीं करना चाहिये ?

समाधान — नहीं, क्योंकि यदि विकलेन्द्रियके ग्रहणसे एकेन्द्रियका भी ग्रहण किया जाय तो आगे देवगतिके कथनमें द्वीन्द्रियादिकोंका पृथक् पृथक् प्रतिषेध करना आवश्यक हो जायगा । और ऐसा करनेपर ग्रंथका विस्तार बढ़ जाता है । इसलिये सूत्रमें एकेन्द्रियोंका पृथक् निर्देश किया गया है ।

शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें आनेवाले नारकी जीव संज्ञियोंमें आते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ ७९ ॥

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्नके विषय नहीं हुआ करते ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच संज्ञियोंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं ॥ ८० ॥

शंका—नरकसे आनेवाले जीव सम्मूर्च्छिम तिर्यचोंमें क्यों नहीं आते ?

प्रतिशंका—चक्षुइन्द्रियसे शब्दका ग्रहण क्यों नहीं होता ?

प्रतिशंकाका समाधान—स्वभावसे ही चक्षुइन्द्रिय द्वारा शब्दका ग्रहण नहीं होता ?

सहावदो चैव । एत्थ वि सहावदो चैव णागच्छंति त्ति किण्ण इच्छिज्जदि । किं च सुत्तं  
णाम पमाणं वाहाइक्कंतं, इंदिय णोइंदियणाणाणीव । ण च इंदिएहि वाहाइक्कंतेहि  
दिट्ठत्थम्मि पमाणाणुसारिणो संदेहं कुणंता अत्थि ? सच्चं पमाणेण दिट्ठत्थम्मि पमाणंतरेण  
ण परिक्खा पयइइ, किंतु एदस्स वयणस्स पमाणत्तं ण णच्चदि त्ति चे ण, असच्च-  
कारणसच्चविजुत्तंजिणवयणविणिग्गयस्स वयणस्स अप्पमाणत्तविरोहादो' । तदो पमाणमेदं ।  
तेणेव कारणेण ण पमाणंतरेण परिक्खणिज्जमिदि ।

गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ ८१ ॥

सुगममेदं ।

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८२ ॥

शंकाका समाधान—तो फिर यहां भी नारकी जीव सम्मूर्च्छिम तिर्यंचोमें  
स्वभावसे ही नहीं आते हैं, ऐसा क्यों नहीं अभीष्ट मान लेते । तथा, सूत्र स्वयं इन्द्रिय  
और नोइन्द्रियजनित ज्ञानोंके सदृश वाधारहित प्रमाण है । वाधारहित इन्द्रियों द्वारा  
देखे गये पदार्थमें प्रमाणानुसारी विद्वान् सन्देह नहीं करते ।

शंका—यह सत्य है कि प्रमाणसे देखे गये पदार्थमें प्रमाणान्तर द्वारा परीक्षा  
नहीं की जाती, किन्तु प्रस्तुत वचनका तो प्रमाणत्व ज्ञात नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि असत्यके समस्त कारण ( रागद्वेषादि ) से रहित  
जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए वचनका अप्रमाणत्वसे विरोध है । अतः यह सूत्र प्रमाण है  
और इसी कारणसे प्रमाणान्तर द्वारा उसकी परीक्षा उचित नहीं है ।

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक तिर्यंचोमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोमें ही  
आते हैं, अपर्याप्तकोमें नहीं ॥ ८१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिके पर्याप्त तिर्यंचोमें आनेवाले नारकी जीव  
संख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें ही आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें नहीं ॥ ८२ ॥

१ आ-कप्रत्यो ' सच्चाविज्जुत्तिण ', अप्रतौ ' सच्चाविज्जुत्तिण ' इति पाठ ।

२ अणुवक्रयंपराणुग्गहपरायणा ज जिणा जुगप्पवरा । जियरागदोसमोहा य णण्णहावाइणो तेण ॥  
ग्याख्याप्रश्नोत्तरसमयदेवीयवृत्तौ उद्धृता गाथा. १, ३, ३८.

किमद्दमसंखेज्जवासाउएसु णागच्छंति त्ति ? णेरइएसु दाण-दाणाणुमोदाणम-  
भावादे ।

मणुस्सेसु आगच्छंता गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो  
सम्मूच्छिमेसु ॥ ८३ ॥

गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ ८४ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णेरइया सम्मामिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छत्तगुणेण णिरयादो णो  
उव्वट्ठिति ॥ ८६ ॥

शंका—नरकसे आनेवाले जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले अर्थात् भोगभूमिके  
तिर्यंचोमें क्यों नहीं आते ?

समाधान—नारकी जीवोंमें दान और दानका अनुमोदन इन दोनों भोगभूमिमें  
उत्पन्न होनेके कारणोंके अभावसे वे जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंचोमें नहीं  
उत्पन्न होते ।

मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भोपक्रान्तिकोमें आते हैं, सम्मूच्छिमोमें  
नहीं ॥ ८३ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोमें आते हैं,  
अपर्याप्तकोमें नहीं ॥ ८४ ॥

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुष्य-  
वालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुष्यवालोंमें नहीं ॥ ८५ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित नरकसे नहीं  
निकलते ॥ ८६ ॥

कुदो ? सहावदो । एदेण अधिगमो वि पडिसिद्धो, उव्वट्टणपडिसेहस्स अधिगम-  
पडिसेहाविणाभावादो ।

णेरइया सम्माइट्ठी णिरयादो उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ ८७ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

एकं मणुसगदिं चैव आगच्छंति ॥ ८८ ॥

कुदो ? णेरइयसम्माइट्ठीणं मणुस्साउअं मोत्तूण अण्णाउवसंतकम्मियाणं सम्म-  
त्तेणुव्वट्टणाभावा ।

मणुसेसु आगच्छंता गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-  
च्छिमेसु ॥ ८९ ॥

गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ ९० ॥

..

क्योंकि, ऐसा उसका स्वभाव है । इसी सूत्रसे नरकमें सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुण-  
स्थान सहित आनेका भी निषेध कर दिया गया है, क्योंकि उद्धर्तनप्रतिषेधका अधिगम-  
प्रतिषेधके साथ अविनाभाव संबंध है, अर्थात्, जिस गतिसे जिस गुणस्थान सहित  
निकलना नहीं होता, उस गतिमें उस गुणस्थान सहित आना भी नहीं हो सकता ।

सम्यग्दृष्टि नारकी जीव नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥८७॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

सम्यग्दृष्टि नारकी जीव नरकसे निकलकर एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥८८॥

क्योंकि, मनुष्यायुको छोड़कर अन्य आयुकर्मकी सत्ता रखनेवाले नारकी  
सम्यग्दृष्टियोंके सम्यक्त्व सहित नरकसे निकलनेका अभाव है ।

मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं,  
सम्पूर्च्छिमांमें नहीं ॥ ८९ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते  
हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ९० ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९१ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ॥ ९२ ॥

एदं पि सुगमं ।

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइट्ठी णिरयादो उव्वट्टिद-  
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ९३ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

एकं तिरिक्खगदिं चेव आगच्छंति' ॥ ९४ ॥

कुदो ? तेसिं तिरिक्खाउअं मोत्तूण सेसाउआणं वंधाभावादो ।

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्तक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि नारकी जीव संख्यात,  
वर्षकी आयुवालोंमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें नहीं ॥ ९१ ॥

ये सूत्र सुगम है ।

इस प्रकार ऊपरकी छह पृथिवियोंके नारकी जीव निर्गमन करते हैं ॥ ९२ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नीचे सातवीं पृथिवीमेंके मिथ्यादृष्टि नारकी जीव निकलकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ? ॥ ९३ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

सातवीं पृथिवीसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्यग्गतिमें ही  
आते हैं ॥ ९४ ॥

क्योंकि, सातवीं पृथिवीके नारकी जीवोंमें तिर्यचायुको छोड़ शेष तीन आयुओंके  
बंधका अभाव है ।

१ सप्तम्या नारका मिथ्यादृष्टयो नरकैर्म्य उद्धतिंता एकामेव तिर्यग्गतिमायान्ति । तिर्यक्त्रायाता-  
पचिन्द्रियगर्मजपर्याप्तकसख्येयवर्षायु प्रत्यवन्ते नेतेरुधु । त रा ३, ६ न लमन्ते मनुष्यत्वं सप्तम्या निर्गता क्षिते ।  
तिर्यक्त्वे च सयुत्पथ नरक यान्ति ते पुन ॥ तत्त्वार्थसार २, १४७ णेरइयाण गमण सण्णीपज्जत्तकम्मतिरियणरे ।  
वरिसच्च तिर्यूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥ गो क ५३८.

तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिंदिएसु आगच्छंति णो एइंदिय-  
विगलिंदिएसु ॥ ९५ ॥

पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु  
॥ ९६ ॥

सण्णीसु आगच्छंता गवभोवकंतिएसु आगच्छंति, णो  
सम्मूच्छिमेसु ॥ ९७ ॥

गवभोवकंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ ९८ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९९ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

तिर्यच्चोमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव पंचेन्द्रियोमें ही आते हैं,  
एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोमें नहीं ॥ ९५ ॥

पंचेन्द्रिय तिर्यच्चोमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव संज्ञियोमें आते हैं,  
असंज्ञियोमें नहीं ॥ ९६ ॥

पंचेन्द्रिय संज्ञी तिर्यच्चोमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी जीव गर्भोप-  
क्रान्तिकोमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमोमें नहीं ॥ ९७ ॥

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक तिर्यच्चोमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके नारकी  
जीव पर्याप्तकोमें आते हैं, अपर्याप्तकोमें नहीं ॥ ९८ ॥

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त तिर्यच्चोमें आनेवाले सातवीं पृथिवीके  
नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुवालोमें आते हैं, असंख्यात वर्षकी आयुवालोमें  
नहीं ॥ ९९ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया सासणसम्मादिट्ठी सम्मामिच्छादिट्ठी  
असंजदसम्मादिट्ठी अप्पणो गुणेण णिरयादो णो उव्वट्ठिति ॥ १०० ॥

कुदो ? सहावदो ।

तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइट्ठी पंचिंदियपज्जत्ता संखेज्जवासाउआ'  
तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १०१ ॥

ओवयारियतिरिक्खपडिसेहट्ठं विदियतिरिक्खगहणं । तिरिक्खेहि तिरिक्ख-  
पज्जाएहि, कालगदसमाणा विणट्ठा संता त्ति घेत्तव्वं । सेसं सुगमं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं  
देवगदिं चेदि ॥ १०२ ॥

सुगममेदं ।

णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छंति ॥ १०३ ॥

सातवीं पृथिवीके सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि  
नारकी जीव अपने अपने गुणस्थान सहित नरकसे नहीं निकलते ॥ १०० ॥

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है ।

तिर्यच संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातवर्षायुवाले तिर्यच जीव  
तिर्यचपर्यायोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १०१ ॥

औपचारिक तिर्यचोंके प्रतिषेधके लिये दूसरी बार तिर्यच शब्दका ग्रहण किया  
गया है । 'तिर्यचोंसे' का अर्थ है 'तिर्यचपर्यायोसे', और 'कालगतसमान' का अर्थ  
है 'विनष्ट हुए' ऐसा ग्रहण करना चाहिये । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यच जीव चारों गतियोंमें गमन करते हैं— नरकगति, तिर्यचगति,  
मनुष्यगति और देवगति ॥ १०२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच जीव सभी अर्थात् सातों नरकोंमें  
जाते हैं ॥ १०३ ॥

कुदो ? विरोहाभावा ।

तिरिक्खेसु गच्छंता सव्वतिरिक्खेसु गच्छंति ॥ १०४ ॥

मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुसेसु गच्छंति ॥ १०५ ॥

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

देवेषु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सयार-सहस्सारकप्प-  
वासियदेवेषु गच्छंति ॥ १०६ ॥

कुदो ? तत्तो उवरि सम्मत्ताणुच्चएहि विणा गमणाभावा ।

पंचिंदियतिरिक्खअसण्णिपज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल-  
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १०७ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं  
देवगदिं चेदि ॥ १०८ ॥

क्योंकि, उनके सातों नरकोंमें जानेसे कोई विरोध नहीं आता ।

तिर्यचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच जीव सभी तिर्यचोंमें जाते हैं ॥ १०४ ॥

मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच जीव सभी मनुष्योंमें जाते हैं ॥ १०५ ॥

ये दोनों सूत्र सुगम हैं ।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच जीव भवनवासियोंसे लगाकर शतार-  
सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १०६ ॥

क्योंकि, शतार-सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यक्त्व और अणुव्रतोंके विना गमन  
नहीं होता ।

पंचेन्द्रिय तिर्यच असंज्ञी पर्याप्त तिर्यच जीव तिर्यचपर्यायोंसे मरणकर कितनी  
गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १०७ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यच जीव चारों गतियोंमें जाते हैं— नरकगति, तिर्यचगति,  
मनुष्यगति और देवगति ॥ १०८ ॥

१ जे पंचिंदियतिरिया सण्णी हु अक्कामणिज्जरेण जुदा । मदक्साया केई जाव सहस्सारपरियत ॥  
ति प ८, ५६२

२ पूर्णासन्नितिरिक्खामविरुद्ध जन्म जातुचित् । नारकामरतिर्यक्खु वृषु वा न तु सर्वत ॥ तत्त्वार्थसार, २, १५८.



सुगममेदं ।

णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरइएसु गच्छंति' ॥ १०९॥

कुदो ? हेट्टिमणेरइएसु उप्पत्तिणिमित्तपरिणामाभावा ।

तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंति,  
णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ॥ ११० ॥

कुदो ? असण्णीसु दाण-दाणाणुमोदाणमभावादो ।

देवेषु गच्छंता भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेषु गच्छंति' ॥ १११॥

कुदो ? असण्णीणं तत्तो उवरिमदेवेषु उप्पत्तिणिमित्तपरिणामाभावा ।

यह सूत्र सुगम है ।

नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच प्रथम पृथिवीके नारकी जीवोंमें जाते हैं ॥ १-९ ॥

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिर्यच असंज्ञी पर्याप्तक जीवोंमें प्रथम पृथिवीसे नीचे द्वितीयादि पृथिवियोंके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

तिर्यच और मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच सभी तिर्यच और मनुष्योंमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यच और मनुष्योंमें नहीं जाते ॥ ११० ॥

क्योंकि, असंज्ञी जीवोंमें दान और दानके अनुमोदनका अभाव है ।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच जीव भवनवासी और वानव्यन्तर देवोंमें जाते हैं ॥ १११ ॥

क्योंकि, असंज्ञी जीवोंमें भवनवासी और वानव्यन्तर देवोंसे ऊपरके देवोंमें उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

१ पढमधरतमसण्णी । ति प २, २८४ प्रथमायामसंज्ञिन उत्पद्यन्ते । त रा ३, ६ धर्मासंज्ञिनो यान्ति । तत्त्वार्थसार २, १६६

२ सण्णि असण्णी जीवा मिच्छामावेण सज्जदा केई । जायति भावणेसु दसणसुद्धा ण कइया वि ॥ ति प ३, २०० तैर्यग्योनेषु असंज्ञिन पर्याप्ता पचेन्द्रिया सख्येयवर्षायुष अल्पशुभपरिणामवशेन पुण्यवधमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु च उत्पद्यन्ते । त रा ४, २१ ये मिप्याहृष्टयो जीवा संज्ञिनोऽसंज्ञिनोऽथवा । व्यन्तरास्ते प्रजायन्ते तथा भवनवासिन ॥ तत्त्वार्थसार २, १६२

पंचिंदियतिरिक्खसण्णी' असण्णी अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ-  
काइया वा वणप्फइकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा बादरवणप्फदि-  
काइया पत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-  
पज्जत्तापज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहिं कालगदसमाणा कदि गदीओ  
गच्छंति? ॥ ११२ ॥

सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेदि' ॥ ११३ ॥

कुदो ? देव-णिरयगदिगमणपरिणामाभावा ।

तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंति,  
णो असंखेज्जवस्साउएसु गच्छंति' ॥ ११४ ॥

पंचेन्द्रिय तिर्यच संज्ञी व असंज्ञी अपर्याप्त, पृथिवीकायिक या जलकायिक या  
वनस्पतिकायिक, 'निगोद जीव बादर या सूक्ष्म, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर  
पर्याप्त या अपर्याप्त, और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तिर्यच  
तिर्यचपर्यायोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११२ ॥

यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यच जीव दो गतियोंमें जाते हैं— तिर्यचगति और मनुष्य-  
गति ॥ ११३ ॥

क्योंकि, उन तिर्यच जीवोंके देव और नरक गतिमें जाने योग्य परिणामोंका  
अभाव है ।

तिर्यच और मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच सभी तिर्यच और मनुष्योंमें  
जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यचों और मनुष्योंमें नहीं जाते ॥ ११४ ॥

१ पुढविप्पहुदि वणप्फदिअत वियला य कम्मणरतिरिए । ति प ५, ३१० त्रयाणां खलु फायानां  
विकलानामसङ्गिनाम् । मानवाना तिरश्चा वाऽविरुद्ध सक्रमो मिथ ॥ तत्त्वार्थसार २, १५४.

२ वचीसमेदंतिरिया ण होंति कइयाइ भोगसुरणिए । सेट्ठिघणमेत्तलोए सव्वे पक्खेसु जायति ॥  
ति. प. ५, ३११.

कुदो ? तेसिं दाण-दाणाणुमोदाणमभावादो ।

तेउक्काइया वाउक्काइया वादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता  
तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ ११५ ॥  
सुगममेदं ।

एकं चैव तिरिक्खगदिं गच्छंति ॥ ११६ ॥

कुदो ? सच्चतेउ-वाउक्काइयाणं संकिलिद्धाणं सेसगइजोगपरिणामाभावा ।

तिरिक्खेसु गच्छंता सच्चतिरिक्खेसु गच्छंति, णो असंखेज्ज-  
वस्साउएसु गच्छंति ॥ ११७ ॥  
सुगममेदं ।

तिरिक्खसासणसम्माइट्ठी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरि-  
क्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ ११८ ॥

क्योंकि, उक्त तिर्यंच जीवोंके दान और दानानुमोदनका अभाव पाया जाता है ।

अग्निकायिक और वायुकायिक वादर व सूक्ष्म पर्याप्तक व अपर्याप्तक तिर्यंच  
तिर्यंचपर्यायोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यंच एकमात्र तिर्यंचगतिमें ही जाते हैं ॥ ११६ ॥

क्योंकि, समस्त अग्निकायिक और वायुकायिक संक्लिष्ट जीवोंके शेष गतियोंमें  
जाने योग्य परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच जीव सभी तिर्यंचोंमें जाते हैं, किन्तु  
असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंचोंमें नहीं जाते ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यंच सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच तिर्यंचपर्यायोसे  
मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११८ ॥

१ तेउदुग तेरिच्छे सेसेगअपुण्णवियलगा य तथा । तित्थूणणरे वि तथाऽसण्णी घम्मे य देवदुगे ॥  
सण्णी वि तथा सेसे णिरये भोगे वि अच्छुदते वि । गो क ५४०-५४१ ण लहति तेउवाऊ मणुवाउमणतरे  
जन्मे ॥ ति प ५, ३१०. सर्वेऽपि तैनसा जीवा सर्वे चानिलकायिका । मरुजेधु न जायन्ते ध्रुव जन्मन्यनन्तरे ॥  
ब्रह्मार्थसार २, १५७.

सुगममेदं ।

तिणिण गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं  
चेदि ॥ ११९ ॥

णिरयगदी णत्थि । कुदो ? तिरिक्ख-मणुससासणाणं णिरयगद्दमणपरि-  
णामाभावा ।

तिरिक्खेसु गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छंति, णो विगलिं-  
दिएसु ॥ १२० ॥

जदि एइंदिएसु सासणसम्माइद्धी उप्पज्जदि तो पुढवीकायादिसु दो गुणट्ठाणाणि  
हंति चि चे ण, छिण्णाउअपढमसमए सासणगुणविणासादो' ।

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यच जीव तीन गतियोंमें जाते हैं— तिर्यचगति, मनुष्यगति और  
देवगति ॥ ११९ ॥

उपर्युक्त तिर्यचोंकी नरकमें गति नहीं होती, क्योंकि सासादनगुणस्थानवर्ती  
तिर्यच और मनुष्योंके नरकगतिमें गमन करने योग्य परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

तिर्यचोंमें जानेवाले संख्यात वर्षकी आयुवाले सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यच एके-  
न्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें जाते हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं ॥ १२० ॥

शंका - यदि एकेन्द्रियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो पृथिवी-  
कायादिक जीवोंमें मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होना चाहिये ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आयु क्षीण होनेके प्रथम समयमें ही सासादन  
गुणस्थानका विनाश हो जाता है ।

१ इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपरिणन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । ××× कायानुवादेन  
पृथिवीकायादिषु वनस्पतिकायान्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम् । (स्पर्शने) लेश्यानुवादेन अथवा येषां मते  
सासादन एकेन्द्रियेषु नोत्पद्यते तन्मतापेक्षया द्वादश भागा न दत्ता । स सि १, ८ एक-द्वि-त्रि चतुरिन्द्रिया-  
सङ्घिपंचेन्द्रियेषु एकमेव गुणस्थानमाद्यम् । पंचेन्द्रियेषु सङ्घिषु चतुर्दशापि सन्ति । पृथिवीकायादिषु वनस्पत्यन्तेषु  
एकमेव प्रथमम् । त रा ९, ७ सेसिंदियकाये मिच्छ गुणट्ठाण । गो जी ६७७ पुण्णिदर विगिगिगले तत्थुप्पण्णो  
हु सासणो देहे । पज्जत्ति ण त्रि पावाटि इदि णरतिरियाउग णत्थि । गो क ११३ इगिगिगलेसु जुयल । पचसग्रह  
१, २८. वायरअसणिविगले अपज्जि पढमविय । कर्मग्रथ ४, ३ सब्ब जियठाण मिच्छे सग सासणि ।  
कर्मग्रथ ४, ४५ सासणमावे नाण विउव्वगाहारगे उरलमिस्त । नेगिदिसु सासाणो नेहाहिगय सुयमय पि ।

एइंदिएसु गच्छंता वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइय-वादर-  
वणफइकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तेसु ॥१२१॥

एकेन्द्रियोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यच चादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकोंमें ही जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२१ ॥

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वी जीव मरकर किन पर्याप्तोंमें उत्पन्न हो सकता है इस विषयपर जैनग्रंथकारोंमें बड़ा मतभेद पाया जाता है। ये भिन्न भिन्न मत इस प्रकार हैं—

तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकामें कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शनप्रमाण बतलाते हुए एक ऐसे मतका उल्लेख किया है कि जिसके अनुसार सासादन जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न नहीं होते (देखो स सि. १, ८ स्पर्शनप्ररूपणा)। किन्तु उन्होंने तिर्यच, मनुष्य व देव गतिवाले सासादनसम्यग्दृष्टियोंके स्पर्शनका जो प्रमाण बतलाया है उससे स्पष्ट होता है कि उन्हें सासादनसम्यग्दृष्टियोंका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होना स्वीकार था। (देखो श्रुतसागरी टीकासे लिये गये टिप्पण)।

तत्त्वार्थराजवार्तिक और गोस्मटसार जीवकांडमें पंचेन्द्रियोंको छोड़कर शेष समस्त एकेन्द्रियों व विकलेन्द्रियोंमें केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका ही विधान पाया जाता है (त रा. ९, ७ व गो जी. गा ६७७)। किन्तु कर्मकांडमें एकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय जीवोंकी अपर्याप्त अवस्थामें सासादनसम्यक्त्वका विधान किया गया है। पर लब्धपर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीवोंमें उसका निषेध है (गा. ११३-११५)।

अमितगति आचार्यने अपने पंचसंग्रह ग्रंथमें (पृ. ७५) सातों अपर्याप्त और संक्षी पर्याप्त, इन आठ जीवसमासोंमें सासादनसम्यक्त्वका विधान किया है, जिसके अनुसार विकलेन्द्रिय तथा सूक्ष्म जीवोंमें भी सासादनसम्यग्दृष्टिका उत्पन्न होना संभव है।

भगवती, प्रज्ञापना व जीवाभिगम आदि श्वेताम्बर आगम ग्रंथोंके मतानुसार एकेन्द्रिय जीवोंमें सासादन गुणस्थान नहीं होता, पर द्वीन्द्रिय आदि विकलेन्द्रियोंमें होता है। इसके विपरीत श्वेताम्बर कर्मग्रंथोंमें एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि वादर अपर्याप्तकोंमें सासादन गुणस्थानका विधान पाया जाता है। पर तेज और वायुकायिक जीवोंमें

कर्मग्रंथ ४, ४९ सामने तु विग्रहगल्पवेदया सप्तापर्याप्ता संक्षी पूर्णोऽष्टम । पंचसंग्रह—अमितगति पृ ७५  
वज्जिय ठाणचउक्क तेरु वाऊ य णरयसुहुस च । अण्णत्थ सच्चठाणे उवज्जदे सासणो जीवो ॥ (तत्त्वार्थसूत्रस्य  
श्रुतसागरीटीकाया उद्धृता गाथा) .

पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥१२२॥  
 सण्णीसु गच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मु-  
 च्छिमेसु ॥ १२३ ॥

सासादन गुणस्थानका यहां भी निषेध है। (देखो कर्मग्रंथ ४ गाथा ३, ४५, ४९ व पंच-  
 संग्रह द्वार १, गा २८-२९)

प्रस्तुत पट्खंडागमके सूत्रोंमें व्यवस्था इस प्रकार है— सत्प्ररूपणाके सूत्र ३६ में एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही बतलाया गया है। उसी प्ररूपणाके कायमार्गणासंबंधी सूत्र ४३ में भी पृथ्वीकायादि पांचों एकेन्द्रिय जीवोंके केवल मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहा गया है। द्रव्यप्रमाणानुगमके सूत्र ८८ आदिमें वादर पृथ्वीकायादि जीवोंकी गुणस्थान भेदके बिना ही प्ररूपणा की गई है, जिससे उनमें एक ही गुणस्थान माना जाना सिद्ध होता है। क्षेत्रादिप्ररूपणाओंके सूत्रोंमें भी एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय जीवोंके गुणस्थानभेदका कथन नहीं पाया जाता। किन्तु प्रस्तुत गति-आगति चूलिकाके ११९-१२३, १५१-१५५ व १७३-१७७ सूत्रोंमें क्रमशः तिर्यंच, मनुष्य व देव गतिके सासादनसम्यक्त्वियोंके वायु और तेजकायिक जीवोंको छोड़कर शेष तीनों एकेन्द्रिय वादर जीवोंमें उत्पन्न होनेका सुस्पष्ट विधान व विकलेन्द्रियों एवं असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेका निषेध किया गया है।

धवलाकारने अपने आलाप अधिकारमें सासादनसम्यग्दृष्टियोंके पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्थामें केवल एक पंचेन्द्रियत्व व त्रसकायित्वका ही प्रतिपादन किया है। तथा पृथिवीकायादि स्थावर जीवोंके अपर्याप्त अवस्थामें भी केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान बतलाया है। (देखो भाग २ पृ. ४२७, ४७८, ६०७) सत्प्ररूपणाके सूत्र ३६ की टीकामें धवलाकारने सासादनोंके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने व न होने संबंधी दोनों मतोंके संग्रह और श्रद्धान करनेपर जोर दिया है। पर स्पर्शनप्ररूपणाके सूत्र ४ की टीकामें उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि सासादनोंका एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होना सत्प्ररूपणा और द्रव्यप्रमाण इन दोनोंके सूत्रोंके विरुद्ध है, और इसलिये उसे ग्रहण नहीं करना चाहिये। सासादनसम्यक्त्वियोंके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने और फिर भी एकेन्द्रियोंमें सासादनगुणस्थानके सर्वथा अभाव पाये जानेका समन्वय उन्होंने इस प्रकार किया है कि सासादनसम्यग्दृष्टि एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, किन्तु आयु छिन्न होनेके प्रथम समयमें ही उनका सासादन गुणस्थान छूट जाता है और वे मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, इससे एकेन्द्रियोंकी अपर्याप्त अवस्थामें भी सासादन गुणस्थान नहीं पाया जाता।

पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यंच संज्ञी जीवोंमें जाते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ १२२ ॥

संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यंच गर्भोपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मुच्छिमांमें नहीं ॥ १२३ ॥

गवभोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज-  
त्तएसु ॥ १२४ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज-  
वासाउवेसु वि ॥ १२५ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

मणुसेसु गच्छंता गवभोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मु-  
च्छिमेसु ॥ १२६ ॥

गवभोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज-  
त्तएसु ॥ १२७ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज-  
वासाउएसु वि गच्छंति ॥ १२८ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

गर्भोपक्रान्तिक संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यचोमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच पर्याप्तकोंमें  
जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२४ ॥

पर्याप्तक गर्भोपक्रान्तिक संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच संख्यात-  
वर्षकी आयुवाले जीवोंमें ही जाते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं ॥ १२५ ॥

ये सूत्र सुगम है ।

मनुष्योंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यच गर्भोप-  
क्रान्तिक मनुष्योंमें ही जाते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं ॥ १२६ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच पर्याप्तकोंमें जाते हैं,  
अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२७ ॥

पर्याप्तक गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त तिर्यच संख्यात वर्षकी  
आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते हैं, और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते  
हैं ॥ १२८ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्प-  
वासियदेवेसु गच्छंति' ॥ १२९ ॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्ठी संखेज्जवस्साउआ सम्मामिच्छत्त-  
गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु णो कालं करेति ॥ १३० ॥

कुदो ? सम्मामिच्छत्तगुणम्मि चदुसु वि गदीसु आउकम्मस्स सव्वत्थ बंधा-  
भावां । ण सत्तमपुढवीअसंजदसम्मादिट्ठि-सासणसम्माइट्ठीहि विउचारो', तत्थ वि  
आउअकम्मस्स तेसिं बंधाभावां । हंदि जिस्से गदीए जम्हि गुणङ्काणे आउकम्मबंधो

देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यच भवनवासी देवोंसे  
लगाकर शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १२९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यच सम्यग्मिथ्यादृष्टी संख्यातवर्षायुष्क तिर्यच जीव तिर्यचोंमें  
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३० ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें चारों ही गतियोंमें आयुर्कर्मके बंधका  
सर्वत्र अभाव है । इस कथनसे सप्तम पृथिवीसंबंधी असंयतसम्यग्दृष्टि और सासादन-  
सम्यग्दृष्टि जीवोंसे व्यभिचार भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि सातवी पृथिवीमें भी उक्त  
गुणस्थानवर्ती जीवोंके आयुर्कर्मके बंधका अभाव है । “ जिस गतिमें जिस गुणस्थानमें

१ सखेज्जाउवसण्णी सदर-सहस्सारगो ति जायति । ति प ५, ३१३ त एव सन्निनो मिथ्यादृष्टय  
सासादनसम्यग्दृष्टयश्चाऽऽसहस्रारादुत्पद्यन्ते । त रा ४, २१.

२ सो सजम ण गिण्हदि देसजम वा ण वधदे आउ । सम्म वा मिच्छ वा पड्विज्जिय मरदि णियमेण ॥  
गो. जी. २३ सम्मेव तित्थवधो आहारदुग पमादरहिदेसु । मिस्सूणे आउस्स य मिच्छादिस्स सेसवधो दु ॥ गो क ९२

३ तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सो मणुवदुगमुच्चय णियमा । बधदि गुणपड्विण्णा मरति मिच्छेव तत्थ  
मवा ॥ गो. क ५३९

४ धम्मे तित्थ बधदि वसामेघाण पुण्णगो चेव । छट्ठो ति य मणुवाऊ चरिसे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ -  
गो. क. १०६.



णत्थि; ण तेण-गुणेण ताए गदीए णिग्गमो' ति मोत्तूण कसायउवसामए' ।

तिरिक्खा असंजदसम्मादिट्ठी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा  
तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १३१ ॥

आयुर्कर्मका वंध नहीं होता, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निश्चयतः निर्गमन भी नहीं होता " ऐसा कवायउपशामकोंको छोड़ अन्य सर्व जीवोंके लिये नियम है ।

विशेषार्थ—जिस गुणस्थानमें जिस गतिमें आयुर्कर्म वंधता नहीं है, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निर्गमन भी नहीं होता । यह व्यवस्था इस प्रकार है— चारों गतियोंके जीव मिथ्यात्व गुणस्थानमें आयुर्कर्मका वन्ध करते हैं अतएव उस गुणस्थान सहित उन गतियोंसे अन्य गतियोंमें जाते भी हैं । सातवाँ पृथ्वीके नारकी जीवोंको छोड़ अन्य सब गतियोंके जीव सासादन गुणस्थानमें आयुर्वन्ध करते हैं और इन गतियोंसे निकलते भी हैं, यहां नरकायु नहीं बंधती । सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें आयुर्वन्ध किसी भी गतिमें नहीं होता और इसलिये किसी गतिसे उस गुणस्थान सहित निर्गमन भी नहीं होता । सप्तम पृथ्वीको छोड़कर शेष चारों गतियोंके अचिरतसम्यग्दृष्टि जीव यथायोग्य मनुष्यायु और देवायुका वन्ध करते हैं और इसलिये उस गुणस्थान सहित निर्गमन भी उन गतियोंसे करते हैं । देशचिरत गुणस्थान केवल तिर्यच और मनुष्य इन दो गतियोंमें ही होता है । इन दोनों गतियोंमें इस गुणस्थानमें आयुर्वन्ध देवगतिका होता है, और निर्गमन भी होता है । प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान केवल मनुष्यगतियोंमें पाये जाते हैं । इन दोनों गुणस्थानोंमें भी देवायुका वन्ध तथा निर्गमन संभव है । अप्रमत्त गुणस्थानमें आयुर्वन्धका विच्छेद हो जाता है, अर्थात् अपूर्वकरण आदि सात गुणस्थानोंमें आयुर्वन्ध नहीं होता, पर उपशमश्रेणीके चारों गुणस्थानोंमें चढ़ते व उतरते हुए किसी भी गुणस्थानमें मरण संभव है, तथा अयोगि गुणस्थानसे केवलियोंका संसारसे निर्गमन होता है । इस प्रकार उपशमश्रेणी व अयोगि गुणस्थानमें तो जिस गुणस्थानमें आयुर्वन्ध नहीं होता उसमें भी निर्गमन संभव है, पर अन्य अवस्थामें निर्गमन उसी गुणस्थान सहित संभव है जिस गुणस्थानमें आयुर्वन्ध भी संभव हो ।

तिर्यच असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्पायुष्क तिर्यच जीव तिर्यचपर्यायोसे मरण कर कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३१ ॥

१. मिस्ता' आहारस्स य खवगा चडमाणपदमपुच्चा य । पदमुवसम्मा तमतमगुणपड्विण्णा य ण मरति ॥ अणसजो जिदमिच्छे सुहुत्तअत तु णत्थि मरण तु । किदकरणिज्ज जाव इ सच्चपरड्डाण अट्टपदा ॥ गो क ५६०-५६१.

२. अपमत्ते देवाज्जिण्डवण-चेव अत्थि ति ॥ गो. क. ९८. उवसामगेसु मरिदो देवत्तमत्तं समल्लियर्ह ॥ गो. क. ५५९.

सुगममेदं ।

एकं हि चेव देवगदिं गच्छति ॥ १३२ ॥

कुदो ? देवाउअं मोत्तूण अण्णेसिमाउआणं तत्थ बंधाभावा । ण वाउवबंधेण विणा उप्पाओ अत्थि, तहाणुवलंभा ।

देवेषु गच्छंता सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव आरणच्चुदकप्प-  
वासियदेवेषु गच्छंति ॥ १३३ ॥

उवरि किण्ण गच्छंति ? ण, तिरिक्खसम्माइट्ठीसु संजमाभावा । संजमेण विणा ण च उवरि गमणमत्थि<sup>१</sup> । ण मिच्छाइट्ठीहि तत्थुप्पज्जेतेहि<sup>२</sup> विउचारो, तेसिं पि भाव-  
संजमेण<sup>३</sup> विणा दव्वसंजमस्स<sup>४</sup> संभवा ।

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यंच जीव मरकर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १३२ ॥

क्योंकि, देवायुको छोड़कर अन्य आयुओंका असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच जीवोंके बन्धका अभाव है । और आयुबंधके विना किसी गतिविशेषमें उत्पत्ति होती नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता ।

देवोंमें जानेवाले असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच सौधर्म-ईशान स्वर्गसे लगाकर आरण-अच्युत तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १३३ ॥

शंका—संख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यंच मरकर आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, तिर्यंच सम्यग्दृष्टि जीवोंमें संयमका अभाव पाया जाता है । और संयमके विना आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर गमन होता नहीं है । इस कथनसे आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवोंके साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता, क्योंकि उन मिथ्यादृष्टियोंके भी भावसंयम रहित द्रव्यसंयम होना संभव है ।

१ त एव सम्यग्दृष्टय सौधर्मादिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते । त रा. ४, २१.

२ अस्सजयमत्रियदव्वदेवाण जहण्णेण मवणवासीसु उक्कोसेण उवरिमगेविज्जेसु । व्याख्याप्रज्ञप्ति १, २, २६.

३ प्रतिषु ' तत्थुप्पज्जेतीहि ' इति पाठ ।

४ देहादिसगरहिओ माणक्कसाएहिं सयलपरिचत्तो । अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी हवे साह ॥ भाव-  
प्राप्त ५६. घृत्वा निर्ग्रथलिं ग ये प्रकृष्ट कुर्वते तप । अन्त्यग्रैवैयक यावदमन्या खलु यान्ति ते ॥ तत्त्वार्थसार २, १६७.

५ ने रायसगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वणिग्गथा । ण लहति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥

तिरिक्खमिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउवा  
तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥१३४॥

सुगममेदं ।

एकंहि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १३५ ॥

कुदो ? मंदकसायत्तादो', तत्थ देवाउअं मोत्तूण अण्णेसिमाउआणं वंधाभावादो  
वा । कधमेक्कंहि देवगइमिदि एदेसिं दोण्हं पदाणं समाणाहिअरणत्तं ? ण, देवगदीए  
छक्कारयरूवाए समाणाहिअरणत्तस्स विरोहाभावा । अधवा एक्कं हि चेवेत्ति एत्थतण  
'हि' सदो पुधत्थे दडुच्चो, ण भाए । तेणेसत्थो हवइ- एक्कं चेव हि पुधं देवगइं

तिर्यंच मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच तिर्यंच-  
पर्यायोसे मरणकर कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त तिर्यंच एकमात्र देवगतिमें ही जाते हैं ॥ १३५ ॥

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि  
तिर्यंचोंके मन्दकपायपना होता है । अथवा, उन जीवोंमें देवायुको छोड़कर अन्य आयुओंके  
घन्धका अभाव है, अतएव वे देवगतिमें ही जाते हैं ।

शंका—सूत्रमें 'एकंहि' यह पद सप्तमी विभक्ति सहित है और 'देवगइं' यह  
पद द्वितीया विभक्ति युक्त है, अतएव इन दोनों पदोंमें समानाधिकरणत्व कैसे बन  
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि 'देवगदिं' इस पदके छहों कारकोंमें समानरूपसे प्रयुक्त  
होनेके कारण दोनों पदोंमें समानाधिकरणत्वका कोई विरोध नहीं है । अर्थात् 'देवगदिं'  
पदको अव्ययरूप मानकर उसका सब लिङ्गों और कारकोंके साथ सामञ्जस्य वैठाया  
जा सकता है । अथवा, 'एकंहि चेव' इस वाक्यांशमें 'हि' शब्द 'स्फुट' अर्थमें  
जानना चाहिये, विभक्तिके अर्थमें नहीं । इससे यह अर्थ होगा कि उपर्युक्त जीव 'एक ही

भावप्राप्त ७२ जिणल्लिगधारिणे जे उक्किट्ठवत्समेण सपुण्णा । ते जायति अमच्चा उवरिमगेवज्जपरियत ॥ परदो  
अचतपद-(?) तवदसणणाणचरणसंपण्णा । गिग्गथा जायति मच्चा सच्चड्ढिसिद्धिपरियत ॥ ति प ८, ५५९-५६०

१ संख्यातीतायुषा नून देवेन्वेवास्ति सक्रम । निसंगेण सवेत्तेपा यतो मन्दकपाययता ॥ तत्त्वार्थसार २, १६०.

२ प्रतिपु 'समाणाहिआवरणत्त', मप्रतौ 'समाणाहिअवरणत्त' इति पाठ ।

गच्छंति । ण पुब्बुत्तदोसप्पसंगो । चेव सद्दो सेसगइणिसेहड्डो ।

देवेषु गच्छंता भवणवासियचाणवेंतरजोदिसियदेवेषु गच्छंति'  
॥ १३६ ॥

किं कारणं ? सोहम्मादिउवरिमदेवेषु गमणजोग्गपरिणामाभावा ।

तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्ठी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्त-  
गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेहि णो कालं करंति ॥ १३७ ॥

कुदो ? तत्थ आउअकम्मस्स वंधाभावादो ।

तिरिक्खा असंजदसम्माइट्ठी असंखेज्जवासाउआ तिरिक्खा  
तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १३८ ॥

सुगममेदं ।

केवल देवगतिको जाते हैं ' । इस प्रकार पूर्वोक्त सामानाधिकरण्यसम्बन्धी दोषका प्रसंग नहीं आता । 'चेव' शब्द शेष गतियोंका निषेध करनेके लिये है ।

देवोंमें जानेवाले पूर्वोक्त तिर्यच भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जाते हैं ॥ १३६ ॥

इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुष्क मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि तिर्यचोंके सौधर्मादिक उपरिम देवोंमें गमन करनेके योग्य परिणामोंका अभाव है ।

तिर्यच सम्यग्मिथ्यादृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यच जीव तिर्यचपर्यायोसे-सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३७ ॥

क्योंकि, उक्त जीवोंके सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें आयुर्कर्मके बन्धका अभाव है ।

तिर्यच असंयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यच जीव तिर्यचपर्यायोसे-मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३८ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

१ असंख्येयवर्षायुष तिर्यङ्मनुष्या मिथ्यादृष्टय सासादनसम्यग्दृष्टयश्च आ ज्योतिष्केभ्य उपजायन्ते ।  
त. रा ४, २१.

एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १३९ ॥

एदं पि सुगमं ।

देवेषु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेषु गच्छंति ॥ १४० ॥

तेसिं तदो उवरि तत्तो हेट्ठा वा उप्पज्जणपरिणामाभावा ।

मणुसा मणुसपज्जत्ता मिच्छाइट्ठी संखेज्जवासाउआ मणुसा  
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १४१ ॥

सुगममेदं ।

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगई तिरिक्खगई मणुसगई  
देवगई चेदिं ॥ १४२ ॥

असंख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यच मरकर एकमात्र देवगतिको ही  
जाते हैं ॥ १३९ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

देवोंमें जानेवाले असंख्यातवर्षायुष्क असंयतसम्यग्दृष्टि तिर्यच सौधर्म ईशान  
कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १४० ॥

क्योंकि, उन जीवोंमें सौधर्म ईशान स्वर्गसे ऊपर या नीचे उत्पन्न होने योग्य  
परिणामोंका अभाव पाया जाता है ।

मनुष्य मनुष्यपर्याप्त मिथ्यादृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायोसे  
मरणकर कितनी गतियोंको जाते हैं ? ॥ १४१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त मनुष्य चारों गतियोंमें जाते हैं— नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति  
और देवगति ॥ १४२ ॥

१ सखातीदाओ जाव ईसाण । ति प ५, ३१३ तापसाधोत्कथा, त एव सम्यग्दृष्टय सौधर्मै-  
शानयोर्जन्मानुभवन्ति । त रा ४, २१.

२ संखेज्जाउवमाणा मणुवा णर-तिरिय-देव णिरएसु । सञ्जेसु जायति सिद्धगदीओ वि पावति ॥  
तिं प. ४, २९४४. मणुवा जति चउग्गदिपरियत सिद्धिठाण च । गो क ५४१ एगत वाले ण भते, मणुसे किं  
नेरइयाउय पकरेइ तिरिक्खाउय पकरेइ मणुसाउय पकरेइ देवाउय पकरेइ ? नेरइयाउय किच्चा नेरइएसु उववज्जइ,

एदं पि सुगमं ।

णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छंति ॥ १४३ ॥

तिरिक्खेसु गच्छंता सव्वतिरिक्खेसु गच्छंति ॥ १४४ ॥

मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुस्सेसु गच्छंति ॥ १४५ ॥

देवेषु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाण-  
वासियदेवेषु गच्छंति ॥ १४६ ॥

एदाणि ( सुत्ताणि ) सुगमाणि ।

मणुसा अपज्जत्ता मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि  
गदीओ गच्छंति ? ॥ १४७ ॥

सुगममेदं ।

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चव ॥ १४८ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

नरकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी नरकोंमें जाते हैं ॥ १४३ ॥

तिर्यचोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी तिर्यचोंमें जाते हैं ॥ १४४ ॥

मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी मनुष्योंमें जाते हैं ॥ १४५ ॥

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नौ त्रैवेयकविमान-  
वासी देवों तकमें जाते हैं ॥ १४६ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

मनुष्य अपर्याप्तक मनुष्य मनुष्यपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें  
जाते हैं ? ॥ १४७ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त मनुष्य दो गतियोंमें जाते हैं— तिर्यचगति और मनुष्यगति ॥ १४८ ॥

.. .. .

तिरियाउय कि० तिरिएसु उवव०, मणुस्साउय कि० मणुस्से० उव०, देवाउय० कि० देवलोएसु उववज्जइ ? गोयसा,  
एगतवाले ण मणुस्से नेरइयाउय पि पक्रेइ, तिरि०, मणु०, देवाउय पि पक्रेइ । व्याख्याप्रहसि १, ८, ६४.

कुदो ? मणुस्सअपज्जत्ताणं तिरिक्ख-मणुस्साउअं मोत्तूण अण्णेसिं आउआणं  
बंधाभावा ।

तिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंता सब्वतिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंति,  
णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ॥ १४९ ॥

कुदो ? एदेसिं दाण-दानाणुमोदानमभावादो ।

मणुस्ससासणसम्माइट्ठी संखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि  
कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १५० ॥

सुगममेदं ।

तिण्णिण गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं  
चेदि ॥ १५१ ॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खेसु गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छंति, णो विगंलिं-  
दिएसु गच्छंति ॥ १५२ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तक मनुष्योंके तिर्यंच और मनुष्य, इन दो आयुओंको छोड़कर  
अन्य आयुओंके वन्धका अभाव है ।

तिर्यंच और मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी तिर्यंच और सभी  
मनुष्योंमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्योंमें नहीं  
जाते ॥ १४९ ॥

क्योंकि, अपर्याप्तक मनुष्योंके दान और दानानुमोदन इन दोनों कारणोंका  
अभाव है ।

मनुष्य सासादनसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायोंसे मरण करके  
कितनी गतियोंको जाते हैं ? ॥ १५० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त मनुष्य तीन गतियोंमें जाते हैं— तिर्यंचगति, मनुष्यगति और  
देवगति ॥ १५१ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यंचोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंमें जाते हैं,  
विकलेन्द्रिय जीवोंमें नहीं जाते ॥ १५२ ॥

जदि एइंदिएसु सासणसम्माइड्डी उप्पज्जंति तो एइंदिएसु दोहि गुणट्ठाणेहि होदव्वमिदि । होदु चे ण, एइंदियसासणदव्वस्स दव्वाणिओगद्दारे पमाणपरूवणा-भावा ? एत्थ परिहारो वुच्चदे । तं जहा— सासणसम्माइड्डी एइंदिएसु उप्पज्जमाणा जेण अप्पणो आउअस्स चरिमसमए सासणपरिणामेण सहिया होदूण तदो उवरिम-समए मिच्छत्तं पडिवज्जंति तेण एइंदिएसु ण दोणिण गुणट्ठाणाणि, मिच्छाइड्डी-गुणट्ठाणमेकं चेव ।

एइंदिएसु गच्छंता वादरपुढवी-वादरआउ-वादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तेसु ॥ १५३ ॥

पांचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ॥ १५४ ॥

सण्णीसु गच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥ १५५ ॥

शंका—यदि एकेन्द्रियोंमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो एकेन्द्रियोंमें दो गुणस्थान होना चाहिये ? यदि कहा जाय कि एकेन्द्रियोंमें दो ही गुणस्थान होने दो सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्यानुयोगद्वारमें एकेन्द्रिय सासा-दनगुणस्थानवर्ती जीवोंके द्रव्यका प्रमाण नहीं बतलाया गया ?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहा जाता है । वह इस प्रकार है— चूंकि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीव अपनी आयुके अन्तिम समयमें सासादनपरिणाम सहित होकर उससे ऊपरके समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाते हैं, इसलिये एकेन्द्रियोंमें दो गुणस्थान नहीं होते, केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है ।

एकेन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १५३ ॥

पंचेन्द्रियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संज्ञियोंमें जाते हैं, असंज्ञियोंमें नहीं ॥ १५४ ॥

संज्ञियोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं ॥ १५५ ॥



गवभोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्त-  
एसु ॥ १५६ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज-  
वासाउएसु वि गच्छंति ॥ १५७ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

मणुसेसु गच्छंता गवभोवक्कंतिएसु गच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु  
॥ १५८ ॥

मणुस्सा सण्णिणो चैव, तेण सण्णि-असण्णिवियप्पो ण कदो ।

गवभोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्ज-  
त्तएसु ॥ १५९ ॥

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु ( वि ) गच्छंति,  
असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ॥ १६० ॥

गर्भोपक्रान्तिकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १५६ ॥

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यात वर्षकी आयुवालोंमें भी जाते हैं और असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें भी जाते हैं ॥ १५७ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

मनुष्योंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य गर्भोपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मुच्छिमोंमें नहीं ॥ १५८ ॥

मनुष्य केवल संज्ञी ही होते हैं, इसलिये उनमें संज्ञी और असंज्ञीका विकल्प नहीं किया गया ।

गर्भोपक्रान्तिकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १५९ ॥

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं और असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं ॥ १६० ॥

देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाण-  
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १६१ ॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । कथं मणुससासणसम्माइट्ठीणं सम्मत्त-संजम-  
रहियाणं णवगेवज्जेसु उप्पत्ती ? ण एस दोसो, दव्वसंजमस्स वि तप्फलत्तुवलंभादो' ।

मणुसा सम्माभिच्छाइट्ठी संखेज्जवासाउआ सम्माभिच्छत्तगुणेण  
मणुसा मणुसेहि णो कालं करेति ॥ १६२ ॥

कुदो ? एदस्स सच्चाउआणं बंधाभावादो ।

मणुससम्माइट्ठी संखेज्जवासाउआ मणुस्सा मणुस्सेहि कालगद-  
समाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १६३ ॥

सुगममेदं ।

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नौ ग्रैवेयकविमान-  
वासी देवों तक जाते हैं ॥ १६१ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

शंका—सम्यक्त्व और संयमसे रहित सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्योंकी  
नौ ग्रैवेयकोंमें उत्पत्ति किस प्रकार होती है ?

समाधान— यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यसंयमके भी नौ ग्रैवेयकोंमें उत्पन्न  
होने रूप फलकी प्राप्ति पाई जाती है ।

संख्यात वर्षकी आयुवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि मनुष्य सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान  
सहित मनुष्य होते हुए मनुष्यपर्यायोंसे मरण नहीं करते ॥ १६२ ॥

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें सर्व आयुओंके बन्धका अभाव है ।

मनुष्य सम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्यपर्यायोंसे मरण कर कितनी  
गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १६३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

१ मनुष्या सख्येयवर्षायुष मिथ्यादर्शना सामादनसम्यग्दर्शनाश्च भवनवासिप्रभृतिषूपरिमग्रैवेयकान्तेषु  
उपपादमास्कदति । त रा ४, २१, धृत्वा निर्भथालिंग ये प्रकृष्ट कुर्वते तप । अन्यग्रैवेयक यावदभव्या खलु  
यान्ति ते ॥ तत्त्वार्थसार २, १६७.

## एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १६४ ॥

एत्थ चत्तारि गदीओ गच्छंति चि वत्तच्चं, मणुससम्माइट्ठिणं चउग्गइगमणुव-  
ल्लंभादो । तं जहा- देवगदिं ताव मणुससम्माइट्ठिणो गच्छंति चेव, एत्थेव सुत्ते उत्त-  
त्तादो । गिरयगदिं पि गच्छंति, 'गेरइया सम्मत्तेण अधिगदा गियमा सम्मत्तेण चेव  
णीति' चि सुत्तवयणादो । ण तिरिक्खसम्माइट्ठिणो गिरयगदिमधिगच्छंति, तत्थ  
दंसणमोहणीयस्स खवणाभावादो खइयसम्मत्ताभावा । ण तत्थतणवेदगसम्माइट्ठिणो  
गिरयगदिमधिगच्छंति, तेसिं मरणकाले गिरयाउअसंतस्साभावादो । ण देव-गेरइय-  
सम्माइट्ठिणो गिरयगदिमधिगच्छंति, जिणाणाभावादो । तम्हा परिसेसादो सम्मादिट्ठिणो  
मणुसा चेव गिरयगदिमधिगच्छंति चि सिद्धं । तिरिक्खगदिं (पि गच्छंति), 'सम्मत्तेण

संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दष्टि मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ॥१६४॥

शंका—यहांपर 'संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दष्टि मनुष्य चारों गतियोंको जाते हैं' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दष्टि मनुष्योंका चारों गतियोंमें गमन पाया जाता है । वह इस प्रकार है—सम्यग्दष्टि मनुष्य देवगतिको तो जाते ही हैं, क्योंकि यह बात प्रस्तुत सूत्रमें ही कही गई है । और सम्यग्दष्टि मनुष्य नरकगतिको भी जाते हैं, क्योंकि 'नारकी सम्यक्त्वसे नरकमें प्रवेश करके नियमसे सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं' ऐसा सूत्रका वचन है । तिर्यंच सम्यग्दष्टि जीव तो नरकगतिको जाते नहीं हैं, क्योंकि उनमें दर्शनमोहनीयके क्षपणका अभाव होनेसे क्षायिक सम्यक्त्वका अभाव है । और न तिर्यंचगतिसंबंधी वेदकसम्यग्दष्टि नरकगतिको जाते हैं, क्योंकि उनके मरण-कालमें नरकायु कर्मकी सत्ताका अभाव होता है । देव और नारकी सम्यग्दष्टि नरक-गतिको जाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा जिन भगवान्का उपदेश नहीं है । इसलिये पारिशेष न्यायसे सम्यग्दष्टि मनुष्य ही नरकगतिको जाते हैं यह बात सिद्ध हुई । सम्यग्दष्टि मनुष्य तिर्यंचगतिको भी जाते हैं, क्योंकि 'तिर्यंचगतिको सम्यक्त्व सहित जानेवाले

१ एगतपडिणं ण भते, मणुस्से किं नेर० पकरेइ जाव देवाउय किच्चा देवलोएसु उवव० ? गोयमा, एगतपडिणं ण मणुस्से आउय सिय पकरेइ, सिय नो पकरेइ । जइ पकरेइ नो नेरइया० पकरेइ, नो तिरि०, नो मणु०, देवाउय पकरेइ । XXX वालपडिणं ण भते, मणुस्से किं नेरइयाउय पकरेइ जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा, नो नेरइयाउय पकरेइ जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जइ, से केणट्ठेण जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा, वालपडिणं ण मणुस्से तहारूवस्स ससणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि आयरिय धम्मिय सुवयण सोच्चा निसम्म देस उवरमइ, देस नो उवरमइ, देसं पच्चक्खाइ, देस गो पच्चक्खाइ । से तेणट्ठेण देसोवरमदेसपच्चक्खाणेण नो नेरइयाउय पकरेइ जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जइ । से तेणट्ठेण जाव देवेसु उववज्जइ । व्याख्याप्रज्ञप्ति १, ८, ६५.

अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चैव णीति' ति जिणाणादो । एत्थ ण देव-णेरइय-तिरिक्ख-सम्माइट्ठिणो उप्पज्जंति, एदेसिमेत्थुप्पत्तीए पदुप्पायणजिणाणाभावादो । तम्हा तिरिक्खेसु सम्माइट्ठिणो मणुस्सेव' उप्पज्जंति । एवं मणुस्सेसु मणुससम्माइट्ठीणं उप्पत्ती साहे-दव्वा ति ?

एत्थ परिहारो उच्चदे । तं जहा- जेहि मिच्छाइट्ठीहि देवाउअं मोत्तूण अण्ण-माउअं बंधिय पच्छा सम्मत्तं गहियं ते' एत्थ ण परिगहिया । तेण एककं चैव देवगदिं गच्छंति मणुससम्माइट्ठिणो ति भणिदं । देवगइं मोत्तूणणगईणमाउअं बंधिदूण जेहि सम्मत्तं पच्छा पडिवण्णं ते एत्थ किण्ण गहिदा ? ण, तेसिं मिच्छत्तं गंतूणप्पणो बंधाउअवसेण उप्पज्जमाण्णं सम्मत्ताभावा । सम्मत्तं घेत्तूण दंसणमोहणीयं खविय णिरयादिसु उप्पज्जमाणा वि मणुससम्माइट्ठिणो अत्थि, ते किण्ण गहिदा ? सम्मत्त-माहप्पपदुप्पायणइं पुव्वंवद्धआउअकम्ममाहप्पपदुप्पायणइं च ।

---

जीव नियमसे सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते हैं ' ऐसा जिन भगवान्का उपदेश है । यहां तिर्यंचोंमें देव, नारकी और तिर्यंच सम्यग्दृष्टि जीव तो उत्पन्न होते नहीं, क्योंकि इन जीवोंके यहां उत्पन्न होनेका प्रतिपादन करनेवाला जिन भगवान्का उपदेश पाया नहीं जाता । इसलिये तिर्यंचोंमें सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार मनुष्योंमें मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति साध लेना चाहिये ?

समाधान—यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं । वह इस प्रकार है— जिन मिथ्यादृष्टियोंने देवायुको छोड़ अन्य आयु बांधकर पश्चात् सम्यक्त्व ग्रहण किया है, उनका यहां ग्रहण नहीं किया गया । इसीलिये ऐसा कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ।

शंका—देवगतिको छोड़ अन्य गतियोंकी आयु बांधकर जिन मनुष्योंने पश्चात् सम्यक्त्व ग्रहण किया है, उनका यहां ग्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अपनी बांधी हुई आयुके वशसे उत्पन्न होनेवाले उन जीवोंके सम्यक्त्वका अभाव पाया जाता है ।

शंका—सम्यक्त्वको ग्रहण करके और दर्शनमोहनीयका क्षपण करके नरकादिकमें उत्पन्न होनेवाले भी सम्यग्दृष्टि मनुष्य होते हैं, उनका यहां क्यों नहीं ग्रहण किया गया ?

समाधान—सम्यक्त्वका माहात्म्य दिखलाने और पूर्वमें बांधे हुए आयुकर्मका माहात्म्य उत्पन्न करनेके लिये उक्त जीवोंका यहां ग्रहण नहीं किया गया ।

देवेषु गच्छंता सोहम्भीसाणप्पहुडि जाव सव्वट्ठसिद्धिविमाण-  
वासियदेवेषु गच्छंति' ॥ १६५ ॥

सुगममेदं ।

मणुसा मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंखेज्जवासाउआ मणुमा  
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १६६ ॥

सुगममेदं ।

एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १६७ ॥

देवेषु गच्छंता भवणवासिय-वाणवंतर-जेदिरियदेवेषु गच्छंति  
॥ १६८ ॥

देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सम्यग्दृष्टि मनुष्य सौधर्म-ईमानने उगाकर  
सर्वार्थसिद्धिविमानवासी देवों तकमें जाते हैं ॥ १६५ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासाइनसम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्य मनुष्य-  
पर्यायोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १६६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं ॥ १६७ ॥

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य भवनवासी, ज्ञानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें  
जाते हैं ॥ १६८ ॥

१ परिव्राजकाना देवेषुपपाद आ ब्रह्मलोकान्, जार्जाविकाना आ महत्तान् । तत उर्वेसन्त्याग्निना  
वात्स्युपपाद, निर्गन्त्याग्निगवारिणाभिव उच्छ्रयत मनुष्यानां चित्तपुण्यवन्वानान् । अदम्यदर्शनानामुपमित्रैरेवमान्ते  
उपपाद, तत ऊर्ध्वं सम्यग्दर्शनज्ञानचरणप्रक्रयैवेतानामेव जन्म नेनेरनाम । श्रावणात्त सौधर्मादिभ्यश्चान्तेषु जन्म,  
नाथो नोपरीति परिणामनिश्चिद्विप्रकर्षयोगादेव कल्पम्यानातिशये योगोऽत्रमेव । त न ८ २२ उपपन्ने नहन्तं  
तिर्यचो व्रतसयुता । अत्रैव हि प्रजायन्ते सम्यक्चाराश्रया नरा ॥ न त्रियने पर ह्यस्मादुपगन्तोऽन्त्याग्निना ।  
निर्गन्थाश्रावका ये ते जायन्ते यात्रवच्युतम ॥ यात्रवर्त्तार्थसिद्धिं तु निर्त्रया हि तत पन्म । उच्छ्रयन्ते तेषांयुता  
रत्नत्रयपवित्रिता ॥ तत्त्वार्थनार २, १६५-१६६, १६८ परतिरियदेवना उदन्मेषुपच्युदो चि गिग्गया ।  
परलयददेसमिच्छा गेवञ्जतो चि गच्छति ॥ सव्वट्ठो चि मुट्ठि महुव्वई मोगमृमिजा सन्ना । नोहन्नुग मिच्छा  
मवणतिय तावसा य वर ॥ चरया य परिव्राजा ब्रह्मोचरचुडपदो चि जाजावा । चो क २७९ जी प्र टीका

२ सख्यातीतायुषो मर्त्यास्तिर्यक्श्चाप्यनददश । उच्छ्रयन्तापनात्रैव गन्ति चांतिभन्देवताद् ।  
तत्त्वार्थसार २, १६३

मणुसा सम्मामिच्छाइट्ठी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण  
मणुसा मणुसेहि णो कालं करेति १६९ ॥

मणुसा सम्माइट्ठी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि काल-  
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १७० ॥

एककं हि चेव देवगदिं गच्छंति ॥ १७१ ॥

देवेषु गच्छंता सोहम्मीसाणक्कप्पवासियदेवेषु गच्छंति' ॥१७२॥

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

देवा मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी देवा देवेहि उवट्टिद-चुदसमाणा  
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १७३ ॥

सुगममेदं ।

मनुष्य सम्यग्मिथ्यादृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्य सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान  
सहित मनुष्यपर्यायोसे मरण नहीं करते ॥ १६९ ॥

मनुष्य सम्यग्दृष्टि असंख्यातवर्षायुष्क मनुष्यपर्यायोसे मरण कर कितनी  
गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १७० ॥

उपर्युक्त मनुष्य मरण कर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १७१ ॥

देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवोंमें  
जाते हैं ॥ १७२ ॥

ये सूत्र सुगम हैं ।

देव मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोसे उद्धर्तित व च्युत  
होकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ १७३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

त्रिशेषार्थ—सूत्रकार भूतबलि आचार्यने भिन्न भिन्न गतियोंसे छूटनेके अर्थमें  
संभवतः गतियोंकी हीनता व उत्तमताके अनुसार भिन्न भिन्न शब्दोंका प्रयोग किया है ।

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चैव ॥१७४॥

कुदो ? देव-णिरयाउआणं बंधाभावादो ।

तिरिक्खेसु आगच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो विगलिंदिएसु ॥ १७५ ॥

कुदो ? सहावदो ?

एइंदिएसु आगच्छंता वादरपुठवीकाइय-वादरआउकाइय-वादर-  
वणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु  
॥ १७६ ॥

नरकगति व भवनवासी, वानव्यतरं और ज्योतिषी, ये तीन देवगतियां हीन हैं, अतएव इनसे निकलनेके लिये 'उद्धर्तन' अर्थात् उद्धार होना कहा है। तिर्यच और मनुष्य गतियां सामान्य हैं, अतएव उनसे निकलनेके लिये 'काल करना' शब्दका प्रयोग किया है। और सौधर्मादिक विमानवासियोंकी गति उत्तम है, अतएव वहांसे निकलनेके लिये 'च्युत होना' इस शब्दका उपयोग किया गया है। जहां देवगतिसामान्यसे निकलनेका उल्लेख आया है वहां भवनवासी आदि व सौधर्मादि देवोंकी अपेक्षा 'उद्धर्तित' और 'च्युत' दोनों शब्दोंका उपयोग किया गया है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव मरण कर तिर्यचगति और मनुष्यगति, इन दो गतियोंमें आते हैं ॥ १७४ ॥

क्योंकि, उक्त जीवोंके देव और नारक आयुओंके बंधका अभाव है।

तिर्यचोंमें आनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंमें आते हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं आते ॥ १७५ ॥

क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है।

एकेन्द्रियोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तक जीवोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १७६ ॥

१ आ ईसाण देवा जणणा एइंदिएसु भजिदब्बा। उवरि सहस्सारात्ते भच्चा (सच्चा) सण्णितिरियमणुवते ॥ ति प. ८, ६७९ आहारगा दु देवे देवाणे सण्णिकम्मतिरियणरे। पत्तेयपुदविआऊवादारपज्जत्तगे गमण ॥ भवण-  
तियाण एव तित्थूणणरेसु चैव उप्पत्ती। ईसाणताणेगे सदरदुगताण सण्णीसु ॥ गो क ५४२-५४३ भाज्या  
पुकेन्द्रियत्वेन देवा ऐशानतश्च्युता। तिर्यक्त्वमात्रुषत्वाभ्यामासहस्रारत्त पुन ॥ तत्त्वार्थसार २, १६९.

पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु  
॥ १७७ ॥

सण्णीसु आगच्छंता गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-  
च्छिमेसु ॥ १७८ ॥

गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ १७९ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवासाउएसु ॥ १८० ॥

कुदो ? दाण-दाणाणुमोदाणमभावो, सभावो वा । सेसं सुगमं ।

मणुसेसु आगच्छंता गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-  
च्छिमेसु ॥ १८१ ॥

पंचेन्द्रियोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संज्ञी तिर्यचोंमें आते हैं, असंज्ञियोंमें  
नहीं ॥ १७७ ॥

संज्ञी तिर्यचोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें  
नहीं आते ॥ १७८ ॥

गर्भोपक्रान्तिकोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्याप्तकोंमें  
नहीं आते ॥ १७९ ॥

पर्याप्तकोंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं, असंख्यात-  
वर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८० ॥

क्योंकि, उपर्युक्त देवोंमें दान और दानके अनुमोदन ( इन भोगभूमिमें उत्पत्तिके  
दो कारणों ) का अभाव है । अथवा स्वभावसे ही उपर्युक्त देव असंख्यातवर्षायुष्क  
भोगभूमिके तिर्यचोंमें नहीं उत्पन्न होते । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

मनुष्योंमें आनेवाले मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें  
आते हैं, सम्मूर्च्छिमोंमें नहीं आते ॥ १८१ ॥



गन्धोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ १८२ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवासाउएसु ॥ १८३ ॥

सव्वमेदं सुगमं ।

देवा सम्मामिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवेहिं णो  
उव्वट्ठंति, णो चयंति ॥ १८४ ॥

सुगममेदं ।

देवा सम्माइट्ठी देवा देवेहि उव्वट्ठिद-चुदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ १८५ ॥

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १८६ ॥

कुदो ? देवसम्माइट्ठीणं मणुसाउअं मोत्तूण अण्णाउआणं वंधामावादो ।

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपर्या-  
प्तकोंमें नहीं आते ॥ १८२ ॥

पर्याप्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें आते हैं,  
असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८३ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

देव सम्यग्मिध्यादृष्टि सम्यग्मिध्यात्त्व गुणस्थान सहित देवपर्यायोसे न उद्धर्तित  
होते हैं और न च्युत होते हैं ॥ १८४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

देव सम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोसे उद्धर्तित व च्युत होकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ? ॥ १८५ ॥

सम्यग्दृष्टि देव मरण कर केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १८६ ॥

क्योंकि, सम्यग्दृष्टि देवोंके मनुष्यायुको छोड़ अन्य आयुओंके वन्धका अभाव है ।

मणुसेसु आगच्छंता गम्भोवककंतिएसु आगच्छंति, णो  
सम्मूर्च्छिमेसु ॥ १८७ ॥

गम्भोवककंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ १८८ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ १८९ ॥

सब्बं सुगममेदं ।

भवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु  
देवगदिभंगो ॥ १९० ॥

एदं पि सुगमं ।

सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु पढम-  
पुढवीभंगो । णवरि चुदा ति भाणिदव्वं ॥ १९१ ॥

“ ” “ ”

मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमांमें  
नहीं आते ॥ १८७ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव पर्याप्तकोंमें आते हैं,  
अपर्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ १८८ ॥

पर्याप्तक गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव संख्यातवर्षा-  
युष्कोंमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८९ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवोंकी  
गति उपर्युक्त देवगतिके समान है ॥ १९० ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

सनत्कुमारसे लगाकर शतार-सहस्वार कल्पवासी देवोंकी गति प्रथम पृथिवीके  
नारकी जीवोंकी गतिके समान है । केवल यहां 'उद्धर्तित होते हैं' के स्थान पर 'च्युत  
होते हैं' ऐसा कहना चाहिये ॥ १९१ ॥

एदं पि सुगमं ।

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छाइट्ठी  
सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ १९२ ॥

सुगममेदं ।

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति' ॥ १९३ ॥

कुदो ? सुक्कलेस्सियाणं तेसिं मणुसाउएण विणा अण्णाउआणं वंधाभावा ।

मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मु-  
च्छिमेसु ॥ १९४ ॥

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो  
अपज्जत्तएसु ॥ १९५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

आनतसे लगाकर नव त्रैवेयकविमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादन-  
सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव देवपर्यायोसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ? ॥ १९२ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

उपर्युक्त देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९३ ॥

क्योंकि, शुक्कलेइयावाले उपर्युक्त देवोंके मनुष्यायुको छोड़ अन्य आयुओंके  
बन्धका अभाव है ।

मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमांमें  
नहीं आते ॥ १९४ ॥

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं,  
अपर्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ १९५ ॥

१ तत्तो उवरिमदेवा सन्ना सुक्कामिधाणलेस्साए । उप्पज्जति मणुस्से णत्थि तिरिक्खेसु उववादो ॥  
ति प ८, ६८० तत पर तु ये देवास्ते सर्वेऽनन्तरे भवे । उत्पद्यन्ते मनुष्येषु न हि तिर्यक्षु जातुचित् ॥  
तत्त्वार्थसार २, १७०.

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो  
असंखेज्जवासाउएसु' ॥ १९६ ॥

सव्वमेदं सुगमं ।

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा सम्मामिच्छाइटी  
सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवेहि णो चयंति ॥ १९७ ॥

अणुदिस जाव सव्वट्टिसिद्धिविमाणवासियदेवा असंजदसम्माइटी  
देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ १९८ ॥

एकं हि मणुसगदिमागच्छंति ॥ १९९ ॥

एकं हि मणुसगदिमागच्छंति, सुक्कलेस्सियत्तादो सम्माइट्टितादो वा ।

मणुसेसु आगच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो  
सम्मूच्छिमेसु ॥ २०० ॥

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें  
आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ १९६ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

आनतसे लगाकर नव ग्रैवेयक तकके विमानवासी सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव सम्य-  
ग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित देवपर्यायोंसे च्युत नहीं होते ॥ १९७ ॥

अनुदिशसे लगाकर सर्वार्थसिद्धि तकके विमानवासी असंयतसम्यग्दृष्टि देव  
देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ १९८ ॥

उपर्युक्त देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९९ ॥

उपर्युक्त देवोंके केवल एक मनुष्यगतिमें ही आनेका कारण उनका शुक-  
लेश्यायुक्त होना अथवा सम्यग्दृष्टि होना ही है ।

मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमांमें  
नहीं आते ॥ २०० ॥

गन्धोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ॥ २०१ ॥

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ॥ २०२ ॥

सव्वमेदं सुगमं ।

अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिद-  
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०३ ॥

एक्कं हि चेव तिरिक्खग्दिमागच्छंति त्ति ॥ २०४ ॥

पुणरुत्तादो णेदं सुत्तं वत्तव्वं ? ण एस दोसो, जडमइसिस्साणुग्गहेदुत्तादो ।

तिरिक्खेसु उववणल्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति-  
आभिणिवोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं

गर्भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अप-  
र्याप्तकोंमें नहीं आते ॥ २०१ ॥

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवर्षायुष्कोंमें  
आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोंमें नहीं आते ॥ २०२ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

नीचे सातवीं पृथिवीके नारकी नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते  
हैं ? ॥ २०३ ॥

सातवीं पृथिवीसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तिर्यचगतिमें ही आते  
हैं ॥ २०४ ॥

शंका—(सातवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीवोंकी गतिका निर्देश  
९४ आदि सूत्रोंमें कर आये हैं, अतएव) पुनरुक्त होनेसे प्रस्तुत सूत्र नहीं कहना चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पुनरुक्तिका हेतु जडमति  
शिष्योंका अनुग्रह करना है ।

तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच इन छहकी उत्पत्ति नहीं करते—  
आभिनिवोधिक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, श्रुतज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, अवधि-

णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत्तं णो उप्पाएंति,  
संजमासंजमं णो उप्पाएंति ॥ २०५ ॥

तित्थयरादीणं पडिसेहो एत्थ किण्ण कदो ? ण, तिरिक्खेसु तेसिं संभवाभावा,  
सव्वस्स पडिसेहस्स पत्तिपुव्वस्सुवलंभादो । सासणगुणपडिसेहो किण्ण कदो ? ण,  
सम्मत्ते पडिसिद्धे ततो उप्पज्जमाणसासणसम्मत्तगुणपडिसेहस्स अणुत्तसिद्धीदो ।

छट्टीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिदसमाणा  
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २०६ ॥

ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, सम्यग्मिथ्यात्व गुणको उत्पन्न नहीं करते, सम्यक्त्वको  
उत्पन्न नहीं करते, और संयमासंयमको उत्पन्न नहीं करते ॥ २०५ ॥

शंका—(तिर्यंचोंमें तीर्थंकर आदि भी तो उत्पन्न नहीं होते, अतएव) तीर्थ-  
करादिका भी यहां प्रतिषेध क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि तीर्थंकरादिकोंका तो तिर्यंचोंमें उत्पन्न होना संभव  
ही नहीं है । सर्व प्रतिषेधमें पहले प्रतिषेध्य वस्तुकी उपलब्धि पाई जाती है ।

शंका—उपर्युक्त तिर्यंचोंमें सासादन गुणस्थानकी प्राप्तिका प्रतिषेध क्यों  
नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वका प्रतिषेध कर देनेपर सम्यक्त्वसे उत्पन्न  
होनेवाले सासादनसम्यक्त्व गुणके प्रतिषेधकी सिद्धि बिना कहे ही हो जाती है ।

विशेषार्थ—यहां सप्तम नरकसे आये हुए तिर्यंच जीवोंके सम्यक्त्वकी प्राप्तिका  
सर्वथा प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तिलोयपण्णत्ति ( २, २९२ ) तथा प्रज्ञापना ( २०, १० )  
में उनमेंसे कितने ही जीवों द्वारा सम्यक्त्वग्रहण किये जानेका विधान पाया जाता है ।

छठवीं पृथिवीके नारकी नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ? ॥ २०६ ॥

१ आतुरिमखिदी चरमंगधारिणो सज्जदा य धूमत । छट्ठत देसवदा सम्मत्तधरा केइ चरिमंत ॥  
ति प २, २९२. अहेसत्तमपुढवी-पुच्छ। गीयमा । णो इण्ठे समट्ठे, सम्मत्त पुण लमेज्जा । प्रज्ञापना २०, १०.  
सप्तम्योऽपि सदश ॥ लो प्र १४, ११.

२.सप्तम्या नारका मिथ्याट्टयो नरकेभ्य उद्धर्तिता एकामेव तिर्यग्गतिमायान्ति । तिर्यक्वायाता  
पंचेन्द्रियगर्भजपर्याप्तत्रसख्येयवर्षीयु.पूत्पद्यन्ते नेतरेषु । तत्र चोत्पन्ना सर्वे मतिश्रुतावधिसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वसयमा-  
सयमान्नोत्पादयन्ति । त रा ३, ६.

एत्थ ' छट्ठीए पुठवीए णेरइया उच्चट्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ' ति वत्तच्चं, ण ' णिरयादो णेरइया ' ति, तस्स फलाभावा ? ण एस दोसो, छट्ठीए पुठवीए णेरइया णिरयादो णिरयपज्जायादो उच्चट्टिदसमाणा विणट्ठा संता णेरइया दच्चट्टियणया-वलंबणेण णेरइया होदूण कदि गदीओ आगच्छंति ति तदुच्चारणाए फलोवलंबा । सेसं सुगमं ।

दुवे' गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥२०७॥

एदं पि सिस्ससंभालणद्धं परूविदं ।

तिरिक्ख-मणुस्सेसु उववणल्लया तिरिक्खा मणुसा केइं छ उप्पाएंति— केइं आभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्त-मुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति ॥ २०८ ॥

शंका—यहां ' छठवीं पृथिवीसे निकलकर नारकी कितनी गतियोंमें आते हैं ' ऐसा सूत्र कहना चाहिये, ' नरकसे नारकी होते हुए ' यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन पदोंका कोई फल नहीं है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं, क्योंकि ' छठवीं, पृथिवीके नारकी, नरकसे अर्थात् नरकपर्यायसे, निकलकर अर्थात् विनष्ट होकर, नारकी अर्थात् द्रव्यार्थिक नयके अवलम्बनसे नारकी होते हुए कितनी गतियोंमें आते हैं ' ऐसा सूत्रोक्त उन पदोंके उच्चारणका फल पाया जाता है । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

छठवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्यचगति और मनुष्यगति ॥ २०७ ॥

यह सूत्र भी ( पुनरुक्त होते हुए भी ) शिष्योंको स्मरण करानेके अर्थ प्ररूपित किया गया है ।

तिर्यच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, और कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं ॥ २०८ ॥

१ कप्रतौ ' दुवे हि ' इति पाठ ।

२ षष्ठ्या उद्धर्तिता नारकास्तिर्यङ्मनुष्येषु जाता केचिन्मतिश्रुतावधिसम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वसयमा-सयमाद् षड्त्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोऽन्यत् । त रा ३ ६

१, ९-९, २११. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ गुणुप्पादणं च [ ४८७

सासणसम्मत्तं सम्मत्ते पविसदि त्ति पुध ण उत्तं । सेसं संजमादिं णो उप्पाएत्ति<sup>१</sup>  
त्ति कधं णव्वदे ? विहीए अभावादो । ण च होंतं ण भणइ<sup>२</sup> तित्थयरो, विरोहादो ।

पंचमीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिदसमाणा  
कदि गदीयो आगच्छंति ? ॥ २०९ ॥

दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चैव मणुसगदिं चैव  
॥ २१० ॥

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएत्ति<sup>३</sup> ॥२११॥

तिरिक्खभवमछंडिउणेत्ति जाणावण्डं विदियतिरिक्खगहणं । ताणि छ पुव्वं  
परूविदाणि त्ति णेह कहियाइं ।

सासादनसम्यक्त्व सम्यक्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है, इसलिये उसका पृथक्  
उल्लेख नहीं किया गया ।

शंका—तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच और मनुष्य संयमादि  
शेष गुणोंको उत्पन्न नहीं करते, यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि उनके संयमादि उत्पन्न करनेका विधान नहीं किया गया ।  
यदि उनमें संयमादिकी उत्पत्ति होती तो यह हो नहीं सकता था कि तीर्थंकर उसका  
प्रतिपादन न करें, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

पांचवीं पृथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी  
गतियोंमें आते हैं ? ॥ २०९ ॥

पांचवीं पृथिवीसे निकलकर नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्यंचगति  
और मनुष्यगति ॥ २१० ॥

तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २११ ॥

‘तिर्यंचभवको न छोड़कर’ यह जतलानेके लिये सूत्रमें दूसरी बार ‘तिर्यंच’  
शब्दका उपयोग किया गया है । उन छहका प्ररूपण पहले कर आये हैं इसलिये यहां  
उनका नामोल्लेख नहीं किया गया ।

१ मघव्या मनुष्यलाभो न पन्था भूमेर्विनिर्गता । सयम तु पुन पुण्य नाप्नुवन्तीति निश्चय ॥  
तत्त्वार्थसार २, १४९.

२ आप्रतौ ‘ ण च होंत भणइ ण ’ इति पाठ ।

३ पचम्या उद्धर्तितास्तिर्यक्षूपन्ना केचित्पड्डत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्वत् । त. रा ३, ६.



मणुस्सेसु उववणल्लया मणुसा केइमट्टमुप्पाएंति— केइमाभिणि-  
बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति,  
केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं  
सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति'  
॥ २१२ ॥

कुदो ? पंचमीए आगदस्स तिव्वसंक्रिलेसाभावादो । सेसं सुगमं ।

चउत्थीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिदसमाणा  
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २१३ ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगइं चव मणुसगइं चव  
॥ २१४ ॥

सव्वमेदं सुगमं ।

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई आठको उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनि-  
बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न  
करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं,  
कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम  
उत्पन्न करते हैं ॥ २१२ ॥

क्योंकि, पांचवीं पृथिवीसे आये हुए जीवके तीव्र संक्लेशका अभाव है। शेष  
सूत्रार्थ सुगम है ।

चौथी पृथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी  
गतियोंमें आते हैं ? ॥ २१३ ॥

चौथी पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्यचगति  
और मनुष्यगति ॥ २१४ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

१ मनुष्येषूपत्यन्ना केचिन्मतिश्रुतावाधिमन पर्ययसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वसयमासयमसयमात्तुत्पादयन्ति, न  
सर्वे, नाप्यतोन्वत् । त रा ३, ६ निर्गता खलु पञ्चम्या लमन्ते केचन व्रतम् । प्रयान्ति न पुनर्भुक्तिं माव-  
संक्लेशयोगत ॥ तत्त्वार्थसार २, १५०.

तिरिक्खेसु उववणल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति' ॥२१५॥

ताणि वि सुपसिद्धाणि त्ति णेह परुवियाइं ।

मणुसेसु उववणल्लया मणुसा केइं दस उप्पाएंति—केइमाहिणि-  
वोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति,  
केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा-  
मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति,  
केइं संजममुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं णो वासुदेवत्तं णो चक्कवट्टित्तं  
णो तित्थयरत्तं । केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति  
परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाणमंतं परिविजाणंति' ॥ २१६ ॥

तिर्यचोमै उत्पन्न होनेवाले तिर्यच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१५ ॥

वे छह पूर्वोक्त होनेके कारण सुप्रसिद्ध हैं, अतएव यहां उनका प्ररूपण नहीं किया गया ।

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई दश उत्पन्न करते हैं—कोई आभिनि-  
वोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न  
करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्य-  
गिमथ्यात्त्र उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न  
करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं । वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व,  
न चक्रवर्तित्व, और न तीर्थकरत्व । कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं,  
मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, व सर्व दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव  
करते हैं ॥ २१६ ॥

१ चतुर्थ्या उद्धतितास्तिर्यक्षूत्पन्ना केचिन्मत्यादीन् षडुत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्त्यत् । त रा. ३, ६.

२ मनुष्येपूत्पन्ना केचिन्मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वसयमासयमसयमानुत्पादयन्ति,  
न च बलदेववासुदेवचक्रधरतीर्थकरत्वान्युत्पादयन्ति, केचिन्कर्माष्टकान्तकरा सिध्यन्ति । त. रा. ३, ६ लमन्ते निर्धृति  
केचिच्चतुर्थ्या निर्गता क्षिते । न पुनं प्राप्नुवन्त्येव पवित्रां तीर्थकर्तृताम् ॥ तत्त्वार्थसार २, १५१. मणुसा ण  
मते ! अणतर उव्वट्टिचा कहिं गच्छति कहिं उव्वज्जति । किं नेरइएसु उव्वज्जति जाव देवेसु उव्वज्जति ? गोयमा ।  
नेरइएसु वि उव्वज्जति जाव देवेसु वि उव्वज्जति । ××× अत्येगतिया सिज्झति, बुज्झति, मुच्चति, परिनि-  
व्वायति, सव्वदुक्खाण अत करेति । प्रज्ञापना ६, ६.

अष्टकर्मणामंतं विनाशं कुर्वन्तीति अन्तकृतः । अंतकृतो भूत्वा सिद्धंति सिद्धयन्ति निस्तिष्ठन्ति निष्पद्यन्ते स्वरूपेणेत्यर्थः । बुद्धंति त्रिकालगोचरानन्तार्थव्यंजन-परिणामात्मकाशेषवस्तुतत्त्वं बुद्धयन्ति अवगच्छन्तीत्यर्थः ।

केवलज्ञाने समुत्पन्नेऽपि सर्वं न जानातीति कपिलो ब्रूते । तन्न, तन्निराकरणार्थं बुद्धयन्त इत्युच्यते । मोक्षो हि नाम बन्धपूर्वकः, बन्धश्च न जीवस्यास्ति, अमूर्तत्वान्नित्यत्वाच्चेति । तस्माज्जीवस्य न मोक्ष इति नैयायिक-वैशेषिक-सांख्य-मीमांसकमतम् । एतन्निराकरणार्थं मुञ्चन्तीति प्रतिपादितम् । परिणिष्ठाणयन्ति— अशेषबन्धमोक्षे सत्यपि न परिनिर्वान्ति, सुख-दुःखहेतुशुभाशुभकर्मणां तत्रासत्वादिति तार्किकयोर्मतं । तन्निराकरणार्थं परिनिर्वान्ति अनन्तसुखा भवन्तीत्युच्यते । यत्र सुखं तत्र निश्चयेन दुःखमप्यस्ति,

जो आठ कर्मोंका अन्त अर्थात् विनाश करते हैं वे अन्तकृत् कहलाते हैं । अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, निष्ठित होते हैं व अपने स्वरूपसे निष्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिये । 'जानते हैं' अर्थात् त्रिकालगोचर अनन्त अर्थ और व्यंजन पर्यायात्मक अशेष वस्तुतत्त्वको जानते हैं व समझते हैं ।

कपिलका कहना है कि केवलज्ञान उत्पन्न होने पर भी सब वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं होता । किन्तु ऐसा नहीं है, अतः इसीके निराकरण करनेके लिये 'बुद्ध होते हैं' यह पद कहा गया है । मोक्ष बन्धपूर्वक ही होता है, किन्तु जीवके तो बन्ध ही नहीं है, क्योंकि जीव अमूर्त है और नित्य है । अतएव जीवका मोक्ष नहीं होता । ऐसा नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसकोंका मत है । इसी मतके निराकरणार्थ 'मुक्त होते हैं' ऐसा प्रतिपादित किया गया है । 'परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं' इस पद की सार्थकता इस प्रकार है— अशेष बन्धका मोक्ष हो जाने पर भी जीव परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उस मुक्त अवस्थामें सुखके हेतु शुभकर्म और दुखके हेतु अशुभ कर्मोंका अभाव पाया जाता है, ऐसा दोनों तार्किकोंका मत है । इसी तार्किकमतके निराकरणार्थ 'परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं' अर्थात् अनन्त सुखका उपभोग करनेवाले होते हैं, ऐसा कहा गया है । जहां सुख है वहां निश्चयसे दुख भी है, क्योंकि सुखका दुखके साथ अविनाभावी

१ प्रतिपु 'बन्धकश्च' इति पाठ ।

२ स्यादेतत् पुरुषश्चेदशुणोऽपरिणामी कथमस्य मोक्ष । मुचेर्बन्धनविशेषपर्यत्वात् सवासनकेशकूर्माशयानाञ्च बन्धनसक्षितानां पुरुषे अपरिणामिन्यसम्भवात् । अतएवास्य न ससार प्रेत्यमात्रापरनामास्ति, निष्क्रियत्वात् । तस्मात्पुरुषविमोक्षार्थमिति रिक्त वच । इतीमामाशङ्कामुपसहारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति— तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि ससरति कश्चित् । ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ॥ ६२ ॥ सांख्यतत्वकौमुदी

१, ९-९, २१९. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ गुणुप्पादणं च [ ४६१-

दुःखाविनाभावित्वात्सुखस्येति तार्किकयोरेव मतं, तन्निराकरणार्थं सर्वदुःखाणमंतं परि-  
विजाणंतीति उच्यते । सर्वदुःखानामन्तं पर्यवसानं परिविजानन्ति गच्छन्तीत्यर्थः ।  
कुतः ? दुःखहेतुकर्मणां विनष्टत्वात्, स्वास्थ्यलक्षणस्य' सुखस्य जीवस्य स्वाभा-  
विकत्वादिति ।

तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिद-  
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २१७ ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चव ॥२१८॥

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२१९॥

सव्वमेदं सुगमं ।

सम्यन्ध है, ऐसा दोनों ही तार्किकोंका मत है। उसी मतके निराकरणार्थं 'सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते है' ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे जीव समस्त दुःखोंके अन्त अर्थात् अवसानको पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके दुःखके हेतुभूत कर्मोंका विनाश हो जाता है और स्वास्थ्यलक्षण सुख जो जीवका स्वाभाविक गुण है वह प्रकट हो जाता है।

ऊपरकी तीन पृथिवियोंके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २१७ ॥

ऊपरकी तीन पृथिवियोंसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-  
तिर्यचगति और मनुष्यगति ॥ २१८ ॥

ऊपरकी तीन पृथिवियोंसे निकलकर तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१९ ॥

यह सब सुगम है।

१ स्वास्थ्य यदात्यन्तिक्रमेण पुंसा स्त्राथो न भोग परिमङ्गरात्मा । तपोऽनुपङ्गात् च तापशान्तिरिती-  
दमाख्यद् भगवान् सुपार्थ ॥ बृहत्सत्रयभूस्तोत्र ३१ आत्मोत्थमान्मना साध्यमन्यात्राधमनुत्तरम् । अनन्त स्वास्थ्य-  
मानन्दमनुष्णमपवर्जाजम् ॥ क्षत्रचूडामणि ७, १३ आत्मा ह्यानुतया ज्ञान सम्यक्त्र चरित हि स । स्वस्यो  
दर्शनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुत ॥ तत्त्वार्थसार, उपसहार, ७.

मणुसेसु उववणल्लया मणुस्सा केइमेक्कारस उप्पाएंति-  
 केइमाभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइं मण-  
 पज्जवणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति,  
 केइं सम्माभिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजम-  
 मुप्पाएंति, केइं संजममुप्पाएंति । णो वलदेवत्तं णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति,  
 णो चक्कवट्ठित्तमुप्पाएंति । केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा  
 होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं  
 परिविजाणंति ॥ २२० ॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख-मणुसेहि कालगदसमाणा कदि  
 गदीओ गच्छंति ? ॥ २२१ ॥

ऊपरकी तीन पृथिवियोंसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई ग्यारह  
 उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न  
 करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अपधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई  
 केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न  
 करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं । किन्तु  
 वे जीव न वलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, और न चक्रवर्तित्व  
 उत्पन्न करते हैं । कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं,  
 बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, व सर्व दुखोंके अन्त होनेका  
 अनुभव करते हैं ॥ २२० ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यच व मनुष्य, तिर्यच व मनुष्य पर्यायोंसे मरण करके, कितनी गतियोंमें  
 जाते हैं ? ॥ २२१ ॥

१ निर्गल्य नारका न स्युर्वल्ल-के.व चक्रिण ॥ तत्त्वार्थमार २, १५२

२ उपरि तिसृभ्य उद्धर्तिनास्तिर्यक्षु जाता केचित्तदुत्पादयन्ति । मनुष्येप्रपन्ना केचिन्मतिश्रुतावधि-

१, ९-९, २२५. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्ख-मणुस्साण गदीओ गुणुप्पादणं च [ ४९३

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं  
देवगदिं चेदि ॥ २२२ ॥

णिरय-देवेसु उववण्णल्लया णिरय-देवा केइं पंचमुप्पाएंति-  
केइमाभिणिवोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि-  
णाणमुप्पाएंति, केइं सम्माभिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मतमुप्पाएंति  
॥ २२३ ॥

सुगममेदं ।

तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा मणुसा केइं छ उप्पाएंति  
॥ २२४ ॥

एदं पि सुगमं ।

मणुसेसु उववण्णल्लया तिरिक्ख-मणुस्सा जहा चउत्थपुढवीए  
भंगो' ॥ २२५ ॥

तिर्यच व मनुष्य मरण करके चारों गतियोंमें जाते हैं— नरकगति, तिर्यच-  
गति, मनुष्यगति और देवगति ॥ २२२ ॥

तिर्यच व मनुष्य मरण करके नरक व देवोंमें उत्पन्न होनेवाले नारकी व देव  
कोई पांच उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान  
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते  
हैं, और कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २२३ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है ।

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच व मनुष्य चतुर्थ पृथिवीसे निकलकर मनुष्योंमें  
उत्पन्न होनेवाले जीवोंके समान गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २२५ ॥

मन पर्ययकेवलसम्यक्त्वसम्यङ्मिथ्यात्वसथमासयमसयमानुत्पादयन्ति, न च बलदेववासुदेवचक्रधरत्वान्युत्पादयन्ति,  
केचितीर्थकरत्वमुत्पादयन्ति, अपरे कर्माष्टकान्तकरा सिध्यन्ति । त. रा ३, ६.

१ सखेज्जाउवमाणा मणुवा णर-तिरिय-देव णिरएसु । सव्वेसु जायते सिद्धगदीओ वि पावति ॥ ते

एदं पि सुगमं ।

देवगदीए देवा देवेहि उव्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ २२६ ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेदि ॥२२७॥

तिरिक्खेसु उववणल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२२८॥

सव्वमेदं सुगमं ।

मणुसेसु उववणल्लया मणुसा केइं सव्वं उप्पाएंति— केइमा-  
भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाण-  
मुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति,  
केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजम-

यह सूत्र भी सुगम है ।

देवगतिमें देव देवपर्यायों सहित उद्वर्तित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ? ॥ २२६ ॥

देवगतिसे निकले हुए जीव दो गतियोंमें आते हैं— तिर्यचगति और  
मनुष्यगति ॥ २२७ ॥

देवगतिसे निकलकर तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच कोई छह उत्पन्न  
करते हैं ॥ २२८ ॥

ये सब सूत्र सुगम है ।

देवगतिसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई सर्व गुणोंको  
उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न  
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई  
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व

सखातीदाऊ जायते केइ जाव ईसाण । ण हु होंति सलायणरा जम्मम्मि अणतरे केई ॥ ति प २९४४-२९४५.  
शलाकापुरुषा नैव सन्त्यनन्तरजन्मनि । तिर्यच्चो मातृषाश्चैव भाज्या सिद्धगता तु ते । तत्त्वार्थसार २, १६१.

मुप्पाएति, केइं संजमं उप्पाएति, केइं वलदेवत्तमुप्पाएति, केइं वासु-  
देवत्तमुप्पाएति, केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएति,  
केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्ब-  
दुःखाणमंतं परिविजाणंति' ॥ २२९ ॥

सुगममेइं ।

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्प-  
वासियदेवीओ च देवा देवेहि उव्वट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ २३० ॥

दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ॥ २३१ ॥

उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं, कोई  
वलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई वासुदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न  
करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध  
होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्तका अनुभव  
करते हैं ॥ २२९ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सौधर्म और ईशान  
कल्पवासी देवियां, ये देव देवपर्यायोसे उद्धर्तित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें  
आते हैं ॥ २३० ॥

उक्त भवनवासी आदि देव और देवियां दो गतियोंमें आते हैं— तीर्थचगति  
और मनुष्यगति ॥ २३१ ॥

१ सवुडे ण मते अणगारे सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सब्बदुक्खाणमत करेइ, से केणट्ठेण सिज्झइ  
बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सब्बदुक्खाणमत करेइ ? गोयमा, सवुडे अणगारे आउयवज्जाओ सत्तकम्मपगडीओ  
घणियवधणवद्धाओ मिदिलवधणवद्धाओ पकरेइ, दीहकालट्ठिईयाओ हस्सकालट्ठिईयाओ पकरेइ, तिव्वाणुभावाओ  
मदाणुसावाओ पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ, आउय च ण कम्म ण वधइ, अस्सायावेयणिज्ज  
च ण कम्म नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ, अणाइय च ण अणवदग्ग दीहमद्ध चाउरतससारकतार वीइवयइ । से  
एण्णट्ठेण गोयमा, एव मुच्चइ- सवुडे अणगारे सिज्झइ बुज्झइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सब्बदुक्खाणमत करेइ ।  
व्याख्याप्रज्ञप्ति १, १, १९.



तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२३२॥

सव्वमेदं सुगमं ।

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं दस उप्पाएंति— केइमाभिणि-  
बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति,  
केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा-  
मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति,  
केइं संजममुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं उप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति,  
णो चक्कवट्ठित्तमुप्पाएंति, णो तित्थयरत्तमुप्पाएंति । केइमंतयडा  
होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं  
परिविजाणंति' ॥ २३३ ॥

उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यच होकर  
कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २३२ ॥

ये सब सूत्र सुगम हैं ।

उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य होकर कोई  
दश उत्पन्न करते हैं— कोई आभिनिबोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न  
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई  
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्व उत्पन्न  
करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं । किन्तु वे  
न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवत्व उत्पन्न करते, न चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते और  
न तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं । कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त  
होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते  
हैं ॥ २३३ ॥

१ णिक्खता भवणादो ××× सलागपुरिसा ण होंति षड्इयाइ ॥ ति प ३, १९५-११६. शलाकापुरुषा  
न स्युर्मौमज्येतिभ्रमावना । अनन्तरमवे तेषां भान्या भवति निर्वृति ॥ तत पर विकल्प्यन्ते यावद् अवेयक  
सुरा । शलाकापुरुषत्वेन निर्वाणगमनेन च ॥ तत्त्वार्थसार २, १७१-१७२.

दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो<sup>१</sup> नैवावर्णिं गच्छति नान्तरिक्षम्<sup>२</sup> ।

दिशन्न कांचिद्विदिशन्न कांचित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥ २ ॥

जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावर्णिं गच्छति नान्तरिक्षम्<sup>३</sup> ।

दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्<sup>४</sup> ॥ ३ ॥

इति स्वरूपविनाशो मोक्ष इति बौद्धैरभाणि<sup>५</sup>, तन्मतनिरासार्थं सिद्धयन्तीत्युच्यते ।  
सेसं सुगमं ।

सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जधा देवगदि-  
भंगो<sup>६</sup> ॥ २३४ ॥

सुगममेदं ।

“ जिस प्रकार दीपक जब बुझता है तब वह न तो पृथिवीकी ओर जाता न आकाशकी ओर, न किसी दिशाको जाता है, न विदिशाको, किन्तु तैलके क्षय होनेसे केवल शान्त हो जाता है, उसी प्रकार निर्वृतिको प्राप्त जीव न पृथिवीकी ओर जाता न आकाशकी ओर, न किसी दिशाको जाता न विदिशाको, किन्तु क्लेशके क्षय हो जानेसे केवल शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥

इस प्रकार स्वरूपके विनाशका नाम ही मोक्ष है, ” ऐसा बौद्धोंका कहना है । इसी मतके निराकरणार्थं सूत्रमें ‘सिद्ध होते हैं’ ऐसा कहा गया है । शेष सूत्रार्थं सुगम है ।

सौधर्म-ईशानसे लेकर शतार-सहस्रार तकके देवोंकी गति सामान्य देवगतिके समान है ॥ २३४ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

१ अप्रतौ ‘मभ्युपैति’ इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठा ‘सान्तरिक्षम्’ इति पाठः ।

३ सौन्दरानन्द १६, २८-२९.

४ प्रदीपनिर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणमिति च तस्य खरविषाणवत्कल्पना तैरेवाह्वय निरूपिता । स. सि.

१, १. रूपवेदनासङ्गासस्कारविज्ञानपञ्चकस्त्रुधनिरोधादभावो मोक्ष तन्न । त रा १, १. नवानामात्मगुणानां बुद्धिसुखदुःखेच्छद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसस्काराणां निर्मूलोच्छेदोऽपवर्ग इत्युक्तं भवति । ननु तस्यामवस्थाया कीदृगात्मावशिष्यते । स्वरूपैकप्रतिष्ठान परित्यक्तोऽखिलैर्गुणैः ॥ न्यायमजरी पृ ५०८.

५ सोहम्मादी देवा मज्जा हु सलागपुरिसणिवहेसु । णिस्सेयसगमणेसु सव्वे वि अणतरे जन्मे ॥ णवरि विसेसो सव्वद्वसिद्धिठाणदो विच्छुदा देवा ॥ मज्जा सलागपुरिसा णिच्वाण जति णियमेण ॥ ति. प. ८, ६८२-६८३.

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा  
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २३५ ॥

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३६ ॥  
सुगममेदं ।

मणुस्सेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केइं सव्वे उप्पाएंति ॥२३७॥  
कुदो ? विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

अणुदिस जाव अवराइदविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा  
कदि गदीयो आगच्छंति ? ॥ २३८ ॥

एकं हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३९ ॥

मणुसेसु उववण्णल्लया मणुस्सा तेसिमाभिणिवोहियणाणं सुद-  
णाणं णियमा अत्थि, ओहिणाणं सिया अत्थि, सिया णत्थि । केइं

आनत आदिसे लगाकर नव ग्रैवेयकविमानवासी देव देवपर्यायोसे च्युत होकर  
कित्तनी गतियोंमें आते हैं ? ॥ २३५ ॥

उपर्युक्त आनतादि नव ग्रैवेयकविमानवासी देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही  
आते हैं ॥ २३६ ॥

यह सूत्र सुगम है ।

आनतादि नव ग्रैवेयकविमानवासी उपर्युक्त देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न  
होनेवाले मनुष्य कोई सर्व गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २३७ ॥

क्योंकि, उनके सर्व गुण उत्पन्न करनेमें कोई विरोध नहीं है । शेष सूत्रार्थ  
सुगम है ।

अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानवासी देव देवपर्यायोसे च्युत होकर कित्तनी  
गतियोंमें आते हैं ? ॥ २३८ ॥

अनुदिशादि उपर्युक्त विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगतिमें  
ही आते हैं ॥ २३९ ॥

अनुदिशादि विमानोंके देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके  
आभिनिवोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान नियमसे होता है । अवधिज्ञान होता भी है और

मणपज्जवणाणमुप्पाएति, केवलणाणमुप्पाएति । सम्मामिच्छत्तं णत्थि, सम्मत्तं णियमा अत्थि । केइं संजमासंजममुप्पाएति, संजमं णियमा उप्पाएति । केइं बलदेवत्तमुप्पाएति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएति । केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंतं परिजाणंति' ॥ २४० ॥

मदि-सुदणाणं व ओहिणाणं णियमा किण्ण होदि त्ति ? ण एस दोसो, अणणुगामिणो ओहिणाणस्स अणुगमाभावादो । ण च तत्थ सब्बेसिमोहिणाणमणुगामी चेव, अणणुगामिणो वि ओहिणाणस्स तत्थ संभवादो । देवा देवभावादो, देवेहिंतो देवणिकायादो । सेसं सुगमं ।

नहीं भी होता है । कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं । उनके सम्यग्मिथ्यात्व नहीं होता, किन्तु सम्यक्त्व नियमसे होता है । कोई संयमा-संयमको उत्पन्न करते हैं, संयमको नियमसे उत्पन्न करते हैं । कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, किन्तु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते । कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत् होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं ॥ २४० ॥

शंका—अनुदिशादि विमानोंसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके समान अवधिज्ञान भी नियमसे क्यों नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अननुगामी अवधिज्ञानके अनुगमका अभाव है । और अनुदिशादि विमानोंमें सभोंका अवधिज्ञान अनुगामी होता नहीं है, क्योंकि वहां अननुगामी अवधिज्ञानका भी होना संभव है ।

सूत्रमें जो ' देवा ' शब्द आया है उसका अभिप्राय है ' देवभावसे ' और जो ' देवेहिंतो ' शब्द आया है उसका अभिप्राय है ' देवनिकायसे ' । शेष सूत्रार्थ सुगम है ।

सर्वसिद्धिविमानवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ  
आगच्छंति ? ॥ २४१ ॥

एकं हि चैव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २४२ ॥

मणुसेसु उववणल्लया मणुसा तेसिमाभिणिवोहियणाणं सुद-  
णाणं ओहिणाणं च णियमा अत्थि, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति,  
केवलणाणं णियमा उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णत्थि, सम्मत्तं णियमा  
अत्थि । केइं संजमासंजममुप्पाएंति । संजमं णियमा उप्पाएंति । केइं  
वलदेवत्तमुप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति । केइं चक्कवट्ठित्तमुप्पाएंति,  
केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति । सव्वे ते णियमा अंतयडा होदूण सिज्झंति  
वुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुःखाणमंतं परिविजाणंति'  
॥ २४३ ॥

सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव देवपर्यायोसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते  
हैं ? ॥ २४१ ॥

सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगतियोंमें ही आते  
हैं ॥ २४२ ॥

सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके  
आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान नियमसे होता है । कोई मनःपर्ययज्ञान  
उत्पन्न करते हैं । केवलज्ञान वे नियमसे उत्पन्न करते हैं । उनके सम्यग्मिथ्यात्व नहीं  
होता, किन्तु सम्यक्त्व नियमसे होता है । कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, किन्तु  
संयम नियमसे उत्पन्न करते हैं । कोई बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, किन्तु वासुदेवत्व  
उत्पन्न नहीं करते । कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न करते हैं, कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करते हैं ।  
वे सब नियमसे अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको  
प्राप्त होते हैं और सर्व दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं ॥ २४३ ॥

किमडुं ण तेसिं वासुदेवत्तं ? ण, तस्स मिच्छत्ताविणाभाविणिदाणपुरंगमत्तादो । ओहिणाणं णियमा अत्थि त्ति कधं ? ण, तेसिं अणणुगामि-हायमाण-पंडिवादिओहिणाणाणमभावादो' । सम्मत्तसयलकज्जादो पत्तप्पसरूवा सिज्झंति । अणवगयत्था-भावादो अण्णाणकणस्स वि अभावादो वा, सिद्धाणं बुद्धिअभावपदुप्पायअदुण्णयणिवारणडुं वा, अप्पाणं चेव जाणइ सिद्धो ण वज्झट्टमिदि दुण्णयणिवारणडुं वा बुज्झंति त्ति उत्तं । अमुत्तस्स मुत्तेहि अमुत्तेहि वा वंधो णत्थि त्ति मोक्खाभावमिच्छत्तदुण्णयणिवारणडुं मुच्चंति त्ति उत्तं । असरीरस्स इंदियाणमभावादो विसयसेवा णत्थि तदो तेसिं सुहं णत्थि

शंका—सर्वार्थसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुष्य होनेवाले जीवोंके वासुदेवत्व क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वासुदेवत्वकी उत्पत्तिमें उससे पूर्व मिथ्यात्वके अविनाभावी निदानका होना अवश्यंभावी है ।

शंका - उनके अवधिज्ञान नियमसे होता है, सो कैसे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनके अनुगामी, हीयमान व प्रतिपाती अवधिज्ञानोंका अभाव है ।

सकल कार्योंको समाप्त कर लेने अर्थात् कृतकृत्यसे हो जानेसे सर्वार्थसिद्धि विमानसे आये हुए मनुष्य आत्मस्वरूपको प्राप्त करके सिद्ध होते हैं । अनवगत पदार्थोंके अभावसे अथवा अज्ञानके कणमात्रके भी अभावसे, अथवा सिद्धोंके बुद्धि-अभावको उत्पन्न करनेवाले दुर्नयके निवारणार्थ, अथवा सिद्ध केवल आत्माको जानता है बाह्यार्थको नहीं जानता, ऐसे दुर्नयके निवारणार्थ सूत्रमें 'बुज्झंति' अर्थात् 'बुद्ध होते हैं' यह पद कहा गया है । 'अमूर्तका मूर्त अथवा अमूर्तोंके साथ बन्ध नहीं होता' ऐसा मोक्षके अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी दुर्नयके निवारणार्थ 'मुच्चंति' अर्थात् 'मुक्त होते हैं' यह पद कहा गया है । 'जिसके शरीर नहीं है उसके इन्द्रियोंका भी अभाव होनेसे विषयसेवा नहीं हो सकती, अतएव मुक्त जीवोंके सुख नहीं है'

— — —

दक्षिणेन्द्रास्तथा लोक्पाला लौकान्तिका शची । शक्रश्च नियमाच्युत्वा सर्वे ते यान्ति निर्वृतिम् ॥ तत्त्वार्थसार २, १७४-१७५.

१ प्रतिपु 'हायमाणस्स पंडिवादि-' इति पाठ । वर्धमानो हीयमान. अवस्थित अमवस्थित अनुगामी अननुगामी अप्रतिपाती प्रतिपातीत्येतेऽष्टौ भेदा देशावधेर्भवन्ति । त रा १, २२.

त्ति भणंतदुण्णयणिवारणट्ठं परिणिव्वाणयंति त्ति उत्तं । संते सुहे दुक्खेण वि होदच्चं,  
अण्णहा सुहाणुववत्तीए इदि भणंतदुण्णयणिवारणट्ठं सच्चदुक्खणमंतं परिविजाणंति  
त्ति उत्तं ।

एवं चूलिया समात्ता ।

जीवट्टाणं समत्तं ।

-- --

ऐसा कहनेवालोंके दुर्नयके निवारणार्थ 'परिणिव्वाणयंति' अर्थात् परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। 'जहां सुख है, तहां दुख भी होना चाहिये, नहीं तो सुखकी उपपत्ति नहीं बन सकती' ऐसा कहनेवालोंके दुर्नयके निवारणार्थ 'सर्व दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव करते हैं' ऐसा कहा गया है।

इस प्रकार चूलिका समाप्त हुई ।

जीवस्थान समाप्त ।

—————

परिशिष्ट





# चूलिया-सुत्ताणि

## पठमा पयडिसमुक्कित्तणचूलिया

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	कदि काओ पयडीओ बंधदि, केवडि कालट्टिदिएहि कम्महि सम्मत्तं लब्भदि वा ण लब्भदि वा, केवचिरेण कालेण वा कदि भाए वा कगेदि मिच्छत्तं, उव- नामणा वा सवणा वा केसु व खेत्तेसु कम्म व मूले केवडियं वा दंसणमोहणीयं कम्मं सव्वेतस्स चारित्तं वा सपुण्णं पडिवज्जंतस्स ।	१	१४	आभिणिच्चोहियणाणावरणीयं सुद- णाणावरणीयं ओहिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणावरणीयं केवल- णाणावरणीयं चेदि ।	१५
२	कदि काओ पयडीओ बंधदि त्ति जं पटं तस्स विहासा ।	४	१५	दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीओ ।	३१
३	इदाणि पगडिसमुक्कित्तणं कस्सामो ।	५	१६	णिदाणिदा पयलापयला धीण- णिद्धी णिदा पयला य, चक्खु- दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणा- वरणीयं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ।	॥
४	तं जहा ।	६	१७	वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ ।	३४
५	णाणावरणीयं ।	॥	१८	सादावेदणीयं चैव असादावेदणीयं चैव ।	३५
६	दंसणावरणीयं ।	९	१९	मोहणीयस्स कम्मस्स अट्टावीसं पयडीओ ।	३७
७	वेदणीयं ।	१०	२०	जं तं मोहणीयं कम्मं तं दुविहं, दंसणमोहणीयं चारित्तमोहणीयं चैव ।	॥
८	मोहणीयं ।	११	२१	जं तं दंसणमोहणीयं कम्मं तं बंधादो एयविहं, तस्स संतकम्मं पुण त्तिविहं सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं चेदि ।	३८
९	आउअं ।	१२			
१०	णामं ।	१३			
११	गोदं ।	॥			
१२	अंतरायं चेदि ।	॥			
१३	णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ ।	१४			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२२	जं तं चारिचमोहणीयं कम्मं तं दुविहं, कसायवेदणीयं चैव णोकसायवेदणीयं चैव ।	४०		थावरणामं वादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं अपज्जत्तणामं पत्तेयसरीरणामं साधारणसरीर- णामं थिरणामं अथिरणामं सुह- णामं असुहणामं सुभगणामं दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सर- णामं आदेज्जणामं अणादेज्ज- णामं जसक्कित्तिणामं अजस- क्कित्तिणामं णिभिणणामं तित्थ- यरणामं चेदि ।	५०
२३	जं तं कसायवेदणीयं कम्मं तं सोलसविहं, अणंताणुवंधिकोह- माण-माया-लोहं, अपच्चक्खा- णावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण- माया-लोहं, कोहसंजलणं, माण- संजलणं, मायासंजलण लोह- संजलण चेदि ।	४१	२९	जं तं गदिणामकम्मं तं चउ- व्विहं, णिरयगदिणामं तिरिक्ख- गदिणामं मणुसगदिणामं देव- गदिणामं चेदि ।	६७
२४	जं तं णोकसायवेदणीयं कम्मं तं णवविहं, इत्थिवेदं पुरिसवेदं णत्तंसयवेदं हस्स-रदि-अरदि- सोग-भय-दुगुंछा चेदि ।	४५	३०	जं तं जादिणामकम्मं तं पंच- विहं, एइंदियजादिणामकम्मं वीइंदियजादिणामकम्मं तीइंदिय- जादिणामकम्मं चउरिंदियजादि- णामकम्मं पंचिंदियजादिणाम- कम्मं चेदि ।	४८
२५	आउगस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ।	४८	३१	जं तं सरीरणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरणामं वेउव्विय- सरीरणामं आहारसरीरणामं तेया- सरीरणामं कम्मइयसरीरणामं चेदि ।	४९
२६	णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदि ।	४९	३२	जं तं सरीरबंधणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरबंधण- णामं वेउव्वियसरीरबंधणामं आहारसरीरबंधणामं तेजासरीर-	५१
२७	णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाइं ।	५१			
२८	गदिणामं जादिणामं सरीरणामं सरीरबंधणणामं सरीरसंघादणामं सरीरसंठाणणामं सरीरअंगोबंध- णामं सरीरसंघडणणामं वणणणामं गंधणामं रसणामं फासणामं आणुपुव्वीणामं अगुरुअलहुव- णामं उवघादणामं परघादणामं उस्सासणामं आदावणामं उज्जोव- णामं विहायगदिणामं तसणामं				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	बंधणणामं कम्मइयसरीरबंधण- णामं चेदि ।	७०	३८	जं तं गंधणामकम्मं तं दुविहं, सुरहिगंधं दुरहिगंधं चेव ।	७४
३३	जं तं सरीरसंघादणामकम्मं तं पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद- णामं वेउच्चियसरीरसंघादणामं आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर- संघादणामं कम्मइयसरीरसंघाद- णामं चेदि ।	"	३९	जं तं रसणामकम्मं तं पंचविहं, तित्तणामं कडुवणामं कसायणामं अंबणामं महुरणामं चेदि ।	७५
३४	जं तं सरीरसंठाणणामकम्मं तं छुच्चिहं, समचउरससरीरसंठाण- णामं णग्गोहपरिमंडलसरीर- संठाणणामं सादियसरीरसंठाण- णामं खुज्जसरीरसंठाणणामं वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीर- संठाणणामं चेदि ।	"	४०	जं तं पासणामकम्मं तं अट्टुविहं, कक्खडणामं मउवणामं गुरुअ- णामं लहुअणामं णिद्धणामं लुक्ख- णामं सीदणामं उसुणणामं चेदि ।	"
३५	जं तं सरीरअंगोवंगणामकम्मं तं तिविहं, ओरालियसरीरअंगोवंग- णामं वेउच्चियसरीरअंगोवंगणामं आहारसरीरअंगोवंगणामं चेदि ।	७२	४१	जं तं आणुपुव्वीणामकम्मं तं चउच्चिहं, णिरयगदिपाओग्गा- णुपुव्वीणामं तिरिक्खगदिपाओ- ग्गाणुपुव्वीणामं मणुसगदि- पाओग्गाणुपुव्वीणामं देवगदि- पाओग्गाणुपुव्वीणामं चेदि ।	७६
३६	जं तं सरीरसंघडणणामकम्मं तं छुच्चिहं, वज्जरिसहवइरणारायण- सरीरसंघडणणामं वज्जणारायण- सरीरसंघडणणामं णारायण- सरीरसंघडणणामं अद्धणारायण- सरीरसंघडणणामं खीलियसरीर- संघडणणामं असंपत्तसेवट्टुसरीर- संघडणणामं चेदि ।	७३	४२	अगुरुअलहुअणामं उवघादणामं परघादणामं उरसासणामं आदाव- णामं उज्जोवणामं ।	"
३७	जं तं वणणणामकम्मं तं पंचविहं, क्किण्हवणणामं णीलवणणामं रुहिरवणणामं हालिद्धवणणामं सुक्किलवणणामं चेदि ।	७४	४३	जं तं विहायगइणामकम्मं तं दुविहं, पसत्थविहायोगदी अप्प- सत्थविहायोगदी चेदि ।	"
			४४	तसणामं थावरणामं वादरणामं सुहुमणामं पज्जत्तणामं, एवं जाव णिमिण-तित्थयरणामं चेदि ।	७७
			४५	गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चेव णिच्चागोदं चेव ।	"
			४६	अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पय- डीओ, दाणंतराइयं लाहंतराइयं भोगंतराइयं परिभोगंतराइयं वीरियंतराइयं चेदि ।	

## विदिया ठाणसमुक्कित्तणचूलिया

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	एत्तो ङ्गाणसमुक्कित्तणं वण्ण- इस्सामो ।	७९		णिहा पयला य चक्खुदंसणा- वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं	
२	तं जहा ।	"		ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणा- वरणीयं चेदि ।	८३
३	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण सम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा- दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।	८०	९	एदासिं णवण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ङ्गाणं बंधमाणस्स ।	"
४	णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, आभिणित्रोधिय- णाणावरणीयं सुदणाणावरणीयं ओधिणाणावरणीयं मणपज्जव- णाणावरणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ।	"	१०	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा ।	८४
५	एदासिं पंचण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ङ्गाणं बंधमाणस्स ।	८१	११	तत्थ इमं छण्हं ङ्गाणं, णिहा- णिहा-पयलापयला-धीणगिद्धी- ओ वज्ज णिहा य पयला य चक्खु- दंसणावरणीयं अचक्खुदंसणा- वरणीणं ओहिदंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं चेदि ।	"
६	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा- दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।	"	१२	एदासिं छण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ङ्गाणं बंधमाणस्स ।	८५
७	दंसणावरणीयस्स कम्मस्स तिण्णि ङ्गाणाणि, णवण्हं छण्हं चदुण्हं ङ्गाणमिदि ।	८२	१३	तं सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वा असं- जदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदा- संजदस्स वा संजदस्स वा ।	"
८	तत्थ इमं णवण्हं ङ्गाणं, णिहा- णिहा पयलापयला धीणगिद्धी	"	१४	तत्थ इमं चदुण्हं ङ्गाणं, णिहा य पयला य वज्ज चक्खुदंसणा- वरणीयं अचक्खुदंसणावरणीयं ओधिदंसणावरणीयं केवलदंसणा- वरणीयं चेदि ।	८६
			१५	एदासिं चदुण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ङ्गाणं बंधमाणस्स ।	"

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१६	तं संजदस्स ।	८६		रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण- मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं एक्कवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ड्ढाणं बंधमाणस्स ।	९१
१७	वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पय- डीओ, सादावेदणीयं चेव असादावेदणीयं चेव ।	८७			
१८	एदासिं दोण्हं पयडीणं एक्कम्हि चेव ड्ढाणं बंधमाणस्स ।	"	२५	तं सासणसम्मादिट्ठिस्स ।	९२
१९	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा- दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा- दिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।	८८	२६	तत्थ इमं सत्तरसण्हं ड्ढाणं अणंताणुबंधिकोह-माण-माया- लोभं इत्थिवेदं वज्ज ।	"
२०	मोहणीयस्स कम्मस्स दस ड्ढाणाणि, वावीसाए एक्कवीसाए सत्तरसण्हं तेरसण्हं णवण्हं पंचण्हं चदुण्हं तिण्हं दोण्हं एक्किस्से ड्ढाणं चेदि ।	"	२७	वारस कसाय पुरिसवेदो हस्स- रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं सत्तरसण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ड्ढाणं बंधमाणस्स ।	"
२१	तत्थ इमं वावीसाए ड्ढाणं, मिच्छत्तं सोलस कसाया इत्थि- वेद पुरिसवेद-णउंसयवेद तिण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय- दुगुंछा । एदासिं वावीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव ड्ढाणं बंधमाणस्स ।	८९	२८	तं सम्मामिच्छादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा ।	९३
२२	तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	९०	२९	तत्थ इमं तेरसण्हं ड्ढाणं अपच्च- क्खाणावरणीयकोध-माण माया- लोभं वज्ज ।	"
२३	तत्थ इमं एक्कवीसाए ड्ढाणं मिच्छत्तं णवुंसयवेदं वज्ज ।	९१	३०	अट्ठ कसाया पुरिसवेदो हस्सरदि- अरदिसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं तेरसण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ड्ढाणं बंधमाणस्स ।	९४
२४	सोलस कसाया इत्थिवेद पुरिस- वेदो दोण्हं वेदाणमेक्कदरं हस्स-		३१	तं संजदासंजदस्स ।	"
			३२	तत्थ इमं णवण्हं ड्ढाणं पच्चक्खाणावरणीय कोह-माण- माया-लोहं वज्ज ।	"
			३३	चदुसंजुलणा पुरिसवेदो हस्स- रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	मेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदासिं णवण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव ट्टाणं वंधमाणस्स ।		४७	तत्थ इमं एक्किस्से ट्टाणं माय- संजलणं वज्ज ।	९८
३४	तं संजदस्स ।	९५	४८	लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से पयडीए एक्कम्हि चैव ट्टाणं बंधमाणस्स ।	९८
३५	तत्थ इमं पंचण्हं ट्टाणं हस्स- रदि-अरदिसोग-भयदुगुंछं वज्ज ।	९५	४९	तं संजदस्स ।	९८
३६	चदुसंजलणं पुरिसवेदो । एदासिं पंचण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव ट्टाणं बंधमाणस्स ।	९६	५०	आउअस्स कमस्स चत्तारि पय- डीओ ।	९९
३७	तं संजदस्स ।	९६	५१	णिरआउअं तिरिक्खाउअं मणु- साउअं देवाउअं चेदि ।	९९
३८	तत्थ इमं चदुण्हं ट्टाणं पुरिसवेदं वज्ज ।	९६	५२	जं तं णिरयाउअं कम्मं वंध- माणस्स ।	९९
३९	चदुसंजलणं, एदासिं चदुण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव ट्टाणं बंधमाणस्स ।	९७	५३	तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	१००
४०	तं संजदस्स ।	९७	५४	जं तं तिरिक्खाउअं कम्मं वंध- माणस्स ।	९९
४१	तत्थ इमं तिण्हं ट्टाणं क्रोध- संजलणं वज्ज ।	९७	५५	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा ।	९९
४२	माणसंजलणं मायासंजलणं लोभ- संजलणं, एदासिं तिण्हं पयडीण- मेक्कम्हि चैव ट्टाणं वंधमाणस्स ।	९८	५६	जं तं मणुसाउअं कम्मं वंध- माणस्स ।	९९
४३	तं संजदस्स ।	९८	५७	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा- दिट्ठिस्स वा ।	९९
४४	तत्थ इमं दोण्हं ट्टाणं माण- संजलणं वज्ज ।	९८	५८	जं तं देवाउअं कम्मं वंधमाणस्स ।	१०१
४५	मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदासिं दोण्हं पयडीणमेक्कम्हि चैव ट्टाणं वंधमाणस्स ।	९८	५९	तं मिच्छादिट्ठिस्स वा सासण- सम्मादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा- दिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।	९९
४६	तं संजदस्स ।	९८	६०	णामस्स कम्मस्स अट्ठ ट्टाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगूणतीसाए	९९

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	अट्टवीसाए छव्वीसाए पणुवीसाए वीसाए एक्किस्से ट्ठाणं चेदि । १०१			पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुह- वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराण- मेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण- मेक्कदरं जसकित्ति-अजसकित्ती- णमेक्कदरं णिमिणणामं च । एदासिं पढमतीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेत्र ट्ठाणं । १०४	
६१	तत्थ इमं अट्टावीसाए ट्ठाणं, णिरयगदी पंचिदियजादी वेउ- च्चिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- संठाणं वेउच्चियसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फास णिरयगइ- पाओग्गाणुपुच्ची अगुरुअलहुअ- उवघाद-परघाद-उस्सासं अप्प- सत्थविहायगई तस-वादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-दुहव- दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति- णिमिणणामं । एदासिं अट्टावीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेत्र ट्ठाणं । १०२		६५	तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पज्जत्त- उज्जोवसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स । १०५	
६२	णिरयगइं पंचिदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स । १०३		६६	तत्थ इमं विदियत्तीसाए ट्ठाणं, तिरिक्खगदी पंचियजादी ओरा- लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- संठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाण- मेक्कदरं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्ठसंघडणं वज्ज पंचण्हं संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध- रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गा- णुपुच्ची अगुरुवलहुव-उवघाद- परघाद-उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विहायगदीणमेक्कदरं तस-वादर- पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराण- मेक्कदरं सुहासुहाणमेक्कदरं सुहव- दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्स- राणमेक्कदरं आदेज्ज-अणादे- ज्जाणमेक्कदरं जसकित्ति-अजस- कित्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं विदियत्तीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेत्र ट्ठाणं । १०६	
६३	तिरिक्खगदिणामाए पंच- ट्ठाणाणि, तीसाए एग्गुणतीसाए छव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए ट्ठाणं चेदि । १०४				
६४	तत्थ इमं पढमतीसाए ट्ठाणं, तिरिक्खगदी पंचिदियजादी ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्ठाणाणमेक्कदरं ओरालिय- सरीरअंगोवंगं छण्हं संघडणाण- मेक्कदर वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्ची अ- गुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-- उस्सास-उज्जोवं दोण्हं विहाय- गदीणमेक्कदरं तस-वादर-पज्जत्त-				



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
६७	तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्तं वंधमाणस्स तं सासणसम्मादिट्ठिस्स ।	१०७		दिट्ठिस्स ।	११०
६८	तत्थ इमं तदियतीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेक्कदरं ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगो-वंगं असंपत्तसेवइसरीरसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्ख-गदिपाओग्गाणुपुच्ची अगुरु-अलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोवं अप्पसत्थविहायगदी तस-नादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाण-मेक्कदरं दुमग-दुस्सर-अणादेज्जं जसक्कित्ति-अजसक्कित्तीणमेक्कदरं णिमिण्णामं । एदासिं तदिय-तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं ।	१११	७२	तत्थ इमं तदियउणतीसाए द्वाणं । जघा, तदियतीसाए भंगो । णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं तदियउणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं ।	१११
६९	तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्त-उज्जोव-संजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	११०	७३	तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-संजुत्तं वंधमाणस्स तं सासण-सम्मादिट्ठिस्स ।	१११
७०	तत्थ इमं पढमउणतीसाए द्वाणं । जघा, पढमतीसाए भंगो । णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं पढम-उणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं ।	१११	७४	तत्थ इमं तदियउणतीसाए ठाणं । जघा, तदियतीसाए भंगो । णवरि उज्जोवं वज्ज । एदासिं तदियउणतीसाए पयडीण-मेक्कम्हि चैव द्वाणं ।	१११
७१	तिरिक्खगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-संजुत्तं (बंधमाणस्स तं) मिच्छा-	१११	७५	तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्त-संजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छा, दिट्ठिस्स ।	१११
			७६	तत्थ इमं छव्वीसाए द्वाण, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड-संठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुच्ची अ-गुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासं आदावुज्जोवाणमेक्क-दरं ( थावर-नादर-पज्जत्त-पत्तेय-सरीरं थिराथिराणमेक्कदरं ) सुहासुहाणमेक्कदरं दुहव-अणा-देज्जं जसक्कित्ति-अजसक्कित्तीण-मेक्कदर, णिमिण्णामं । एदासिं	१११

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	छुव्वीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ।	११२		फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणु- पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद- तस-वादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर- अथिर-असुभ-दुहव-अणादेज्ज- अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं विदियपणुवीसाए पयडीण- मेक्कम्हि चेव द्वाणं ।	११४
७७	तिरिक्खगदिं एइंदिय-वादर- पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर- संजुत्तं वंधमाणस्स तं मिच्छा- दिट्ठिस्स ।	११३	८१	तिरिक्खगदिं तस-अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	११५
७८	तत्थ इमं पढमपणुवीसाए द्वाण, तिरिक्खगदी एइंदिय- जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय- सरीरं हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस- फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणु- पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघाद-उस्सास-थावरं वादर-सुहु- माणमेक्कदरं पज्जत्तं पत्तेग- साधारणसरीराणमेक्कदरं थिरा- थिराणमेक्कदरं सुहासुहाणमेक्क- दरं दुहव-अणादेज्जं जसकित्ति- अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण- णामं । एदासिं पढमपणुवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ।	११	८२	तत्थ इमं तेवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी एइंदियजादी ओरा- लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- संठाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरि- क्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरु- अलहुअ-उवघाद-थावरं वादर- सुहुमाणमेक्कदरं अपज्जत्तं पत्तेय- साधारणसरीराणमेक्कदरं अथिर- असुह-दुहव-अणादेज्ज-अजस- कित्ति-णिमिणं । एदासिं तेवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव द्वाणं ।	११६
७९	तिरिक्खगदिं एइंदिय-पज्जत्त- वादर-सुहुमाणमेक्कदरं संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	११४	८३	तिरिक्खगदिं एइंदिय-अपज्जत्त- वादर-सुहुमाणमेक्कदरसंजुत्तं वंध- माणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स ।	११
८०	तत्थ इमं विदियपणुवीसाए द्वाणं, तिरिक्खगदी वेइंदिय-तीइंदिय- चउरिंदिय-पंचिदियचदुण्हं जादी- णमेक्कदरं ओरालिय-तेजा- कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरा- लियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवड्ड- सरीरसंघडणं वण्ण-गंध-रस-		८४	मणुसगदिणामाए तिण्णि द्वाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणुवीसाए द्वाणं चेदि ।	११७
			८५	तत्थ इमं तीसाए द्वाणं, मणुस- गदी पंचिदियजादी ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरस- संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं	

सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

वज्जरिसहस्रघडणं वण्ण-गंध-  
रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणु-  
पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद-  
परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय-  
गदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-  
सरीरं थिराथिराणमेक्कदरं  
सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-  
सुस्सर-आदेज्जं जसकित्ति-  
अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणं  
तित्थयरं । एदासिं तीसाए  
पयडीणमेक्कमिह चैव द्वाणं । ११७

८६ मणुसगदिं पंचिदिय तित्थयर-  
संजुत्तं बंधमाणस्स तं असंजद-  
सम्मादिट्ठिस्स । ११८

८७ तत्थ इमं पढमएगुणतीसाए द्वाणं ।  
जधा, तीसाए भंगो । णवरि  
विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं  
पढमएगुणतीसाए पयडीण-  
मेक्कमिह चैव द्वाणं ।

८८ मणुसगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-  
संजुत्तं बंधमाणस्स तं सम्मा-  
मिच्छादिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा-  
दिट्ठिस्स वा । ११९

८९ तत्थ इमं विदियाए एगुणतीसाए  
द्वाणं, मणुसगदी पंचिदिय-  
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-  
सरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्हं  
संठाणाणमेक्कदरं ओरालिय-  
सरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्टसंघ-  
डणं वज्ज पंचण्हं संघडणाण-

मेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-फासं  
मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वी अ-  
गुरुअलहु--उवघाद-परघाद--  
उस्सासं, दोण्हं विहायगदीण-  
मेक्कदरं तस-वादर-पज्जत्त-  
पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं  
सुभासुभाणमेक्कदरं सुहव-दुह-  
वाणमेक्कदर सुस्सर-दुस्सराण-  
मेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-  
मेक्कदरं जसकित्ति-अजसकित्तीण-  
मेक्कदरं णिमिणं । एदासिं  
विदियएगुणतीसाए पयडीण-  
मेक्कमिह चैव द्वाणं । ११९

९० मणुसगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-  
संजुत्तं बंधमाणस्स तं सासण-  
सम्मादिट्ठिस्स । १२०

९१ तत्थ इम तदियएगुणतीसाए  
द्वाणं, मणुसगदी पंचिदिय-  
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय-  
सरीरं छण्हं संठाणाणमेक्कदरं  
ओरालियसरीरअंगोवंगं छण्हं  
संघडणाणमेक्कदरं वण्ण-गंध-रस-  
फासं मणुसगदिपाओग्गाणु-  
पुव्वी अगुरुअलहुव-उवघाद-  
परघाद-उस्सासं दोण्हं विहाय-  
गदीणमेक्कदरं तस-वादर-पज्जत्त-  
पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं  
सुहासुहाणमेक्कदरं सुभग-  
दुभगाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराण-  
मेक्कदरं आदेज्ज-अणादेज्जाण-

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	मेक्कदरं जसकित्ति-अजस- कित्तीणमेक्कदरं णिमिणणामं । एदासिं तदियएगूणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं । १२०			अंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची अगुरु- अलहुअ उवघाद-परघाद-उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-चादर- पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह- सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति- णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेक्क- त्तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं । १२३	
९२	मणुसगदिं पंचिदिय-पज्जत्त- संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा- दिट्ठिस्स । १२१		९७	देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-आहार- तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुच्च- करणस्स वा । "	
९३	तत्थ इमं पणुचीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिदियजादी ओरा- लिय-तेजा-कम्मइयसरीरं हुंड- संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवदृसंघडणं वण्ण-गंध- रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणु- पुच्ची अगुरुअलहुअ-उवघाद- तस-चादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर- अथिर-असुभ-दुभग-अणादेज्ज- अजसकित्ति-णिमिणं । एदासिं पणुचीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं । "		९८	तत्थ इमं तीसाए ठाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णवरि विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासिं तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चैव द्वाणं । १२४	
९४	मणुसगदिं पंचिदियजादि- अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्ठिस्स । १२२		९९	देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-आहार- संजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्त- संजदस्स वा अपुच्चकरणस्स वा । "	
९५	देवगदिणामाए पंच द्वाणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण- तीसाए अट्टुचीसाए एक्किस्से द्वाणं चेदि । "		१००	तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए द्वाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो । णवरि विसेसो आहारसरीरं वज्ज । एदासिं पढमएगूण- तीसाए पयडीणं एक्कम्हि चैव द्वाणं । "	
९६	तत्थ इमं एक्कत्तीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउच्चिय- आहार-तेजा-कम्मइयसरीरं सम- चउरससंठाणं वेउच्चिय-आहार-		१०१	देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त-तित्थ- यरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्प-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	मत्तसंजदस्स वा अपुच्चकरणस्स वा ।	१२५		सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस- कित्ति-णिमिणणामं । एदासिं पढमअट्ठवीसाए पयडीणमेक्क- म्हि चेव ट्ठाणं ।	१२७
१०२	तत्थ इमं विदियएगुणतीसाए ट्ठाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउच्चिय- सरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस- फासं देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद- उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाण- मेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-तित्थयरं । एदासि- मेगुणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्ठाणं ।	१२५	१०५	देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त- संजुत्तं बंधमाणस्स तं अप्पमत्त- संजदस्स वा अपुच्चकरणस्स वा ।	१२७
	१०३ देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त- तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स तं असंजदसम्मादिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा ।	१२६	१०६	तत्थ इमं विदियअट्ठवीसाए ट्ठाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउच्चिय- सरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस- फासं देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची अगुरुअलहुअ-उवघाद-पर- घाद-उस्सासं पसत्थविहाय- गदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय- सरीरं थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं णिमिणं । एदासिं विदियअट्ठवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्ठाणं ।	१२८
१०४	तत्थ इमं पढमअट्ठवीसाए ट्ठाणं, देवगदी पंचिदियजादी वेउच्चिय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउच्चिय- अंगोवंगं वण्ण-गंध-रस-फासं देवगदिपाओग्गाणुपुच्ची अ- गुरुअलहुअ उवघाद-परघाद- उस्सासं पसत्थविहायगदी तस- वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-	१२६	१०७	देवगदिं पंचिदिय-पज्जत्त- संजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा- दिट्ठिस्स वा सासणसरमा- दिट्ठिस्स वा सम्मामिच्छा- दिट्ठिस्स वा असंजदसम्मा- दिट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ।	१२८
			१०८	तत्थ इमं एक्किस्से ट्ठाणं जस-	१२८

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	कित्तिणामं । एदिस्से पयडीए एकम्हि चेत्र द्वाणं ।	१२८		जदसम्मादिट्टिस्स वा संजदा- संजदस्स वा संजदस्स वा ।	{ ३२
१०९	बंधमाणस्स तं संजदस्स ।	१२९	११५	अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंत- राइयं भोगंतराइयं परिभोगंत- राइयं वीरियंतराइयं चेदि ।	”
११०	गोदस्स कम्मस्स दुव्वे पय- डीओ, उच्चागोदं चेत्र णीचा- गोदं चेत्र ।	१३१			”
१११	जं तं णीचागोदं कम्मं ।	”	११६	एदासिं पंचण्हं पयडीणमेकम्हि चेव द्वाणं ।	”
११२	बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्टिस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा ।	”	११७	बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्टिस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा सम्मादिट्टिस्स वा असं- जदसम्मादिट्टिस्स वा संजदा- संजदस्स वा संजदस्स वा ।	”
११३	जं तं उच्चागोदं कम्मं ।	”			”
११४	बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्टिस्स वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा सम्मादिट्टिस्स वा असं-				”

पढममहादंडयचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	इदाणिं पढमसम्मत्ताभिमुहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ पयडीओ कित्तइस्सामो ।	१३३		वेउव्वियअंगोवंगं वण्ण-गंध- रस-फासं देवगदिपाओग्गाणु- पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघाद-उस्सास-पसत्थत्रिहाय- गदि-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय- सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- आदेज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- गोदं पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ता- भिमुहो सणिपंचिदियतिरिक्खो वा मणुसो वा ।	१३४
२	पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं च ण बंधदि । देवगदि- पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा- कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं				

## विदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	तत्थ इमो विदियो महादंडओ क्कादव्वो भवदि ।	१४०		रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणु- पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- गदी तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेय- सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर- आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- गोदं पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ वंधदि पढम- सम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइयं वज्ज देवो वा णेरइओ वा ।	१४१
२	पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउअं च ण वंधदि । मणुस- गदि-पंचिदियजादि-ओरालिय- तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस- संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्जरिसहसंधडणं वण्ण-गंध-				

## तदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	तत्थ इमो तदिओ महादंडओ क्कादव्वो भवदि ।	१४२		रस-फास-तिरिक्खगदिपाओ- ग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव- उवघाद-( परघाद ) उस्सासं । उज्जोवं सिया वंधदि सिया ण बंधदि । पसत्थविहायगदि-तस- वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- ( सुभ- ) सुभग-सुस्सर-आदेज्ज- जसकित्ति-णिमिण-णीचागोद- पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ वंधदि पढमसम्मत्ता- हिमुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ ।	१४३
२	पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं सादावेदणीयं मिच्छत्तं सोलसण्हं कसा- याणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय- दुगुंछा । आउअं च ण वंधदि । तिरिक्खगदि--पंचिदियजादि- ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर- समचउरससंठाण-ओरालियअंगो- वंग-वज्जरिसहसंधडण-वण्ण-गंध-				

## उक्कस्सट्ठिदिवंधचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	केवडि कालट्ठिदीएहि कम्महि सम्मत्तं लब्भदि वा ण लब्भदि वा, ण लब्भदि त्ति विभासा ।	१४५	१२	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ।	१६१
२	एत्तो उक्कस्सयट्ठिदिं वण्ण-इस्सामो ।	"	१३	सोलसण्हं कसायाणं उक्कस्सगो ट्ठिदिवंधो चत्तालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ ।	"
३	तं जहा ।	१४६	१४	चत्तारि वाससहस्साणि आवाधा ।	१६२
४	पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसणावरणीयाणं असादावेदणीयं पंचण्हमंतराइयाणमुक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ ।	१४६	१५	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ।	"
५	तिण्णि वाससहस्साणि आवाधा ।	१४८	१६	पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी-पसत्थ-विहायगदि-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति-उच्चा-गोदाणं उक्कस्सगो ट्ठिदिवंधो दससागरोवमकोडाकोडीओ ।	"
६	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।	१५०	१७	दसवाससदाणि आवाधा ।	१६३
७	सादावेदणीय-इत्थिवेद-मणुस-गदि-मणुसगदिपाओग्गाणुपुव्वि-णामाणमुक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो पण्णारस सागरोवमकोडाकोडीओ ।	१५८	१८	आवाधूणिया-कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।	"
८	पण्णारस वाससदाणि आवाधा ।	१५९	१९	णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा णिरयगदी तिरिक्ख-गदी एइंदिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्म-इयसरीर-हुंडसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-असंपत्त-सेवट्टसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-	
९	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ।	"			
१०	मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ ट्ठिदिवंधो सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ ।	"			
११	सत्तवाससहस्साणि आवाधा ।	१६०			



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाव- उज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि-त्तस- थावर-चादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- अथिर-असुभ-दुवभग-दुस्सर- अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण- णीचागोदाणं उक्कस्सगो द्विदि- वंधो वीसं सागरोवमकोडा- कोडीओ ।	१६३	३२	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	१७२
२०	वे वाससहस्साणि आवाधा ।	१६५	३३	आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंग- त्तिथयरणामाणमुक्कस्सगो द्विदि- वंधो अंतोकोडाकोडीए ।	१७४
२१	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	"	३४	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१७७
२२	णिरयाउ-देवाउअस्स उक्कस्सओ द्विदिवंधो तेत्तीसं सागरोवमाणि ।	१६६	३५	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	"
२३	पुव्वकोडित्तिभागो आवाधा ।	१६७	३६	णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्ज- णारायणसंघडणणामाणं उक्क- स्सगो द्विदिवंधो वारस साग- रोवमकोडाकोडीओ ।	"
२४	आवाधा ।	१६८	३७	वारसवाससदाणि आवाधा ।	१७८
२५	कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।	"	३८	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	"
२६	तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्क- स्सओ द्विदिवंधो तिण्णि पलि दोवमाणि ।	१६९	३९	सादियसंठाण-णारायसंघडण- णामाणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो चोद्दससागरोवमकोडाकोडीओ ।	"
२७	पुव्वकोडित्तिभागो आवाधा ।	१७१	४०	चोद्दसवाससदाणि आवाधा ।	"
२८	आवाधा ।	"	४१	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	१७९
२९	कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।	"	४२	खुज्जसंठाण-अद्दणारायणसंघ- डणणामाणमुक्कस्सओ द्विदिवंधो सोलससागरोवमकोडाकोडीओ ।	"
३०	वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय- वामणसंठाण-खीलियसंघडण- सुहुम-अपज्जत्त-साधारणणामाणं उक्कस्सगो द्विदिवंधो अट्टारस- सागरोवमकोडाकोडीओ ।	१७२	४३	सोलसवाससदाणि आवाधा ।	"
३१	अट्टारसवाससदाणि आवाधा ।	"	४४	आवाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	"

## जहण्णाट्टिदिच्चूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	एत्तो जहण्णाट्टिदिं वण्णइस्सामो ।	१८०	१३	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८७
२	तं जहा ।	"	१४	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेओ ।	१८७
३	पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं लोभसंजलणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहण्णओ ट्टिदिबंधो अंतोमुहुत्तं ।	१८२	१५	वारसण्हं कसायाणं जहण्णओ ट्टिदिबंधो सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखे- ज्जदिभागेण ऊणया ।	"
४	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८३	१६	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८८
५	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेगो ।	१८४	१७	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेगो ।	"
६	पंचदंसणावरणीय-असादावेदणी- याणं जहण्णगो ट्टिदिबंधो सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ।	"	१८	कोधसंजलण-माणसंजलण-माय- संजलणाणं जहण्णओ ट्टिदिबंधो वे मासा मासं पक्खं ।	"
७	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८५	१९	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८९
८	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेओ ।	"	२०	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेओ ।	"
९	सादावेदणीयस्स जहण्णओ ट्टिदि- बंधो वारस मुहुत्ताणि ।	"	२१	पुरिसवेदस्स जहण्णओ ट्टिदिबंधो अट्ट वस्साणि ।	"
१०	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	१८६	२२	अंतोमुहुत्तमावाधा ।	"
११	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेओ ।	"	२३	आवाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- णिसेओ ।	"
१२	मिच्छत्तस्स जहण्णगो ट्टिदिबंधो सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ।	"	२४	इत्थिवेद-णउंसयवेद-हस्स-रदि- अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-तिरि- कखगइ-मणुसगइ-एइंदिय-बीइं- दिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिं- दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्म-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	इयसरीरं छण्हं संढाणाणं ओरा- लियसरीरअंगोवंगं छण्हं संघड- णाणं वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गा- णुपुञ्जी अगुरुअलहुअ-उवघाद- परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव- पसत्थविहायगदि-अप्पसत्थवि- हायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम- पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- सरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग- दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण- णीचागोदाणं जहण्णगो द्विदि- बंधो सागरोवमस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ।	१९०	३२	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	१९४
२५	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	१९२	३३	आबाधा ।	॥
२६	आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	॥	३४	कम्मट्ठिदी कम्मणिसेगो ।	॥
२७	णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ द्विदिवंधो दसवाससहस्साणि ।	१९३	३५	णिरयगदि-देवगदि-वेउन्विय- सरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंग-णि- णिरयगदि-देवगदिपाओग्गाणु- पुञ्जीणामाणं जहण्णगो द्विदि- बंधो सागरोवमसहस्सस्स वे- सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्ज- दिभागेण ऊणया ।	१९४
२८	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	॥	३६	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	१९७
२९	आबाधा ।	॥	३७	आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेगो ।	॥
३०	कम्मट्ठिदी कम्मणिसेओ ।	॥	३८	आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंग- तित्थयरणामाणं जहण्णगो द्विदि- बंधो अंतोकोडाकोडीओ ।	॥
३१	तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जह- ण्णओ द्विदिवंधो खुंदाभवग्गहणं ।	॥	३९	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	१९८
			४०	आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	॥
			४१	जसगित्ति-उच्चागोदाणं जह- ण्णगो द्विदिवंधो अट्ट मुहुत्ताणि ।	॥
			४२	अंतोमुहुत्तमाबाधा ।	॥
			४३	आबाधूणिया कम्मट्ठिदी कम्म- णिसेओ ।	॥

# सम्मत्तुप्पत्तिचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	एवदिकालट्टिदिएहि कम्मेहि सम्मत्तं ण लहदि ।	२०३		दिय-विगलिंदिएसु । पंचिदिएसु उवसामेतो सण्णीसु उवसामेदि, णो असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेतो गम्भोवक्कंतिएसु उवसामेदि, णो सम्मुच्छिमेसु । गम्भोवक्कंतिएसु उवसामेतो पज्जत्तएसु उवसामेदि, णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्तएसु उवसामेतो संखेज्जवस्साउगेसु वि उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ।	२३८
२	लभदि त्ति विभासा ।	"	१०	उवसामणा वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले ।	२४३
३	एदेसिं चैव सञ्चक्कमाणं जावे अंतोकोडाकोडिट्टिदिं बंधदि तावे पढमसम्मत्तं लभदि ।	"	११	दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढवेतो कम्हि आढवेदि, अङ्काइज्जेसु दीव-समुद्देसु पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि आढवेदि ।	"
४	सो पुण पंचिदिओ सण्णी मिच्छाइट्ठी पज्जत्तओ सञ्च-विसुद्धो ।	२०६	१२	णिट्ठवओ पुण चदुसु वि गदीसु णिट्ठवेदि ।	२४७
५	एदेसिं चैव सञ्चक्कमाणं जाधे अंतोकोडाकोडिट्टिदिं ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुप्पादेदि ।	२२२	१३	सम्मत्तं पडिवज्जंतो तदो सत्तकम्माणमंतोकोडाकोडिं ठवेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीयं वेदणीयं मोहणीयं णामं गोदं अंतरायं चेदि ।	२६६
६	पढमसम्मत्तमुप्पादेतो अंतो-मुहुत्तमोहट्टेदि ।	२३०			
७	ओहट्टेदूण मिच्छत्तं तिण्णि भागं करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं ।	२३४			
८	दंसणमोहणीयं कम्मं उवसामेदि ।	२३८			
९	उवसामेतो कम्हि उवसामेदि, चदुसु वि गदीसु उवसामेदि । चदुसु वि मदीसु उवसामेतो पंचिदिएसु उवसामेदि, णो एइ-				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१४	चारित्तं पडिवज्जंतो तदो सत्त- कम्माणमंतोकोडाकोडिं द्विदिं द्वेदि गाणावरणीयं दंसणावर- णीयं वेदणीयं मोहणीयं गामं गोदं अंतराइयं चेदि ।	२६७		मुहुत्तद्विदिं द्वेदि गाणावरणीयं दसणावरणीयं मोहणीयमंतराइयं चेदि ।	३४२
१५	संपुण्णं पुण चारित्तं पडिवज्जंतो तदो चत्तारि कम्माणि अंतो-		१६	वेदणीयं वारसमुहुत्तं द्विदिं ठवेदि, गामागोदाणमद्वुहुत्त- द्विदिं ठवेदि, सेसाणं कम्माणं भिण्णमुहुत्तद्विदिं ठवेदि ।	३४३

### गदियागदियचूलियासुत्ताणि

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१	णेरइया मिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ।	४१८	९	एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ।	४२३
२	उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ?	४१९	१०	चदुसु हेट्ठिमासु पुढवीसु णेरइया मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?	"
३	पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्जत्तएसु ।	"	११	दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ।	४२४
४	पज्जत्तएसु उप्पादेता अंतो- मुहुत्तप्पहुडि जाव तप्पाओ- गंतोमुहुत्तं उवरिसुप्पादेति, णो हेट्ठा ।	"	१२	केइं जाइस्सरा, केइं वेयणाहि- भूदा ।	"
५	एवं जाव सत्तसु पुढवीसु णेरइया ।	४२०	१३	तिरिक्खमिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ।	"
६	णेरइया मिच्छाइट्ठी कदिहि कार- णेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?	४२१	१४	उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ?	४२५
७	तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ।	"	१५	पंचिदिएसु उप्पादेति, णो एइं- दिय-विगलिंदिएसु ।	"
८	केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं वेदणाहिभूदा ।	४२२	१६	पंचिदिएसु उप्पादेता सण्णीसु उप्पादेति, णो असण्णीसु ।	"

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१७	सणीसु उप्पादेता गन्भोवक्कं- तिएसु उप्पादेति, णो सम्मु- च्छिमेसु ।	४२५	२९	मणुस्सा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?	४२९
१८	गन्भोवक्कंतिएसु उप्पादेता पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अप- ज्जत्तएसु ।	४२६	३०	तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति — केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणविंबं दट्ठण ।	”
१९	पज्जत्तएसु उप्पादेता दिवस- पुधत्तप्पहुडि जावमुवरिमुप्पा- देति, णो हेट्ठादो ।	”	३१	देवा मिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ।	४३१
२०	एवं जाव सव्वदीवसमुद्देसु ।	”	३२	उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ?	”
२१	तिरिक्खा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तं उप्पा- देति ?	४२७	३३	पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्जत्तएसु ।	”
२२	तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणविंबं दट्ठण ।	४२७	३४	पज्जत्तएसु उप्पाएंता अंतो- मुहुत्तप्पहुडि जाव उवरि उप्पा- एंति, णो हेट्ठदो ।	”
२३	मणुस्सा मिच्छादिट्ठी पढम- सम्मत्तमुप्पादेति ।	४२८	३५	एवं जाव उवरिमउवरिमगेवज्ज- विमाणवासियदेवा त्ति ।	४३२
२४	उप्पादेता कम्हि उप्पादेति ?	”	३६	देवा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?	”
२५	गन्भोवक्कंतिएसु पढमसम्मत्त- मुप्पादेति, णो सम्मुच्छिमेसु ।	”	३७	चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पाएंति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणमहिमं दट्ठण, केइं देविट्ठिं दट्ठण ।	”
२६	गन्भोवक्कंतिएसु उप्पादेता पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्जत्तएसु ।	”	३८	एवं भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासिय- देवा त्त ।	४३४
२७	पज्जत्तएसु उप्पादेता अट्ठवास- प्पहुडि जाव उवरिमुप्पादेति, णो हेट्ठादो ।	४२९	३९	आणद-पाणद-आरण-अच्चुद- कप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्ठी कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति ?	”
२८	एवं जाव अट्ठाइज्जदीव-समुद्देसु ।	”			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
४०	तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति— केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण, केइं जिणमहिमं दट्ठुण ।		५२	सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण चैव णीति ।	४४०
४१	णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मि- च्छादिट्ठी कदिहि कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेति ?	४३५	५३	तिरिक्खा केइं मिच्छत्तेण अधि- गदा मिच्छत्तेण णीति ।	॥
४२	दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त- मुप्पादेति — केइं जाइस्सरा, केइं सोऊण ।	४३६	५४	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासण- सम्मत्तेण णीति ।	॥
४३	अणुदिस जाव सच्चट्ठसिद्धि- विमाणवासियदेवा सव्वे ते णियमा सम्माइड्ढि त्ति पणत्ता ।	४३७	५५	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	४४१
४४	णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णीति ।	॥	५६	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ।	॥
४५	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ।	॥	५७	केइं सामणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ।	॥
४६	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	४३८	५८	केइं सामणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	॥
४७	सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चैव णीति ।	॥	५९	सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चैव णीति ।	॥
४८	एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ।	४३९	६०	( एवं ) पंचिंदियतिरिक्खा पंचिं- दियतिरिक्खपज्जत्ता ।	॥
४९	विदियाए जाव छट्ठीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण ( णीति ) ।	४३९	६१	पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीयो म- णुसिणीयो भवणवासिय-वाण- वेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मसाणकप्पवासियदेवीओ च मिच्छत्तेण अधिगदा केइं मिच्छत्तेण णीति ।	४४२
५०	मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सासण- सम्मत्तेण णीति ।	॥	६२	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ।	॥
५१	मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सम्मत्तेण णीति ।	॥	६३	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	॥

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
६४	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ।	४४२	७६	णेरइयमिच्छाइड्डी सासणसम्मा-इड्डी णिरयादो उव्वट्ठिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४४६
६५	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	"	७७	दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्ख-गदिं चेव मणुसगदिं चेव ।	४४७
६६	मणुसा मणुसपज्जत्ता सोधम्मी-साणप्पहुडि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवेसु केइं मिच्छ-त्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ।	४४३	७८	तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिं-दिएसु आगच्छंति, णो एइंदिय-विगलिंदिएसु ।	"
६७	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ।	"	७९	पंचिदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु ।	४४८
६८	केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	"	८०	सण्णीसु आगच्छंता गब्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ।	"
६९	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ।	"	८१	गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अप-ज्जत्तएसु ।	४४९
७०	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ।	"	८२	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएसु ।	"
७१	केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	४४४	८३	मणुस्सेसु आगच्छंता गब्भोवक्कं-तिएसु आगच्छंति, णो-सम्मु-च्छिमेसु ।	४५०
७२	केइं सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छ-त्तेण णीति ।	"	८४	गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।	"
७३	केइं सम्मत्तेण अधिगदा सासण-सम्मत्तेण णीति ।	"	८५	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवस्साउएसु ।	"
७४	केइं सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ।	४४६			
७५	अणुदिस जाव सच्चट्ठिसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव णीति ।	"			



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
८६	णेरइया सम्मामिच्छाइड्डी सम्मामिच्छत्तगुणेण गिरयादो णो उव्वट्ठित्ति ।	४५०		आगच्छंति, णो असण्णीसु ।	४५३
८७	णेरइया सम्माइड्डी गिरयादो उव्वट्ठिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४५१		९७ सण्णीसु आगच्छंता गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ।	"
८८	एक्कं मणुसगदिं चैव आगच्छंति ।	"		९८ गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।	"
८९	मणुसेसु आगच्छंता गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मुच्छिमेसु ।	"		९९ पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवस्साउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ।	"
९०	गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।	"	१००	सत्तमाए पुढवीए णेरइया सासणसम्मादिड्डी सम्मामिच्छादिड्डी असंजदसम्मादिड्डी अप्पणो गुणेण गिरयादो णो उव्वट्ठित्ति ।	४५४
९१	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ।	४५२	१०१	तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइड्डी पंचिदियपज्जत्ता संखेज्जवासाउआ तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"
९२	एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया ।	"	१०२	चत्तारि गदीओ गच्छंति गिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देवगदिं चेदि ।	"
९३	अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइड्डी गिरयादो उव्वट्ठिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	"	१०३	गिरएसु गच्छंता सच्चणिरएसु गच्छंति ।	४५४
९४	एक्कं तिरिक्खगदिं चैव आगच्छंति ।	"	१०४	तिरिक्खेसु गच्छंता सच्चणिरिक्खेसु गच्छंति ।	४५५
९५	तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिदिएसु आगच्छंति, णो एइंदियविगलिंदिएसु ।	४५३	१०५	मणुसेसु गच्छंता सच्चमणुसेसु गच्छंति ।	"
९६	पंचिदिएसु आगच्छंता सण्णीसु				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१०६	देवेषु गच्छंता भवणवासिय- प्पहुडि जाव सयार-सहस्सार- कप्पवासियदेवेषु गच्छंति ।	४५५	११३	दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्ख- गदिं मणुसगदिं चेदि ।	४५७
१०७	पंचिदियतिरिक्खअसण्णिपज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल- गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"	११४	तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सच्चतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छं- ति, णो असंखेज्जवस्साउएसु गच्छंति ।	"
१०८	चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुस- गदिं देवगदिं चेदि ।	"	११५	तेउक्काइया वाउक्काइया वादरा सुहुमा पज्जत्ता अप- ज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	४५८
१०९	णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरइएसु गच्छंति ।	४५६	११६	एक्कं चव तिरिक्खगदिं गच्छंति ।	"
११०	तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सच्चतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छं- ति, णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ।	"	११७	तिरिक्खेसु गच्छंता सच्च- तिरिक्खेसु गच्छंति, णो असं- खेज्जवस्साउएसु गच्छंति ।	"
१११	देवेषु गच्छंता भवणवासिय- वाणवेंतरदेवेषु गच्छंति ।	"	११८	तिरिक्खसासणसम्माइड्डी संखे- ज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरि- क्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"
११२	पंचिदियतिरिक्खसण्णी असण्णी अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ- काइया वा वणप्फइकाइया णिगोदजीवा वादरा सुहुमा वादरवणप्फदिकाइया पत्तेय- सरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय- पज्जत्तापज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	४५७	११९	तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देव- गदिं चेदि ।	४५९
			१२०	तिरिक्खेसु गच्छंता एइंदिय- पंचिदिएसु गच्छंति, णो विगलिंदिएसु ।	"
			१२१	एइंदिएसु गच्छंता वादर पुढवीकाइय-वादरआउक्काइय- वादरवणप्फइकाइयपत्तेयसरीर-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	पञ्जत्तएसु गच्छंति, णो अप- ज्जत्तएसु ।	४६०		त्तगुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु णो कालं करेति ।	४६३
१२२	पंचिदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ।	४६१	१२१	तिरिक्खा असंजदसम्मादिट्ठी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	४६४
१२३	सण्णीसु गच्छंता गम्भोवक्कं- तिएसु गच्छंति, णो सम्मु- च्छिमेसु ।	"	१२२	एक्कं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	४६५
१२४	गम्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पञ्जत्तएसु गच्छंति, णो अपञ्जत्तएसु ।	४६२	१२३	देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण- प्पहुडि जाव आरणच्चुद- कप्पवासियदेवेसु गच्छंति ।	"
१२५	पञ्जत्तएसु गच्छंता संखेज्ज- वासाउएसु वि गच्छंति, असं- खेज्जवासाउएसु वि ।	"	१२४	तिरिक्खमिच्छाइट्ठी सासण- सम्माइट्ठी असंखेज्जवासाउवा तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल- गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	४६६
१२६	मणुसेसु गच्छंता गम्भोवक्कं- तिएसु गच्छंति, णो सम्मु- च्छिमेसु ।	"	१२५	एक्कं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	"
१२७	गम्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पञ्जत्तएसु गच्छंति, णो अप- ज्जत्तएसु ।	"	१२६	देवेसु गच्छंता भवणवासिय- वाणवैतर-जोदिसियदेवेसु ग- च्छंति ।	४६७
१२८	पञ्जत्तएसु गच्छंता संखेज्ज- वासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ।	"	१२७	तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्ठी असंखेज्जवासाउआ सम्मा- मिच्छत्तगुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेहि णो कालं करेति ।	"
१२९	देवेसु गच्छंता भवणवासिय- प्पहुडि जाव सदर-सहस्सार- कप्पवासियदेवेसु गच्छंति ।	४६३	१२८	तिरिक्खा असंजदसम्माइट्ठी असंखेज्जवासाउआ तिरिक्खा तिरिक्खेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"
१३०	तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्ठी संखेज्जवस्साउआ सम्मामिच्छ-				"

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१३९	एककं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	४६८	१५०	मणुस्ससासणसम्माइड्डी संखेज्ज-वासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	४७०
१४०	देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाण-कप्पवासियदेवेसु गच्छंति ।	"	१५१	तिणिण गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं देव-गदिं चेदि ।	"
१४१	मणुसा मणुसपज्जत्ता मिच्छा-इड्डी संखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"	१५२	तिरिक्खेसु गच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छंति, णो विग-लिंदिएसु गच्छंति ।	"
१४२	चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगइं तिरिक्खगइं मणुस-गइं देवगइं चेदि ।	"	१५३	एइंदिएसु गच्छंता बादरपुढवी-बादरआउ-बादरवणप्फदिकाइय-पत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तेसु ।	४७१
१४३	णिरएसु गच्छंता सव्वणिरएसु गच्छंति ।	४६९	१५४	पंचिंदिएसु गच्छंता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीसु ।	"
१४४	तिरिक्खेसु गच्छंता सव्व-तिरिक्खेसु गच्छंति ।	"	१५५	सण्णीसु गच्छंता गढभोवक्कं-तिएसु गच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ।	"
१४५	मणुसेसु गच्छंता सव्वमणुस्सेसु गच्छंति ।	"	१५६	गढभोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।	४७२
१४६	देवेसु गच्छंता भवणवासिय-प्पहुडि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवेसु गच्छंति ।	"	१५७	पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्ज-वासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ।	"
१४७	मणुसा अपज्जत्ता मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"	१५८	मणुसेसु गच्छंता गढभोवक्कं-तिएसु गच्छंति, णो सम्मु-च्छिमेसु ।	"
१४८	दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्ख-गदिं, मणुसगदिं चेव ।	"			
१४९	तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छंता सव्वतिरिक्ख-मणुसेसु गच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छंति ।	४७०			

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१५९	गन्धोवक्त्रातिएसु गच्छंता पञ्जत्तएसु गच्छंति, णो अपञ्जत्तएसु ।	४७२	१६९	मणुसा सम्मामिच्छाइड्डी असंखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करंति ।	४७७
१६०	पञ्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु (वि) गच्छंति, असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ।	"	१७०	मणुसा सम्माइड्डी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"
१६१	देवेषु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेषु गच्छंति ।	४७३	१७१	एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	"
१६२	मणुसा सम्मामिच्छाइड्डी संखेज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो कालं करंति ।	"	१७२	देवेषु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेषु गच्छंति ।	"
१६३	मणुससम्माइड्डी संखेज्जवासाउआ मणुस्सा मणुस्सेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"	१७३	देवा मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी देवा देवेहि उवड्दिदुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	"
१६४	एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	४७४	१७४	दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चेव ।	४७८
१६५	देवेषु गच्छंता सोहम्मीसाणप्पहुडि जाव सच्चड्ढिसिद्धि-विमाणवासियदेवेषु गच्छंति ।	४७६	१७५	तिरिक्खेषु आगच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएसु आगच्छंति, णो विगलिंदिएसु ।	"
१६६	मणुसा मिच्छाइड्डी सासणसम्माइड्डी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"	१७६	एइंदिएसु आगच्छंता वादरपुढवीकाइय-वादरआउकाइय-वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपञ्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपञ्जत्तएसु ।	"
१६७	एकं हि चेव देवगदिं गच्छंति ।	"	१७७	पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छंति, णो असण्णीसु ।	४७९
१६८	देवेषु गच्छंता भवणवासियवाणवत्तर-जोदिसियदेवेषु गच्छंति ।	"	१७८	सण्णीसु आगच्छंता गन्धो-	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	वक्कंतिएसु आगच्छंति, गो सम्मुच्छिमेसु ।	४७९		पज्जत्तएसु आगच्छंति, गो अपज्जत्तएसु ।	४८१
१७९	गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, गो अपज्जत्तएसु ।	"	१८९	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वासाउएसु आगच्छंति, गो असंखेज्जवस्साउएसु ।	"
१८०	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वासाउएसु आगच्छंति, गो असंखेज्जवासाउएसु ।	"	१९०	भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि-दिय-सोधम्मीसाणकप्पवासिय-देवेषु देवगदिभंगो ।	"
१८१	मणुसेसु आगच्छंता गम्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, गो सम्मुच्छिमेसु ।	"	१९१	सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेषु पढ-मपुढवीभंगो । णवरि चुदा त्ति भाणिदच्चं ।	"
१८२	गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, गो अपज्जत्तएसु ।	४८०	१९२	आणदादि जाव णवगेवज्ज-विमाणवासियदेवेषु मिच्छा-इट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजद-सम्माइट्ठी देवा देवेहि चुद-समाणा कदि गदीओ आग-च्छंति ?	४८२
१८३	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज-वासाउएसु आगच्छंति, गो असंखेज्जवासाउएसु ।	"	१९३	एक्कं हि चेव मणुसगदि-मागच्छंति ।	"
१८४	देवा सम्मामिच्छाइट्ठी सम्मा-मिच्छत्तगुणेण देवा देवेहि गो उव्वट्ठंति, गो चयंति ।	"	१९४	मणुसेसु आगच्छंता गम्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, गो सम्मुच्छिमेसु ।	"
१८५	देवा सम्माइट्ठी देवा देवेहि उव्वट्ठिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	"	१९५	गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, गो अपज्जत्तएसु ।	"
१८६	एक्कं हि चेव मणुसगदि-मागच्छंति ।	"	१९६	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखे-ज्जवासाउएसु आगच्छंति, गो असंखेज्जवासाउएसु ।	४८३
१८७	मणुसेसु आगच्छंता गम्भो-वक्कंतिएसु आगच्छंति, गो सम्मुच्छिमेसु ।	४८१			
१८८	गम्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
१९७	आणद जाव गवगेवज्ज- विमाणवासियदेवा सम्मा- मिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छत्त- गुणेण देवा देवेहि णो चरंति ।	४८३		सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत्तं णो उप्पाएंति, संजमा- संजमं णो उप्पाएंति ।	४८४
१९८	अणुदिस जाव सव्वड्डिसिद्धि- विमाणवासियदेवा असंजद- सम्माइट्ठी देवा देवेहि चुद- समाणा कदि गदीओ आग- च्छंति ?		२०६	छट्ठीए पुढवीए णेरइया णिर- यादो णेरइया उच्चट्ठिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४८५
१९९	एकं हि मणुसगदिमागच्छंति ।		२०७	दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चैव ।	४८६
२००	मणुसेसु आगच्छंता गवभो- वक्कंतिएसु आगच्छंति, णो सम्मच्छिमेसु ।		२०८	तिरिक्ख-मणुसेसु उववण्ण- ल्लया तिरिक्खा मणुसा केइं छ उप्पाएंति— केइं आभिणि- बोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि- णाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा- मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्त- मुप्पाएंति, केइं संजमासंजम- मुप्पाएंति ।	
२०१	गवभोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो अपज्जत्तएसु ।	४८४			
२०२	पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्ज- वासाउएसु आगच्छंति, णो असंखेज्जवासाउएसु ।		२०९	पंचमीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्चट्ठिद- समाणा कदि गदीयो आग- च्छंति ?	४८७
२०३	अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्चट्ठिद- समाणा कदि गदीओ आग- च्छंति ?		२१०	दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चैव, मणुस- गदिं चैव ।	
२०४	एकं हि चैव तिरिक्खगदि- मागच्छंति त्ति ।		२११	तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।	
२०५	तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति— आभिणिबोहियणाणं णो उप्पा- एंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं णो उप्पाएंति,		२१२	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइमड्डमुप्पाएंति— केइ- माभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,	

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
	केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइ- मोहिणाणमुप्पाएंति, केइं मण- पज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमा- संजममुप्पाएंति, केइं संजम- मुप्पाएंति ।			मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्ब- दुक्खाणमंतं परिविजाणंति ।	४८९
२१३	चउत्थीए पुढवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिद- समाणा कदि गदीओ आग- च्छंति ?	४८८	२१७	तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया णिरयादो णेरइया उव्वट्टिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४९१
२१४	दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगइं चैव मणुसगइं चैव ।	"	२१८	दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसगदिं चैव ।	"
२१५	तिरिक्खेसु उववण्णल्लया ति- रिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।	४८९	२१९	तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।	"
२१६	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं दस उप्पाएंति— केइमा- हिणिवोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहि- णाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जव- णाणमुप्पाएंति, केइं केवल- णाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा- मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्त- मुप्पाएंति, केइं संजमासंजम- मुप्पाएंति, केइं संजममुप्पा- एंति । णो बलदेवत्तं, णो वासु- देवत्तं, णो चक्कवट्टित्तं, णो तित्थयरत्तं । केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति		२२०	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केइमेकारस उप्पाएंति— केइ- माभिणिवोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं मोहिणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमा- संजममुप्पाएंति, केइं संजम- मुप्पाएंति । णो बलदेवत्तं णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक्क- वट्टित्तमुप्पाएंति । केइं तित्थ- यरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुक्खाण- मंतं परिविजाणंति ।	४९२
	होदूण सिज्झंति बुज्झंति		२२१	तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख- मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?	"



सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
२२२	चत्वारि गदीओ गच्छंति णिरयगदि तिरिक्खगदि मणुसगदि देवगदि चेदि ।	४९३		णाणमुप्पाएंति, केइं सम्मा- मिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्त- मुप्पाएंति, केइं संजमासंजम- मुप्पाएंति, केइं संजमं उप्पा- एंति, केइं वलदेवत्तमुप्पाएंति, केइं वासुदेवत्तमुप्पाएंति, केइं चक्कवट्टित्तमुप्पाएंति, केइं तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइंमंत- यडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिच्चाणयंति सच्च- दुक्खाणमंतं परिविजाणंति ।	४९४
२२३	णिरय-देवेषु उववणल्लया णिरय-देवा केइं पंचमुप्पा- एंति, केइंमाभिणिबोहियणाण- मुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पा- एंति, केइंमोहिणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति ।	"	२३०	भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- सियदेवा देवीओ सोधम्मी- साणक्कप्पवासियदेवीओ च देवा देवेहि उच्चट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४९५
२२४	तिरिक्खेषु उववणल्लया तिरिक्खा मणुसा केइं छ उप्पाएंति ।	"	२३१	दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदि मणुसगदि चेव ।	"
२२५	मणुसेसु उववणल्लया तिरिक्खमणुस्सा जहा चउत्थ- पुढवीए भंगो ।	"	२३२	तिरिक्खेषु उववणल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।	४९६
२२६	देवगदीए देवा देवेहि उच्च- ट्टिद-चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	४९४	२३३	मणुसेसु उववणल्लया मणुसा केइं दस उप्पाएंति— केइं- माभिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइं- मोहिणाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केइं केवलणाणमुप्पाएंति, केइं सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केइं सम्मत्तमुप्पाएंति, केइं संजमा-	
२२७	दुवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगदि मणुसगदि चेदि ।	"			
२२८	तिरिक्खेषु उववणल्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ।	"			
२२९	मणुसेसु उववणल्लया मणुसा केइं सच्चं उप्पाएंति — केइंमा- भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केइं सुदणाणमुप्पाएंति, केइंमोहि- णाणमुप्पाएंति, केइं मणपज्जव- णाणमुप्पाएंति, केइं केवल-				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	
	संजममुप्पाएंति, केइं संजम- मुप्पाएंति । गो बलदेवत्तं उप्पाएंति, गो वासुदेवत्त- मुप्पाएंति, गो चक्कवट्टित्त- मुप्पाएंति, गो तित्थयरत्त- मुप्पाएंति । केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खाण- मंतं परिविजाणंति ।	४९६		णाणं गियमा अत्थि । ओहि- णाणं सिया अत्थि, सिया णत्थि । केइं मणपज्जवणाण- मुप्पाएंति, केवलणाणमुप्पा- एंति । सम्मामिच्छत्तं णत्थि, सम्मत्तं गियमा अत्थि । केइं संजमासंजममुप्पाएंति, संजमं गियमा उप्पाएंति । केइं बल- देवत्तमुप्पाएंति, गो वासुदेवत्त- मुप्पाएंति । केइं चक्कवट्टित्त- मुप्पाएंति, केइं तित्थयरत्त- मुप्पाएंति, केइमंतयडा होदूण सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खा- णमंतं परिजाणंति ।	४९८	४९८
२३४	सोहम्मीसाण जाव सदर- सहस्सारकप्पवासियदेवा जधा देवगदिभंगो ।	४९७	२४१	सव्वदुसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगच्छंति ?	५००	
२३५	आणदादि जाव णवगेवज्ज- विमाणवासियदेवा देवेहि चुद- समाणा कदि गदीओ आग- च्छंति ?	४९८	२४२	एकं हि चेव मणुसगदि- मागच्छंति ।	५००	
२३६	एकं हि चेव मणुसगदि- मागच्छंति ।	५००	२४३	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं सव्वे उप्पाएंति ।	५००	
२३७	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा केइं सव्वे उप्पाएंति ।	५००	२४४	एकं हि चेव मणुसगदि- मागच्छंति ।	५००	
२३८	अणुदिस जाव अवराइद- विमाणवासियदेवा देवेहि चुद- समाणा कदि गदीयो आग- च्छंति ?	५००	२४५	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुद- णाणं ओहिणाणं च गियमा अत्थि । केइं मणपज्जवणाण- मुप्पाएंति, केवलणाणं गियमा उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णत्थि, सम्मत्तं गियमा अत्थि । केइं संजमासंजम-	५००	
२३९	एकं हि चेव मणुसगदि- मागच्छंति ।	५००				
२४०	मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा तेसिमाभिणिबोहियणाणं सुद-	५००				

सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ	सूत्र संख्या	सूत्र	पृष्ठ
मुष्पाएति । संजमं णियमा			मुष्पाएति । सञ्चे ते णियमा		
उष्पाएति । केइं बलदेवत्त-			अंतयडा होदूण सिज्झंति		
मुष्पाएति, णो वासुदेवत्त-			वुज्झंति मुच्चंति परिणिच्चाण-		
मुष्पाएति । केइं चक्कवट्ठित्त-			यंति सच्चदुक्खाणमंतं परि-		
मुष्पाएति, केइं तित्थयरत्त-			विजाणंति ।		५००

## २ अवतरण-गाथा-सूची

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहा	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहा
२	असरीरा जीवघणा	१०		७	जस्सोदएण जीवो	३६	
२	इच्छिदणिसेयभत्तो	१७३		४	जारिसओ परि-	१२	
१८	उदए संकम-उदए	२९५ गो. क.	४४०	३	जीवपरिणामहेऊ	१२ समय.	८६
२७	उदओ च अणंत-	३६२ ज. घ.	१०९३			कर्मप्र. पृ.	१३८
४	उवसामगो य सव्धो	२३९	९५८	३	जीवस्तथा निर्वृति-	४९७ सौ.	१६, २९
		लब्धि.	९९	१०	णलया वाहू य	५४ गो. क.	२८
१	एको मे सस्सदो	९ भावपा.	५९	१	दर्शनेन जिनेद्राणां	४२८	
		मूला	२, ४८	२	दीपो यथा निर्वृति-	४९७ सौ	१६, २८
२३	एककं च ठिदि-	३४७ ज. घ.	१०९८	१७	दंसणमोहक्खवणा-	२४५ ज. घ.	९६३
		लब्धि	४०४	२	दंसणमोहस्सुव-	२३९	९५७
२२	ओकहुदि जे अंसे	॥ ज. घ.	१०९७	६	नयोपनयैकान्तानां	२८ आ. मी.	१०७
		लब्धि.	४०३	१	प्रक्षेपकसंक्षेपेण	१५८	
२०	ओवट्टणा जहण्णा	३४६ ज. घ.	१०९६	८	प्रतिपेधयति समस्तं	४४	
		लब्धि.	४०१	३१	वारस णव छत्तिणिण	३८१ ज. घ.	११३१
१३	कस्माणि जस्स	२४२ ज. घ.	९६१	१९	वारस य वेदणिज्जे	३४३	
३२	किट्टी करेदि	३८२	११३२	२५	बंधेण होदि उदओ	३५९ ज. घ.	१०९२
३४	किट्टी च ट्ठिदि-	३८३	११३४			लब्धि.	४४१
	१ खयउवसमिय-	१३९, २०५ गो. जी.	६५०	२८	बंधेण होदि उदओ	३६२ ज. घ.	१०९३
		लब्धि.	३	३०	बंधोदएहि णियमा	३६३	१०९४
		भ आ	२०७६	९	भावस्तत्परिणामो	४६	
३३	गुणसेडि अणंत-	३८२ ज. घ.	११३३	८	मिच्छत्तपच्चओ	२४० ज. घ.	९५९
२९	गुणसेडि अणंत-	३६३	१०९३	६	मिच्छत्तवेदणीयं	॥	॥
२६	गुणसेडि असंखेज्जा	३६०	१०९४				
		लब्धि.	४४२				

क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहा	क्रम संख्या	गाथा	पृष्ठ	अन्यत्र कहा
१५	मिच्छाइष्टी णियमा	२४२	,, ९६२ गो. जी १८	७	सव्वम्हि ढुदि-	२४० ज. घ.	९५९
११	रसाद्रक्तं ततो मांसं	६३		३५	सव्वाओ किट्टीओ	३८३ ,,	११३५
१२	सम्मत्तपढमलंभ-	२४२ ज. घ.	९६१	५	सायारे पट्टवओ	२३९ ,,	९५८
११	सम्मत्तपढमलंभो	२४१ ,,	९६०			लब्धि.	१०१
१४	सम्माइष्टी सदहदि	२४२ ,,	९६१	२१	संकामेदुक्कडुदि	३४६ ज. घ.	१०९६
		गो. जी.	२७			लब्धि.	४०१
१६	सम्मामिच्छाइष्टी	२४१ ज. घ	९६०	२४	संछुहइ पुरिसवेदे	३५९ ज. घ.	१०९०
१४	सम्मामिच्छाइष्टी	२४३ ,,	९६२			लब्धि.	४३८
३	सव्वणिरयभवणेसु	२३९ ,,	९५७	५	हेतावेवम्प्रकारादौ	१४ घनं. ना.	
						मा.	३९

### ३ न्यायोक्तियां

क्रम संख्या	न्याय	पृष्ठ	क्रम संख्या	न्याय	पृष्ठ
१	अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वस्तुनिर्णयः इति न्यायात् ।	९५	३	जहासंभवं विसेसणविसेसिय-भावो त्ति णायादो ।	२४४
२	जहा उहेसो तथा णिहेसो त्ति णायादो ।	४, ५	४	लक्खणविणासे लक्खविणा-सस्स णाइयत्तादो ।	५८

### ४ ग्रन्थोल्लेख

#### १ जीवट्ठाणं

१. भूदवलिभयवंतस्सुवपसेण उवसमसेडीदो ओदिण्णो ण सासणत्तं पडिवज्जदि । ३३१

२ जीवट्ठाणाभिप्पाएण पुण संखेज्जवस्साउपसु ण संभवदि, उपसम-सेडीदो ओदिण्णस्स सासणगुणगमणाभावा । ४४४

#### २ दव्वाणिओगहार

१. होदु चे ण, एइंदियसासणदव्वस्स दव्वाणिओगहारे पमाणपरूवणा-भावा । ४७१

## ३ पाहुडचुणिसुत्त

१. एदं वक्ख्वाणं पाहुडचुणिसुत्तेण अपुच्चकरणपढमसमयट्ठिदिवंधस्स सागरोवमकोडीलक्खपुथत्तपमाणं पस्वयंतेण विरुज्जदे त्ति णासंक्रणज्जं, तस्स तंतंतरत्तादो । १७७

२ किंतु मज्झदीवयं कादूण सिस्सपडिवोहणट्ठं एसो दंसणमोहणीय उवसामथो त्ति जइवसहेण भणिदं । २३३

३ मिच्छत्तणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो, तत्तो सम्मत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो त्ति पाहुडसुत्ते णिदिट्ठादो । २३५

४. एदिस्से उवसमसम्मत्तद्वाए अत्तमंतरादो असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमा-संजमं पि गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज । आसाणं पुण गदो जदि मरदि, ण सक्को णिरयगदिं तिरिक्खगदिं मणुसगदिं वा गंतुं, णियमा देवगदिं गच्छदि । एसो पाहुडचुणिसुत्ताभिप्पाथो । ३३१

५. एवं सासणसम्मागुणेण मणुस्सेसु पविसिय सासणगुणेण णिग्गमो वत्तव्वो, अण्णहा पल्लिवोवमस्स असंखेज्जदिभागेण कालेण विणा सासणगुणा-णुप्पत्तीदो । एदं पाहुडसुत्ताभिप्पाएण भणिदं । ४४४

## ४ तत्वार्थसूत्र

१. णइसग्गियमवि पढमसम्मत्तं तच्चट्ठे उत्तं, तं हि एत्येव द्दुव्वं । ४३०

## ५ पारिभाषिक-शब्दसूची

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अक्षरवृद्धि	२२	अतिप्रसंग	९०
अक्षरश्रुत	"	अतिस्थापना	२२५, २२६, २२८
अक्षरसमाप्त	२३	अतिस्थापनावली	२५०, ३०९
अक्षिप्र-अवग्रह	२०	अत्यन्ताभाव	४२६
अगुरुगलघु	५८	अधःप्रवृत्तकरण	२१७, २२२, २४८, २५२
अचक्षुदर्शन	३३	अधःप्रवृत्तकरणविशुद्धि	२१४
अचक्षुदर्शनावरणीय	३१, ३३	अधःप्रवृत्तसंक्रम	१२९, १३०, २८९

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अधःस्थितिगलन	१७०	अनुमान	१५१
अधुव-अवग्रह	२१	अनेकान्त	११५
अननुगामी	४९९	अन्तकृत्	४८९, ४९२, ४९५, ४२६
अनन्तगुणवृद्धि	२२, १९९	अन्तर	२३१, २३२, २९०
अनन्तभागवृद्धि	" "	अन्तरकरण	२३१, ३००
अनन्तरोपनिधा	३७०, ३७१, ३८६, ३९८	अन्तरकृष्टि	३९०, ३९१
अनन्तानुबन्ध	४२	अन्तरकृतप्रथमसमय	३२५, ३५८
अनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया	२३५	अन्तरघात	२३४
अनन्तानुबन्धिविसंयोजना	२८९	अन्तरद्विचरमफालि	२९१
अनन्तानुबन्धी	४१	अन्तरद्विसमयकृत	३३५, ४१०
अनवस्था	३४, ५७, ६४, १४४, १६४, ३०३	अन्तरप्रथमसमयकृत	३०३, ३०४
अनाकारोपयोग	२०७	अन्तरस्थिति	२३२, २३४
अनादिमिथ्यादृष्टि	२३१	अन्तराय	१४
अनादेय	६५	अन्वयमुख	९५
अनिःसृत-अवग्रह	२०	अपकर्षण	१४८, १७१
अनियोग	२४	अपकर्षणभागहार	२२४, २२७
अनियोगसमास	"	अपर्याप्त	६२, ४१९
अनिवृत्तिकरण	२२१, २२२, २२९, २४८, २५२	अपवर्तनोद्धर्तनकरण	३६४
अनिवृत्तिकरणविशुद्धि	२१४	अपूर्वकरण	२२०, २२१, २४८, २५२
अनुकृष्टि	२१६	अपूर्वकरणविशुद्धि	२१४
अनुगामी	४९९	अपूर्वकृष्टि	३८५
अनुक्त-अवग्रह	२०	अपूर्वस्पर्द्धक	३६५, ४१५
अनुभागकाण्डक	२२२	अपूर्वस्पर्द्धकशलाका	३६८
अनुभागकाण्डकघात	२०६	अप्रतिपात-अप्रति-	
अनुभागकाण्डकोत्कीरणद्धा	२२८	पद्यमानस्थान	२७६, २७८
अनुभागघात	२३०, २३४	अप्रत्याख्यान	४३
अनुभागबन्ध	१९८, २००	अप्रत्याख्यानावरणीय	४४
अनुभागबन्धक	२१०	अप्रशस्तविहायोगति	७६
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान	२००	अप्रशस्तोपशामना	२५४
अनुभागवृद्धि	२१३	अप्रशस्तोपशामनाकरण	२९५, ३४९
अनुभागवेदक	"	अवद्धायुष्क	२०८
अनुभागसत्कर्मिक	२०९	अभिनिबोध	१५
अनुभागस्पर्द्धक	२२८	अमूर्तत्व	४९०
		अरति	४७
		अर्थपरिणाम	४९०
		अर्थापत्ति	९६, ९७
		अर्थावग्रह	१६

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
अर्धनाराचशरीरसंहनन	७४	आनुपूर्वीसंक्रम	३०२, ३०७
अर्धपुद्गलपरिवर्तन	३	आवाधा	१४६, १४७, १४८
अवग्रह	१६, १८	आवाधाकाण्डक	१४८, १४९
अवधिज्ञान	२५, ४८४, ४८६, ४८८	आभिनिवोधिकज्ञान	१६, ४८४, ४८६, ४८८
अवधिज्ञानावरणीय	२६	आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय	१५, २१
अवधिदर्शन	३३	आम्लनामकर्म	७५
अवधिदर्शनावरणीय	३१, ३३	आयु	१२
अवस्थितगुणश्रेणी	२७३	आवली	२३३, ३०८
अवस्थितगुणश्रेणीनिक्षेप	"	आचारक	९
अवस्थितप्रक्षेप	२००	आवृतकरणउपशामक	३०३
अवस्थितवेदक	३१७	आवृतकरणसंक्रामक	३५८
अवहारकाल	३६९	आत्रियमाण	८
अवाय	१७, १८	आहारशरीर	६९
अविभागप्रतिच्छेदाग्र	३६६	आहारशरीरअंगोपांग	७३
अव्यवस्थापत्ति	१०९	आहारशरीरवन्धन	७०
अशुभनामकर्म	६४	आहारशरीरसंघात	"
अश्वकर्णकरण	३६४		
अश्वकर्णकरणद्धा	३७४		
असातावेदनीय	३५		
असंक्षेपाद्धा	१६७, १७०	ईहा	१७
असंख्येयगुणवृद्धि	२२, १९९		
असंख्येयभागवृद्धि	" "		
असंप्राप्तसुपाटिकाशरीरसंहनन	७४	उक्त-अवग्रह	२०
असंयतसम्यग्दृष्टि	४६४, ४६७	उच्चगोत्र	७७
अस्थिर	६३	उच्छ्वास	६०
अहमिन्द्रत्व	४३६	उत्कर्षण	१६८, १७१
अहोरात्र	६३	उत्कृष्ट निक्षेप	२२६
		उत्तरप्रकृति	६
आ		उत्पन्नलय	४८४, ४८६, ४८७, ४८८
आगम	१५१	उत्पादस्थान	२६३
आगाल	२३३, ३०८	उदय	२०१, २०२, २१३
आप्तप	६०	उदयादिअवस्थितगुणश्रेणी	२५९
आर्द्रिचर्गणा	३६६	उदयादिगुणश्रेणी	३१८, ३२०
आदेय	६५	उदयावली	२२५, ३०८
आदोलकरण	३६४	उदयावलिप्रविशमानअनुभाग	२५९
आनुपूर्वी	५६		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
उदयावलिवाहिर	२३३	कर्कशनामकर्म	७५
उदयावलिवाहिरसर्वह्रस्वस्थिति	२५९	कर्मत्व	१२
उदयावलिवाहिरअनुभाग	,,	कर्मभूमि	२४५
उदीरणा	२०१, २०२, २१४, ३०२	कला	६३
उद्योत	६०	कपाय	४०
उद्धर्तितसमान	४४६, ४५१, ४५२, ४८४, ४८५	कषायनामकर्म	७५
उपघात	५९	काण्डकघात	२३५
उपरिमनिक्षेप	२२६	कार्मणशरीर	६९
उपरिमस्थिति	२२५, २३२	कार्मणशरीरवन्धन	७०
उपशमश्रेणी	२०६, ३०५	कार्मणशरीरसंघात	,,
उपशामक	२३३	कालगतसमान	४५४, ४५५
उष्णनामकर्म	७५	काललब्धि	२०५
		काष्ठा	६३
		कीलकशरीरसंहनन	७४
		कुब्जकशरीरसंस्थान	७१
ऋ		कृतकरणीयवेदक-	
ऋजुमति	२८	सम्यग्दृष्टि	४३८, ४४१
		कृतकृत्य	२४७, २६२
ए		कृतकृत्यकाल	२६३, २६४
एकविध-अवग्रह	२०	कृष्टि	३१३
एकान्तवृद्धावृद्धि	२७४, २७५	कृष्टि-अन्तर	३७६
एकान्तानुवृद्धि	२७३, २७४	कृष्टिकरणद्धा	३७४, ३८२
एकावग्रह	१९	कृष्टिवेदकाद्धा	३७४, ३८४
एकेन्द्रियजाति	६७	कृष्ण	२४७
		कृष्णवर्णनामकर्म	७४
औ		केवलज्ञान	२९, ३४, ४८९, ४९२
औदारिकशरीर	६९	केवलदर्शन	३३, ३४
औदारिकशरीरअंगोपांग	७३	केवलिसमुद्घात	४१२
औदारिकशरीरवन्धन	७०	केवली	२४६
औदारिकशरीरसंघात	,,	केशवत्व	४८९, ४९२, ४९५, ४९६
		क्रोध	४१
क		क्षपितकर्मांशिक	२५७
कडुकनामकर्म	७५	क्षयोपशमलब्धि	२०४
कदलीघात	१७०	क्षायिकसम्यग्दृष्टि	४३८, ४४१
कपाटसमुद्घात	४१३	क्षिप्र-अवग्रह	२०
कपिल	४९०		



शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
गति	५०	चरमवर्गणा	२०१
गति-आगति	३	चारित्र	४०
गर्भोपक्रान्तिक	४२८	चारित्रमोहनीय	३७, ४०
गलितशेषगुणश्रेणी	२४९, २५३, ३४५	ज	
गुणप्रत्यय-अवधि	२९	जघन्यकृष्टि-अन्तर	३७६
गुणश्रेणी	२२२, २२४, २२७	जघन्यवर्गणा	२०१
गुणश्रेणीनिक्षेप	२२८, २३२	जघन्यस्थिति	१८०
गुणश्रेणीनिक्षेपाभ्रात्र	२३२	जघन्यस्पर्द्धक	३१३
गुणश्रेणीशीर्ष	"	जाति	५१
गुणसंक्रम	२२२, २३६, २४९	जातिस्मरण	४३३
गुणहानि	१५१, १६३, १६५	जिन	२४६
गुणितकर्मांशिक	२५६, २५८	जीवविपाकित्व	३६
गुणित-क्षपित-घोटमान	२५७	जीवविपाकी	११४
गुरुकनामकर्म	७५	जीवसमास	२
गोत्र	१३	जुगुप्सा	४८
गोपुच्छद्रव्य	२६०	ज्ञानावरणीय	६, ९
गोपुच्छविशेष	१५३	त	
गंध	५५	तद्व्यतिरिक्तस्थान	२८३
घ		तार्किक	४९०, ४९१
घोटमान	२५७	तालप्रलम्बसूत्र	२३०
च		तिक्तनामकर्म	७५
चक्रवर्तित्व	४८९, ४९२, ४९५, ४९६	तिर्यग्गति	६७
चक्षुदर्शन	३३	तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी	७६
चक्षुदर्शनावरणीय	३१, ३३	तिर्यगायु	४९
चतुःस्थानिकअनुभागबन्धक	२१०	तीर्थकरत्व	४८९, ४९२, ४९५, ४९६
चतुःस्थानिकअनुभागवेदक	२१३	तीर्थकर	२४६
चतुःस्थानिकअनुभागसत्कर्मिक	२०९	तीर्थकरनामकर्म	६७
चतुरिन्द्रियजाति	६८	तीसिय	१८६
चरमफालि	२९१	तृतीयसंग्रहकृष्टि-अन्तर	३७७
		तैजसशरीर	६९
		तैजसशरीरबन्धन	७०
		तैजसशरीरसंघात	"
		त्रस	६१
		त्रिकरण	२०४
		त्रीन्द्रियजाति	६८

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
		द्वयर्द्धगुणहानि	१५२
		ध	
दण्डसमुद्घात	४१२	धारणा	१८
दर्शन	९, ३२, ३३, ३८	ध्रुव-अवग्रह	२१
दर्शनमोहक्षपणानिष्ठापक	२४५	ध्रुववन्धी	८९, ११८
दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापक	२४५	ध्रुवोदय	१०३
दर्शनमोहनीय	३७, ३८		
दर्शनावरणीय	१०	न	
दानान्तराय	७८	नपुंसक	४६
दिवसपृथक्त्व	४२६	नपुंसकवेद	४७
दुःख	३५	नरकगति	६७
दुरभिगन्ध	७५	नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी	७६
दुर्भग	६५	नानागुणहानिशलाका	१५१, १५२, १६३,
दुस्वर	"		१६५
दूरापकृष्टि	२५१, २५५	नानात्व	३३२, ४०७
दृश्यमान द्रव्य	२६०	नाम	१३
देवगति	६७	नारकायु	४८
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी	७६	नाराचशरीरसंहनन	७४
देवर्द्धिदर्शन	४३४	निःसृत-अवग्रह	२०
देवर्द्धिदर्शननिवन्धन	४३३	निकाचनाकरण	२९५, ३४९
देवायु	४९	निकाचित	४२८
देशघाती	२९९	निक्षेप	२२५, २२७, २२८
देशजिन	२४६	निदान	५०१
देशना	२०४	निद्रा	३१, ३२
देशावधि	२५	निद्रानिद्रा	३१
देशोपशम	२४१	निधत्त	४२७
दोषगुणहानि	१५३	निधत्तिकरण	२९५, ३४९
द्रव्यसंयम	४६५, ४७३	निर्वर्गणा	३८५
द्वितीयस्थिति	२३२, २५३	निर्वर्गणाकाण्डक	२१५, २१६, २१८
द्वितीयसंग्रहकृष्टि-अन्तर	३७७	निर्वृति	४९७
द्विस्थानिकअनुभागवन्धक	२१०	निषेक	१४६, १४७, १५०
द्विस्थानिकअनुभागवेदक	२१३	निषेकभागहार	१५३
द्विस्थानिकअनुभागसत्कर्मिक	२०९	निषेकस्थिति	१६६, १६७
द्वीन्द्रियजाति	६८	नीचगोत्र	७७

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
नीलवर्ण	७४	प्रक्षेपोत्तरक्रम	१८२
नैयायिक	४२०	प्रचला	३१, ३२
नैसर्गिक प्रथमसम्यक्त्व	४३०	प्रचलाप्रचला	३१
नोकपाय	४०, ४१	प्रतिपत्ति	२४
नोकषायवेदनीय	४५	प्रतिपत्तिसमास	॥
न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान	७१	प्रतिपद्यमानस्थान	२७६, २७८
		प्रतिपातस्थान	२८३
		प्रतिपाती अवधि	५०१
		प्रत्यक्ष	२६
पद	२३	प्रत्याख्यान	४३, ४४
पदनिक्षेप	१५२	प्रत्याख्यानावरणीय	४४
पदसमास	२३	प्रत्यागाल	२३३, ३०८
परघात	५९	प्रत्याचली	२३३, २३४, ३०८
परप्रकृतिसंक्रमण	१७१	प्रत्येकशरीर	६२
परभाविक नामकर्म	२९३, ३३०, ३४७	प्रथमनिपेक	१७३
परमावधि	२५	प्रथमसमयउपशमसम्यग्दृष्टि	२३५
परिणामप्रत्यय	३१७	प्रथमसम्यक्त्व	३, २०४, २०६, २२३, ४१८
परिभोग	७८	प्रथमसंग्रहकृष्टि-अन्तर	२७७
परिभोगान्तराय	॥	प्रथमस्थिति	२३२, २३३, ३०८
परोक्ष	२६	प्रदेशघात	२३०, २३४
परंपरोपनिधा	३७८	प्रदेशवन्ध	१९८, २००
पर्याप्त	६२, ४१९	प्रदेशसंक्रम	२५६, २५८
पर्याय	२२	प्रदेशाग्र	२२४, २२५
पर्यायसमास	॥	प्रशस्तविहायोगति	७६
पिंडप्रकृति	४९	प्राभृत	२५
पुद्गलविपाकित्व	३६	प्राभृतसमास	॥
पुद्गलविपाकी	११४	प्राभृतप्राभृत	२४
पुरुष	४६	प्राभृतप्राभृतसमास	॥
पुरुषवेद	४७	प्रायोग्यलब्धि	२०४
पूर्व	२५		
पूर्वसमास	॥		
पंचेन्द्रियजाति	६८	वद्भ्रायुष्क	२०८
प्रकृतिवन्ध	१९८, २००	वहु-अवग्रह	१९
प्रक्षेप	१५२	वलदेवत्व	४८९, ४९२, ४९५, ४९६

व

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
बहुविध-भवग्रह	२०	य	
वादर	६१	योगस्थान	२०१
वौद्ध	४९७	र	
बंध	८३, ८५, ४९०	रति	४७
बंधावली	१६८, २०२	रस	५५
भ		रुक्ष नामकर्म	७५
भय	४७	रुधिर नामकर्म	७४
भवप्रत्ययअवधि	२९	ल	
भावसंयम	४६५	लघुक नामकर्म	७५
भुजाकारबन्ध	१८१	लाभान्तराय	७८
भुज्यमानायु	१९३	लोकपूरणसमुद्धात	४१३
भूतपूर्व नय	१२९	लोकविन्दुसार	२५
भोग	७८	लोभ	४१
भोगभूमि	२४५	व	
भोगान्तराय	७८	वज्रऋषभवज्रनाराचशरीरसंहनन	७३
म		वज्रनाराचशरीरसंहनन	"
मनःपर्ययज्ञान	२८, ४८८, ४९२, ४९५	वर्गणा	२०१, ३७०
मनःपययर्ज्ञानावरणीय	२९	वर्ण	५५
मधुर नामकर्म	७५	वर्द्धनकुमार	२४७
मनुष्यगति	६७	वस्तु	२५
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी	७६	वस्तुसमास	"
मनुष्यायु	४९	वामनशरीरसंस्थान	७२
मान	४१	वासुदेवत्व	४८९, ४९२, ४९५, ४९६
माया	"	विधिनय	९१
मिथ्यात्व	३९	विध्यातसंक्रम	२३६, २८९
मिथ्यादृष्टि	४४६, ४५२, ४५४	विपुलमति	२८
मीमांसक	४९०	विशुद्धि	१८०, २०४
मूलप्रकृति	५	विशुद्धिलब्धि	"
मृदुक नामकर्म	७५	विहायोगति	६१
मोक्ष	४९०	वीचारस्थान	१८५, १८७, १९७
मोहनीय	११		
मंथसमुद्धात	४१३		

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
वीचारस्थानत्व	१५०	स	
वीर्यान्तराय	७८		
वेदनीय	१०	सत्व	२०१
वैक्रियिकशरीर	६९	सप्तविधपरिवर्तन	३
वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग	७३	समचतुरस्रसंस्थान	७१
वैक्रियिकशरीरवन्धन	७०	समयप्रयत्न	१४६, १४८, २५६
वैक्रियिकशरीरसंघात	"	समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यान	४१७
वैशेषिक	४९०	सम्मूर्च्छिम	४२८
व्यतिरेक नय	९२	सम्यक्त्व	३९, ४८४, ४८६, ४८८
व्यतिरेकपर्यायार्थिक नय	९१	सम्यग्दृष्टि	४५१
व्यतिरेकमुख	९५	सम्यग्मिथ्यात्व	३९, ४८५, ४८६
व्यभिचार	४६३, ४६५	सम्यग्मिथ्यादृष्टि	४५०, ४६३, ४६७
व्यंजनपरिणाम	४९०	सर्वाविशुद्ध	२१४
व्यंजनाग्रह	१६	सर्वविशुद्धमिथ्यादृष्टि	२६७
		सर्वसंक्रम	१३०, २४९
श		सर्वह्रस्वस्थिति	२५९
शरीर नामकर्म	५२	सर्वावधि	२५
शरीरवन्धन	५३	सर्वोपशम	२४१
शरीरसंघात	"	साकारोपयुक्त	२०७
शरीरसंस्थान	"	साधारणशरीर	६३
शरीरांगोपांग	५४	सासनगुण	४८५
शलाका	१५२	सासादनसम्यक्त्व	४८७
शीत	७५	सासादनसम्यग्दृष्टि	४४६, ४५८, ४५९
शुक्ल	७४	सुख	४६६, ४७१
शुभ	६४	सुभग	३५
शैलेश्य	४१७	सुरभिगन्ध	६५
शोक	४७	सुस्वर	७५
श्रुतज्ञान	१८, ४८४, ४८६	सूक्ष्म	६५
श्रुतज्ञानावरणीय	२१, २५	सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान	६२
		सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टि	४१६
प		संक्रमण	३९६
पदस्थान	२००	संक्लेश	१६८
पद्भृदि	२२, १९९	संख्येयगुणवृद्धि	१८०
			२२, १९९

शब्द	पृष्ठ -	शब्द -	पृष्ठ
संख्येयभागवृद्धि	२२, १९९	स्थितिकाण्डकघात	२०६
संग्रहकृष्टि	३७५	स्थितिकाण्डकचरमफालि	२२८, २२९
संग्रहनय	९९, १०१, १०४	स्थितिघात	२३०, २३४
संघात	२३	स्थितिवन्ध	१९९, २००
संघातसमास	"	स्थितिवन्धस्थान	१९९
संज्वलन	४४	स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान	"
संयम	४८८, ४९२, ४९५	स्थितिवन्धापसरण	२३०, २३४
संयमासंयम	४८५, ४८६, ४८८	स्थितिसंक्रम	२५६, २५८
संहनन	५४	स्थिर	६३
सांख्य	४९०	स्निग्ध नामकर्म	७५
स्तिबुकसंक्रमण	३११, ३१२, ३१६	स्पर्श	५५
स्त्यानगृद्धि	३१, ३२	स्वातिशरीरसंस्थान	७१
स्त्री	४६	स्वास्थ्य	४९१
स्त्रीविद्	४७		
स्थावर	६१	हायमान अवधि	५०१
स्थिति	१४६	हारिद्रवर्ण नामकर्म	७४
स्थितिकाण्डक	२२२, २२४	हास्य	४७
		हुण्डकशरीरसंस्थान	७२

—

## विशेष टिप्पण



पृ. १ पर प्रथम ही धवलाकारकी मंगलाचरणात्मक गाथाके अन्तिम चरणमें 'अमल्लिणगुण-चूलियं' पाठकी अपेक्षासे 'निर्मल गुणवाली चूलिका' ऐसा अर्थ किया गया है । किन्तु 'मल्लिणगुणचूलियं' ही पाठ लेकर भी यह अर्थ किया जा सकता है कि यहा उस "चूलिकाको कहता हूं जिसमें जीवके मलिन गुणों अर्थात् कर्मोंका विवरण दिया गया है ।"

पृ. ३ पंक्ति ३ में जीवके 'सत्तविहपरियट्टेसु' अर्थात् सात प्रकारके परिवर्तनोंका उल्लेख है । आगे पृ. १४ की पंक्ति ८ में पुनः 'सत्तसु संसारेसु' अर्थात् सात प्रकारके संसारका उल्लेख है । ये सातविध परिवर्तन कौनसे हैं ? तत्त्वार्थसूत्र ( २, १० ) की सर्वार्थसिद्धि टीकामें पंचविध परिवर्तन बतलाये गये हैं— द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव । पर सात परिवर्तनोंका कोई उल्लेख हमारे ध्यानमें नहीं आता । सर्वार्थसिद्धिकारने द्रव्यपरिवर्तनके दो प्रकार अलग अलग बतलाये हैं— एक नोर्कर्मद्रव्यपरिवर्तन और दूसरा कर्मद्रव्यपरिवर्तन । यदि इन्हों भेदोंकी अलग अलग विवक्षा ली जाय तो परिवर्तन छह हुए । पर राजवार्तिककारने उक्त पांच परिवर्तनोंका उल्लेख कर बंधके दो भेद किये हैं, एक द्रव्यबंध और दूसरा भावबंध । और फिर द्रव्यबंधके कर्मद्रव्यबंध और नोर्कर्मद्रव्यबंध ऐसे दो भेद सूचित किये हैं । इस प्रकार कर्मद्रव्यबंध, नोर्कर्मद्रव्यबंध भावबंध, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये सात परिवर्तन हो सकते हैं । भावबंधपरिवर्तन और भावपरिवर्तनमें भेद यह होगा कि पहला बंधसे और दूसरा उसके उदय या वेदनसे सम्बन्ध रखता है । ये ही सात परिवर्तन धवलाकारकी दृष्टिमें हैं या अन्य कोई यह निश्चयतः कहा नहीं जा सकता ।

पृ. ५ पंक्ति ८-९ में 'अवयविणि' यह रूप प्राकृतमें असाधारण है । प्राकृतका सामान्य नियम तो यह है कि संस्कृतके हलन्त शब्दोंके अन्त हलका लोप करके शेष अजन्त रूपमें ही विभक्ति जोड़ी जाती है जिसके अनुसार संस्कृत 'अवयविन्' का प्राकृतमें सप्तमी विभक्ति सहित रूप 'अवयविम्मि' या 'अवयविम्हि' होना चाहिये । पर यहा अन्त न् का लोप न कर संस्कृतके अनुसार 'अवयविणि' रूप बनाया गया है । ऐसे उदाहरण प्रायः नहीं मिलते ।

पृ. २० पं. ५ में निःसृतावग्रह और अनिःसृतावग्रहका जो एक दूसरा स्वरूप धवलाकारने बतलाया है वह जीवकांड गाथा ३१२-३१३ में बतलाये हुए स्वरूपसे ठीक विपरीत है । अर्थात् जिसे धवलाकारने निःसृतावग्रहका स्वरूप कहा है, उसे जीवकांडकार अनिःसृतावग्रहका लक्षण मानते हैं और उससे विपरीत तदनुसार ही विपरीत । यह भेद ध्यान देने योग्य है ।

पृ. ७२ पं. ४ में हुंडसंस्थानके ३१ भेदोंका संकेत किया गया है । हमने विशेषार्थमें समझाया है कि ये इकतीस भेद किस प्रकार हो सकते हैं । पर अन्यत्र कहीं ऐसे भेदोंका उल्लेख हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ ।

पृ. ८१. यहां सूत्र ५ में जो 'एकम्हि चैव द्वां' पद आये है उनमें एकम्हि रूप सप्तम्यन्त पदकी टीकाकारने इस प्रकार उपपत्ति बैठाइ है कि 'एकम्हि' से 'एक ही अवस्थाविशेषमें' ऐसा अर्थ लेना चाहिये । यही उपपत्ति उन्होने सूत्र ९ में ग्रहण की है जहां उन्होने एकम्हि का अर्थ 'भावे' ग्रहण किया है । किन्तु आगे सूत्र १५ में उन्होने एकम्हि को सप्तम्यर्थक न मानकर प्रथमाके अर्थमें ग्रहण किया है और उसे 'द्वाणं' का विशेषण माना है, तथा उसके लिये प्रमाण भी यह दिया है कि "प्राकृतमें प्रथमाके अर्थमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति की प्रवृत्ति संभव है ।" यहांसे आगे सूत्र १८ में उन्होने उसे इसी अर्थमें ग्रहण किया है । पर सूत्र २१ में एक और वेदगी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि यहां 'एदासिं वावीसाए पयडीणं एकम्हि चैव द्वाणं' ऐसा विलक्षण प्रयोग आया है । यहां उन्होने एकम्हि को 'वावीसाए' का विशेषण बनाया है जिसके लिये उन्हें आधार और आधेयमें एकत्वकी कल्पना करनी पड़ी है । फिर आगे सूत्र २४ में 'एकम्हि' को 'एकवीसाए' का विशेषण लेने या उसके द्वारा 'इक्कीसप्रकृतिबन्धके योग्य परिणाममें' ऐसा अर्थ लेने का विकल्प दिया गया है । आगे सूत्र २७, ३०, ३३, ३६, ३९, ४२ आदिमें भी चूलिका भरमें 'एकम्हि' आया है पर वहां उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, बल्कि प्रसंग टाल दिया गया है ।

गत्यागति चूलिकामे १३२, १३५ आदि सूत्रोंमें यह प्रयोग फिर दिखाई देता है । सूत्र १३५ की टीकामें धवलाकारने यहां इसका दो प्रकारसे समाधान किया है कि या तो 'देवगदिं' को अव्यय रूपसे छहों कारकोंके योग्य मानकर 'एकम्हि' का उसके साथ समानाधिकरणत्व बैठालो, या फिर 'एकं' और 'हि' को अलग अलग पद मानकर 'एकं' को द्वितीयावाची 'देवगदिं' के साथ लो ।

विचार करनेसे ज्ञात होता है कि धवलाकारका अन्तिम समाधान ही सबसे अधिक उपयुक्त है और वह सर्वत्र ठीक घटित हो सकता है । स्थानसमुत्कीर्तन चूलिकामे 'एकं' 'द्वाणं' का विशेषण बन जाता है और गत्यागति चूलिकामे वह 'गदिं' का विशेषण लिया जा सकता है । इसके समर्थनमें गत्यागति चूलिकाके सूत्र ९४ व ११६ पेश किये जा सकते हैं जहां 'हि' का प्रयोग नहीं हुआ और 'एकं तिरिक्खगदिं' 'एकं चैव तिरिक्खगदिं' ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं । प्रतियोगमें हमें कहीं 'एकंहि' और कहीं 'एकम्हि' लिखा दिखाई दिया, इससे भी यही अनुमान होता है कि 'हि' पद अलग ही रहा है, किन्तु उसकी पूर्व पदसे सन्धि हो जानेके कारण टीकाकारको उसमें भ्रम हो गया, जिससे उन्हें बहुत खींचातानी कर अर्थसंगति बैठानी पड़ी है ।



पृ. २१८ पर अधःप्रवृत्तकरणके परिणामोकी नीत्रमंदताका जो अल्पग्रहत्व वतलाया गया है वह लब्धिसार टीका तथा कर्मप्रकृतिमें वतलाये गये क्रमसे कुछ भिन्न है। लब्धिसार टीका व कर्मप्रकृतिमें द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डके प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धिको प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी कहा है, जबकि धवलाकार स्पष्टनः उसे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी नहीं, किन्तु प्रथम निर्वर्गणाकाण्डके अन्तिम समयकी जघन्य विशुद्धिसे अनन्तगुणी वतला रहे हैं। विचार करनेसे धवलाकारका मत ही ठीक ज्ञात होता है, क्योंकि उसीके अनुसार ऊपरके भाव नीचेके भावसे समान हो सकते हैं। दूसरे मतके अनुसार ऐसा नहीं हो सकेगा।

पृ. २२६ पर लिखा गया विशेषार्थ अशुद्ध है। उसके स्थानपर निम्न विशेषार्थ पढ़िये—  
**विशेषार्थ**—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर स्थितिकाण्डघात प्रारम्भ होता है। जिन प्रकृतियोंका उदय हो रहा है उनकी तो उदयावलीसे ऊपरकी स्थितियोंसे प्रदेशाग्र लेकर उदयप्राप्त स्थितिमें सबसे अधिक दिया जाता है, और उससे ऊपरके समयमें उदयावलीके अन्त तक उत्तरोत्तर विशेष हीन दिया जाता है। एक बारमे खंडित किये जानेवाले प्रदेशाग्रका प्रमाण अपकर्षण भागहार अर्थात् पल्योपमके असंख्यातवें भागसे भाजित एक खडका भी असंख्यातलोक-भाजित एक भाग है। और उदयावलीमें जो उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता है उस विशेषका प्रमाण दो गुणहानिका प्रतिभागी है।

इस प्रकार उदयावलीमें तो केवल उदयप्राप्त प्रकृतियोंके स्थितिखंडोंका ही निक्षेप किया जा सकता है। किन्तु उससे ऊपर उदयप्राप्त व अनुदयप्राप्त दोनों प्रकारके प्रकृतियोंके स्थितिखंड निक्षिप्त किये जाते हैं। उदयावलीसे ऊपर गुणश्रेणी रहती है जिसमें असंख्यात समयप्रवद्धसे लेकर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाग्र दिये जाते हैं। गुणश्रेणीसे ऊपर एकदम पहली स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन और फिर उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता है, जब तक कि जहासे द्रव्य उत्कीर्ण किया गया है वह स्थिति आवलिमात्र दूर न रह जाय।

किन्तु उदयावलीसे ठीक ऊपर और गुणश्रेणीसे ठीक नीचे असंख्यात लोकोसे भाजित एक खडप्रमाण स्थितियोंमें जो निक्षेप होता है उसमें कुछ विशेषता है। और वह यह कि इस स्थितिके दो भाग किये जाते हैं। उदयावलीसे ठीक ऊपर आवलीके  $\frac{2}{3}$  भागसे एक समय हीन प्रमाण स्थितियां तो अतिस्थापना कहलाती हैं जिसमें खंडित द्रव्य दिया ही नहीं जाता। और उससे ऊपर आवलीके  $\frac{1}{3}$  भागसे एक समय अधिक प्रमाण स्थितिया निक्षेपके योग्य होती हैं जिनमें पूर्वोक्त विशेष हीन क्रमसे द्रव्य दिया जाता है। यहा एक और विशेषता यह है कि जब इससे ऊपरकी स्थितियोंमें प्रदेशाग्र दिया जाता है तब निक्षेपका प्रमाण तो वही रहता है,

पर अतिस्थापना उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ती जाती है जब तक कि वह आवलीप्रमाण न हो जाय । इसका अभिप्राय यह है कि यही अतिस्थापना आवलीप्रमाण हो जाने एव पूर्व उदयावलीके समाप्त हो जाने पर स्वयं उदयावली बन जाती है ।

पृ. २३६-२३७ पर अल्पबहुत्वमे सातवें स्थानपर जो स्थितिकाडकके उत्कीरणका काल बतलाया गया है उसके विषयमें विशेषार्थमें कहा ही गया है कि वह लब्धिसारमे नहीं पाया जाता । उसी प्रकार वह जयधवला ( अ. पत्र ९, ५६ ) पर भी नहीं पाया जाता ।

पृ. ३३५ से ३४२ तक जो ९७ पदोंका अल्पबहुत्व दिया गया है वह जयधवला ( अ. पत्र १०६१-१०६६ ) पर पाये जानेवाले चूर्णिसूत्रोसे ठीक मिलता है, पर लब्धिसार गाथा ३६५ से ३९१ तक पाये जानेवाले अल्पबहुत्वसे कुछ स्थलोपर भिन्न है । जैसे, १७ वें पदके आगे लब्धिसारमे श्रेणीसे उतरनेवालेके लोभकी प्रथमस्थितिका उल्लेख है, १९ वें पदके आगे उतरनेवालेका मानवेदककाल और नोकपायोका गुणश्रेणीआयाम ये दो पद अधिक हैं, एव ७४-७५ पद वहा नहीं हैं, तथा ८४ वें पदसे आगे मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध अविक है ।

पृ. ४१४ पर धवलाकारने जो केवलीके योगनिरोधका क्रम बतलाया है वह अन्यत्र पाये जानेवाले क्रमसे कुछ भिन्न है एव अपनी एक विशेषता रखता है । धवलाकार द्वारा दिये गये क्रममें आठ स्थल हैं और वे इस क्रमसे पाये जाते हैं— ( १ ) वादर कायसे वादर मनका निरोध, ( २ ) वादर कायसे वादर वचनका निरोध, ( ३ ) वादर कायसे वादर उच्छ्वासका निरोध, ( ४ ) वादर कायसे वादर कायका निरोध, ( ५ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निरोध, ( ६ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म वचनका निरोध, ( ७ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म उच्छ्वासका निरोध, ( ८ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म कायका निरोध । भगवती-आराधनाकी गाथा २११३-२११४ मे जो क्रम पाया जाता है उसमें उक्त क्रमसे तीन बातोंमें भेद पाया जाता है— एक तो वहा वादर मनसे पूर्व वादर वचनका निरोध होना पाया जाता है । दूसरे वादर कायका निरोध वादर कायसे न होकर सूक्ष्म कायसे होना कहा है । और तीसरे वहा वादर और सूक्ष्म उच्छ्वासका कोई उल्लेख नहीं है, जिससे वहा स्थल छह ही पाये जाते हैं । ज्ञानार्णव ( प्रकरण ४२ ) मे भी भगवती-आराधनाके अनुसार वादर मनसे पूर्व वादर वचनका निरोध कहा गया है । पर यहा स्थल पांच ही पाये जाते हैं जिनमे अन्तिम तीन स्थल इस प्रकार हैं— ( ३ ) सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मनसे वादर कायका निरोध, ( ४ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म वचनका निरोध, ( ५ ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निरोध । यहा सूक्ष्म कायके निरोधका कोई उल्लेख ही नहीं है । पंचसंग्रह ( १, पृ. ३०-३२ ) मे स्थल सात है, क्योंकि सूक्ष्म उच्छ्वासका निरोध यहां नहीं बतलाया । पर भगवती-आराधना व ज्ञानार्णवके समान वादर मनसे पूर्व वादर वचनका निरोध माना है, भगवती-आराधनाके समान सूक्ष्म कायसे

बादर कायका निरोध कहा है, और ज्ञानार्णवके समान सूक्ष्म मनसे पूर्व सूक्ष्म वचनके निरोधका कथन है। पर पचसंग्रह टीकामें एक और मतान्तरका उल्लेख है जिसके अनुसार बादर कायका निरोध बादर काय द्वारा ही होता है, जो धवलाके समान है।

पृ. ४१७ पर अयोगकेवलीके द्विचरम समयमें ७३ व चरम समयमें शेष १२ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कही गई है। किन्तु इस विषयमें मतभेद रहा है। प्रथम भाग, सत्प्ररूपणाके सूत्र न. २७ की टीकामें धवलाकारने द्विचरम समयमें ७२ व अन्तिम समयमें १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कहकर दूसरे मतका भी उल्लेख किया है। उस स्थलपर तथा प्रस्तुत स्थलपर टिप्पणियोंमें इस विषयपर भिन्न भिन्न मतवाले दिगम्बर व श्वेताम्बर आचार्योंके मतोंका उल्लेख किया जा चुका है। शिवार्यकृत भगवती-आराधनामें ७३ व १२ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति-वाला मत पाया जाता है, जैसा कि उस ग्रन्थकी निम्न गाथाओसे प्रकट है—

माणुसगदि तज्जार्दि पज्जत्तादिज्जसुभगजसकिंति । अण्णदरवेदणीयं तसवाडरमुच्चगोदं च ॥ २११७ ॥  
मणुसाउगं च वेदेदि अजोगी होदूण तक्काल । तित्थयरणामसहिदो जातो जो वेदि तित्थयरो ॥ २११८ ॥  
सो तेण पंचमत्ताकालेण खवेदि चरिमद्वाणेण । अणुदिण्णाओ दुचरिमसमए सन्वाउ पयडीओ ॥ २१२० ॥  
चरिमसमयम्मि तो सो खवेदि वेदिज्जमाणपयडीओ । वारस तित्थयरजिणो एक्कारस सेससच्चण्ह ॥ २१२१ ॥

किन्तु शुभचन्द्रकृत ज्ञानार्णवके ४२ वें प्रकरणमें ७२ व १३ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्त-वाला मत पाया जाता है। यथा—

द्वासप्ततिर्विलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् । उपान्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धका ॥ ५२ ॥  
विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिता ॥ ५४ ॥

पृ. ४४२ पर सूत्र ६४ और ६५ के बीच एक सूत्र छूटा हुआ प्रतीत होता है जो इस प्रकार होना चाहिये—

‘ केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ’

यद्यपि यह हमारी प्रतियोंमें पाया नहीं गया, पर पूर्वापर प्रसंगको देखते हुए कोई कारण नहीं है कि प्रकृत जीव सासादन गुणस्थान सहित आकर सासादन गुणस्थान सहित निर्गमन न कर सकें।

पृ. ४९०, पंक्ति ८ में ‘ तार्किकद्वय ’ से संभवतः नैयायिक और वैशेषिक, इन दोनोंसे अभिप्राय है।

